

DUE DATE SLIP

GOVT. COLLEGE, LIBRARY

KOTA (Raj.)

Students can retain library books only for two weeks at the most.

BORROWER'S No.	DUE DTATE	SIGNATURE

हिंदी कथा-कोष

प्राचीन हिंदी साहित्य में व्यवहृत नामों तथा पौराणिक
संज्ञकशब्दों का संक्षेप-ग्रंथ

हिंदी कथा-कोष



अंग-१. विदूर के एक प्रतापी सोमवंशी राजा जिनके अंग से ब्राह्मणों ने यज्ञ द्वारा राजा वेणु को उत्पन्न किया था। ये बड़े धार्मिक थे, किंतु इनका पुत्र आज्ञाकारी न था। दे० 'वेणु'। २. कृतयुग के एक प्रजापति, जिन्होंने एक बार इंद्र का वैभव देखकर उन्हीं के समान पुत्र की कामना से विष्णु की बड़ी उपासना की थी। इस उपासना से प्रसन्न होकर विष्णु ने इनको किसी कुलीन कन्या से विवाह करने की आज्ञा दे दी, किंतु इन्होंने एक यमकन्या सुनीथा से गांधर्व विवाह कर लिया जिससे बेन नाम का एक बड़ा अत्याचारी पुत्र उत्पन्न हुआ। उसके व्यवहार से दुखी होकर ये सर्वस्व त्याग कर वन में चले गये। इनके सुमनस, ख्याति, क्रतु, अंगिरस तथा गय नाम के पाँच भाई और थे। ३. अंग जनपद के राजा, जिनके पुत्र रोमपाद एक प्रसिद्ध वैष्णव भक्त थे।

अंगद-१. किष्किंधा के राजा बालि के वीर पुत्र। बालि का वध करके रामचंद्र ने इन्हें ही किष्किंधा का राज्य सौंप कर 'युवराज' की पदवी दी थी। राम की सेना में वीरता तथा अजेय साहस के लिए हनुमान् के बाद इन्हीं का स्थान था। राम का दूत बनकर राम-रावण युद्ध के पूर्व ये रावण के दरबार में गए थे। अपने पिता बालि की मित्रता के नाते इन्होंने रावण को राम से वैर न करने के लिए बहुतेरा समझाया किंतु उसकी हठवादिता के कारण इनका समझाना बेकार गया। इसी अवसर पर रावण की बातों से आवेश में आकर इन्होंने अपना पैर जमाकर यह प्रतिज्ञा की थी कि उसकी सभा का कोई भी वीर यदि इनका पैर उठा दे तो राम हार मान कर लौट जायेंगे। किंतु वह पैर किसी से भी न उठा। अंत में उसे उठाने के लिये रावण स्वयं प्रस्तुत हुआ किंतु उसे इन्होंने "मम पद गहे न तोर उधारा" तथा 'गहसि न राम चरन सठ जाई' कह कर लज्जित कर दिया। सुग्रीव इनके चचा तथा पंचकन्या तारा इनकी माता थीं। दे० 'बालि'। २. एक प्रसिद्ध वैष्णव भक्त और जगन्नाथ (पुरी) के अनन्य उपासक। इनके पास एक बहुमूल्य रत्न था जिसे कई राजाओं ने लेने का प्रयत्न किया। अन्त में उसकी रक्षा असंभव समझ कर इन्होंने उसे जगन्नाथ जी को समर्पित कर दिया। अंगदसिंह जाति के क्षत्रिय, रायसिंह गढ़ के निवासी तथा सिलाहदी सिंह के चाचा थे। ऐसी अनुश्रुति है कि पहले यह बड़े विषयी थे और सदैव अपनी रूपवती पत्नी का मुख देखने में ही तन्मय रहा करते थे। अंत में पत्नी से ही इन्हें हरिभक्ति की भी प्रेरणा मिली और उसी के गुरु द्वारा दीक्षित भी हुए।

अंगिरा-एक प्रसिद्ध वैदिक ऋषि जिनका स्थान मनु, ययाति तथा भृगु आदि के समकक्ष माना जाता है।

सप्तर्षियों तथा दस प्रजापतियों में भी इनकी गणना है। कालांतर में अंगिरा नाम के एक प्रसिद्ध ज्योतिषी तथा स्मृतिकार भी हो गये हैं। नक्षत्रों में बृहस्पति यही हैं और देवताओं के पुरोहित भी यही। इस प्रकार ज्ञात होता है कि इस नाम के पीछे कई व्यक्तित्व छिपे हुए हैं। 'अंगिरस' उसी धातु से निकला है जिससे 'अग्नि' और एक मत से इनकी उत्पत्ति भी आग्नेयी (अग्नि की कन्या) के गर्भ के मानी जाती है। मतांतर से इनकी उत्पत्ति, ब्रह्मा के मुख से मानी जाती है। स्मृति, श्रद्धा, स्वधा, सती तथा दक्ष की दो कन्याएँ इनकी पत्नियाँ मानी जाती हैं और हविष्यत् इनके पुत्र तथा वैदिक ऋचाएँ इनकी कन्याएँ मानी जाती हैं। उतथ्य, बृहस्पति तथा माकडेय इनके पुत्र कहे गये हैं। भागवत् के अनुसार रथीतर नामक किसी निस्संतान क्षत्रिय की पत्नी से इन्होंने ब्राह्मणोपम पुत्र उत्पन्न किये थे।

अंजना-हनुमान की माता। इनके पति का नाम केशरी था; किंतु हनुमान की उत्पत्ति पवन से बतलाई जाती है। एक बार किसी कारण-वश महादेव का वीर्यपात हो गया, जिसे वायु ने उड़ाकर अंजनी के कान में फूँक दिया और इस प्रकार गर्भ रह गया, जिससे हनुमान की उत्पत्ति हुई। दे० 'हनुमान'।

अंतरिक्ष-नाभादास के अनुसार ये नव योगीश्वरों तथा प्रमुख भक्तों में से एक थे। दे० 'योगीश्वर'।

अंधक-१. एक राक्षस का नाम जिसकी उत्पत्ति पार्वती के पसीने से मानी जाती है। हिरण्यकक्ष के घोर तप करने पर शंकर जी ने प्रसन्न होकर इसे यही पुत्र दिया था। इसके सहस्र बाहु, सहस्र शिर तथा दो सहस्र नेत्र थे। इतने नेत्र रहने पर भी यह अंधों की भाँति झूम-झूम कर चलता था इसी से इसका नाम अंधक पड़ा था। पार्वती की अवज्ञा करने के कारण शिव से इसका घोर युद्ध हुआ। इसके रक्त की एक-एक बूँद से जब इसी के समान राक्षस उत्पन्न होने लगे तब शिव ने एक मातृका उत्पन्न की जो गिरे हुए रक्त को पी लेती थी, पर उसके तृप्त होने पर फिर नये अंधक उत्पन्न होने लगे और उन्हें विवश होकर विष्णु की सहायता लेनी पड़ी। विष्णु की एक युक्ति से सारे नये अंधक विलीन हो गये और शिव ने मुख्य अंधक को त्रिशूल पर लटका दिया। आकुल होकर जब उसने शिव की स्तुति करनी श्रांभ की तो उन्होंने इसे गणाधिपत्य प्रदान दिया। मतांतर से यह कश्यप और दिति का पुत्र था। देवताओं ने जब दिति के समस्त पुत्रों का वध कर दिया तब उसने एक अवध्य पुत्र के लिए भगवान से प्रार्थना की जिसके फलस्वरूप अंधक की उत्पत्ति हुई। शिव तथा विष्णु के अतिरिक्त किसी अन्य देवता के

द्वारा पराजित न होने का इसे वर प्राप्त था। यह इतना अत्याचारी हुआ कि इसके आतंक से त्रैलोक्य काँप उठा। इसने उर्वशी, इंद्रावती आदि अप्सराओं का हरण कर लिया तथा नंदनकानन से पारिजात लाकर अपने यहाँ रख लिया। अंत में बड़ी कठिनता से यह शिव के हाथों मारा गया। २. वृष्णि वंश के एक पूर्व पुरुष युधाजित का पुत्र तथा क्रोष्टा का नाती। विष्णुपुराण के अनुसार यह सात्वत का पुत्र था।

अंबरीष-१. अयोध्या के एक प्रसिद्ध सूर्यवंशी राजा। विष्णु का रामावतार इन्हीं के वंश में हुआ था। ये इक्ष्वाकु की चौबीसवीं पीढ़ी में थे और गंगा के प्रवर्तक प्रसिद्ध राजा भगीरथ के प्रपौत्र थे। ये बड़े पराक्रमी थे और कहा जाता है कि इन्होंने १० लाख राजाओं को युद्ध में परास्त किया था। अंबरीष उच्च कोटि के विष्णु-भक्त थे। सारा राज्य-भार कर्मचारियों को सौंपकर ये अपना अधिकांश समय हरि-भजन ही में व्यतीत किया करते थे। अंबरीष की कन्या का नाम सुंदरी था जिसका गुण भी नाम के ही अनुसार था। देवर्षि नारद और पर्वत, जो किसी कार्य-वश अंबरीष के यहाँ पधारें थे, सुंदरी पर सुगंध हो गये और उसे प्राप्त करने के उपक्रम में दोनों बारी-बारी से विष्णु के पास गये। नारद ने प्रार्थना की कि पर्वत का मुँह बंदर का-सा बना दीजिए और पर्वत ने भी नारद के लिए वही प्रार्थना की। विष्णु ने दोनों की प्रार्थना स्वीकार करके दोनों का मुँह बंदर का-सा बना दिया। इसी आकृति में वे अंबरीष के यहाँ पहुँचे जिन्हें देखकर सुंदरी भयभीत हो गई। अंबरीष के साथ पुनः वहाँ पधारने पर दोनों के बीच भगवान् विष्णु को भी बैठे देख सुंदरी ने उन्हीं के गले में वरमाला डाल दी और तत्काल ही विष्णु की प्रेरणा से अंतर्धान हो गई। दोनों ऋषि बड़े क्रुद्ध हुए और उन्होंने अंबरीष को श्राप दिया कि वह स्वयं अंधकारावृत हो अपना शरीर तक न देख सके। पर अंबरीष की रक्षा के लिए भगवान् का सुदर्शन-चक्र उपस्थित हुआ और अंधकार का नाशकर मुनियों के पीछे पड़ गया। मुनिगण भागते-भागते अंत में विष्णु की शरण में पहुँचे। भगवान् ने क्षमा करते हुए सुदर्शन चक्र हटा लिया। वास्तविक बात यह थी कि स्वयं राधा (लक्ष्मी) ने सुंदरी के रूप में अंबरीष के यहाँ जन्म लिया था और श्रीकृष्ण (विष्णु) को पतिरूप में पाने के लिए इन्होंने बड़ी तपस्या की थी। एक बार अपना व्रत खंडित न होने देने के लिए अंबरीष ने आमंत्रित ऋषि दुर्वासा के आने के पूर्व ही पारायण कर लिया था जिससे क्रुद्ध होकर ऋषि ने इन्हें मारने के लिए अपनी जटा के एक बाल से कृत्या राक्षसी उत्पन्न की थी किंतु सुदर्शन चक्र ने राक्षसी को मारकर इनकी रक्षा की और फिर ऋषि के पीछे पड़ा। परेशान होकर ऋषि विष्णु की शरण में गये किंतु इन्होंने ऋषि को अंबरीष के ही पास क्षमा-याचना के लिए भेज दिया। अंत में इसी उपाय से ऋषि बच सके।

अंबा-काशिराज की उन तीनों कन्याओं में सबसे ज्येष्ठ जो भीष्म द्वारा अपहृत हुई थीं। ये उनके पराक्रम पर सुगंध थीं और उनसे विवाह भी करना चाहती थीं किंतु

उन्होंने आमरण ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा के कारण इन्हें अस्वीकार कर दिया। अपहरण के पूर्व इनका विवाह शास्व के साथ होना निश्चित हुआ था किंतु इस घटना से इन्होंने भी इनके साथ विवाह करने से इनकार कर दिया। अंबा ने प्रतिशोध के लिए घोर तपस्या की और शिव के वरदान के अनुसार अगले जन्म में शिखण्डी के रूप में अवतरित होकर भीष्म की मृत्यु का कारण हुई। दे० 'शिखंडी' तथा 'भीष्म'।

अंबालिका-काशिराज की कनिष्ठा कन्या जो विचित्रवीर्य को ग्राही गई थी और पांडु जिनके पुत्र थे। पांडु की उत्पत्ति व्यास से मानी जाती है। दे० 'सत्यवती' तथा 'व्यास'। अंबिका-काशिराज की मझली कन्या जिनका विवाह विचित्रवीर्य के साथ हुआ था। ये धृतराष्ट्र की माता थीं, जिनकी उत्पत्ति व्यास से मानी जाती है। दे० 'व्यास', 'अंबा' और 'विचित्रवीर्य'।

अंशुमान-१. प्रसिद्ध सूर्यवंशी राजा सगर के पौत्र तथा असमंजस के पुत्र। असमंजस, जो विदुर्भकन्या केशिनी के गर्भ से उत्पन्न हुए थे, बड़े होने पर नितान्त अयोग्य तथा अत्याचारी राजा हुए जिससे तंग आकर सगर ने इनका देशनिकाला कर दिया। किंतु इसके पूर्व ही वे अंशुमान नामक पुत्र छोड़ गये थे जो पिता के विपरीत अत्यंत योग्य सिद्ध हुआ। राजा सगर के अश्वमेध का घोड़ा जब इंद्र ने चुरा लिया और उसकी खोज में सगर के साठ हज़ार पुत्र कपिल के शाप से भस्म हो गये तो अंशुमान ने ही पाताल में उनका पता लगाया और अपने सद्ब्यवहार तथा बुद्धि कौशल से महर्षि कपिल को प्रसन्नकर अश्व का उद्धार किया और पितामह का यज्ञ पूरा कराया। अंशुमान की प्रार्थना पर महर्षि कपिल ने उन्हें यह भी वरदान दिया कि उनके पौत्र भगीरथ द्वारा गंगा का मर्त्यलोक में अवतरण होगा और उन्हीं के द्वारा सगर के साठ हज़ार पुत्रों का भी उद्धार होगा। दे० 'सगर', 'भगीरथ' और 'दिलीप'।

अकंपन-रावण के एक सेनापति। इनके पिता का नाम सुमाली तथा माता का नाम केतुमाली था। ये रावण के मामा लगते थे। प्रहस्त और ध्रुमांस नाम के इनके दो अन्य भाई थे। इनकी मृत्यु युद्ध में हनुमान के द्वारा हुई थी।

अकृती-स्वायंभुव मनु तथा सतरूपा की द्वितीय कन्या और महर्षि रुचि की पत्नी। यज्ञ तथा दक्षिणा इनकी यमल संतान मानी जाती हैं। जिन्होंने परस्पर विवाह कर लिया था और उन्हीं से द्वादश यमों की उत्पत्ति हुई थी। उत्तानपाद तथा प्रियव्रत अकृती के भाई थे। पातिव्रत तथा हरिभक्ति के प्रसंग में इनकी गणना प्रमुख रूप से की जाती है।

अक्रूर-एक यादव। लोक-प्रसिद्धि के अनुसार ये कृष्ण के पिता वसुदेव के भाई थे। कंस की राज-सभा में असम्मानित होकर रहनेवाले व्यक्तियों में इनका विशेष रूप से उल्लेख मिलता है। यज्ञ का ढोंग रचकर कंस ने इन्हें कृष्ण तथा बलराम को लाने के लिए गोकुल भेजा था। कृष्ण तथा बलराम इनके साथ मथुरा आए थे और वहाँ

उन्होंने कंस के अनुचरों को धराशायी करने के बाद उसका भी वध कर डाला। अक्रूर उसके बाद निरंतर कृष्ण के ही साथ रहे। कृष्ण ने जरासंध के आक्रमणों से घबड़ाकर जब द्वारिका को अपना राजनगर बनाया तो ये भी मथुरा छोड़कर संभवतः द्वारिका ही चले गये थे। जब ये द्वारिका में थे तो इनके पास स्यमंतक मणि होने की कथा मिलती है। इस मणि के संबंध में यह प्रसिद्धि थी कि जिसके पास यह रहता है उसे प्रतिदिन विपुल धनराशि की प्राप्ति होती है, तथा जिस स्थान में वह रहता है वहाँ अनावृष्टि आदि नहीं होती। एक बार अक्रूर किसी कारणवश द्वारिका छोड़कर चले गये थे; उनके जाते ही वहाँ अनावृष्टि प्रारम्भ हो गई। द्वारिका-वासियों ने यह समझकर कि यह पुण्यात्मा व्यक्ति हैं, इन्हीं के चले जाने से अनावृष्टि हो गई है इन्हें द्वारिका फिर बुला लिया। किन्तु कृष्ण ने बतलाया कि इनके पास स्यमंतक मणि है, इस कारण जहाँ ये रहते हैं वहाँ अनावृष्टि आदि नहीं होती। एक राज-सभा में कृष्ण ने इनसे इस मणि के संबंध में पूछा था कि "क्या तुम्हारे पास शतधन्वा की स्यमंतक मणि है?" कृष्ण जब शतधन्वा का वध करने को उद्यत हुए थे तो वह इस मणि को अक्रूर के पास ही छोड़ गया था। कृष्ण ने उसका पीछा करके उसका वध कर डाला था; इस प्रकार यह मणि अक्रूर के पास ही रह गया था। कृष्ण इस तथ्य से परिचित थे। कृष्ण के पूछने पर अक्रूर को, यह मणि दिखाना पड़ा; किन्तु कृष्ण ने उसे देखकर फिर इन्हें ही वापस कर दिया और उसके बाद वह जीवनपर्यंत इन्हीं के साथ रहा।

अक्षपाद—एक प्रसिद्ध ऋषि तथा दार्शनिक। इनका दूसरा नाम गौतम है जो 'न्यायदर्शन' के रचयिता माने जाते हैं। इनके द्वारा प्रतिष्ठापित दर्शन को 'अक्षपाद-दर्शन' भी कहते हैं।

अक्षयकुमार—रावण तथा मंदोदरी के कनिष्ठ पुत्र का नाम जिसकी मृत्यु अशोकवाटिका में सीता की खोज में आये हुए हनुमान के द्वारा हुई थी।

अक्षयमल—एक प्रसिद्ध वैष्णव भक्त।

अगस्त्य—ऋग्वेद की कई ऋचाओं के रचयिता एक ऋषि। उर्वशी के सौंदर्य को देखकर मित्र और वरुण के स्खलन से इनकी और वसिष्ठ की उत्पत्ति हुई। भाष्यकार सायण के कथनानुसार इनकी उत्पत्ति घड़े से हुई जिससे इन्हें कलसी-सुत, कुंभसंभव और घटोद्भव आदि भी कहा गया है। पिता-माता को ध्यान में रखते हुए इन्हें मैत्रा-वरुणि और और्वशीय भी कहा गया है। जन्म के समय ये एक अँगूठे के बराबर लम्बे थे, इसलिए इन्हें मान भी कहा गया। मतांतर से ये वसिष्ठ के बहुत बाद के हैं और प्रजापतियों में नहीं गिने जाते। कहा जाता है कि विंध्य-पर्वत को दंडवत करने के लिए इनके आगे झुकना पड़ा और वह पहले वाली अपनी जँचाई खो बैठा। अगस्त्य नाम पढ़ने का कारण इस पर्वत का झुकना ही है। इसी चमत्कार के कारण इन्हें विंध्यकूट भी कहा गया। देवासुर संग्राम में जब दानव सागर में जाकर छिप गये और खुद सागर ने भी इन्हें छुव कर दिया था, तो ये सागर को ही पी गये

और इस कारण पीताभि या समुद्रबुलुक कहलाये। बाद में इनकी गणना सप्तर्षियों में होने लगी। पुराणों में इन्हें पुलस्त्य का पुत्र कहा गया है। ये ब्रह्मपुराण के कहनेवालों में से माने गये हैं। इन्होंने औपधियों पर भी लिखा है। महाभारत में इनकी पत्नी के संबंध में यह कथा है कि इनके पूर्वज उरटे टांग दिये थे। उन्होंने इनसे कहा कि उनकी मुक्ति तभी होगी जब इनके पुत्र पैदा हो। तब इन्होंने विभिन्न पशुओं के सुंदरतम अवयवों के सौंदर्य से एक कन्या की रचना की और उसे विदर्भ राज के यहाँ चुपके से पहुँचा दिया जहाँ वह राजपुत्री की भाँति पाली-पोसी गई। बड़ी हो जाने पर अगस्त्य ने राजा से इसके साथ विवाह का प्रस्ताव किया। इच्छा न रखते हुए भी राजा को व्याहना पड़ा। रामायण में इनका महत्व बहुत बढ़ गया है। ये कुंजर पर्वत पर एक कुटी में रहते थे जो विंध्य के दक्षिण बड़े रमणीक प्रदेश में थी। ये दक्षिण के साधुओं में सबसे प्रमुख थे। इनका राक्षसों पर इतना अधिकार था कि वे उत्तर की ओर आँख नहीं उठा सकते थे।

अग्नि—एक विशेष शक्ति के प्रतीक-स्वरूप स्वीकृत देवता। इनकी अभिव्यक्ति आकाश में सूर्य, बादलों में विद्युत् तथा पृथ्वी पर साधारण अग्नि के रूप में मानी गई है। वेदों में इन के संबंध में बहुत-सी ऋचाएँ मिलती हैं। ऋग्वेद में परम पुरुष के मुख से इनका जन्म माना गया है। यह भी कहा गया है कि प्रत्येक घर में इनका निवास है। यह युवक हैं, बुद्धिमान हैं, घर के स्वामी हैं तथा हमारे बहुत निकट संबंधी हैं। साथ ही इन्हें विशेष कृपाशील तथा सभी का भाई, पुत्र, पिता और पालक कहा गया है। विवाह के अवसर पर इनका आवाहन संभवतः इसी कारण विशेष रूप से किया जाता था और आज भी हिंदू घरों में किया जाता है। इनकी गणना वायु अथवा इंद्र और सूर्य के साथ वैदिक त्रिदेवों में भी होती थी। अग्नि पृथ्वी के अधिष्ठाता थे; वायु हवा के, तथा सूर्य आकाश के। आगे के साहित्य में इन्हें दक्षिण पूर्वकोण के दिक्-पाल के रूप में भी चित्रित किया गया है। प्रारंभ में अग्नि में लोक-कल्याण की भावना की प्रधानता स्वीकृत हुई थी, किंतु बाद को इनकी विनाशकारी प्रवृत्तियों को देखकर इनमें भयंकर भावना का भी विकास हो गया। पुराणों के आधार पर अग्नि को शांडिल्य, एक सप्तर्षि का प्रपौत्र तथा आंगिरस का पुत्र भी कहा जाता है। महाभारत में अग्नि अपने प्रति समर्पित होनेवाली सामग्री को उदरस्थ करने के कारण अजीर्ण रोग से पीड़ित मिलते हैं और खांडव वन को औपधि रूप में ग्रहणकर अपने को निरोग करना चाहते हैं। इंद्र के विरोध के होते हुए भी कृष्ण तथा अर्जुन की सहायता से इन्हें अपने कार्य में सफलता मिलती है। पूर्ण निरोग होकर अपने सहायकों में कृष्ण को इन्होंने कौमोदकी गदा और एक शक्ति दी थी तथा अर्जुन को गांडीव धनुष। विष्णुपुराण में इन्हें ब्रह्मा का ज्येष्ठ पुत्र अभिमानी कहा गया है। इनकी स्त्री का नाम स्वाहा मिलता है जिससे इनके पावक, पवमान तथा सुचि तीन पुत्र हुए थे और इनसे उनचास प्रपौत्र। वायुपुराण

में उन्हें ही अग्नि के उनचास रूपों में स्वीकार किया गया है। इनकी रूपरेखा के संबंध में कहा जाता है कि ये श्याम वस्त्रों से आवृत्त रहते हैं, चतुर्हस्त हैं, एक हाथ में जाज्वल्यमान माला रहती है। सप्त-पवन इनके रथ के चक्रों में स्थित माने जाते हैं तथा उसके अश्वों का वर्ण रक्तिम है। इनके वाहन के लिए अज का भी उल्लेख मिलता है।

अग्निदग्ध-पितृगणों का एक नाम। ये गृह-अग्नि को जीवित रखते तथा हवन करते थे। जो ऐसा नहीं करते थे वे 'अनग्निदग्ध' कहलाते थे।

अग्निपुराण-अष्टादश महापुराणों में से एक। इसके आकार के संबंध में मतभेद है। कुछ अनुश्रुतियों के अनुसार इसकी श्लोक संख्या १६००० है, कुछ के अनुसार १५००० और कुछ के अनुसार १४०००। इस पुराण का अधिकांश भाग शिवजी पर ही आधारित है, किंतु अन्य विषयों की चर्चा भी कम नहीं है। विधि, निषेध, आचार, कर्मकाण्ड, राजनीति, युद्धविद्या, अस्त्रविद्या, धर्मशास्त्र, आयुर्वेद (सुश्रुत के आधार पर) व्याकरण (पाणिनि के आधार पर), छंद तथा पिंगल आदि अनेक विषयों का इसमें विस्तृत वर्णन है। पुराण के पंच लक्षणों के अनुसार इसके विषय नहीं हैं और यह रचना भी बहुत पुरानी नहीं ज्ञात होती। महर्षि वशिष्ठ को शिक्षा देते समय सर्वप्रथम अग्नि ने इस पुराण को सुनाया था। तदनंतर वशिष्ठ ने व्यास को, व्यास ने सूत को और सूत ने नैमिषारण्य में अन्य ऋषियों को इसे सुनाया। सर्वप्रथम अग्नि द्वारा सुनाये जाने के कारण इसका नाम अग्नि-पुराण पड़ा।

अग्निवाहु-ये प्रसिद्ध प्राचीन राजा प्रियव्रत के दस पुत्रों में से एक थे, जो साहस एवं शारीरिक शक्ति के लिए विख्यात थे। इन्होंने अपने पूर्वजन्म की स्मृति बनी हुई थी जिसके प्रभाव से इन्होंने राज्य त्यागकर आजीवन ईश्वरा-धन में अपना समय बिताया।

अग्निवर्च-सूत के एक शिष्य का नाम जो कालांतर में बहुत प्रसिद्ध पौराणिक हुए।

अग्निष्टोम-चात्रप मनु के एक पुत्र का नाम। इस नाम का एक वैदिक यज्ञ भी प्रसिद्ध है जिसकी उत्पत्ति विष्णु पुराण के अनुसार ब्रह्मा के पूर्व दिशावाले मुँह से हुई थी।

अग्निवृत्त-देवताओं के पितृगणों का नाम, जिनकी संख्या चौंसठ सहस्र है। इनकी उत्पत्ति ब्रह्मा तथा उनकी मानस कन्या संध्या से मानी जाती है।

अग्रदास-प्रसिद्ध वैष्णव-भक्त तथा कृष्णदास पयहारी के प्रधान शिष्यों में से एक। भक्तमाल के रचयिता नाभादास इनके प्रधान शिष्य थे और इन्हीं की आज्ञा से उन्होंने भक्तमाल की रचना भी की थी। 'अग्रदास आज्ञा दर्श, भक्तन कौ यश गाइ। भवसागर के तरन को, नाहिन और उपाइ।' अग्रदास जी रामानंद की परंपरा में चौथी पीढ़ी में पढ़ते हैं :-रामानंद, अंजनानंद, कृष्णदास पयहारी, अग्रदास, नाभादास। कहीं-कहीं अंजनानंद के स्थान पर अनंतानंद मिलता है।

अघासुर-एक राक्षस। कंस ने योगमाया के द्वारा अपना वध करनेवाले के जन्म का समाचार सुन कर अपनी राजसभा में जिन दुष्टों तथा दानवों को एकत्र किया था, यह भी उनमें से एक था। कहा जाता है यह बकासुर तथा पूतना का छोटा भाई था। कंस ने इसे कृष्ण का वध करने के लिए गोकुल भेजा था। जब वह यहाँ पहुँचा तो कृष्ण गोप-बालकों के साथ वन-भोजन का आयोजन कर रहे थे। कृष्ण को देखकर वह सोचने लगा कि जिस प्रकार इसने मेरे भाई तथा बहन को उदरस्थ कर लिया है, मैं भी इसे उदरस्थ कर जाऊँ तो अच्छा हो? पूर्ण निश्चय कर यह एक योजन का विस्तार कर अजगर बनकर मार्ग में पड़ रहा। उस समय उसका निम्न अधर पृथ्वी में था और ऊर्ध्व आकाश में। गोप-बालक इसे देखकर भिन्न-भिन्न कल्पनाएँ करने लगे। किसी ने कहा आकाश में घने काले बादल छाये हुए हैं और पृथ्वी पर भी उनकी गंभीर छाया पड़ रही। अजगर की श्वास उन्हें किसी गुहा से प्रवाहित होने वाली कर्कश वायु सी प्रतीत हो रही थी। एक-आध यह भी कह रहे थे कि यह बड़ा अजगर है जो हम सब को असने के लिए आया है। फिर भी सभी उसके मुख में प्रविष्ट हो गये। कृष्ण भी सबके साथ उसके मुख के भीतर पहुँच गये। किंतु यहाँ उन्होंने अपनी तथा अपने साथियों की चिंता हुई और उन्होंने अपनी ईश्वरता को जागृत किया। उसके मुख में वह सीधे खड़े हो गये, जिसमें उसका श्वास रुद्ध हो गया और ब्रह्मरंध फट गया। उसके शरीर से एक ज्योति निकलकर आकाश में स्थिर हो गई। कृष्ण ने अपने सखा गोप-बालकों को अमृत के सहारे फिर जीवित किया। यह स्थिर ज्योति फिर उनके शरीर में आकर लीन हो गई। इस प्रकार अघासुर का अंत हुआ।

अच्युत-एक प्रसिद्ध वैष्णव भक्त। इन्होंने चारों धामों में हरि-भक्ति का प्रचार किया था।

अच्युतकुल-एक वैष्णव भक्त तथा नाभादास के यजमान।

अज-एक प्रसिद्ध सूर्यवंशी राजा, जो दशरथ के पिता तथा राम के पितामह थे। कुछ ग्रंथों में इन्हें दिलीप का पुत्र कहा गया है और कुछ में रघु का। अज की महिषी विदर्भराज-कन्या थीं, जिन्हें ये स्वयंवर से ले आये थे। रघुवंश के अनुसार स्वयंवर-यात्रा के समय एक पागल हाथी ने मार्ग में इन्हें बड़ा कष्ट दिया जिससे क्रुद्ध होकर इन्होंने उसे मारने की आज्ञा दी। मरते समय उसके शरीर से एक दिव्य गंधर्व निकला जिसने इन्हें स्वयंवर जीतने के लिए दिव्य अस्त्र से सुसज्जित किया।

अजामिल-कन्नौज निवासी एक ब्राह्मण, जिन्होंने आजीवन न तो कभी कोई पुण्यकार्य किया और न ईश्वराराधन। इनके पुत्र का नाम नारायण था। कहते हैं कि मृत्यु के समय इन्होंने अपने पुत्र का नाम लेकर बुलाया जो कि भगवान के नाम का पर्याय था और इसी से इनकी सद्गति हो गई। भक्तों ने भगवान् के नाम-माहात्म्य के सिलसिले में अजामिल का प्रायः सर्वत्र उल्लेख किया है।

अटल-होशंगाबाद के एक प्रसिद्ध मध्यकालीन वैष्णव भक्त जिन्होंने अपना घर भक्तों को समर्पित कर दिया था ।

अतिकाय-रावण के पुत्रों में से एक । अत्यंत स्थूल होने के कारण इनका नाम 'अतिकाय' पड़ गया था । इन्होंने घोर तपस्या करके ब्रह्माजी से दिव्य रथ तथा सुरों और असुरों द्वारा अवध्य होने का वर प्राप्त कर लिया था । इनका वध लक्ष्मण जी के द्वारा हुआ था, जो न देवता थे और न असुर ।

अत्रि-अनेक वैदिक ऋचाओं के कर्ता एक ऋषि । प्रायः अग्नि, इन्द्र और विरवदेव संबंधी 'स्तुतियों' में इनका नाम मिलता है । पौराणिक काल तक आते-आते इनकी गणना दस प्रजापतियों में होने लगी और ये ब्रह्मा के मानस पुत्र माने जाने लगे । दक्ष की पुत्री अनुसूया इनकी पत्नी थीं जिन्होंने पति के साथ पुत्र की कामना से त्रिदेवों की बड़ी आराधना की थी । उनके वरदान के फल-स्वरूप विष्णु के अंश से दत्त नामक पुत्र प्राप्त हुआ जो अपने ज्ञान के कारण 'दत्तात्रेय' नाम से अवतार पद को प्राप्त हुआ । इसी प्रकार ब्रह्मा के अंश से चन्द्रमा और रुद्र के अंश से दुर्वासा की उत्पत्ति हुई । रामायण के अनुसार इनका आश्रम चित्रकूट के दक्षिण स्थित था जहाँ राम और सीता ने वनवास के समय इनका दर्शन किया था ।

अथर्वन-एक प्राचीन पुरोहित का नाम जो अथर्ववेद के रचयिता माने जाते हैं । ऋग्वेद में इनका उल्लेख हुआ है । इन्होंने ही यज्ञ करने की प्रथा चलाई थी । ब्रह्माविद्या की शिक्षा इन्हें ब्रह्माजी से मिली थी जो इनके पिता माने जाते हैं । इनकी गणना प्रजापतियों में भी होती है और आगे चलकर इन्हें अंगिरा से अभिन्न माना जाने लगा ।

अथर्ववेद-चतुर्थ वेद का नाम । इसकी रचना अपेक्षाकृत बाद में हुई जैसा कि इसके अंतर्साध्य से प्रकट है । प्रो० ह्विट्नी तथा कुछ अन्य विद्वानों के अनुसार ऋग्वेद के दसवें मण्डल तथा अथर्ववेद का रचनाकाल प्रायः एक ही है । मुख्य वेद तीन ही हैं । ऐसा अनुमान करने के कारण भी हैं कि इसकी रचना सैधवों द्वारा सिंधु नदी के तट पर हुई । संपूर्ण अथर्ववेद का १/२ भाग छंदोबद्ध नहीं है और दूसरा १/२ भाग ऋग्वेद में—मुख्यतः—इसके दसवें मण्डल में—प्रायः ज्यों का त्यों मिल जाता है । शेष अंश मौलिक है । अथर्ववेद में कुल ७६० मन्त्र, ६००० छंद तथा ६ भाग हैं जिनमें पाँच कला और अनुष्ठान विधान का ही अधिक वर्णन है । इस समय इसकी केवल एक शाखा (शौनक) मिलती है जिसके ब्राह्मण का नाम गोपथ है । अन्य वेदों से अथर्ववेद का मुख्य भेद यह है कि इसके उपास्य देवों में भय का भाव अत्यंत प्रबल है । उपासक राक्षसों तथा अन्य देवों से बहुत डरा हुआ सा ज्ञात होता है । अन्य वेदों में उपास्य देवों के प्रति प्रेम और आस्था के भाव भी मिलते हैं ।

अदिति-देवताओं की माता और दक्षप्रजापति की कन्या । कहीं-कहीं इनका वर्णन दक्ष की माता के रूप में भी किया

गया है । देवमाता होने की परंपरा बहुत प्राचीन ज्ञात होती है, क्योंकि ऋग्वेद में भी इनके लिए 'देवमातृ' विशेषण प्रयुक्त किया गया है । यही परंपरा पुराणों में भी मान्य रही जहाँ इनके गर्भ से देवताओं की उत्पत्ति दिखलाई गई है और इनकी दूसरी वहिन दिति के गर्भ से राक्षसों की । द्वादश आदित्यों का जन्म भी इन्हीं से हुआ जो इस शब्द की व्युत्पत्ति से स्पष्ट है । दे० 'आदित्य' । विष्णु पुराण के अनुसार ये कश्यप की स्त्री थीं जिनसे विष्णु का वामनावतार हुआ था । पूर्वकाल में कश्यप अदिति की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान ने उनसे वर माँगने के लिए कहा था । उन्होंने स्वयं विष्णु को ही पुत्र रूप में प्राप्त करने की कामना प्रकट की जिसे भगवान विष्णु ने केवल एक ही वार नहीं बल्कि तीन वार पूरा किया । रामावतार की कौशल्या और कृष्णावतार की यशोदा भी अदिति की ही प्रतिमूर्ति थीं । नरकासुर को मारने पर श्रीकृष्ण को जो दो कुण्डल प्राप्त हुए थे, उन्हें कृष्ण ने अदिति को ही लौटा दिया था । पारिजात पुष्प के लिए इंद्र और कृष्ण में जो झगड़ा हुआ था उसका फैसला अदिति ने ही किया था ।

अद्विपेण-दे० 'आर्षिपेण' ।

अधर्म-धर्मविरोधी एक राक्षस का नाम, जिसकी उत्पत्ति भागवत के अनुसार ब्रह्मदेव के पृष्ठ भाग से हुई । इसकी स्त्री का नाम मृषा था जिससे माया तथा दंभ नामक दो मिथुन संतान हुए । उक्त मिथुन से क्रमशः क्रोध-हिंसा, कलि-दुर्लक्ष, मृत्यु-भीति, निरय-यातना आदि की उत्पत्ति हुई जिनसे भय, नरक, माया, वेदना, व्याधि, जरा, शोक, तृष्णा, क्रोध, मृत्यु आदि की उत्पत्ति हुई । अंत में इंद्र ने दधीचि की हड्डी से बने वज्र से इसका वध किया । संपूर्ण आख्यान अधर्म तथा तज्जनित अत्याचारों का रूपक मात्र है ।

अधिरथ-सत्कर्म का पुत्र घृतराष्ट्र का सारथी तथा महाभारतकालीन प्रसिद्ध वीर कर्ण का पोषक पिता । कुंती द्वारा सूर्य के आह्वान से कर्ण के जन्म ग्रहण करते ही कुंती ने कर्ण को एक पेटी में रखकर गंगा में डाल दिया था । पेटी संयोगवश अधिरथ के पास से बहती हुई निकली जो गंगामें जल-क्रीड़ाकर रहा था । निस्संतान अधिरथ तथा उसकी पत्नी राधा को पेटी खोलने पर एक सद्यःजात शिशु मिला जिसे उन्होंने स्नेहपूर्वक पाल-पोसकर बड़ा किया । यही बड़ा होने पर कर्ण के नाम से विख्यात हुआ ।

अनंग-शाब्दिक अर्थ, अंग-रहित । कामदेव का एक नाम है । कामदेव के अनंग नामकरण की कथा इस प्रकार है: एक वार तारक असुर के अत्याचारों से देवता बहुत भय-भीत हो गये थे । देवराज इंद्र भी उसके सम्मुख जाने का साहस नहीं कर पाते थे । अंत में ब्रह्मादि देवगणों ने विचार करके यह निश्चित किया कि शंकर का होनेवाला पुत्र कार्तिकेय ही देवसेना का नायक होकर तारक का संहार कर सकता है । किंतु महादेव जी उस समय सती की मृत्यु हो जाने के कारण हिमालय पर घोर तपस्या में लीन बैठे थे । उनकी यह तपस्या बिना भंग हुए कार्तिकेय की उत्पत्ति किसी भी प्रकार संभव न थी । इसलिए देवताओं

ने कामदेव से उनकी तपस्या भंग करने के लिए कहा। कामदेव को लोक-कल्याण के लिए उनकी आज्ञा का पालन करना पड़ा। उन्होंने हिमालय पर पहुँचकर देवदार की छाया में बैठे हुए तपस्या में लीन महादेव जी पर अपना पुष्पवाण धावित किया। महादेव जी की तपस्या तो उससे भंग हो गई किंतु उनका वृत्तीय नेत्र खुल जाने के कारण कामदेव भस्म हो गये। देवता होने के कारण जलने पर भी जीवित रहे किंतु अनंग होकर। दे० 'कामदेव'।

अनंत-१. शेषनाग का एक पर्याय। अष्टकुली महासर्पों में से एक जो नागों के राजा तथा पाताल के अधिपति थे। इनके शरीर को शय्या बनाकर भगवान् विष्णु प्रत्येक महाप्रलय के अंत में शयन करते हैं। इसी से उन्हें अनंतशयन कहा जाता है। इनके फणों की संख्या एक सहस्र कही जाती है, जिन पर स्वर्ग-नर्क तथा सप्त पातालों सहित सारा ब्रह्माण्ड टिका हुआ है। दशरथ के पुत्र लक्ष्मण तथा नंद के पुत्र बलराम इनके अवतार माने जाते हैं। बहुत से विद्वान् पौराणिक कथाओं के आधार पर अनंत शेष को अनंत काल का प्रतीक मानते हैं। कहीं-कहीं वासुकि और शेष दो भिन्न नाग माने गये हैं। करयप इनके पिता और कद्रू इनकी माता थीं। इनकी स्त्री का नाम अनंतशीर्षा था। "अनंत चतुर्दशी" नामक त्यौहार इन्हीं के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, जो भादों महीने के शुक्लपक्ष की चतुर्दशी को पड़ता है। वासुकि, गोनस आदि इनके अन्य बहुत से पर्याय हैं। दे० 'वासुकि' तथा 'शेष'। २. हिंदी के एक कवि का नाम (जन्म १६३५ ई०) जिन्होंने "अनंतानंद" नामक एक प्रेम काव्य की रचना की है।

अनंतानंद-१. स्वामी रामानंद की शिष्य परंपरा के एक प्रमुख वैष्णव आचार्य तथा प्रसिद्ध रामभक्त। भक्तमाल के अनुसार ये ब्रह्मा के अवतार थे। इनका जन्म कार्तिकी पूर्णिमा, शनिवार को हुआ था। नाभादासजी के अनुसार अनंतानंदजी के निम्नलिखित शिष्य लोकपालों के समान प्रतापी हुए—योगानंद, गणेश, करमचंद, अलह पैहारी, रामदास तथा श्रीरंग जी। बाबा रघुवरदास के 'गुरु-परंपरा' नामक एक अप्रकाशित ग्रंथ में अनंतानंद को रामानंद का शिष्य और कृष्णदास पैहारी को अनंतानंद का शिष्य बताया गया है। २. एक अन्य प्रसिद्ध वैष्णवभक्त तथा कथावाचक।

अनंतरथ-एक प्राचीन राजा का नाम। ये मत्स्य, ब्रह्मांड, वायु तथा लिंग पुराण के अनुसार राजा संभूत के पुत्र तथा भागवत के अनुसार त्रसदस्य के पुत्र थे। वाल्मीकि रामायण के अनुसार ये अयोध्या के इक्ष्वाकुवंशी राजा थे। रावण की अधीनता अस्वीकार करने पर उससे इनका घोर युद्ध हुआ जिसमें इन्हें पराजित होना पड़ा। इन्होंने मरते समय रावण को यह शाप दिया कि इनके ही कुल में समुत्पन्न दाशरथि राम द्वारा कालांतर में उसका वध होगा।

अनिरुद्ध-शाब्दिक अर्थ, जो रुद्ध न हो, अबाध। प्रद्युम्न के पुत्र तथा श्रीकृष्ण के पौत्र। इनका व्याह इनकी चचेरी बहन सुभद्रा से हुआ था; किंतु अधिकतर इनका नाम

ऊपा के साथ लिया जाता है। ऊपा शोणितपुर के दैत्य राजा वाण की पुत्री थी। पार्वती के वरदान के फलस्वरूप उसने एक दिन स्वप्न में अनिरुद्ध को देखा, और उस पर मोहित हो गई। उसकी सखी चित्रलेखा को जब यह ज्ञात हुआ तो वह पथ में मिले हुए नारद के मतानुसार तामसी-विद्या के प्रभाव से अनिरुद्ध को ऊपा के राज-भवन में ले आई। ऊपा और अनिरुद्ध का गंधर्व-विवाह हो गया। जब वाण को यह सब ज्ञात हुआ तो उसने अपने योद्धाओं को अनिरुद्ध को पकड़ने के लिए भेजा, अनिरुद्ध ने सभी को अपनी गदा के आघातों से धरा-शायी कर दिया। वाण ने आकर तब अनिरुद्ध को माया युद्ध में पराजित किया और उसे बंदी बना लिया। अनिरुद्ध के इस प्रकार द्वारिका से ले जाये जाने तथा बंदी किये जाने का समाचार जब श्रीकृष्ण, बलराम तथा प्रद्युम्न को ज्ञात हुआ, तो वे शोणितपुर आये और उन्होंने वाण के साथ युद्ध प्रारंभ किया। इस युद्ध में शिव तथा युद्ध के देवता स्कंद ने भी वाण की सहायता की थी, किंतु अंत में वाण को पराजित होना पड़ा। अनिरुद्ध मुक्त होकर ऊपा को लेकर सबके साथ द्वारिका वापस आये। इनके पुत्र का नाम बज्र कहा जाता है। दे० 'ऊपा' तथा 'चित्रलेखा'।

अनिल-१. अष्ट वसुओं में से एक। विष्णुपुराण के अनुसार शिवा इनकी पत्नी तथा मनोलाव, अविघ्नत गति इनके दो पुत्र थे। २. ४६ पवन में से एक। दे० 'वायु'।

अनु-राजा ययाति तथा शर्मिष्ठा के पुत्र। पिता को अपना जीवन देना अस्वीकार करने के कारण इनको पिता द्वारा शाप मिला कि इनकी संतान राज्य की उत्तराधिकारिणी न बन सकेगी। विंतु इस शाप का कोई प्रभाव नहीं पड़ा क्योंकि अंग, बंग, कर्लिंग आदि इन्हीं के पुत्र थे जिनके नाम पर अब तक उक्त तीनों प्रदेशों के नाम हैं।

अनुक्रमणी-वेदों की सूची का नाम, जिसमें संहिताओं के क्रम से प्रत्येक मंत्र के छंद, देवता तथा ऋषि (रचयिता) का निर्देश है।

अनुविंद-महाभारतकालीन अश्वती के राजा जिनकी मृत्यु उक्त युद्ध में अर्जुन के हाथों हुई थी।

अनुसूया-१. दक्ष की चौबीस कन्याओं में से एक तथा अत्रि ऋषि की पतिव्रता पत्नी। मतांतर से महर्षि कर्दम तथा देवहृति की एक कन्या का नाम भी यही है। इनके पातिव्रत की अनेक कहानियाँ मिलती हैं। मानस में वनवास के प्रसंग में अनसूया द्वारा सीता को पातिव्रत का वडा शिक्षापूर्ण उपदेश दिलवाया गया है। २. कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतल में शकुंतला की दो अंतरङ्ग सखियों में से एक जिसे महर्षि कश्यप ने पाला था।

अनूरू-यह अरुण का दूसरा नाम एवं जंघाविहीन का पर्यायवाची है। इनका वर्ण ऊपाकालीन सूर्य की भाँति लाल है। दे० 'अरुण'।

अपया-एक प्रसिद्ध वैष्णव भक्त जिन्होंने चारों धामों में हरिभक्ति का प्रचार किया और जीवनपर्यंत संतसेवा का व्रत निवाहा।

अपटोम-दे० 'श्रौपलोम'।

अपाला—अत्रि मुनि की कन्या जिन्हें कुष्ठ रोग हो गया था। इस रोग से मुक्ति पाने के लिए इन्होंने तपस्या करके इंद्र से सोम प्राप्त किया था। ये ब्रह्मज्ञानी थीं। ऋग्वेद में इनका एक सूक्त भी है।

अपर्णा—हिमालय की ज्यैष्ठ कन्या तथा शिव की अर्द्धांगिनी। शिव को वररूप में पाने के लिए इन्होंने इतना कठिन तप किया कि पेड़ की पत्तियों तक का आहार भी छोड़ दिया। इसी से इनका नाम 'अपर्णा' (विना पत्तों के...) पड़ा था। इनके उग्र तप को देखकर इनकी माता ने निवारणार्थ 'ऊ-मा' (ओ-मत) कहा था जिससे इनका एक नाम 'उमा' भी पड़ गया। इनकी तपस्या से प्रसन्न होकर शिवजी ने इन्हें अपनी अर्द्धांगिनी के रूप में स्वीकृत किया।

अभयराम—एक प्रसिद्ध वैष्णवभक्त राजा।

अभिजित—राजा नल के पुत्र। दे० 'नल'।

अभिनन्द—पर्जन्य सुत नव नंदों में से चतुर्थ। ये प्रसिद्ध गोपाल तथा हरिभक्त भी थे। दे० 'पर्जन्य'

अभिमन्यु—अर्जुन एवं सुभद्रा के पुत्र तथा कृष्ण के भानजे महाभारत युद्ध के समय इनकी अवस्था केवल सोलह वर्ष की थी। युद्ध में एक दिन अर्जुन को पड्यंत्र द्वारा स्थानांतरित करके द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह-प्रणाली से युद्ध करना प्रारंभ किया, जिसे अर्जुन के अतिरिक्त और कोई नहीं जानता था। भीम आदि सभी महारथियों के छुट्टे हुए जाने पर इस षोडशवर्षीय राजकुमार ने स्वयं युद्ध प्रारंभ किया और कौरवपक्ष के योद्धाओं का वध करता हुआ व्यूह को तोड़कर उसके सबसे भीतरी भाग तक घुसता चला गया, किंतु लौटते समय अकेला कई शत्रुओं के द्वारा घिर गया जहाँ सात महारथियों ने मिलकर इसका वध कर डाला। चक्रव्यूह के भीतर से बाहर निकल पाने का कारण यह था कि जब अभिमन्यु सुभद्रा के गर्भ में था तभी एक बार अर्जुन ने उनको चक्रव्यूह तोड़ने की कहानी सुनाई थी। किंतु सुभद्रा के सो जाने के कारण व्यूह से बाहर निकलने की विधि नहीं सुनाई गई और इस प्रकार तब यह कहानी अधूरी ही रह गई थी। अस्तु, अभिमन्यु को संस्कार रूप में केवल तोड़ने की ही विधि ज्ञात थी। विराट की पुत्री उत्तरा इनकी पत्नी थीं जो इनकी वीरगति के समय गर्भवती थीं। इनके पुत्र परीक्षित ही बाद में सत्राट हुए।

अभिजाजित—स्कंदपुराण के अनुसार सुतस राजा के पुत्र का नाम। भविष्य पुराण के अनुसार ये सुवर्णयाग के पुत्र थे। इनके राज्य में शिवमंदिर सर्वत्र वर्तमान थे।

अमूर्त—नाभादासजी के अनुसार एक प्रसिद्ध हरिभक्त ब्राह्मण। ये शैशव-काल से ही बड़े त्यागी तथा भाग्यवान् थे।

अमूर्तरयस्—दे० 'आधूर्तरजस्'।

अमोघा—शंतनु मुनि की पत्नी। एक बार ब्रह्मदेव शंतनु मुनि के यहाँ पधारें। उनकी अनुपस्थिति में अमोघा ने ही इनका आतिथ्य-सत्कार किया। इनके सुन्दर रूप

को देखकर ब्रह्मदेव का वीर्यपात हो गया जिससे लोहित नामक तेजस्वी पुत्र की उत्पत्ति हुई।

अयोध्या—कोसल जनपद के सूर्यवंशी राजाओं की राजधानी।

अरिदम—शाब्दिक अर्थ—शत्रुनाशक। गोपियों ने रास-लीला के पूर्व कृष्ण को इसी संज्ञा से संबोधित किया है। कृष्ण उस समय तक अपना अंत करने के लिए भेजे गए कितने ही दानव तथा दानवियों का संहार कर चुके थे; संभवतः इसी कारण गोपियों ने उन्हें इस नाम से पुकारा था।

अरिष्ट—१. एक राक्षस, बलि का पुत्र। कंस ने इसे भी कृष्ण का वध करने के लिए वृंदावन भेजा था। इसकी आकृति वृष की-सी थी; इस कारण यह व्रज में जाकर वहाँ के पशुओं में मिल गया था। किंतु इसे अपने बीच देखकर व्रज के पशु तथा गोप-गोपी सभी भयभीत हो गये थे। कृष्ण ने यह देखकर इसका वध कर डाला था। २. योगवाशिष्ठ के अनुसार एक राजा का नाम जो महर्षि वाल्मीकि के समसामयिक थे और राज्य त्याग कर गंधमादन पर्वत पर तप करते थे।

अरुंधती—१. कर्दम मुनि की कन्या तथा वशिष्ठ की पत्नी। महाभारत में एक कथा आती है कि अत्यंत निष्ठावान् वशिष्ठ के प्रति भी अरुंधती के मन में सदैव उनके दुश्चरित्र होने की आशंका बनी रहती थी। उसी पाप से उनकी प्रभा धूमराण की भाँति मलीन पड़ गई और वे कभी दृश्य तथा कभी अदृश्य रहने लगीं। २. एक नक्षत्र। आकाश मण्डल में सप्तर्षिमण्डल में वशिष्ठ के निकट ही अरुंधती की स्थिति है। कहा जाता है कि मृत्यु निकट आने पर लोगों को यह नक्षत्र दिखाई नहीं पड़ता। विवाह में सप्तपदी परिक्रमा के बाद वरवध को अरुंधती नक्षत्र का दर्शन कराया जाता है। अरुंधती नक्षत्र के ही आधार पर 'अरुंधती दर्शन न्याय' की भी कल्पना की गई है। ३. दत्त प्रजापति की कन्या तथा धर्म की पत्नी।

अरुण—प्रातःकाल के देवता, सूर्य के सारथी तथा कश्यप इंद्र के पुत्र। इन्हें अनुर भी कहते हैं।

अर्जुन—१. पांडु के तृतीय ज्येष्ठ पुत्र। प्रथम दो क्रमशः युधिष्ठिर और भीम थे। इनकी माता का नाम कुंती था, जो पंच कन्याओं में से एक थीं। उसने दुर्वासा द्वारा विरचित मंत्र से इंद्र का आह्वान किया था और उन्हीं के सहवास से अर्जुन की उत्पत्ति हुई थी। अतः अर्जुन इंद्र के ही औरस पुत्र हुए। दे० 'कुंती'। धनुर्वेद-पारंगत गुरु द्रोण के ये प्रधान और सर्वप्रिय शिष्य थे। वाण-विद्या के क्षेत्र में महारथी कर्ण इनके एकमात्र प्रतिद्वन्दी थे। दे० 'द्रोण', 'कर्ण'। इसी कला के बल से इन्होंने स्वयंवर में मत्स्य वेध कर द्रौपदी से विवाह किया, जो नियति के विधान में पड़कर पाँचों पांडवों की वधु बनी। परंतु अर्जुन से उसका विशेष प्रेम होना स्वाभाविक था। दे० 'द्रौपदी'। अपने बारह वर्ष के गुप्तवास में अर्जुन ने परशुराम से भी अस्त्र-शिक्षा प्राप्त की। इसी बीच उलूपी नामक एक नागकन्या से उनका

प्रेम हो गया जिससे इरावत नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ । मणिपुर के राजा चित्रभानु की पुत्री चित्रांगदा से भी उन्होंने विवाह किया था, जिससे वशुवाहन की उत्पत्ति हुई जो चित्रभानु के निस्संतान दिवंगत होने पर उनका उत्तराधिकारी बना । अर्जुन का विवाह श्री कृष्ण की भगिनी सुभद्रा से भी हुआ था, जिसका होनहार पुत्र अभिमन्यु चक्रव्यूह के युद्ध में अकेला सप्तमहारथियों द्वारा निर्दयता से मारा गया था । द्रौपदी के गर्भ से जो पुत्र पैदा हुआ था, वह अश्वत्थामा के द्वारा महा-भारत के युद्ध में अंतिम दिन वीरगति को प्राप्त हुआ । अर्जुन के पराक्रम से प्रसन्न होकर कई देवताओं ने उन्हें दिव्य शस्त्र प्रदान किए थे । युधिष्ठिर द्वारा जुए में साम्राज्य गँवा देने पर अर्जुन तपस्या करने हिमालय पर चले गए जहाँ उनसे किरात रूपधारी शिव से युद्ध करना पड़ा । किंतु जब इनको उनके असली स्वरूप का ज्ञान हुआ तो इन्होंने शिवजी का अभिनंदन किया जिससे प्रसन्न होकर शिवजी ने इन्हें पाशुपत अस्त्र प्रदान किया । इसी प्रकार देवाधिदेव इंद्र से भी इन्हें कई युद्धास्त्र प्राप्त हुए थे । कृष्ण की सहायता से खाण्डव वन जलाकर अजीर्ण रोगग्रस्त आग्निदेव को भी इन्होंने प्रसन्न किया था । उनकी कृपा से आग्नेयास्त्र और गाण्डीव की प्राप्ति हुई थी, जिसकी टंकार के श्रवणमात्र से शत्रुओं के छक्के छूट जाते थे । अमरावती में इंद्र के साथ विहार करते समय उर्वशी इन पर मोहित हो गई थी किंतु उसकी कामवासना संतुष्ट करने में असमर्थता प्रकट करने के कारण उसने इनको नपुंसक होने तथा स्त्रियों के बीच नृत्य करने का श्राप दे दिया था । फलस्वरूप अज्ञातवास के समय 'वृहन्नला' नाम से इन्हें विराट राजकुमारी उत्तरा को नृत्य की शिक्षा भी देनी पड़ी थी । अंत में कौरवों के विरुद्ध कुरुक्षेत्र में पाण्डवों का घोर संग्राम हुआ जिसमें स्वयं कृष्ण अर्जुन के सारथी बने । युद्ध के आरंभ में अर्जुन द्वारा मोह प्रकट करने पर कृष्ण ने उन्हें सुप्रसिद्ध भगवद्गीता का उपदेश दिया । युद्ध में इन्होंने शत्रु पक्ष के सहस्रों योद्धाओं का वध किया जिनमें भीष्म, सुशर्मन्, जयद्रथ, कर्ण तथा अश्वत्थामा जैसे महावीर भी थे । युद्ध के परचात् युधिष्ठिर ने विराट अश्वमेध किया जिसके उप-लक्ष्य में अर्जुन ने दिग्विजय यात्रा करके अनेक राष्ट्रों को पराजित किया । अन्त में कृष्ण द्वारा आमंत्रित किये जाने पर वे द्वारका गये । यादवों का नाश होने पर वहाँ से उन्होंने हिमालय की ओर प्रस्थान किया और वहाँ उनका स्वर्गवास हुआ । गुडाकेश, धनंजय, विष्णु, किरीटिन्, पाकशासनि, फाल्गुन, सव्यशाचिन् पार्थ, वीमत्सु, तथा श्वेतवाहन आदि उनके अनेक पर्याय हैं । २. हैहय राजा कृतवीर्य के पुत्र जो कार्तवीर्य नाम से प्रसिद्ध हैं । ३. कृष्ण के मित्र एक गोप । ४. एक मध्य-कालीन प्रसिद्ध वैष्णव भक्त ।

अर्द्धनारीनटेश्वर-शिव का रूप विशेष । प्रजोत्पत्ति की इच्छा से ब्रह्मा द्वारा घोर तप किये जाने पर शिव ने अपना यह रूप उत्पन्न किया जिसके वामांग में पार्वती के

रूप में नारी का शरीर और दक्षियांग में स्वयं शिव के रूप में पुरुष का शरीर था ।

अर्जुन-१. एक असुर जिसकी मृत्यु उसके शत्रु इंद्र के वज्र से हुई थी । २. आवू पर्वत अथवा उसके समीपस्थ के निवासियों की संज्ञा ।

अर्यमन-१. एक वैदिक देवता जो विश्वदेवों में से एक हैं । २. करयप तथा अदिति के पुत्र पितृगण में प्रमुख हैं । ३. द्वादश आदित्यों में से एक जो वैशाख मास में उदय होते हैं और जिनकी किरणों की संख्या ३०० मानी जाती है ।

अर्यमा-१. जंबू द्वीप के हिरण्यखण्ड के पुजारी । इस खंड के अधिष्ठातृ देव सूर्य भगवान हैं । २. पित्रों में प्रमुख । ३. बारह आदित्यों में से एक । ४. विश्वदेवों में से एक । अर्लंबुप-महाभारतकालीन एक राक्षस जो कौरवों के पक्ष में लड़ता हुआ सात्यकी द्वारा पराजित हुआ और भीम के पुत्र घटोत्कच द्वारा मारा गया ।

अर्लंबुपा-एक देवांगना जो सुंदरता तथा नृत्यकला में अद्वितीय थी । एक बार ब्रह्मा के स्थान पर नृत्य करते हुए वायु के भोंके से उसका वस्त्र उड़ जाने के कारण उसके गुह्यांग अनावृत हो उठे जिन्हें देखकर विधूम नामक एक गंधर्व कामपीडित हो उठा । ब्रह्मा तथा इंद्र आदि सम्मान्य देवताओं की उपस्थिति में ही दोनों एक दूसरे पर मुग्ध होकर कामचेष्टा करने लगे । इस व्यवहार से क्रुद्ध होकर ब्रह्मा ने (मतांतर से इंद्र ने) उन्हें मनुष्य-योनि में जन्म पाने का शाप दिया । फलतः अर्लंबुपा राजा कृतवर्मा के वंश में मृगावती नाम से और विधूम पांडवों के वंश में सहस्रानीक के नाम से उत्पन्न हुए । दोनों का परस्पर विवाह भी हुआ और कथा है कि मृगावती की गर्भावस्था में नररक्त से स्नान करने का दोहद हुआ और ऐसा करते समय कोई पक्षी इसे मांसपिंड समझकर उड़ा ले गया किंतु वहाँ किसी दिव्य पुरुष ने इसकी रक्षा की और इसे मुक्त कर उदयगिरि पर जमदग्नि के आश्रम में रखा । वहाँ उसे उदयन नामक एक महातेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुआ । एक दिन संयोगवश मृगया खेलते समय बालक उदयन ने एक मदारी को साँप पकड़ते देख दयार्द्र होकर उसे मुक्त कराने के बदले अपनी माता का कङ्कण उत्तारकर दे डाला जिसे लेकर मदारी धूमता हुआ सहस्रानीक के राज्य में पहुँचा और बँचते समय पकड़ा गया । अपनी प्रिय रानी का पता मिलते ही सहस्रानीक सदलवल उदयनगिरि पहुँचा जहाँ १४ वर्ष के लंबे वियोग के परचात् मृगावती से उसका पुनर्मिलन हुआ । कथा के अनुसार यह वियोग तिलोत्तमा के शाप के कारण हुआ था । कालांतर में उदयन को राज्यभार सौंपकर सहस्रानीक ने सपत्नीक वाणप्रस्थाश्रम में प्रवेश किया और वहाँ चक्रतीर्थ में स्नान कर दोनों ने शापमुक्त होकर अपनी-अपनी पूर्व योनि को प्राप्त किया ।

अर्लंबल-एक राक्षस जिसके पिता जटासुर का वध पांडवों द्वारा हुआ था । जन्म से ही पांडवद्वीही होने के कारण महाभारत युद्ध में इसने कौरवों का पक्ष लिया और घटोत्कच द्वारा मारा गया ।

अलकनंदा-गंगा की एक प्रधान शाखा जिसे शिव ने अपने जटा-पाश में १०० वर्ष तक उलझा रखा था। इसे भगीरथ ने सगर के पुत्रों का उद्धार करने के लिये मर्त्यलोक में अवतरित किया। दे० 'गंगा'।

अलका-मेरु पर्वत पर कुत्रे की राजधानी। कालिदास ने मेघदूत में इसकी स्थिति हिमालय बतलाई है। अलका ही गंधर्वों का स्थान है।

अलक्ष्मी-लक्ष्मी की ज्येष्ठा भगिनी। लिंग पुराण के अनुसार समुद्रमंथन के समय रत्न के रूप में इसकी उत्पत्ति लक्ष्मी के पूर्व हुई थी। इसी से इसे ज्येष्ठा कहा जाता है।

अलर्क-सती मदालसा के धर्मपरायण पुत्र जिन्हें उनकी माता ने वचपन में ही धर्म के उपदेश दे देकर उनकी बाल-भावना को उसी ओर प्रवृत्त कर दिया था। पुराणों में एक शव का भक्षण करते हुए दो पिशाचों का वर्णन है जिनका भगड़ा न टूटते देखकर अलर्क ने उनमें से एक को स्वयं अपना ही शरीर समर्पित कर दिया। इससे प्रसन्न होकर विष्णु और शिव ने इन्हें अपने सच्चे स्वरूप का दर्शन दिया जिसे इनकी परीक्षा लेने के लिये पिशाचों के स्वरूप में परिवर्तित कर रखा था और इन्हें वरदान दिया कि जो जिस इच्छा से उनके पास आवेगा उसकी वही इच्छा पूरी होगी। दे० 'ऋतध्वज' तथा 'मदालसा'।

अलायुध-महाभारत-कालीन एक राक्षस जिसके कुटुंब के बहुत से व्यक्तियों को भीम ने मारा था। युद्ध में इसकी मृत्यु भीम के पुत्र षटोत्कच द्वारा हुई।

अलिभगवान-एक प्रसिद्ध वैष्णव भक्त एवं प्रचारक जो 'रासविहारी' के नाम से श्रीकृष्ण की उपासना किया करते थे।

अल्ह-स्वामी रामानंद की गुरु परंपरा में विख्यात वैष्णव आचार्य जो स्वामी अनन्तानंद के सात पद शिष्यों में से एक थे। नाभादास जीने इनके संबंध में लिखा है :- 'अनंतानंद पद परिस के लोकपाल से लूँ भए।' दे० 'अनंतानंद'। इनके संबंध में ऐसी अनुश्रुति है कि इनके लिए आम की डालें स्वयं झुक आई थीं। दे० 'जसु-स्वामी'।

अवधूतेश्वर-शिवजी का एक रूप विशेष। शिवपुराण के अनुसार एक बार इंद्र और बृहस्पति शिव का दर्शन करने चले। परीक्षा लेने की दृष्टि से शिव ने विकराल रूप धारण कर इनका रास्ता रोक दिया। इंद्र ने धर्म-च्युत हो अपना वज्र चलाया जिसे शिव ने रोक लिया और उससे अग्नि की ज्वाला निकलने लगी। अंत में बृहस्पति की प्रार्थना से अग्नि शांत हुई।

अविहोता-नाभादास जी के अनुसार नव योगीश्वरों में से एक प्रमुख वैष्णव भक्त। दे० 'योगीश्वर'।

अशरफ-(सैयद)-एक प्रसिद्ध सूफ़ी महात्मा जो मलिक मुहम्मद जायसी के गुरु और पथ-प्रदर्शक थे।

अशुकवंल-अष्टकुली महानागों में से एक जो वैकुण्ठ के द्वारपाल भी माने जाते हैं। नाभादास जी के अनुसार प्रत्येक हरिभक्त को पहले इन नागराजों को प्रसन्न

करना चाहिए। विष्णुपुराण में इनकी संख्या बारह बताई गई है। दे० 'पुलापत्र' तथा 'अनंत'।

अशोक-दाशरथि राम के एक आमात्य और भक्त। ये बड़े तत्वज्ञानी और नीति-विशारद थे।

अश्वकेतु-महाभारत कालीन एक साहसी राजा जो युद्ध में कौरवों के पक्ष में लड़ते हुए अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु के द्वारा मारे गये थे।

अश्वत्थामा-द्रोण के पुत्र। इनकी माता कृपा शरद्वान की पुत्री थीं। भूमिष्ठ होते ही बौद्धों के समान दिन-हिनाने के कारण देवताओं ने इनका नाम 'अश्वत्थामा' रख दिया और इन्हें अमर होने का वरदान दिया।

कुरुक्षेत्र के संग्राम में अश्वत्थामा कौरवों के पक्ष के सेनापति थे। एक बार रात्रि के समय, जब सभी सो रहे थे पांडवों के शिविर में जाकर अपने पितृहंता धृष्टद्युम्न के साथ शिखण्डी तथा पांडवों के पाचों पुत्रों का इन्होंने वध कर डाला। पुत्रों के वियोग से तड़पती हुई द्रौपदी की दशा देखकर अर्जुन को बड़ा चोभ हुआ और उन्होंने अश्वत्थामा को युद्ध के लिए ललकारा।

अश्वत्थामा के द्वारा ऐशिकाक्ष का प्रयोग होने पर अर्जुन ने उसके निराकरण के लिए ब्रह्मशिराख उठाया किंतु ऐसा अनर्थ होते देखकर व्यास, नारद, तथा धर्मराज युधिष्ठिर सभी उनके विरुद्ध हो गए। द्रौपदी ने भी ब्रह्महत्या के डर से अश्वत्थामा के प्राण लेने की अपेक्षा उसके मस्तक में स्थित मणि पर ही अधिकार करने की इच्छा प्रकट की।

फलतः अर्जुन ने उसके सिर की मणि काट कर उसे छोड़ दिया। वह मणि द्रौपदी को मिली जिसे उसने युधिष्ठिर को दे दिया। दे० 'द्रोण' तथा 'दुपद'।

अश्वपति-ये केकय देश के राजा तथा दशरथ की सुंदरी रानी कैकेयी के पिता थे। दे० 'कैकेयी'।

अश्वलायन-कल्पसूत्र तथा गृह्यसूत्रों के रचयिता तथा प्रसिद्ध ऋषि शौनक के पुत्र। प्रसिद्ध वैयाकरण कात्यायन भी इनके वंशज थे। इनका समय ४०० ई० पू० के लगभग माना जाता है।

अश्वसेन-प्रसिद्ध सर्पराज तक्षक का पुत्र जिसका परिवार खांडव वन में रहता था। पांडवों द्वारा इस वन में आग लगाये जाने के समय पिता की अनुपस्थिति में माता ने इसे बचाने के प्रयत्न में अपना प्राण त्याग दिया। इसका भी आधा शरीर जल चुका था किंतु इंद्र ने घनघोर जल-वृष्टि कर इसके प्राण बचा लिए। माता की मृत्यु का परिशोध करने के लिए महाभारत में सर्प का रूप धारण कर यह कर्ण के तूषीर में पहुँच गया किंतु इसके चलाये जाने पर अर्जुन ने अपना सिर नीचे कर लिया जिससे केवल उनके मुकुट को ही क्षति पहुँची। विफल मनोरथ होने पर इसने कर्ण से अपना सारा भेद खोलकर पुनः वाण-रूप में चलाये जाने का आग्रह किया किंतु आदर्श वीर कर्ण ने इसे अनुचित समझकर उसकी प्रार्थना अस्वीकृत कर दी। निदान यह स्वयं अर्जुन की ओर लपका और उनके बाणों से मारा गया।

अश्विनी-१. दक्ष प्रजापति की एक कन्या जिसका विवाह

चंद्रमा के साथ हुआ था। २. एक नक्षत्र जिसका मुख अश्व के समान माना जाता है। अश्विन मास की पूर्णिमा को चंद्रमा इसी नक्षत्र में निवास करते हैं। इस तिथि को 'शरद पूर्णिमा' कहते हैं। मतांतर से यह तिथि कार्तिकी पूर्णिमा की पड़ती है।

अश्विनीकुमार—दो वैदिक देवता। ये सूर्य के औरस पुत्र माने जाते हैं। इनकी माता एक अप्सरा थी जिसने अश्विनी का रूप धारण कर लिया था। यह देख सूर्य ने भी अश्व का रूप धारण कर लिया। उनके सहवास से जिन युगल कुमारों की उत्पत्ति हुई वे "अश्विनीकुमार" कहलाए। ये चिरयुवा, चिरसुन्दर, दिव्य तेजयुक्त, लोकोपकारक एवं देव चिकित्सक थे। ये ऊषा के पूर्व दिव्य रथ पर आरूढ़ होकर आकाश में विचरण करते हैं। संभवतः इसी आधार पर वे सूर्य के पुत्र के रूप में कल्पित कर लिए गये हों। निरुक्तकार इन्हें 'स्वर्ग तथा पृथ्वी' और 'दिन तथा रात्रि का प्रतीक मानते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार नकुल तथा सहदेव की उत्पत्ति इन्हीं के अंश से मानी जाती है। इन्होंने अतिवृद्ध च्यवन ऋषि को चिर-यौवन प्रदान किया था जिसके प्रतिकूल स्वरूप च्यवन ने इंद्र से कहकर इन्हें देवताओं का यज्ञभाग दिलवाया था, जिससे चिकित्सक होने के कारण अश्विनीकुमार वंचित रहते थे। दे० 'च्यवन'।

अष्टावक्र—महाभारत के अनुसार ये कहोड़ नामक ब्राह्मण के पुत्र थे। कहोड़ ने अपना विवाह अपने गुरु महर्षि उद्दालक की पुत्री सुजाता के साथ किया था। अष्टावक्र के संबंध में यह कथा प्रचलित है कि इन्होंने गर्भावस्था ही में अपने पिता को अशुद्ध वेदपाठ करने के लिए टोक दिया था। पिता ने क्रुद्ध होकर शाप दिया कि भूमिष्ठ होते ही उसका शरीर वक्र हो जाय। आठ स्थानों पर टेढ़ा होने के कारण उसका नाम 'अष्टावक्र' पड़ा। शरीर से टेढ़े होने पर भी इनकी बुद्धि बड़ी तीक्ष्ण थी। बारह वर्ष की अवस्था में ही इन्होंने मिथिला के राजपंडित को शास्त्रार्थ में पराजित कर अपने मृत पिता का जीवोद्धार किया जो उक्त पंडित से हारने के कारण जल में डूबा दिये गये थे। अतुल धन-संपत्ति के साथ लौटते हुए मार्ग में इन्होंने अपने पिता के आदेशानुसार समंगा नदी में स्नान किया जिससे उनके शरीर की वक्रता भी जाती रही। मिथिला के राजपंडित से जो प्रश्नोत्तर हुए थे, वे 'अष्टावक्र संहिता' में संगृहीत हैं।

असमंजस—सगर तथा केशिनी का पुत्र जो बड़ा उद्धत एवं अत्याचारी था। पिता के द्वारा श्यक्त होने पर भी यही राज्य का उच्चाधिकारी हुआ और कालांतर में बड़ा प्रसिद्ध हुआ। प्रसिद्ध राजा अंशुमान इसके पुत्र थे।

असित—एक सूर्यवंशी राजा जिनके पिता का नाम ध्रुव-संधि था। ये बड़े विख्यात योद्धा किंतु क्रोधी स्वभाव के थे। हैहयवंशी राजाओं से इनके अनेक युद्ध हुए और अंत में उनसे पराजित होकर ये हिमालय की किसी गुफा में सपरिवार जा छिपे।

अस्ती—मथुरा के प्रसिद्ध राजा कंस (कृष्ण के मामा) की पत्नी और राजा जरासंध की ज्येष्ठ कन्या। इसकी

छोटी बहन प्राप्ति का भी विवाह कंस के ही साथ हुआ था।
अहल्या—प्रसिद्ध पद्म कन्याओं में से पहली। इनके पिता का नाम मुद्गल था। मतांतर से ये मेनका तथा वृद्धाश्व की पुत्री थीं। अन्य मत से ये ब्रह्मा की मानस पुत्री थीं। इनका विवाह गौतम ऋषि के साथ हुआ था। वाल्मीकि रामायण के अनुसार ब्रह्मा ने अहल्या की मृष्टि संसार की सुंदरतम वस्तुओं का सार लेकर की थी और उसे महर्षि गौतम को सौंप दिया था। देवराज इंद्र ने इनपर आसक्त हो चंद्रमा की सहायता से गौतम के छद्म वेश में इनके साथ भोग किया। सारा भेद खुलने पर महर्षि ने दोनों को शाप दिया जिसके फलस्वरूप इंद्र नपुंसक और सहस्रयोनि हुआ तथा अहल्या पापाण्यमयी (मतांतर से अदृश्य)। इंद्र के शाप का निराकरण देवताओं के यत्न से हुआ। उन्हें मेघ का पुंसत्व प्राप्त हुआ और सहस्र योनि सहस्र नेत्र में परिवर्तित हो गये। अहल्या द्वारा बहुत परचाताप करने पर ऋषि ने उसके शाप का स्वयं यह निराकरण किया कि त्रेता में श्री विष्णु के अवतार राम के चरण-स्पर्श से उसका उद्धार होगा। समय आने पर जनकपुर जाते समय राम की वरणरज के स्पर्श से (मतांतर से दर्शन प्राप्त कर) अहल्या पुनः अपना पूर्वरूप पाकर राम का यशोगान करती हुई पतिलोक की चली गई। कुमारिल भट्ट के अनुसार यह उपाख्यान एक रूपक मात्र है। अहल्या और इंद्र क्रमशः रात्रि तथा सूर्य के प्रतीक हैं। मतांतर से अहल्या अनुर्वरा भूमि अथवा जडबुद्धि की भी प्रतीक है। दे० 'गौतम' तथा 'इंद्र'।

अहि—दे० 'शेष' और 'वासुकि'।

अहिरावण—पाताल में अहिरावण तथा महिरावण के नाम से रावण के दो मित्र थे। ये दोनों घोर पराक्रमी और क्रूरकर्मा थे। इन्होंने राम लक्ष्मण को बड़ा कष्ट दिया किंतु अंत में मास्ति की सहायता से दोनों सपरिवार नष्ट हुए।

आंगिरिष्ठ—एक प्रसिद्ध राजर्षि जिन्होंने कामंद नामक ऋषि से धर्म तथा तत्त्वविद्या का ज्ञान प्राप्त किया था।

आंगिरस—१. अंगिरस कुलोद्भव ऋषियों का नाम। ये अथर्ववेद के प्रवर्तक थे। २. बृहस्पति का एक पर्याय। दे० 'बृहस्पति'।

आंगिरसी—वसु की पत्नी का नाम।

आकथ—मंकण के पुत्र का नाम। ये एक बहुत बड़े शिव-भक्त थे। एक बार इनके घर में आग लग जाने के कारण उसमें प्रतिष्ठापित शिवलिंग आधा जल गया। अतएव भक्ति के आवेश में इन्होंने भी अपना आधा शरीर जला दिया। इससे प्रसन्न होकर शिवजी ने इन्हें साक्षात् दर्शन दिया और वरदान स्वरूप उन्हें दिव्य शरीर प्रदान किया।
आकाशज विप्र—ब्रह्मदेव का नाम। इनका पार्थिव शरीर नहीं है और न यम द्वारा इनकी मृत्यु होने की ही संभावना रहती है। ये जन्म-मृत्यु से परे विज्ञान रूप हैं।
आकृति—यह गारुड विद्या के एक आचार्य का नाम है, जिन्होंने युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ के अवसर पर दक्षिण दिशा की विजय करने में सहदेव की सहायता की थी।

आखंडल-इंद्र का पर्याय । दे० 'इंद्र' ।

आगस्त्य-अगस्त्य ऋषि के पुत्र का नाम ।

आग्नीध्र-प्रियव्रत और वहिष्मती के ज्येष्ठ पुत्र का नाम ।

विष्णुपुराण के अनुसार इनका नाम अग्नीध्र था । उर्जा-

स्वती नाम की इनकी एक भगिनी थी । दे० 'अग्नीध्र' ।

आजकेशिन-इंद्र का नामांतर । इन्होंने वक का प्रतिकार किया था ।

आजगर-महाभारतकालीन एक प्रसिद्ध ब्राह्मण का नाम जो अयाचित वृत्ति से रहते थे ।

आज्य-सार्वाणि मनु के पुत्र का नाम ।

आज्यप-पितृगण में से एक । ये ब्रह्मा के मानसपुत्र पुलह के वंशज थे और यज्ञों में आज्यपान करने के कारण इनका यह नाम पड़ा था ।

आटविन्-याज्ञवल्क्य के वाजसनेय शिष्य । व्यास की श्रुति शिष्य-परम्परा में इनकी उत्पत्ति मानी जाती है ।

आडि-अंधकासुर के पुत्र का नाम । इसने जोर तपस्या के द्वारा ब्रह्मा को प्रसन्न करके अमरत्व का वरदान मांगा किंतु ऐसा असंभव होने के कारण इसे इच्छानुसार रूप परिवर्तन करने का वर मिल गया जिसके बल पर निर्भय होकर इसने अनेक अत्याचार किये । शिवाजी का पराभव करने के लिए यह कैलास गया जहाँ वीरभद्र से इसका युद्ध हुआ । युद्ध में मृत्युभय से इसने सर्प का रूप धारण किया किंतु उसमें भी प्राणों का संकट देखकर इसने पार्वती का रूप धारण कर लिया । अंत में शिव को इस कपट रूप का पता लगा और उन्होंने इसका वध किया ।

आतातापि-एक प्राचीन ऋषि तथा धर्मशास्त्र ग्रंथ के प्रणेता ।

आत्मदेव-एक प्रसिद्ध ब्राह्मण का नाम जो तुंगभद्रा के तट पर रहते थे और निस्संतान होने के कारण बहुत चिंतित रहा करते थे । एक सिद्ध ने पुत्रोत्पत्ति के लिए इनकी पत्नी को एक फल खाने को दिया किंतु उसने वह फल अपनी वहन को दे दिया । वहन ने भी स्वयं न खाकर उसे एक गाय को खिला दिया । ब्राह्मण को जो पुत्र उत्पन्न हुआ उसका नाम धुंधकारी पड़ा और गाय को जो पुत्र हुआ उसके ब्रह्म जैसे कान होने के कारण उसका नाम गोकर्ण पड़ा । धुंधकारी वड़ा अत्याचारी हुआ और गोकर्ण को कष्ट दिया करता था । गोकर्ण ने ज्ञान मार्ग का आश्रय लेकर परमार्थ प्राप्त किया ।

आत्रेय-अत्रि मुनि के पुत्र । कालांतर में अत्रि कुलोत्पन्न सभी ब्राह्मणों की संज्ञा आत्रेय हो गई ।

आत्रेयी-अत्रि मुनि की कन्या का नाम । इनका विवाह अग्नि के पुत्र अंगिरा के साथ हुआ था जिससे इनके पुत्र 'अंगिरस' नाम से प्रसिद्ध हुए । दे० 'अंगिरा' ।

आत्रेयस्मृति-एक स्मृति ग्रंथ जिसके रचयिता अत्रि मुनि कहे गये हैं ।

आदित्य-अदिति के पुत्र और एक प्रसिद्ध वैदिक देवता । चाबुप मन्वन्तर में इनका नाम खण्डा था । वैवस्वत मन्वन्तर में ये आदित्य कहलाए । कालांतर में इन्हें सूर्य का पर्याय माना जाने लगा । पहले आदित्यों की संख्या छः ही थी जो क्रमशः मिश्र, अर्यमन्, भग, वरुण, दक्ष तथा अंश

के नाम से प्रसिद्ध थे । वेदोत्तर काल में प्रत्येक मास के लिए एक एक आदित्य की कल्पना हुई । तैत्तिरीय ब्राह्मण में भी आठ आदित्यों के नाम आते हैं—१. अंश, २. भग, ३. धातु, ४. इंद्र, ५. विवस्वन्, ६. मिश्र, ७. वरुण तथा ८. अर्यमन् । मतांतर से आठवें आदित्य अदिति के पुत्र मार्तण्ड थे । आदित्य वास्तव में एक देववर्ग का नाम था जिसमें सर्वप्रमुख विष्णु थे ।

आदित्यकेतु-धृतराष्ट्र के एक पुत्र का नाम जिसका वध भीम ने किया था ।

आदिवराह-भगवान् विष्णु का एक अवतार जो हिरण्याक्ष से पृथ्वी का उद्धार करने के लिए हुआ था । दे० 'वराह' ।

आधूत रजस-गय राजा के पिता का नाम । मतांतर से इनका नाम अमूर्तरयस् था ।

आनंद-१. एक प्रसिद्ध ब्राह्मण जिनकी उत्पत्ति महर्षि गालव्य के कुल में हुई थी । २. मेधातिथि के सात पुत्रों में से एक । ३. महात्मा बुद्ध के एक शिष्य जिनमें तथागत का इतना विश्वास था कि वे इन्हें अपने समान ही समझते थे ।

आनंदगिरि-शंकराचार्य के शिष्य और वेदांत के प्रकांड पंडित 'शंकर दिग्विजय' इनका प्रसिद्ध ग्रंथ है, जिसमें आचार्य के शास्त्रार्थों तथा मुख्य कृत्यों का विवरण है । शंकर के 'शारीरक भाष्य' की टीका, तथा गीता और उपनिषदों पर इनके भाष्य अत्यंत विद्वत्तापूर्ण हैं ।

आनंदवर्धन-एक प्रसिद्ध काश्मीरी पंडित तथा काव्य-शास्त्र के आचार्य 'कान्यालोक' 'ध्वन्यालोक' तथा 'सहृदयालोक' इनके प्रसिद्ध ग्रंथ हैं । ये ध्वनिवादी हैं और अलंकार शास्त्र के आचार्यों में इनका महत्त्वपूर्ण स्थान है । कलहण की राजतरंगिणी में एक स्थल पर इनका जिक्र आता है जिसके अनुसार ये काश्मीर के राजा अवंतिवर्मा के राजपंडित सिद्ध होते हैं । अवंतिवर्मा का समय नवीं शताब्दी माना जाता है ।

आनकदुंदुभि-कृष्ण के पिता वसुदेव का एक नामांतर । इनके जन्म के अवसर पर देवताओं ने आनंद से दुंदुभी वजाई थी इसी से इनका यह नाम पड़ा । दे० 'वसुदेव' ।

आनर्त-राजा शर्याति के पुत्र का नाम ।

आपस्तंब-प्रसिद्ध वैदिक ऋषि तथा स्मृतिकार । इनका समय तीसरी शताब्दी ई० पू० माना जाता जाता है । इस नाम के कई ऋषि मिलते हैं किंतु दो विशेष प्रसिद्ध हैं—एक सूत्रकार और दूसरे स्मृतिकार । इनके नाम पर आपस्तंब संहिता भी प्रसिद्ध है जिसमें कृतकर्मों के फल तथा पापों के प्रायश्चित्त का विस्तारपूर्वक विवरण है । धर्म में ससा का स्थान सर्वोपरि माना गया है ।

आपिशलि-एक प्रसिद्ध वैयाकरण जिनका उल्लेख पाणिनि ने संधिप्रकरण में किया है । इनके द्वारा प्रणीत आपिशलि नामक ग्रंथ में काशिका तथा कैयट का उल्लेख होने से ज्ञात होता है कि काशिकाकार तथा कैयट इनके के पूर्व हो चुके थे ।

आयु-प्रसिद्ध चंद्रवंशी राजा पुरुरवा के ज्येष्ठ पुत्र जिनका

विवाह राजा वाहु की कन्या के साथ हुआ था। इससे इन्हें पाँच पुत्र हुए थे।

आयोद धौम्य—एक प्रसिद्ध वैदिक ऋषि जिनके तीन शिष्य उपमन्यु, आरुणि तथा वेद विशेष प्रसिद्ध हैं।

आराकरन—एक प्रसिद्ध वैष्णव भक्त तथा कवि।

आरुणि—प्रसिद्ध वैदिक ऋषि आयोद धौम्य के शिष्य। इनकी गुरुभक्ति के संबंध में एक कथा प्रसिद्ध है, जिसके अनुसार एक नाली को बाँधने के लिए गुरु ने इन्हें आज्ञा दी थी। न बाँध सकने के कारण जल के वेग को रोकने के लिए ये स्वयं लेट गए थे और बहुत समय बीत जाने पर गुरु के आने पर अचेत मिले। इससे प्रसन्न होकर आयोद धौम्य ने इनका नाम 'उद्दालक' रक्खा।

आर्जव—छतक्रीड़ा कुशल शकुनि के एक वंशु का नाम जिसका वंश अर्जुन के पुत्र हरावान ने किया था।

आजीगर्ति—शुनःशेष का पैतृक नाम।

आर्जिहायन—काश्यपगोत्रीय ऋषियों का नाम।

आर्यक—कद्रु का एक पुत्र जिसकी कन्या मारीपा का विवाह यदुकुलोत्पन्न राजा शूर के साथ हुआ था।

आर्य जेमीश्वर—एक प्रसिद्ध विद्वान् कवि तथा नाटककार। इनके द्वारा रचित 'चंड कौशिक' नामक नाटक अत्यंत प्रसिद्ध है, जिसके आधार पर भारतेन्दु हरिश्चंद्र ने अपना विख्यात नाटक 'सत्य हरिश्चंद्र' लिखा था। इनका समय निश्चित रूप से नहीं ज्ञात है किंतु साहित्यदर्पण में इनका उल्लेख होने से इन्हें विश्वनाथ के पूर्व का ही माना जायगा।

आर्यभट्ट—बीजगणित के प्रथम प्रवर्तक। कोल्युक के अनुसार इनका जन्म कुसुमपुर (पटना) में ४७६ ई० के लगभग हुआ था। इन्होंने अपना ज्योतिष संबंधी ग्रंथ २३ वर्ष की ही अवस्था में तैयार कर लिया था। 'आर्य-सिद्धांत' इनका प्रसिद्ध ग्रंथ है। इस नाम के एक और ज्योतिर्विद इनसे कुछ काल परचात् हुए जिन्हें 'लघु' आर्यभट्ट कहा जाता है।

आर्यश्रुंगि—महाभारतकालीन एक राक्षस का नाम जो कौरवों के पक्ष में लड़ते हुए अर्जुन के पुत्र हरावान द्वारा मारा गया था।

आर्षिपेण—एक सत्ययुगीन राजर्षि का नाम जिन्होंने घोर तप करके ब्राह्मणत्व प्राप्त किया था। इनका आश्रम हिमालय पर नारायणाश्रम के समीप था जहाँ महाप्रस्थानकाल में पांडव इनके पास गये थे। ये एक प्रसिद्ध मंत्रकार भी थे। इनका दूसरा नाम अहिषेण भी मिलता है।

आर्लंब—धर्मराज की सभा के एक प्रसिद्ध ऋषि।

आलवार—वैष्णव सिद्धांत के प्रमुख प्रचारकों का सामूहिक नाम, जिनकी संख्या बारह मानी जाती है। वैष्णव लोग इन्हें विष्णु के आयुद्धों का अवतार मानते हैं।

आशधर—मध्यकालीन एक प्रसिद्ध वैष्णव भक्त।

आश्वलायन—ऋग्वेद की एक शाखा के प्रवर्तक ऋषि और शौनक के शिष्य। इनके रचे हुए श्रौतसूत्र, गृह्य-सूत्र तथा आश्वलायन स्मृति नामक ग्रंथ प्रसिद्ध हैं, जिनमें पहला १२ अध्यायों का, तथा दूसरा ४ अध्यायों का है।

आसंग प्लायोर्गि—वेदकालीन एक दानवीर राजा तथा सुक्त-द्रष्टा का नाम।

आसकर—मध्यकालीन एक प्रसिद्ध वैष्णव भक्त तथा राजर्षि।

आसकरन—कछवाहा राजा पृथ्वीराज के वंशज राजा भीम सिंह के पुत्र तथा कीर्तव्य देव स्वामी के शिष्य, एक वैष्णव भक्त। ये नटवरगढ़ के राजा थे और युगल मोहन (अर्थात् जानकीमोहन राम तथा राधामोहन कृष्ण) की उपासना करते थे। कहा जाता है कि ये अपने उपास्य की आराधना में इतने तन्मय रहा करते थे कि एक बार जब किसी शत्रु ने इनके ऊपर आक्रमण करके तलवार से इतकी एड़ी काट दी तो ध्यानमग्न रहने के कारण उनके ऊपर इसका कुछ प्रभाव ही नहीं पड़ा। इन्हें पहुँचा हुआ भक्त समझकर शत्रु लौट गया।

आसमंजस—असमंजस राजा के पुत्र अंशुमान। दे० 'अंशुमान'।

आसावरी—आसावरी एक बड़ा ही श्रुति मधुर प्रातर्गैय राग है। इसके आरोह में गंधार तथा निषाद वर्जित है। इसमें धैवत वादी (प्रधान स्वर) तथा गंधार संवादी है, और ये दोनों स्वर भरसक आंदोलित रहते हैं। प्राचीन मत के अनुसार आसावरी में षष्ठम भी कोमल लगना चाहिये। पर यह मत कम प्रचलित है। यह राग करुण-रस-प्रधान होता है।

आसुरायण—त्रैवणी (मतांतर से आसुरी) के शिष्य। ब्रह्माण्ड पुराण के अनुसार ये पाराशर्य कौशुम के शिष्य थे।

आसुरि—भरद्वाज मुनि के एक प्रसिद्ध शिष्य तथा औप-जवनी के गुरु का नाम। मतांतर से ये याज्ञवल्क्य तथा आसुरायण के भी शिष्य बतलाए जाते हैं। ये सायंहोम के पक्षपाती तथा उद्विहोम के घोर विरोधी थे। अग्नि के उपस्थापन के संबंध में इनका एक मंत्र भी है।

आसुरी—देवताजित राजा की पत्नी तथा देवयुज की माता का नाम।

आस्तीक—जरस्कार ऋषि के पुत्र जिनकी माता जरस्कार नागराज वासुकी की बहन थीं। जनमेजय के सर्पयज्ञ में जब संसार भर के सर्पों की आहुति दी जा रही थी तब आस्तीक ने ही वासुकी तथा उसके परिवार की रक्षा की थी।

आहार्य—आंगिरस गोत्रीय एक मंत्रकार का नाम।

आहुक—मृत्तिकावत् नगरी के भोजवंशी राजा अभिजित के पुत्र जो बड़े पराक्रमी तथा ऐश्वर्यशाली थे। इनका विवाह कार्या से हुआ था जिससे देवक तथा उग्रसेन नाम के दो पुत्र उत्पन्न हुए थे। मतांतर से ये पुनर्वसु के पुत्र थे और इनके पुत्र का नाम शंभर था। महाभारत के अनुसार कृष्ण से इनका युद्ध भी हुआ था।

आहुकी—पुनर्वसु राजा की कन्या तथा आहुक की भगिनी। राजा की यमल संतान में पुत्र का नाम आहुक और पुत्री का नाम आहुकी था। दे० 'अहुक'।

इंदिरा-लक्ष्मी का एक पर्याय । दे० 'रमा' तथा 'लक्ष्मी' ।
इंदीवराक्ष-१. विद्याधराधिप नलनाभ के गंधर्व पुत्र का नाम । २. भगवान विष्णु का एक नामांतर ।

इंदु-चंद्रमा का नामान्तर । दे० 'चंद्रमा' ।

इंदुमणि-एक प्रसिद्ध मणि (रत्न) का नाम । दे० 'चंद्रकांत' ।

इंदुमती-विदर्भराज भोज की भगिनी का नाम जिन्होंने स्वयंवर में राजा अज को पतिरूप से वरण किया था । पूर्व जन्म में यह हारिणी नाम की अस्पृशा थीं जिन्हें इंद्र ने तृणविट्टु नामक ऋषि की तपस्या भंग करने के लिए भेजा था । वहाँ ऋषि ने इन्हें मनुष्ययोनि में जन्म लेने का शाप दिया किंतु अत्यन्त अनुनय विनय करने पर स्वर्गीय पुष्प का दर्शन करने से पुनः इंद्रलोक में लौट सकने का वचन दिया । फलतः एक बार अज के साथ वाटिका विहार करते समय इन्हें नींद आ गई और वहीं लतामण्डप में शयन करते समय स्वर्ग से आते हुए नारद की वीणा से पारिजात की माला इनके ऊपर गिरी जिससे इनकी मृत्यु हो गई । श्रीरामचन्द्र जी के पिता दशरथ की उत्पत्ति रानी इंदुमती के ही गर्भ से हुई थी ।

इंद्र-आकाश तथा बादलों के प्रतीक-स्वरूप स्वीकृत हुए देवता । ऋग्वेद के त्रिदेवों में अग्नि तथा सूर्य अथवा वरुण के साथ इनका भी नाम मिलता है । इस प्रकार ये उस काल के प्रमुख देवता थे । ऋग्वेद में इनके सम्बन्ध में लगभग २५० मंत्र मिलते हैं । इससे अधिक मंत्र किसी और देवता के संबंध में नहीं हैं । इन संज्ञों में बार-बार इंद्र से दासों तथा दस्युओं के नगरों का नाश करने की प्रार्थना की गई है । जल की वर्षा के लिये भी उनका स्मरण किया गया है । एक स्थान पर उनके देवराज होने की कथा इस प्रकार दी हुई है: देव प्रजापति के पास जाकर बोले कि 'राजा के बिना युद्ध करना असंभव है ।' यज्ञ करके उन्होंने इंद्र से राजा होने की प्रार्थना की, और वे देवराज हो गये । ऋग्वेद में कई स्थान पर इंद्र के द्वारा वृत्र के परास्त होने की बात कही गई है । पुराणों में यह कथा और भी विकसित रूप में देखने को मिलती है । ऋग्वेद में इनकी माता का नाम निष्टित्री मिलता है । इनकी माता ने इन्हें सहस्र मास गर्भ में रक्खा था तथा जन्म के समय ही इनके वीर्यपूर्ण होने के कारण वे प्रमत्त हो गई थीं । एक स्थान पर इंद्र के अपने पिता को पाद-द्वय पकड़ कर मार डालने की बात भी लिखी है । अथर्व-वेद के अनुसार इनकी माता का नाम एकाष्टका था जिन्होंने घोर तप के उपरांत महाशक्तिमान इंद्र को जन्म दिया जिनके द्वारा देवताओं ने असुरों और दस्युओं का विनाश किया । इंद्र के पिता सोम हैं । शतपथ ब्राह्मण के अनुसार इंद्र की उत्पत्ति प्रजापति से हुई थी । तैत्तिरीय ब्राह्मण के अनुसार देवताओं ने मिलकर प्रजापति से यह अभिमंत्रणा की कि असुरों की सृष्टि हो जाने पर उनके दमनकर्ता की भी आवश्यकता पड़ेगी । इस पर प्रजापति ने इंद्र की उत्पत्ति के लिये देवताओं को तप करने के लिये प्रेरित किया । दीर्घ काल तक तप करने के अनंतर उन्हें अपनी ही आत्मा के अन्दर इंद्र का भान हुआ और उनसे देव-

ताओं ने जन्म ग्रहण करने की प्रार्थना की । अंत में अभी-प्लित ऋतु, संवत्सर तथा नक्षत्र आदि में इंद्र का जन्म हुआ । आगे के साहित्य, महाभारत तथा पुराणों में इंद्र के चरित्र में वह महानता नहीं मिलती । त्रिदेवों में उनका स्थान नहीं रह जाता और उनके चरित्र की कुछ दुर्बलताएँ भी हमारे सामने स्पष्ट होती हैं । वाल्मीकीय रामायण में इनके रावण के पुत्र मेघनाद से पराजित होकर बंदी होने की बात मिलती है । देवताओं को इनकी मुक्ति के लिये रावण को अमर होने का वरदान देना पड़ा था । महाभारत में गौतम की स्त्री अहिल्या के साथ इनके बलात्कार करने की कथा मिलती है, जिसके कारण इनके शरीर पर एक सहस्र योनि के चिह्न हो गये थे, किंतु बाद को वह आँखों में परिवर्तित हो गये जिससे इनका नाम सहस्राक्ष हुआ । तैत्तिरीय ब्राह्मण में इन्द्राणी के साथ विवाह के संबंध में यह लिखा है कि इन्होंने उसे उसके पिता पुलोमा को मारकर प्राप्त किया था । इंद्र के चैत्रज नहीं औरस पुत्रों में वालि तथा अर्जुन का नाम लिया जाता है । वृत्रासुर के संबंध में पुराणों में लिखा है कि इंद्र ने उसके वध के लिये दधीचि से उनकी हड्डियाँ लेकर उनका वज्र व्रनवाया था और उससे उसका संहार किया था । ब्रज के लोग भी इंद्र की उपासना करते थे; किंतु कृष्ण ने उन्हें गोवर्धन की पूजा के लिये जागरूक किया था । इंद्र ने क्रोधित होकर प्रलय के मेघों को ब्रज को डुबाने के लिये भेजा था । कृष्ण ने उस समय गोवर्धन को अपनी झिगुनी पर धारण कर ब्रजवासियों की रक्षा की थी । उसके बाद इंद्र की पूजा के कोई विशेष उल्लेख नहीं मिलते हैं । समुद्र-मंथन के उपरांत इन्हें ऐरावत नामक हाथी, उच्चैःश्रवा नामक अश्व और पारिजात नामक वृक्ष मिले थे । ऋग्वेद के अनुसार इंद्र एक आदित्य होते हुये भी द्वादश आदित्यों से भिन्न हैं । इनके पुत्र का नाम जयंत, भवन का नाम वैजयंत तथा पुरी का नाम अमरावती है ।

इंद्रकील-मंदराचल का नामांतर । दे० 'मंदर' । इसी पर्वत पर अर्जुन ने तप किया था और शिवजी से युद्ध करके पाशुपतास्त्र प्राप्त किया था ।

इंद्रजीत-मेघनाद का एक पर्याय । दे० 'मेघनाद' ।
इंद्रद्युम्न-१. सुमति के पुत्र तथा भरत के पौत्र । २. अर्बुति के राजा जिन्होंने विष्णु मंदिर का निर्माण कराया था । इसी मंदिर में आगे चलकर जगन्नाथ की स्थापना हुई । पुराणों के अनुसार स्वयं विष्णु ने समुद्रतट पर एक काष्ठ-खंड प्राप्त होने का इन्हें स्वप्न दिया था, जिसको कटवाकर इन्होंने कृष्ण, बलराम तथा सुभद्रा की मूर्तियाँ बनवाई थीं । ३. एक प्राचीन ऋषि जो मार्कंडेय से भी पूर्व के थे और पथभ्रष्ट होने के कारण मर्त्यलोक में आ गये थे ।

इंद्रप्रमति-ऋग्वेद के एक प्राचीन आचार्य तथा अध्यापक जो महर्षि पैल के शिष्य थे । इनके पुत्र त्रिख्यात मांडूक्य ऋषि थे जिनका उपनिषद् प्रसिद्ध है । मांडूक्य को वेदों की शिक्षा अपने पिता द्वारा ही प्राप्त हुई थी ।

इंद्रप्रमति वासिष्ठ-वासिष्ठ कुलोत्पन्न एक ऋषि का

नाम । ऋग्वेद में इनके नाम पर दो ऋचाएँ तथा एक सूक्त प्राप्त होते हैं ।

इंद्रवर्मन—महाभारतकालीन मालवा के राजा जो प्रसिद्ध राज अश्वत्थामा के स्वामी थे और कौरवों के पक्ष में लड़े थे ।

इंद्रसावर्णि—मनु का एक नामांतर । भागवत के अनुसार ये चौदहवें मन्वन्तर के मनु थे ।

इंद्रसेन—१. युधिष्ठिर के सारथि का नाम । २. ऋषभदेव तथा जयंती के पुत्र का नाम । ३. राजा नल का पुत्र । ४. माहिष्मती के एक राजा । ५. राजा कूर्च का पुत्र । ६. महाभारतकालीन एक कौरवपक्षीय राजा ।

इंद्रसेना—राजा नल की कन्या ।

इंद्रालव—एक ऋषि का नाम जो ऋक् शिष्य परंपरा में व्यास के शिष्य माने जाते हैं ।

इक्ष्वाकु—१. वैवस्वत मनु के पुत्र तथा सूर्यवंश के प्रथम राजा, जिन्होंने अयोध्या में कोसल राज्य की स्थापना की थी । प्रसिद्ध राजा रामचंद्र जी इन्हीं के वंशज थे । मनु की छींक से इनकी उत्पत्ति होने के कारण इनका नाम इक्ष्वाकु पड़ा । इनके सौ पुत्र बड़े जाते हैं जिनमें विकुचि, निमि और दंड विशेष प्रसिद्ध हैं । शकुनि आदि इनके पचास पुत्र उत्तरापथ के तथा शेष दक्षिणापथ के राजा हुए थे । २. एक दूसरे इक्ष्वाकु काशी के राजा हुए थे जिनके पिता का नाम सुवंधु था । इनकी उत्पत्ति इक्ष्वाकु से होने के कारण इनका नाम इक्ष्वाकु पड़ा ।

इडा—१. वैवस्वत मनु की कन्या का नाम जिसकी उत्पत्ति प्रजासृष्टि के अभिप्राय से यज्ञकुण्ड में डाले हुए हविष्य से हुई थी । इसका विवाह बुध के साथ हुआ जिससे पुरूरवा नामक पुत्र उत्पन्न हुआ । दे० 'पुरूरवा' । शतपथ ब्राह्मण के अनुसार इडा की उत्पत्ति उस यज्ञकुण्ड से हुई थी जिसका निर्माण मनु ने संतानोत्पत्ति के संकल्प से किया था और उसका पाणिग्रहण मित्रावरुण ने किया था । २. मानव शरीर की एक नाड़ी का नाम जिसका प्रयोग संस्कृत के योग साहित्य तथा हिंदी के संत साहित्य में प्रायः मिलता है । इडा, पिंगला तथा सुपुग्ना नाड़ियों को क्रमशः गंगा, यमुना तथा सरस्वती का प्रतीक माना गया है ।

इड़ापिड़ा—दे० 'इलविला' ।

इध्मजिह्व—प्रियव्रत तथा वहिष्मती के दस पुत्रों में से द्वितीय का नाम जो प्लक्ष द्वीप के स्वामी थे ।

इरावत—अर्जुन के एक पुत्र का नाम जिसकी उत्पत्ति ऐरावत नाग की विधवा कन्या उलूपी से हुई थी । नागशत्रु गरुड द्वारा जामाता का वध होने पर ऐरावत ने अपनी पुत्री को अर्जुन के हाथ समर्पित कर दिया । इसी के गर्भ से इरावत (अथवा इरावान) की उत्पत्ति हुई जिसने महाभारत युद्ध में कौरवों का प्रखुर संहार किया और अंत में दुर्योधन-पक्षीय आर्यशृंग नामक राक्षस द्वारा मारा गया ।

इरावती—रावी नदी का नामांतर । इसका यूनानी नाम हिड्राओटीस है ।

इलराज—कर्दम प्रजापति के पुत्र तथा बह्लीक देश के एक प्राचीन राजा । इनके संबंध में कथा प्रचलित है कि एक बार ये शिकार खेलते-खेलते ऐसे वन में पहुँच गए जहाँ जाने पर पुरुष स्त्री में परिवर्तित हो जाता था । फलतः समस्त सेना सहित अपने को स्त्री रूप में पाकर वे बड़े चिंतित हुए और उस स्वरूप से मुक्ति पाने के लिए शिव जी की आराधना करने लगे । किंतु शिवजी ने अपनी असमर्थता प्रकट की । निदान पार्वती की तपस्या करने पर उन्हें आंशिक सफलता प्राप्त हुई, जिसके अनुसार वे एक महीना पुरुष और एक महीना स्त्री के रूप में रहने लगे ।

इलविला—एक देवकन्या जिसकी उत्पत्ति अप्सरा अलंबुपा तथा तृणविट्टु से मानी जाती है । एक मत से यह विश्रवा की पत्नी और कुबेर की जननी मानी जाती है । दे० 'कुबेर' मतांतर से यह पुलस्त्य की पत्नी तथा विश्रवा की जननी मानी जाती है । दे० 'पुलस्त्य' ।

इलवृत—अग्नीध्र के नौ पुत्रों में से एक जो जंबूद्वीप के स्वामी माने जाते हैं ।

इला—वैवस्वत मनु तथा श्रद्धा की कन्या । मनु ने पुत्रोत्पत्ति की लालसा से यज्ञ किया किंतु उनकी भार्या श्रद्धा कन्या चाहती थीं जिसके लिए वे नियमपूर्वक दुग्धपान करके रहती थीं और होता से कन्या के लिए ही प्रार्थना करवाती थीं । फल-स्वरूप इला नामक कन्या की उत्पत्ति हुई । मनु ने वसिष्ठ से अपने दुःख का निवेदन किया जिनकी प्रार्थना से आदि पुरुष ने इला को ही पुरुष-रूप में परिवर्तित कर दिया जो सुद्युञ्ज के नाम से प्रसिद्ध हुआ । दे० 'सुद्युञ्ज' तथा 'वैवस्वत' ।

इलापत्र—द्वादश प्रधान नागराजों में से एक जिन्हें अष्टकुली महासर्प या महानाग भी कहते हैं । भक्तमाल के अनुसार ये भगवान् के मंदिर के द्वारपाल हैं और इनकी सम्मति के बिना कोई उसमें प्रवेश नहीं पा सकता । अतः भगवान् का सांनिध्य प्राप्त करने के लिए पहले इन्हें प्रसन्न करना आवश्यक है ।

इलावृत—मेरु पर्वत के मध्य में स्थित एक वन जहाँ शिव का वास कहा जाता है ।

इष्टिपरुप—यज्ञ की हवन सामग्री के चीटों का सामूहिक नाम । व्यापार साम्य के कारण यज्ञ सामग्री सुराने वाले राक्षसों को यह संज्ञा दी गई थी ।

ईश—१. शिव का नामांतर । दे० 'शिव' । २. एक उपनिषद् का नाम ।

ईशान—शिव अथवा रुद्र का रूपान्तर जो उत्तरपूर्व कोण के स्वामी माने गए हैं ।

ईश्वरकृष्ण—सांख्य-कारिका के प्रणेता एक प्रसिद्ध आचार्य का नाम ।

ईश्वरसी—ताभा जी के अनुसार एक प्रसिद्ध राजवंशीय वैष्णव भक्त ।

उक्त—स्वाहा के पुत्र का नाम । विष्णुपुराण के मत से ये

छल के तथा भविष्यपुराण के मत से छद्मकारी के पुत्र थे। इन्होंने दस सहस्र वर्ष राज्य किया।

उकथ्य-सामवेद के एक भाग का नाम जो ब्रह्मा के दक्षिण मुख से कहा हुआ माना जाता है।

उख-एक आचार्य का नाम जिनका समावेश पितृ तर्पण के अंत में किया गया है।

उग्र-१. एक राक्षस जिसके पुत्र का नाम वज्रहा था। २. शिव की वायुमूर्ति का नाम। ३. धतराष्ट्र के एक पुत्र का नाम जिसका वध भीम के द्वारा हुआ था।

उग्रक-कद्रू के एक पुत्र का नाम।

उग्रकर्मा-महाभारतकालीन साल्व राजा का नाम जिसका वध भीम ने किया था।

उग्रचंडा-दुर्गा का एक नामांतर। आश्विन मास की कृष्ण नवमी को शाक्त लोग इनकी पूजा करते हैं। इनकी भुजाओं की संख्या अष्टादश मानी जाती है। सती ने इसी रूप में दक्ष का यज्ञ विध्वंस किया था। दे० 'सती'।

उग्रतप-एक प्राचीन ऋषि का नाम जिन्होंने गोपिकाओं के साथ विहार-मग्न कृष्ण का आराधन किया था जिसके फलस्वरूप कृष्णावतार में इनका जन्म गोकुल के सुनंद नामक गोप की कन्या के रूप में हुआ और इन्होंने कृष्ण की खूब सेवा की।

उग्रतारा-देवी का एक नामांतर। शुंभ-निशुंभ नामक राक्षस द्वय के अत्याचार से संतप्त देवताओं ने हिमालय पर एकत्र होकर ध्यानस्थ मातंग मुनि की बड़ी स्तुति की जिससे प्रसन्न होकर देवी मातंग मुनि की पत्नी के रूप में प्रकट हुईं और उनके शरीर से जो दिव्य तेज निकला उसी से दोनों राक्षसों का नाश हुआ। इसी से इनका एक नाम मातंगी भी है। दे० 'शुंभ' तथा 'निशुंभ'।

उग्रतीर्थ-महाभारतकालीन एक राजा का नाम जिन्होंने कौरवों के पक्ष में युद्ध किया था।

उग्रदंष्ट्री-मेरु की कन्या का नाम जिनका विवाह अग्नीध्र के पुत्र हरिवर्ष के साथ हुआ था।

उग्रदेव-एक पितृ-विशेष का नाम जिनका उल्लेख ऋग्वेद में तुर्वस तथा यदु के साथ आया है।

उग्रपश्मा-एक अप्सरा का नाम जो ब्राह्मणग्रंथों के अनुसार बुद्धा खेलने के पापों से मनुष्यों की रक्षा करती है।

उग्रमन्यु-महाभारत कालीन एक राजा का नाम जिन्होंने भारत युद्ध में पांडवों के विरुद्ध युद्ध करते हुए अर्जुन के हाथों वीरगति प्राप्त की थी।

उग्रसेन-१. एक बहुवंशी राजा जो प्रसिद्ध अत्याचारी कंस के पिता और राजा आहुक के पुत्र थे। इनकी माता का नाम काश्या था जिनके उग्रसेन तथा देवक नामक दो पुत्र थे। उग्रसेन के नौ पुत्र तथा पाँच कन्याएँ हुईं जिनमें सबसे ज्येष्ठ कंस ने अपने श्वसुर जरासंध की सहायता से इन्हें राज्यच्युत कर कारागार में डाल दिया और स्वयं राजा बन बैठा। दे० 'कंस'। २. महाभारत के अनुसार धतराष्ट्र के सौ पुत्रों में से एक का नाम। ३. सूर्य के एक सहचर का नाम।

उग्रसेना-अक्षर की एक स्त्री का नाम।

उग्रहय-यह राम के अश्वमेध यज्ञ करने के समय यज्ञाश्व की रक्षा के लिए लक्ष्मण जी के साथ गया था।

उग्रायुध-कृत राजा के पुत्र। भागवत के अनुसार नीपा के पुत्र थे। राजा शांतनु के निधन के पश्चात् इन्होंने सत्यवती का पाणिग्रहण करना चाहा था जिससे क्रुद्ध होकर भीष्म ने इनका वध कर डाला।

उघवृत्ति-महाभारतकालीन एक ब्राह्मण का नाम जो बड़े दरिद्र थे और भिचाटन से निर्वाह करते थे। एक बार भिचाटन में इन्हें केवल एक सेर सत्तू मिला। अत्यंत क्षुधित होने पर भी इन्होंने उसमें से अग्नि और ब्राह्मण का भाग अलग करके शेष में अपने पुत्र तथा कुटुंबियों का भाग लगाया। जब स्वयं खाने बैठे तो ब्राह्मणवेश-धारी यम और धर्म ने परीक्षा के लिए इनसे भोजन माँगा। पहले इन्होंने उन्हें अपना भाग दे दिया किंतु जब उन्होंने अपने परिवार के लिए भी भोजन माँगा तो ब्राह्मण ने अपने बच्चों का भाग भी उन्हें समर्पित कर दिया। अंत में धर्म ने प्रसन्न होकर इन्हें सदैह स्वर्ग जाने का वरदान दिया।

उच्चैःश्रवा-१. एक प्राचीन राजा जो मत्स्यवंश के पोषक पिता थे। २. इंद्र के श्वेत अश्व का नाम जो समुद्रमंथन के समय निकले हुए चौदह रत्नों में से एक था। इसकी कीर्ति तथा श्रुति के चारों दिशाओं में व्याप्त होने के कारण इसका नाम उच्चैःश्रवा पड़ा।

उज्जयिनी-एक प्राचीन नगरी का नाम जिसे आजकल उज्जैन कहते हैं।

उतंक (उतंग)-सतंग ऋषि के एक प्रसिद्ध हरिभक्त शिष्य जिन्हें गुरु ने त्रेता युग में श्री रामचंद्र जी के दर्शन पर्यंत तप करने की आज्ञा दी थी। आज्ञानुसार वे दण्डक वन में निरंतर तप करते रहे जहाँ उन्हें वनवासी राम के दर्शन प्राप्त हुए।

उतथ्य-एक प्राचीन ऋषि का नाम जो सुरगुरु बृहस्पति के बड़े भाई थे। एक बार बृहस्पति ने कामातुर होकर इनकी पत्नी समता के पास जाकर अपनी इच्छा प्रकट की। गर्भवती होने के कारण समता ने उनकी इच्छा का विरोध किया जिससे रुष्ट होकर बृहस्पति ने शाप दे दिया कि गर्भस्थ बालक जन्मांध हो जायगा। उतथ्य के इस जन्मधि पुत्र का नाम दीर्घतमा पड़ा। उतथ्य बड़े बुद्धिमान तथा प्रसिद्ध ज्ञानी थे। मत्तांतर से उतथ्य अगिरा गोत्रीय एक ऋषि थे और इनकी पत्नी भद्रा, जो सोम की कन्या थीं, अर्घ्वं सुन्दरी थीं। वरुणदेव, जो उन पर पहले से ही आसक्त थे, इन्हें ऋषि के आश्रम से हर ले गये जिससे क्रुद्ध हो उतथ्य ने समुद्र का पान कर लिया, सरस्वती को अट्टर्य कर दिया और समस्त भूमि को शुष्क कर दिया। अंत में विचर हो वरुण ने भद्रा को इन्हें लाँघाया जिससे प्रसन्न हो उतथ्य ने पृथ्वी को पुनः जलपूर्ण कर दिया।

उत्कल-राजा सुशुत्र के पुत्र जिन्होंने अपने नाम से एक प्रदेश स्थापित किया था जो अब उड़ीसा नाम से प्रसिद्ध है।

उत्तम-राजा उत्तानपाद के पुत्र जिनकी उष्पति मुरचि

के गर्भ से हुई थी। अपनी पहली रानी सुनीति तथा उसके पुत्र ध्रुव की अपेक्षा राजा सुरुचि तथा उसके पुत्र को अधिक प्यार करते थे, किंतु एक बार सृगया खेलते समय उत्तम पथभ्रष्ट हो गया और एक यज्ञ के द्वारा मारा गया। उसकी खोज में सुरुचि भी उसी वन में जाकर पंचत्व को प्राप्त हुई। दे० 'ध्रुव' तथा 'उत्तानपाद'।

उत्तमौजस-पंचाल देशीय एक राजकुमार जिसने भारत-युद्ध में पांडवों की सहायता की थी। अभिमन्यु-वध के बाद जिस दिन अर्जुन ने जयद्रथवध की प्रतिज्ञा की थी उस दिन उत्तमौजस ने अपने भाई युधामन्यु के साथ अर्जुन के अंगरक्षक के रूप में अलौकिक पराक्रम का परिचय दिया था।

उत्तर-राजा विराट के पुत्र का नाम। पांडवों के अज्ञात-वास की अवधि समाप्त होते ही कौरवों ने भीष्म, द्रोण आदि के साथ विराट के गोगृह पर आक्रमण कर उन्हें बंदी बना लिया। कुमार उत्तर भी इनकी बड़ी सेना देख भयभीत हो गया किंतु वृहन्नला वेषधारी अर्जुन ने अपना वास्तविक परिचय देते हुए इसका साहस बँधाया और स्वयं युद्ध करके कौरवों को तितर-बितर कर दिया। भारत-युद्ध में उत्तर की मृत्यु शल्य द्वारा हुई थी।

उत्तरकुरु-जंबू द्वीप की उत्तरी सीमा के एक प्राचीन प्रांत का नाम जिसके निवासी भी इसी नाम से प्रसिद्ध थे।

उत्तर नैषध चरित-श्री हर्ष द्वारा प्रणीत एक महाकाव्य का नाम जिसकी रचना १००० ई० के लगभग हुई थी। इसमें राजा नल तथा दमयंती की कथा है। इसकी गणना संस्कृत के तीन सर्वश्रेष्ठ महाकाव्यों (शेष दो माघ रचित शिशुपालवध तथा भारवि रचित किराता-जुनीय हैं) में की जाती है।

उत्तरमीमांसा-मीमांसा नामक दर्शन की दो शाखाओं में से एक। पहली का नाम पूर्वमीमांसा है।

उत्तर रामचरित-महाकवि भवभूति रचित एक प्रसिद्ध नाटक जिसका रचना-काल आठवीं शताब्दी ईसवी के लगभग माना जाता है। इसमें राम के सिंहासनारूढ़ होने के बाद के जीवन की कथा है जिसका मुख्य आधार रामायण के उत्तरकांड की कथावस्तु है। कालिदासकृत अभिज्ञान शाकुंतल तथा भवभूति का उत्तर रामचरित संस्कृत के सर्वश्रेष्ठ नाटक माने जाते हैं। इस नाटक के अनुवाद विदेशी भाषाओं में भी हो चुके हैं।

उत्तरा-राजा विराट की पुत्री का नाम। अज्ञातवास के समय वृहन्नला रूपधारी तृतीय पांडव अर्जुन को इसकी संगीत नृत्यादिक की शिक्षा का भार दिया गया था। गोग्रहणकाल में अर्जुन के पराक्रम से सुगंध होकर विराट ने उत्तरा का विवाह अर्जुन से करना चाहा किंतु अर्जुन ने कहा कि मेरी शिष्या होने के कारण वह मेरी पुत्री की तरह है। अन्त में अर्जुन के पराक्रमी पुत्र अभिमन्यु के साथ उसका विवाह हुआ जिससे परीक्षित का जन्म हुआ। उत्तानपाद-स्वायंभुव मनु तथा सतरूपा के पुत्र। सुरुचि तथा सुनीति नाम की इनकी दो पत्नियाँ थीं जिनसे क्रमशः उत्तम और ध्रुव नामक दो पुत्र उत्पन्न हुए थे। राजा सुरुचि को अधिक चाहते थे और इसी पक्षपात के

कारण सुनीति के पुत्र ध्रुव की प्रायः अवहेलना करते रहते थे। एक बार उत्तम को पिता की गोद में बैठा देख बालक ध्रुव को भी उसके पास बैठने की स्पर्धा हुई; किंतु सुरुचि की उपस्थिति में राजा ने ध्रुव का तिरस्कार कर दिया। ध्रुव के कोमल हृदय को इस अपमान से बड़ी ठेस लगी और वे अपनी माता के पास जाकर फूट-फूटकर रोने लगे। माता ने सदुपदेशों से उन्हें सांत्वना दी। कालांतर में ध्रुव तप करने को वन में चले गये और इन्हीं के प्रताप से अंत में उत्तानपाद को ज्ञान हुआ। दे० 'ध्रुव'। उत्तानवर्हि-शर्याति राजा के तीन पुत्रों में से ज्येष्ठ का नाम।

उत्पलान्न-काश्मीर के एक प्राचीन राजा जो किसी सिद्ध महात्मा के पुत्र माने जाते हैं। इनके संबंध में यह कथा प्रचलित थी कि इनके विरोधी का तुरंत ही सर्वनाश हो जायगा।

उत्पलापीड-राजतरंगिणी के अनुसार काश्मीर के राजा अजितापीड के पुत्र जिन्हें सुखवर्मा ने राजा अनंगापीड को राज्यच्युत कर गद्दी पर बिठाया था। तीन वर्ष राज्य कर लेने पर ये भी राज्यच्युत कर दिये गये थे।

उदक शौलवायन-राजर्षि जनक के समकालीन एक तत्व-वेत्ता आचार्य का नाम जिन्होंने प्राण और ब्रह्म में अभेद संबंध प्रतिपादित किया था।

उदकसेन-हरितनापुर के एक प्राचीन राजा का नाम जिनके पिता का नाम विष्वकसेन था।

उदमय आत्रेय-एक ब्राह्मण आचार्य का नाम जो, ऐतरेय ब्राह्मण के अनुसार, अंग वैरोचन के पुरोहित थे।

उदय १. न्यूहवंशी कृष्णवर्मा के पुत्र का नाम जिन्होंने उदयपुर बसाया था। २. एक पर्वत का नाम जो पुराणों के अनुसार सूर्योदय का केंद्र-स्थल है।

उदयन-१. कौशांबी के प्रसिद्ध चंद्रवंशी राजा जो सहस्रा-नीक के पुत्र थे और वत्सराज के नाम से प्रसिद्ध थे। उज्जयिनी की राजकुमारी वासवदत्ता स्वप्न में इन्हें देख कर इन पर सुगंध हो गई थी। संयोगवश उदयन चंद्रसेन द्वारा बंदी बनाकर उज्जयिनी लाए गए किंतु मंत्री के प्रयत्नों से मुक्त हो गए। स्वतंत्र होने पर इन्होंने वासव-दत्ता का अपहरण करके उसके साथ विवाह किया। यह कथा संस्कृत के प्रसिद्ध नाटक स्वप्नवासवदत्ता में वर्णित है। इनके कूटनीतिज्ञ मंत्री यौगंधरायण ने इन्हें चक्रवर्ती बनाने की प्रतिज्ञा की थी जिसमें वह पूर्णरूप से सफल हुआ। इनके चरित्र के आधार पर संस्कृत के 'प्रतिज्ञा यौगंधरायण' नामक नाटक की रचना हुई। २. अगस्त्य का एक नामांतर। ३. विष्णुपुराण के अनुसार किन्हीं दर्भक के पुत्र का नाम भी उदयन था जिसे वायु तथा ब्रह्मा-एड पुराण में उदयिन कहा गया है और भविष्य में उदया-शस। गंगा के दक्षिण तट पर इन्होंने पुष्पपुर नामक नगर बसाया था जो पाटली पुत्र से अभिन्न ज्ञात होता है। उदयनाचार्य-एक प्रसिद्ध नैयायिक का नाम जो बौद्ध दर्शन के प्रबल विरोधी थे। इनका शास्त्रार्थ 'नैषधचरित' के प्रणेता श्री हर्ष के साथ हुआ था। बौद्ध धर्म का इस देश से उच्छेद करने में इनका भी हाथ माना जाता है।

न्याय कुसुमांजलि, आत्मतत्त्वविवेक, न्याय परिशिष्ट, न्याय-वार्तिक तथा तात्पर्य परिशुद्धि आदि इनके कई ग्रंथ प्रसिद्ध हैं।

उदयारव-दे० 'उदयन'।

उदयिन दे० 'उदयन'।

उदवसु-मिथिला के एक प्राचीन राजा जो राजर्षि जनक के पुत्र तथा सीता के भाई थे।

उदाराम-नाभादास के अनुसार एक मध्यकालीन वैष्णव भक्त तथा वैष्णवधर्म-प्रचारक का नाम।

उदारवात-भक्तमाल के अनुसार एक मध्यकालीन वैष्णव भक्त।

उदालक-एक प्राचीन ऋषि जो ब्रह्मविद्या के निष्पात विद्वान् और सामाजिक विधि-निषेध के प्रवर्तक माने जाते हैं। ये श्रौपवेशि गौतम के पुत्र तथा शिष्य थे। इनका पूरा नाम उदालक आरुणि और इनके पुत्र का नाम श्वेत-केतु था।

उद्वव-१. श्रीकृष्ण के परामर्शदाता तथा सखा। कहा जाता है कि यह वसुदेव के भाई देवनाग के पुत्र तथा श्रीकृष्ण के चचेरे भाई थे। कृष्ण के मथुरा चले जाने के कारण ब्रज की गोपियाँ जय विरह में व्याकुल रहती थीं तो कृष्ण ने इन्हें गोपियों के समझाने के लिए भेजा था। इन्होंने गोपियों को निराकार ब्रह्म की उपासना का उपदेश दिया था। श्रीमद्भागवत में गोपियाँ उनके उपदेश को सुनकर निराकार ब्रह्म की उपासना में साकार कृष्ण को भूल गई थीं। किंतु हिंदी कृष्णकाव्य में उद्वव स्वयं गोपियों के रंग में रँग जाते हैं और निराकार ब्रह्म को छोड़कर साकार ब्रह्म अपने सखा कृष्ण की उपासना करने लगते हैं। २. भक्तमाल के अनुसार एक प्रसिद्ध वैष्णव भक्त तथा नाभाजी के यजमान। ३. भक्तमाल के अनुसार अग्रदास स्वामी के शिष्य तथा नाभाजी के समकालीन एक वैष्णव भक्त। इन्हें उधौंजी (लघु) कहा जाता था। ४. भक्तमाल के अनुसार होशंगावाद के निवासी एक प्रसिद्ध वैष्णव भक्त का नाम जिन्होंने अपनी कोठी भक्तों को दान कर दी थी। ५. भक्तमाल के अनुसार एक वैष्णव भक्त जो ज्ञानी उद्वव से भिन्न हैं और जिनकी उत्पत्ति नाभाजी के अनुसार वनचर हनुमान के वंश में हुई थी। इसी लिए इन्हें वनचर उद्वव या उद्वव वनचर भी कहते हैं। उद्भ्रातृ-यज्ञ के बलिदान कर्म में वेद पाठ करने वाले वैदिक ब्राह्मणों का सामूहिक नाम।

उपकोसल कामलायन-कमल के पुत्र का नाम। इन्होंने सत्यकाम के यहाँ चारह वर्ष पर्यंत पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए विद्याध्ययन किया था। इनकी निष्ठा से प्रसन्न होकर सत्यकाम ने अन्य शिष्यों को दीक्षा-समारोह के पश्चात् विदा कर दिया किंतु इन्हें अत्यंत स्नेहपूर्वक अपने ही यहाँ रखा।

उपनंद-पर्जन्यसुत नवनों में से तृतीय का नाम जो भक्त-माल के अनुसार कृष्ण के परम भक्त तथा सखा थे।

उपनिषद्-उपनिषद् संस्कृत साहित्य के उन विशेष ग्रंथों-का नाम है जिनमें तत्त्वचिंतन का सर्वप्रथम प्रयास मिलता है। आत्मा, ब्रह्म, जीव, जगत् आदि गहन प्रश्नों की व्याख्या का मौलिक प्रयास इन्हीं ग्रंथों में

किया गया है और फिर इन्हीं से सांख्य, वेदांत आदि प्रसिद्ध पददर्शनों का विकास हुआ है। इन दर्शनों में जिन तत्त्वों का विकास किया गया है उनके बीज उपनिषदों में वर्तमान हैं। प्राचीनता में वेदों के बाद ही उपनिषदों का स्थान है। धार्मिक दृष्टि से भी इनकी मान्यता वेदों के समकक्ष मानी जा सकती है। किंतु उपनिषदों की संख्या के संबंध में बड़ा मतभेद है। इनकी संख्या इस समय तक दो सौ के ऊपर पहुँच चुकी है जिनमें से कुछ लोग केवल चार को ही प्रामाणिक मानते हैं। विद्यारण्य स्वामी के अनुसार उपनिषदों की संख्या बारह है। सब मिलाकर तत्त्वचिंतन के कुल चार ही प्रसंग उपनिषदों में मिलते हैं :- १. आत्मा की व्यापकता, २. आत्मा का देहांतर या पुनर्जन्म-ग्रहण, ३. सृष्टि तत्त्व, ४. प्रलय तत्त्व। छांदोग्य; केन, ईश, कठ तथा वृहदारण्यक मुख्य उपनिषद् माने जाते हैं।

उपमन्यु वासिष्ठ-१. वासिष्ठ कुलोत्पन्न श्री व्याघ्रपाद के पुत्र का नाम जिनका आश्रम हिमालय पर्वत पर था। इनकी माता का नाम अंबा तथा गुरु का नाम आपोद्धांभ्य था। उपमन्यु अपनी गुरुभक्ति के कारण बहुत प्रसिद्ध हैं। ये भिक्षा से बचे हुए अन्न पर अपना निर्वाह करते थे किंतु गुरु के निषेध करने पर उन्होंने उसका त्याग कर दिया। भिक्षा में पाई हुई समस्त सामग्री गुरु को देकर स्वयं स्तन्यपान के पश्चात् बड़ों के मुँह में लगे भाग, फेन इत्यादि से निर्वाह करने लगे। उनकी आज्ञाकारिता की परीक्षा लेने के लिए गुरु ने इसका भी निषेध कर दिया। आदेशानुसार उपमन्यु ने उसका भी त्याग कर दिया किंतु एक बार अत्यंत क्षुधित होने पर इन्होंने कपास के पत्ते चबा लिए, जिससे उनके नेत्रों की ज्योति जाती रही और भटक कर ये किसी कुएँ में गिर गए। दूसरे दिन खोजते हुए इनके गुरु ने इस दशा में देखकर इन्हें देववैद्य अश्विनीकुमारों की स्तुति करने का उपदेश दिया। अश्विनीकुमारों ने इन्हें खाने को श्रौपधि दी किंतु इनकी गुरुभक्ति उस सीमा तक पहुँच चुकी थी कि बिना उनकी आज्ञा के इन्होंने श्रौपधि ग्रहण करना भी उचित न समझा। इनकी गुरुभक्ति से प्रसन्न हो अश्विनी-कुमारों ने इन्हें दिव्यनेत्र प्रदान किए और गुरु ने इन्हें समस्त शास्त्र, वेद आदि का ज्ञान वरदान रूप में दिया। उपमन्यु के नाम से निम्नलिखित ग्रंथ प्रसिद्ध हैं :- १. नंदिकेश्वर कृत काशिका पर टीका, २. अर्द्धनारीश्वर-राष्टक, ३. तत्त्वविमर्षिणी मंत्र, ४. शिवाष्टक, ५. शिवस्तोत्र तथा ६. उपमन्यु निरुक्त। २. वेद ऋषि के एक शिष्य का नाम। ३. कृष्णवैपायन च्यास के पुत्र का नाम। ४. इंद्र प्रमति पुत्र वसु के पुत्र का नाम।

उपमश्रवसु-मित्रातिथी के पुत्र का नाम।

उपरिचर वसु-नुयन्वा के वंश का एक प्रसिद्ध चंद्रवंशी राजा जो चेदि जनपद के अधिपति थे। इनके पिता का नाम कृती (मत्तान्तर से कृतयज्ञ, कृतक) तथा इनके पाँच पुत्रों के नाम क्रमशः प्रत्यग्र, कुशांच वृहद्रथ, माचेल्ल और मत्स्य थे। इनमें वृहद्रथ तथा मत्स्य (यदु)

विशेष प्रसिद्ध हुए थे। इन्होंने अपने विशाल साम्राज्य को अपने पुत्रों में बाँट दिया था जिसके अनुसार यदु को मत्स्य देश मिला और जयद्रथ को मगध। राजा उपरिचर बड़े मृगयाव्यसनी थे किंतु कालांतर में इनके स्वभाव में बहुत परिवर्तन हो गया और ये अपना सारा समय तपश्चर्या में देने लगे। यहाँ तक कि इंद्र ने अपना इंद्रासन छिन जाने के डर से देवताओं को इन्हें विरत करने के लिए भेजा। इन्होंने उनकी प्रार्थना मान ली जिससे प्रसन्न हो इंद्र ने इन्हें एक माला और लाठी उपहार में दी थी।

उपरिमंडल-भृगुकुजोत्पन्न एक गोत्रकार का नाम। इनका दूसरा नाम परिमंडल भी मिलता है।

उपलोम-त्रिसिष्ट कुजोत्पन्न एक ऋषि का नाम।

उपवर्ष-पाटलीपुत्र के श्री शंकर स्वामी के पुत्र का नाम। ये पाणिनि के गुरु के भाई माने जाते हैं। शबर तथा शंकराचार्य ने इनका कई बार उल्लेख किया है। इन्होंने मीमांसा-सूत्रों पर वृत्ति की है। इनका दूसरा नाम बोधायन भी बताया जाता है, किंतु भाष्यकार इन दोनों को एक नहीं मानते।

उपसुंद-हिरण्यकशिपु के वंशज निसुंद अथवा निकुंभ नामक राजस के दो पुत्रों में से एक। इसके दूसरे भाई का नाम सुंद था। दोनों भाइयों ने शक्ति-प्राप्ति के लिए विंध्य गिरि पर घोर तपस्या की जिससे प्रसन्न होकर ब्रह्मा ने यह वर दिया कि वे परस्पर लड़ कर चाहे प्राण खो दें किंतु उन्हें कोई दूसरा नहीं मार सकेगा। फलतः उन्होंने मनमाने अत्याचार करने आरंभ किए जिससे त्रैलोक्य काँप उठा। अंत में देवताओं की प्रार्थना पर ब्रह्मा ने तिलोत्तमा नामक एक अनुपम सुंदरी की सृष्टि करके उसे भूलोक में इनके पास भेजा जिसे देखकर दोनों कामातुर होकर परस्पर लड़ते हुए नष्ट हो गए। दे० 'सुंद'।

उपस्त-एक सामवेदी ब्राह्मण का नाम।

उपावृद्धि-त्रिसिष्ट कुजोत्पन्न एक ऋषि का नाम।

उपाण-भक्तमाल के अनुसार एक प्रसिद्ध हरिभक्ति परायण महिला जिनका समय नाभा जो से कुछ पहले का था।

उभयजात-भृगुकुजोत्पन्न एक ब्रह्मर्षि का नाम।

उभयवाह-भक्तमाल के अनुसार दो अनन्य हरिभक्ति परायण राजकन्याएँ। ये संत-दर्शन के लिए इतनी आकुल रहा करती थीं कि अपने पुत्र को केवल इसलिए विप दे दिया था कि उसकी मृत्यु का रोना-धोना सुनकर संत लोग अवश्य आएँगे और इसी वहाने उनके दर्शन मिलेंगे। नाभा जी के अनुसार संतों की कृपा से इनके मृत पुत्र पुनः जीवित हो उठे थे।

उमा-महादेव की अर्द्धांगिनी। मेनका के गर्भ से उत्पन्न हिमालय की कन्या। महादेव की कठोर तपस्या में लीन रहने के कारण एक दिन इनकी माता ने इनसे कहा था, 'उमा' अर्थात् कठोर तपस्या न करो, तभी से इनका नाम 'उमा' हो गया। अपनी कठोर साधना से महादेव को प्रसन्न करके ही इन्होंने उन्हें अपने वर के रूप में पाया था। इनके नाम का प्रथम उल्लेख केन उपनिषद् में ब्रह्मा

तथा अन्य देवताओं के साथ मिलता है। 'मानमंजरी नाम-माला' में इनके निम्नलिखित पर्याय और मिलते हैं: अपर्णा, ईश्वरी, गौरी, गिरिजा, मृदा, चंडिका, अंबिका, भवा, भवानी, आर्षा, मेनकजा, अजा, सर्वमंगला तथा माया। उरगाद-सर्पों का भक्षण करनेवाले गरुड़। दे० 'गरुड़'। उरुक्रिय-वृहद्वल के पौत्र तथा वृहद्वल के पुत्र का नाम। इनका दूसरा नाम उरुच्य था।

उरुच्य-दे० 'उरुक्रिय'।

उरुश्रवस-सत्यश्रवा के पुत्र का नाम।

उर्मि-सोमे के पुत्र का नाम।

उर्मिला-१. सीरध्वज जनककी कन्या तथा लक्ष्मण की स्त्री का नाम। २. सोमदेव नामक गंधर्व की माता का नाम।

उर्व-ब्रह्मा के मानस पुत्र एक ऋषि का नाम जिनके पुत्र का नाम उर्वी था।

उर्वरा-एक अप्सरा का नाम।

उर्वरी मान-सार्वाणि मनु के पुत्र का नाम।

उर्वशी-स्वर्ग की एक अप्सरा का नाम जिसका जन्म नारायण की जंघा से माना जाता है। एक वार इंद्र की सभा में नृत्य करते हुए वह राजा पुरूरवा पर मुग्ध हो गई जिससे उसका ताल भंग हो गया। इस पर इंद्र ने उसे मर्त्यलोक में जन्म ग्रहण करने का शाप दिया। उर्वशी ने पुरूरवा का पत्नीत्व इस शर्त पर स्वीकार किया कि यदि वह राजा को नम्र देख ले अथवा वे उसकी इच्छा के विरुद्ध समागम करें, अथवा उसने दो मेघ यदि स्थानांतरित कर दिये जायँ तो वह उन्हें छोड़ कर पुनः स्वर्गलोक में चली जायगी। दोनों दीर्घकाल तक साथ रहे और पुरूरवा से उर्वशी के नौ पुत्र भी उत्पन्न हुए, पर उर्वशी की अप्रतिथिति उधर गंधर्वों को बहुत खजती थी और इन्होंने विश्ववसु नामक एक गंधर्व को उर्वशी के मेघों को चुराने के लिए भेजा। उस समय पुरूरवा नम्र थे और मेघों की चुराने की आहट पाकर वे उसी दशा में उनके पीछे दौड़े। इसी अवसर पर गंधर्वों ने सर्वत्र प्रकाश कर दिया जिससे उर्वशी ने महाराज को नम्र रूप में देख लिया। सारे प्रतिबंध टूट जाने पर उर्वशी शापमुक्त होकर पुनः स्वर्गलोक में चली गई। भागवत के अनुसार उर्वशी स्वर्ग की सर्वाधिक सुंदरी अप्सरा थी। ऋग्वेद में उर्वशी का संवादात्मक एक सूक्त है। महाकवि कालिदास का प्रसिद्ध नाटक विक्रमोर्वशी इसी की कथा पर आधारित है। महाभारत के अनुसार एक वार इंद्र के यहाँ अन्न विद्या सीखने आए हुए अर्जुन पर उर्वशी मोहित हो गई थी किंतु अर्जुन ने उसे माता के रूप में ही देखा जिससे रुष्ट होकर उसने इन्हें वर्ष भर नपुंसक रहने का शाप दे दिया था।

उर्विजा-पृथ्वी से उत्पन्न सीता का एक पर्याय। दे० 'सीता'।

उर्वीशु-पद्मपुराण के अनुसार एक प्रसिद्ध पापी का नाम जिसका उद्धार व्रत और दान से हुआ था।

उर्वी-पृथ्वी का एक पर्याय। दे० 'पृथ्वी'।

उर्वीभाव्य-मत्स्यपुराण के अनुसार पुरंजय के पुत्र का नाम।

उल्लवातायन-ऋग्वेद के एक सूक्तद्रष्टा आचार्य का नाम ।
उल्लवापिंगु वृद्ध-ब्राह्मण-साहित्य के एक आचार्य का नाम ।
उल्लुक्य ज्ञानश्रुतेय-ब्राह्मण-ग्रंथों में उद्धृत एक आचार्य का नाम ।

उल्लुक-१. प्रसिद्ध ऋषि विश्वामित्र के पुत्र का नाम । २. महाभारतकालीन शकुनी के पुत्र जो दुर्योधन के द्वारा दूत बनाकर युधिष्ठिर के पास युद्ध के अह्वान का संदेश सुनाने भेजे गये थे । युद्ध के अठारहवें दिन सहदेव के भाले से इनकी मृत्यु हुई थी । ३. हिरण्यनाभ के चार पुत्रों में से एक का नाम । ४. महाभारत आरण्यक पर्व के अनुसार द्रौपदी के स्वयंवर में उपस्थित एक राजा का नाम । ५. वैशेषिक दर्शनकार का नामांतर जिनका दर्शन 'श्रौलुक्य दर्शन' के नाम से प्रसिद्ध है ।

उल्लुकी-करयप तथा ताम्रा की कन्या का नाम जो महाभारत के अनुसार उल्लुकों की जननी मानी जाती है ।

उल्लुखल-हिरण्यनाभ के शिष्यों में से एक जो ब्रह्मांड पुराण के अनुसार व्यास की शिष्य-परम्परा में आते हैं ।

उल्लूप-विश्वामित्र कुलोत्पन्न ऋषिगण ।

उल्लुपी-एक नागकन्या का नाम, जो ऐरावत (नाग) के वंशज कौरव्य की पुत्री थीं । इसका विवाह पहले एक नाग से हुआ था किंतु गरुड़ द्वारा उसके भक्षित हो जाने पर उल्लुपी को अकाल वैश्वव्य भोगना पड़ा । इसी बीच ब्रह्मचारी वेश में तीर्थाटन करते हुए अर्जुन का उधर जाना हुआ जो अपनी प्रतिज्ञा भंग करने के कारण युधिष्ठिर की आज्ञा से बारह वर्ष का वनवास व्यतीत कर रहे थे । उल्लुपी इन पर मुग्ध हो इन्हें अपने निवास स्थान पाताल में ले गई जहाँ उसने अर्जुन से गंधर्व विवाह करने की इच्छा प्रकट की । अर्जुन ने अपनी परिस्थितियों पर विचार करते हुये पहले तो विवाह करने से इनकार किया किंतु उल्लुपी तथा उसके अभिभावक ऐरावत के निरंतर आग्रह के कारण उससे गंधर्व विवाह कर ही लिया जिससे इरावान नामक एक पुत्र की उत्पत्ति हुई । उल्लुपी ने अंत तक अर्जुन का साथ दिया और सशरीर स्वर्ग-रोहण के समय तक वह उनके साथ रहीं । अंत में वहीं गंगा में कूद कर अपना शरीर त्याग दिया । दे० 'अर्जुन' तथा 'इरावान' ।

उल्लुकासुर-वाल्मीकि रामायण के अनुसार राम की सेना के एक वानर वीर का नाम । जो अंगद के साथ सीता के अन्वेषण में दक्षिण दिशा को गया था ।

उल्लुकासुभट-भक्तमाल के अनुसार प्रसिद्ध वानरवीर और राम-सेना के प्रमुख नामों में से एक । इसने राम-रावण युद्ध में अद्भुत पराक्रम दिखाया था ।

उल्लुक-१. वनभद्र तथा रेवती के कनिष्ठ पुत्र का नाम, जिनके बड़े भाई का नाम निशठ था । २. चधर्मनु के कनिष्ठ पुत्र का नाम ।

उल्लवण-वनिष्ठ और अरुंधती के सात पुत्रों में से एक का नाम ।

उल्लवट-कारसीर-निवासी एक प्रसिद्ध वेदभाष्यकार आचार्य का नाम जो काश्यपकाशकार मन्मठ के कनिष्ठ भ्राता माने जाते हैं । ये लोग तीन भाई थे - कैयट, मन्मठ तथा

उल्लवट या औपट । इनके पिता का नाम जैयट था, किंतु उल्लवट ने एक स्थल पर अपने पिता का नाम वज्रट दिया है जिससे दूसरे मत के विद्वानों का अनुमान है कि यह मन्मठ के चचेरे भाई थे और वज्रट तथा जैयट सगे भाई थे । इनका एक प्रसिद्ध ग्रंथ वाजसनेयी संहिता का भाष्य है जिससे यह भी ज्ञात होता है कि ये लोग अवंतिराजा भोज के समकालीन थे ।

उल्लुगु-महाभारतकालीन एक ऋषि का नाम जिनके आश्रम में आर्षिप्रेण, विश्वामित्र, सिधुद्वीप आदि मुनियों ने तप कर सिद्धिलाभ किया था । बलराम जी भी इनके स्थान पर तीर्थ करने गए थे ।

उल्लुना-१. असुरों के कुलगुरु तथा अध्वर्यु जो द्वापर के व्यास माने जाते हैं । उल्लुना धर्मशास्त्र के नाम से सात अध्यायों का एक ग्रंथ उपलब्ध है जिसमें श्राद्ध, प्रायश्चित्त आदि का विधि-विधान वर्णित है । याज्ञवल्क्य ने इनका उल्लेख किया है । २. शुक्राचार्य को कुछ लोग इन्हीं का नामांतर मानते हैं । राजकीय विषयों पर इनका शुक्रनीति नामक एक ग्रंथ उपलब्ध है । अंशुनस उपपुराणों का उल्लेख भी कुछ स्थलों पर मिलता है । ३. एक मत से ये ऋगु के पुत्र माने जाते हैं । ४. भागवत मत से उल्लुना धर्म के तथा भविष्य मत से तामस के पुत्र थे । ५. उत्तम सावर्णि तथा स्वयंभुव मनु के पुत्र के नाम भी उल्लुना थे । ६. श्रौत्य मन्वन्तर के सप्तपिण्यों में भी एक का नाम उल्लुनप था ।

उल्लुज-१. कलिगराज की महिषी की एक दासी का नाम जिसे ऋग्वेद में कश्चिवात् की माता कहा गया है । एक बार राजा ने अपनी महिषी को दीर्घतमस् नामक ग्रंथ ऋषि के आलिंगनपाश में दब्र होने की आज्ञा दी थी, किंतु रानी ने अपने स्थान पर अपनी दासी उल्लुज को भेज दिया । ऋषि ने अपने अंतर्ज्ञान से सब कुछ जानकर भी उल्लुज को पवित्र कर दिया । उसके गर्भ से कश्चिवान की उत्पत्ति हुई जो औरस ब्राह्मण तथा क्षेत्रज क्षत्रिय हुए । दे० 'उत्थय' तथा 'दीर्घतमस' । २. अंगिरा कुलोत्पन्न एक ऋषि जो दीर्घतमा ऋषि के पिता माने जाते हैं ।

उल्लुनर-एक प्रसिद्ध चंद्रवंशी चक्रवर्ती राजा का नाम जिनके पिता चक्रवर्ती महामना थे । मृगा, कृमी, नवा, दवा तथा दशहती नामक इनकी पाँच स्त्रियाँ थीं जिनमें मृग, नम, कृमि, सुव्रत तथा शिवि अंशुनर नामक पाँच पुत्र पैदा हुए थे । इनमें अंतिम पुत्र सबसे अधिक प्रसिद्ध हुआ । दे० 'शिवि' । इसकी तथा इनके भाई तित्तिष्ठ दोनों की ही स्वतंत्र वंशशाखाएँ प्रचलित हुईं ।

उपा-वासासुर की कन्या का नाम । एक बार स्वप्न में इन्होंने एक सुंदर राजकुमार को देखा और फिर उसी के विरह में सदैव स्थिर रहने लगी और दिन प्रतिदिन दुर्बल होने लगी । यह बात जानकर इनकी प्रिय नगरी चित्रलेखा ने देश के सभी प्रसिद्ध राजकुमारों के चित्र मंगलना श्रांभ किया क्योंकि उपा को उस तरह की छात्रुति के अनिश्चित और किसी भी बात का पता न था । चित्रशाला में प्रपुत्र के पुत्र छानिस्ट का भी चित्र था जिसे

देखते ही उपा के नेत्र लज्जा तथा अनुराग से लाल हो गये। चित्रलेखा ने योगबल से सोते हुए अनिरुद्धका अपहरण कर उसका उपा से गांधर्व विवाह कराया और चार मास तक एक गुप्त स्थान में दोनों को साथ रखा। वाणासुर को सेवकों द्वारा जब इस बात का पता लगा तब उसने अनिरुद्ध को बंदी बनाकर कारा में डाल दिया। नारद के द्वारा यह समाचार प्राप्त होने पर यादवों की सेना ने उस पर आक्रमण कर दिया। घोर युद्ध के अनन्तर वाण पराजित हुआ। उसकी माता कोटरा के अत्यंत अनुनय-विनय पर कृष्ण ने उसे जीवनदान दिया। वाणासुर ने बड़ी धूमधाम से उपा का विवाह अनिरुद्ध के साथ करके यादवों को सम्मान के साथ विदा किया।

उहाक-वसिष्ठ कुलोत्पन्न गोत्रकारों का सामूहिक नाम।

ऊरू-अंगिरसू गोत्रोत्पन्न एक सूक्त-दृष्टा का नाम।

ऊज-१. स्वारोचिप मनु का नाम। २. सप्तर्षियों में से एक। ३. उत्तम मनु के पुत्र का नाम।

ऊर्जयोनि-विश्वामित्र के पुत्र का नाम।

ऊर्जस्वती-प्रियव्रत एवं वहिष्मती की कन्या का नाम, जो शुक की पत्नी मानी जाती है।

ऊर्जस्विन्-वैवस्वत मन्वन्तर के इंद्र का नाम।

ऊर्जा-दक्ष प्रजापति की एक कन्या का नाम, जो स्वायंभुव मन्वन्तर में वसिष्ठ की पत्नी थीं। वसिष्ठ से इनके चित्रकेतु, सुरोचि, विरत्नामित्र, उल्बण, वसुमृत, यान तथा धुमान नामक सात पुत्र हुये थे।

ऊर्जित-कार्तवीर्य के पुत्रों में से एक का नाम।

ऊर्णनाभ-धृतराष्ट्र के एक पुत्र का नाम।

ऊर्णनाभि-अत्रि कुलोत्पन्न एक ऋषि का नाम।

ऊर्णा-१. स्वायंभुव मन्वन्तर में सरीचि नामक प्रजापति की पत्नी का नाम। २. राजा चित्ररथ की पत्नी।

ऊर्ध्वकेतु-१. सनहाज जनक के पुत्र तथा अज के पिता। २. करयप तथा सुरभि के पुत्रों में से एक।

ऊर्ध्वग-कृष्ण तथा लक्ष्मण के एक महारथी पुत्र।

ऊर्ध्वग्रावन आर्षुदि-एक सूक्त-दृष्टा।

ऊर्ध्वद्विष्ट-पुलह तथा श्वेता के पुत्र जिनके पाँच पुत्र तथा पाँच कन्याएँ थीं।

ऊर्ध्ववाहु-रैवत मन्वन्तर के सप्तर्षियों में से एक।

ऊव-च्यवन के पुत्र तथा और्य के पिता।

ऊव-१. शुक के पुत्र तथा विरजा के पति। २. ऋच के पुत्र तथा तच्छक की कन्या ज्वलन्ती के पति का नाम।

३. देवातिथि के पुत्र का नाम। ४. अजमीढ़ तथा धुमिनी के पुत्र का नाम।

ऊवदेव-शिखंडी के दो पुत्रों में से एक का नाम।

ऊवपुत्र-यह अक्रोधन के पुत्र का नाम।

ऊवर्जसू-एक वानर का नाम जिसकी उत्पत्ति ध्यानमग्न ब्रह्मा के अधुर्विदु से मानी गई है।

ऊववान्-पुराणों के अनुसार नर्मदा नदी के समीप का एक पर्वत जो रैवतरु पर्वत का एक भाग माना जाता है।

ऋग्वेद-चार वेदों में प्रथम तथा मुख्य वेद का नाम। यह दस मंडलों में विभक्त है, इन मंडलों में पचासी अनुवाक हैं जिनमें एक हजार अष्टाईस सूक्त हैं। प्रत्येक मंडल के अनुवाक तथा सूक्तों का विवरण नीचे दिया जा रहा है :-

मंडल सं०	अनुवाक सं०	सूक्त सं०
१	२४	१६१
२	४	४३
३	५	६२
४	५	५८
५	६	७५
६	६	१०४
७	६	१०३
८	७	११४
९	७	१६१
कुल १०	८५	१०२८

शौनक के चरणव्यूह नामक ग्रंथ के अनुसार ऋग्वेद में आठ भेद या स्थान हैं जिनके नाम हैं : चर्चा, (आवक-चर्चक) श्रवणीय, पार, क्रमपाठ, क्रमजटा, क्रमरथ, क्रमशर और क्रमदंड, ऋग्वेद की पाँच शाखाएँ हैं—आश्वलायनी, साङ्खायनी, शाकल्य, वास्कला और मांडुका। ऋग्वेद की बहुत सी शाखाएँ चरणव्यूह के मत से अप्राप्त हो गई हैं। अन्य ग्रंथों के अनुसार ऋग्वेद की कुल २१ शाखाएँ थीं किंतु इस समय केवल शाकल्य की ही शाखाएँ प्राप्त हैं। यज्ञ की विधि और नियमावली के पश्चात् ऋग्वेद के मुख्य दो भाग हैं जो ऐतरेय ब्राह्मण तथा कौशीतकी अथवा सांख्यायन ब्राह्मण के नाम से प्रसिद्ध हैं—पहली शाखा के प्रयोता ऐतरेय तथा दूसरी के कुपीतक ऋषि थे। वेदव्यास ने सर्वप्रथम वेदों का विभाग करके अपने शिष्य पैल को उनकी शिक्षा दी थी। इन्होंने उसे दो भागों में विभक्त कर अपने शिष्य इंद्र प्रसिति तथा वाष्कलि को दे दिया था। वाष्कलि ने अपना भाग चार भागों में विभक्त करके अपने चार शिष्यों में बाँट दिया था। इस प्रकार ऋग्वेद अनेक शाखा तथा उपशाखाओं में विभक्त हुआ जिनमें से अधिकांश का पता इस समय नहीं है। प्रत्येक वेद मंत्र तथा ब्राह्मण नामक दो मुख्य भागों में विभक्त है, जिनमें मुख्य भाग मंत्रों का ही है। इस विभाग में अग्नि, जल, इंद्र, उपा, सूर्य आदि वैदिक देवताओं की छंदोबद्ध स्तुतियाँ हैं। ब्राह्मण भाग गद्य में है तथा अपेक्षाकृत वाद का है। इसमें मंत्रों की व्याख्या, फल-महिमा, दार्शनिक विरलेपण तथा दृष्टांत के रूप में उपाख्यानों का वर्णन है। ब्राह्मण भाग में आरण्यक और उपनिषद् और जोड़ दिये गये हैं। भारतीय दर्शन शास्त्र के बीज इन्हीं उपनिषदों में मिलते हैं। इनमें अध्यात्म विद्या तथा आत्मा एवं परमात्मा आदि चिरंतन तात्त्विक विषयों का निरूपण है। समस्त वैदिक साहित्य स्मृत रूप से दो खंडों में विभक्त किया जा सकता है—१. कर्मकाण्ड तथा २. ज्ञानकाण्ड। मंत्र तथा सूक्त आदि कर्मकाण्ड और तात्त्विक विवेचन ज्ञानकाण्ड

के अंतर्गत आते हैं। ब्राह्मण तथा उपनिषदों का संबंध ज्ञानकाण्ड से ही है। समष्टि रूप से समूचा वैदिक साहित्य 'श्रुति' नाम से प्रसिद्ध है। 'श्रुति' का अर्थ है 'सुना हुआ', अर्थात् जो कुछ ज्ञान ऋषियों से सुना गया वही 'श्रुति' है। मुख्य वेद ऋग्वेद ही है और इसी के आधारभूत यजुः और साम हैं। ऋग्वेद के भी मौलिक सूक्त १०१७ ही हैं जिनमें वालखिल्यों के ११ मंत्र और जोड़ने पर १०२८ होते हैं। इनका दूसरा विभाजन अष्टकों के अनुसार है। ये समस्त सूक्त आठ अष्टकों तथा उतने ही अध्यायों में उपविभक्त हैं, जिनमें २००६ वर्ग १०,४१७ ऋचाएँ तथा १५२,८२६ पद हैं। मंडलों के अनुसार ऋग्वेद का विभाजन पहले दिया जा चुका है। कुछ विद्वान दसवें मंडल को अपेक्षाकृत वाद का मानते हैं। ऋग्वेद के कुछ मंत्रों में, मुख्यतः दसवें मंडल की कुछ ऋचाओं में, एक परम आत्मा की सत्ता का धुंधला निरूपण मिलता है। शेष मंत्रों में अग्नि, सूर्य, जल, वायु आदि प्राकृतिक देवताओं की प्रार्थना की गई है। इनसे ऋषियों ने जनसमूह के शुभ, कल्याण तथा उन्नति की प्रार्थना की है और अपने गोधन तथा स्वास्थ्य की वृद्धि तथा रक्षा के लिए भिन्नतें माँगी हैं। मुख्य वैदिक देवता अग्नि सूर्य और इंद्र हैं। वस्तुतः अग्नि की उपासना सबसे अधिक प्रधान है जिनकी उपासना यज्ञ के रूप में शारीरिक रक्षा, कृषि, वनस्पति, फल तथा गोधन की रक्षा और वृद्धि के लिए होती थी। इंद्र की उपासना वर्षा के देवता के रूप में की गई है जिससे कृषि की उन्नति होती थी। अन्य आराध्य देवताओं में प्रकाश तथा उष्णता प्रदान करनेवाले सूर्य, आयुस् पितृ, वरुण, उपा, अश्विनीकुमार तथा मरुत् और पृथ्वी आदि मुख्य हैं। प्रत्येक मंत्र का एक ऋषि होता था जो उसका प्रणेता अथवा द्रष्टा माना जाता था। वसिष्ठ, विश्वामित्र, भरद्वाज आदि ऐसे ही ऋषि थे। यह कहना बड़ा कठिन है कि ये मंत्र पहले पहल कब लिपिबद्ध किये गये थे। शताब्दियों तक इनका पाठ मौखिक परंपरा से ही चलता रहा—पिता पुत्र को कठस्थ करा देता था और वह पुत्र अपने पुत्र को। प्रत्येक हिंदू (द्विजाति) के लिए तीन जन्म-अरण माने गये हैं—देवअरण, पितृअरण तथा ऋषिअरण। ऋषिअरण से उद्धार पाने के लिए यह आवश्यक था कि सूक्तद्रष्टा ऋषियों की रचना अर्थात् वेदों का अध्ययन किया जाय और अपनी संतान को भी उन्हें कथ्य करा दिया जाय। इसी विधि से प्राचीन आर्यों ने दीर्घकाल तक वेदों की रक्षा की थी। मूलरूप की रक्षा के लिए उच्चारण की जो परिपाटी निर्धारित की गई थी, वह आश्चर्यजनक और असाधारण है। इसी सावधानी के कारण वेदों का पाठ सहस्रों वर्षों तक ज्यों का त्यों शुद्ध रखा जा सका। पर प्रत्येक शाखा के आचार्य ने अपनी विशिष्ट परिपाटी से अपने शिष्यों को पाठ कठस्थ कराया अतः स्वाभाविक रूप से वेद कई 'शाखाओं' या 'सूक्तों' में विभक्त हो गया। अंत में कृष्णद्वैपायन व्यास ने पाठों का मिलान करके उन्हें सुव्यवस्थित तथा सुश्रुतित रूप में प्रकट किया। वेदों को कुछ लोग

अपौरुषेय तथा अनादि मानते हैं पर अधिकांश पुरातत्व-वेत्ताओं के अनुसार इनकी रचना १५०० से १००० ई० पू० के बीच हुई थी। दे० 'वेद'।

ऋच-१. एक राजकुमार का नाम। जो विष्णुपुराण के अनुसार सुनीति का पुत्र था। इसका एक नामांतर रूच भी मिलता है। दे० 'रूच'। २. देवातिथि तथा मर्यादा के पुत्र और ऋच के पिता।

ऋचा-ऋग्वेद के मंत्रों का नाम, जिन्हें दीक्षित होता यज्ञों में पढ़ते थे।

ऋची-आप्नवान की पत्नी का नाम।

ऋचीक-ऋगु वंश के एक प्रसिद्ध ऋषि, जो सत्यवती के स्वामी उर्व के पुत्र तथा यमदग्नि के पिता थे। इनकी पत्नी सत्यवती विश्वामित्र की भगिनी तथा गांधिकी कन्या थी। महाभारत तथा विष्णु-पुराणों के अनुसार इन्होंने बृहदावस्था में सत्यवती के पाणिग्रहण की इच्छा प्रकट की थी जिस पर गांधि ने इनसे १००० ऐसे अश्व माँगे जिनके एक कान काले हों। ऋचीक ने वरुण से ऐसे घोड़ों को प्राप्त करके दे दिया और सत्यवती को प्राप्त किया।

ऋचीय-पुरुवंशीय रौद्राय के पुत्रों में से एक का नाम।

ऋजाश्व-एक जानपद का नाम, जिसने एक बार सौ भेड़ियों को मारकर एक मादा भेड़िया को खाने के लिये दिया था, इससे क्रुद्ध हो इसके पिता ने इसकी आँखें फोड़वा दी थीं। मादा भेड़िया ने इनकी आँखें पूर्ववत् कर देने के लिए देववैद्य अश्विनीकुमारों की प्रार्थना की जिससे प्रसन्न हो उन्होंने इसे दिव्य नेत्र प्रदान किये।

ऋजिश्वन्-वैदिक युग के एक राजा का नाम, जो इंद्र का मित्र था और दस्युओं के विरुद्ध युद्ध करने में इसे इंद्र से सहायता भी प्राप्त हुई थी।

ऋजिश्वन् भारद्वाज-एक सूक्तद्रष्टा ऋषि का नाम।

ऋजु-(ऋजुदाय)-वसुदेव तथा देवकी के एक पुत्र जिनका नाम भागवत के अनुसार ऋजु, विष्णु पुराण के अनुसार ऋभुदास, मत्स्य पुराण के अनुसार ऋजिवास तथा वायु पुराण के अनुसार ऋजुदाय था।

ऋगंचस-एक प्राचीन राजर्षि तथा मंत्रद्रष्टा का नाम, जिन्होंने वभ्रु नामक एक सूक्तद्रष्टा को बहुत ज्ञान दिया था।

ऋराज्य-अठारहवें द्वापर के एक व्यास का नाम।

ऋतंभर-एक राजर्षि का नाम, जिन्होंने जायानि ऋषि की गाय की बड़ी सेवा की थी जिनके फलस्वरूप इन्हें सत्यवान् नामक पुत्र प्राप्त हुआ था।

ऋत-१. अंगिरस पुत्रों में से एक का नाम। २. सत्य का नाम। ३. धर्म के एक पुत्र का नाम जिनकी उत्पत्ति दक्ष प्रजापति की एक कन्या से हुई थी। ४. मिथिनाधिपति विजय जनक के एक पुत्र का नाम। ५. ऋतु सार्वर्गि ननु का एक नामांतर।

ऋतध्वज-राजा प्रतर्दन का एक नामांतर अथवा उनकी उपाधि। गालव ऋषि की तपस्या में दैत्य लोग बड़ा विघ्न डाला करते थे अतः इस उपात को रोकने के लिए इसके पिता शत्रुजित ने इन्हें भेजा। यहाँ बाराह

आये हुए एक शत्रु का पीछा करते हुए वे एक विवर में घुस गये जहाँ कुछ दूर जाने पर दिव्य प्रकाशयुक्त राज-भवन में एक परम सुंदर किशोरी मिली जो इनके स्वरूप पर मुग्ध होकर इन्हें देखते ही मूर्च्छित हो गई। वह गंधर्व विश्वावसु की कन्या मदालसा थी। सखियों ने उसका उपचार कर ऋतध्वज को उसका परिचय दिया। पाताल लोक के उस भवन में वह वज्रकेतु दानव के पुत्र पाताल केतु द्वारा अपहृत होकर लाई गई थी और कारा में बंद रखी गई थी। सखियों ने ऋतध्वज से उसके उद्धार की प्रार्थना की, जिसे उन्होंने सहर्ष स्वीकार किया और दैत्य-सेना का संहार कर मदालसा को साथ लेकर अपने राज्य में लौट आये। कुछ समय के उपरांत तपोवन के ऋषियों की सहायता के लिये पुनः ऋतध्वज की आवश्यकता पड़ी। इस वार पातालकेतु के भाई तालकेतु ने अपने भाई का बदला चुकाने का पूरा निश्चय किया और उनसे एकान्त में मिलकर छल से उनका मणिजटित हार प्राप्त कर लिया। उसे लेकर वह शत्रुजित की सभा में उपस्थित हुआ और वहाँ यह समाचार फैला दिया कि दानवों के साथ युद्ध करने में राजकुमार ऋतध्वज मारे गये। उनकी मृत्यु का समाचार पाकर मदालसा ने शोक विह्वल हो प्राण त्याग दिया। इधर मदालसा की मृत्यु का समाचार जब उसने ऋतध्वज को सुनाया तो वे भी शोक में पागल हो गये; किंतु नागराज के पुत्रों ने इनका दुःख दूर करने की प्रतिज्ञा की और शिव तथा पार्वती को तप से प्रसन्न कर यह वर प्राप्त कर लिया कि मदालसा जिस रूप में मरी थी उसी रूप में नागराज के यहाँ जन्म ग्रहण करेगी और हुआ भी ऐसा ही। नागराज ने ऋतध्वज को बुलाकर उनसे अभिनव मदालसा का पाणि-ग्रहण कराया। दोनों का यह मिलन स्थायी हुआ। मदालसा को ऋतध्वज से चार पुत्र उत्पन्न हुए : चिक्रांत, सुवाहु, शत्रुमर्दन और अलर्क। इन चारों पुत्रों की शिक्षा स्वयं सती मदालसा द्वारा ही हुई जिसके प्रभाव से चारों भाइयों ने अपने-अपने क्षेत्र में अश्रुतपूर्व प्रसिद्धि प्राप्त की। दे० 'प्रतर्दन' तथा 'मदालसा'।

ऋतायन-राजा सत्य के पिता का नाम।

ऋतुजित-विष्णु पुराण के अनुसार अंजन के पुत्र का नाम।

ऋतुध्वज-दे० 'ऋतध्वज'।

ऋतुपर्ण-इक्ष्वाकुवंशीय एक प्रसिद्ध राजा का नाम, जो द्यूत विद्या में बड़े निपुण थे। कलि के प्रताप से राज्यच्युत हो दमयंती के वियोग में राजा नल ने इनके यहाँ वाहुक नामक सारथि के वेश में आश्रय ग्रहण किया था। नल अरवविद्या में विशारद थे और ऋतुपर्ण को इसकी शिक्षा देते थे वदले में उनसे द्यूतविद्या सीखते थे। इधर विदर्भराज की कन्या दमयंती भी नल से वियुक्त होकर चेदिराज की कन्या सुनंदा की दासी बनकर रहने लगी। विदर्भराज ने कन्या तथा जामाता का पता लगाने के लिए दूत भेजे जिनमें सुदेव नामक एक ब्राह्मण दूत ने दमयंती का पता लगा लिया। चेदिराज ने दमयंती का वास्तविक परिचय प्राप्त कर उन्हें ससम्मान विदर्भराज भीम के

यहाँ भेज दिया। ऋतुपर्ण के यहाँ नल का पता लगाने पर दमयंती ने पिता से छिपा कर ऋतुपर्ण के यहाँ अपने स्वयंवर का निमंत्रण इस आशा से भेज दिया जिससे स्वयंवर वार्ता सुनकर यदि नल वहाँ होंगे तो अवश्य आ जायेंगे। फलतः ऋतुपर्ण वाहुक वेशधारी नल के साथ शीघ्र विदर्भराज भीम के यहाँ पहुँचे, किंतु वहाँ स्वयंवर की कोई तैयारी नहीं थी। दमयंती ने केशिनी नामक एक दासी के द्वारा नल को अंतःपुर में बुलवाया और फिर सारी बातें क्रमशः प्रकट हुईं। राजा ऋतुपर्ण भी इस अप्रत्याशित घटना से बड़े प्रसन्न हुए और नल तथा दमयंती को आशीर्वाद देकर अपने राज्य में लौट गए।

ऋतुमंत-मणिभद्र तथा पुष्यजनी के पुत्र का नाम।

ऋतुस्तुभ-एक ऋषि का नाम जिनकी रक्षा अश्विनी-कुमारों ने की थी।

ऋतेयु-पुरुवंशीय राजा रौद्राश्व तथा घृतीची के दस पुत्रों में से ज्येष्ठ का नाम। औचैयु इनका नामांतर था।

ऋद्धि-१. वैश्रवाप की पत्नी का नाम। २. धन के देवता कुवेर की पत्नी का नाम। ३. पार्वती का एक नामांतर।

ऋभु-एक प्राचीन वैदिक देवता जो पहले मानव थे किंतु यज्ञ, तप आदि के प्रभाव से देवत्व को प्राप्त हुए थे।

ऋपभ-१. दूसरे मन्वन्तर के सप्तर्षियों में से एक का नाम। २. राजा कुशाग्र के एक पुत्र का नाम। ३. वाल्मीकि रामायण के अनुसार राम पक्ष के एक सेना-पति का नाम। ४. कैलास के एक स्वर्गश्रंग का नाम। ५. संगीत के सात स्वरों में से द्वितीय का नाम। ६. पुराणों के अनुसार मेरु के उत्तर में स्थित एक पर्वत का नाम। ७. एक दिग्गज का नाम।

ऋपभदेव-जैनधर्म के प्रथम तीर्थंकर का नाम। भागवत के अनुसार ये विष्णु के अंश संभूत अवतार थे और इन्होंने भारतवर्ष के पश्चिमी भाग में जैनधर्म का प्रचार किया था। पुराणों के अनुसार इनकी वंशावली इस प्रकार है। ब्रह्म-स्वायंभुव मनु (मानसपुत्र)-राजा प्रिय-व्रत-राजा आग्नीध्र-राजा नाभि (परनी मेरु)-ऋपभदेव। ऋपिभदेव की पत्नी का नाम जयंती था जिनके ६६ पुत्र हुए। उनके पुत्रों में भरत मुख्य थे। दे० 'जयंती' तथा 'भरत'।

ऋषभस्कंध-वाल्मीकि रामायण के अनुसार रामसेना के एक वानर का नाम।

ऋषि-प्रबुद्ध महापुरुष जो वेद-मंत्रों के द्रष्टा या स्रष्टा थे। प्रमुख ऋषियों की संख्या सात है जो 'सप्तर्षि' के नाम से प्रसिद्ध हैं। इनको यज्ञापति तथा ब्रह्मा का मानस-पुत्र भी कहा गया है। भिन्न-भिन्न ग्रंथों में इनकी नामावली विभिन्न रूप में दी गई है। महाभारत के अनुसार इनके नाम क्रमशः मरीच, अत्रि, अंगिरा, पुलह, क्रतु, पुलस्त्य और वसिष्ठ हैं। वायुपुराण 'सप्तर्षि' संज्ञा मानते हुए भी इनमें भृगु का नाम और मिला देता है। विष्णुपुराण में भृगु तथा दक्ष को और मिलाकर इन्हें 'नववसिष्ठि', कहा गया है। शतपथ में इनके नाम

गौतम, भारद्वाज, विश्वामित्र, यमदग्नि, वसिष्ठ, कश्यप तथा अत्रि हैं। कुछ अन्य ग्रंथों में कण्व, वाल्मीकि, व्यास तथा मनु आदि भी इनमें सम्मिलित कर लिए जाते हैं। अंतरिक्ष के 'सप्तर्षिमण्डल' को इन्हीं ऋषियों का प्रतिरूप माना जाता है। नाभादास जी इन्हें प्रमुख हरिभक्तों की श्रेणी में रखते हैं और इनकी संख्या छव्वीस मानते हैं।

ऋषिका-एक नदी का नाम जो महेन्द्र पर्वत से निकल कर गंजम के पास समुद्र में गिरती है। इसका दूसरा नाम ऋषिकुल्या है।

ऋषिकुल्या-दे० 'ऋषिका'।

ऋषिज-उशिज का नामांतर। दे० 'उशिज'।

एकचक्रा-१. कश्यप तथा दनु के पुत्र का नाम जो एक प्रसिद्ध दैत्य था। २. एक नगरी का नाम जिसमें व्यास की आज्ञा से माता कुंती के साथ पाण्डवों ने कुछ दिन निवास किया था और भीम ने वक्र नामक नरभोजी राक्षस का वध किया था।

एकजटा-लंका की एक राक्षसी का नाम जो अशोक-वाटिका में वंदिनी सीता की परिचर्या के लिए अन्य राक्षसियों के साथ नियुक्त थी।

एकत-गौतम के ज्येष्ठ पुत्र का नाम।

एकदंत-गणेश का नामांतर। दे० 'गणेश'।

एकचुनोधसु-एक सूक्तद्रष्टा का नाम।

एकपर्णा-हिमवान् तथा मैना की तीन कन्याओं में से एक का नाम। शेष दोनों का नाम पर्णा तथा अपर्णा था। तीनों कन्याओं ने बड़ी कठिन तपस्या की थी। एकपर्णा रातदिन में केवल एक पत्ता खाकर निर्वाह करती थी इसी से इसका नाम एकपर्णा हुआ। ब्रह्माण्ड पुराण के अनुसार इसका विवाह अमित देवल से हुआ था। दे० 'अपर्णा', 'उमा' तथा 'एकपाटला'।

एकपाटला-पर्णा का नामांतर जो हिमालय तथा मैना की तीन कन्याओं में से एक थी। इन्होंने भी अपनी बहनों के साथ घोर तप किया था जिसमें केवल एक पाटल पर निर्वाह करने के कारण इनका नाम एक-पाटला पड़ा। इनका विवाह ब्रह्माण्ड पुराण के अनुसार जैगीपव्य मुनि से हुआ था जिनसे शंख तथा लिखित नामक दो पुत्रों की उत्पत्ति हुई। दे० 'अपर्णा', 'एकपर्णा' तथा 'उमा'।

एकपाद्-कश्यप तथा कद्रु के एक पुत्र का नाम।

एकपादा-अशोकवाटिका में वंदिनी सीता के परिचर्यार्थ नियुक्त राक्षसियों में से एक का नाम।

एकलव्य-व्याधराज हिरण्यधनु के पुत्र का नाम जो धनु-विद्या में बड़ा प्रवीण था। एक बार इसे काला कंबल छोड़े हुए देखकर एक कुत्ता बहुत भूकने लगा। एकलव्य ने एक साथ सात बाण इस प्रकार मारा कि कुत्ते के मुँह में तनिक भी चोट भी नहीं आई और उसका भूँकना भी बंद हो गया। कुत्ता अपने मुँह में बाण लिए ऊपर-उपर भटक रहा था कि मार्ग में मृगया के लिए आये हुए पाण्डव गण मिल गये जिन्हें धनुर्विद्या के इस दम्भूतपूर्व कौशल

पर बड़ा आश्चर्य हुआ। वे लोग कुत्ते के पीछे चलने लगे जो अंत में एकलव्य के स्थान पर रुका। अर्जुन के प्रश्न करने पर एकलव्य ने बताया कि बाणविद्या की शिक्षा उसे गुरु द्रोणाचार्य से प्राप्त हुई। अर्जुन ने आचार्य के पास जाकर उलाहना दिया। किंतु बहुत सोचने पर भी द्रोण को एकलव्य नाम के किसी शिष्य का स्मरण न हुआ। अंत में दोनों एकलव्य के पास गये जहाँ उन्हें विदित हुआ कि अनार्य होने के कारण आचार्य द्वारा तिरस्कृत होने पर एकलव्य ने उनकी मिट्टी की प्रतिमा बनाकर और उसी को गुरु मानकर अभ्यास करना आरंभ किया जिसके फलस्वरूप वह इस कला में पारंगत हुआ। द्रोणाचार्य ने प्रसन्नता प्रकट करते हुए एकलव्य के दाहिने हाथ का श्रृंगूठा गुरु-दक्षिणा में माँगा जिसे उसने सहर्ष दे दिया। कारण यह था कि द्रोणाचार्य ने अर्जुन को पहले ही वर दे दिया था कि वे धनुर्विद्या में अद्वितीय होंगे। किंतु एकलव्य जैसा प्रतिद्वंद्वी रहते हुए यह असंभव था; अतः उसका दाहिना श्रृंगूठा माँगकर आचार्य ने उसकी कला छीन ली। भारत युद्ध में एकलव्य ने कौरवों का पक्ष ग्रहण किया और दाहिना हाथ बेकार होते हुए भी असाधारण पराक्रम दिखाया।

एकलोचना-अशोकवाटिका में वंदिनी सीता के परिचर्यार्थ नियुक्त राक्षसियों में से एक का नाम।

एकविंश-ऋचाओं के एक संग्रह का नाम जो ब्रह्मा के उत्तर मुख से निकला माना जाता है।

एकवीर-राजा हरिवर्मा के पुत्र का नाम जिसकी उत्पत्ति विष्णु की तपस्या के फलस्वरूप हुई थी। इनका नामांतर हेहय था। यदुकुलोत्पन्न प्रसिद्ध राजा हेहय इनसे भिन्न थे। इनकी दो पत्नियाँ थीं जिनके नाम क्रमशः एकावली तथा यशोवती थे।

एकादा-दनु तथा कश्यप के एक पुत्र का नाम।

एकादशरथ-वायुपुराण के अनुसार दशरथ के एक पुत्र का नाम।

एकानंगा-यशोदा की कन्या तथा कृष्ण की भगिनी का नाम।

एकानेका-अंगिरा ऋषि की कन्या का नाम।

एकावली-एक वीर राजा की पत्नी का नाम।

एकाशय-महाभारत के अनुसार तक्षक के पुत्र अश्वसेन का नाम।

एकाष्टका-प्रजापति की एक कन्या का नाम जो अपनी तपस्या के फलस्वरूप इंद्र तथा सोम की माता हुई।

एतश-अग्नेय के एक सूक्तद्रष्टा ऋषि का नाम।

एरक-महाभारत के अनुसार एक प्रतिद्वंद्व सर्प का नाम।

एलपत्र-महाभारत के अनुसार कद्रु के एक पुत्र का नाम।

यह एक विशालकाय सर्प था जिसके अनेक फण थे। दे० 'नभ'।

एलापुत्र-दे० 'एलपत्र' तथा 'नभ'।

एत्रयामरुन्-एक मंत्रद्रष्टा ऋषि का नाम।

पेंद्र-एक सूक्तद्रष्टा का नाम। ऋग्वेद में पेंद्र नाम ने कई सूक्तद्रष्टाओं के नाम मिलते हैं, जैसे अत्रितिस, जय, लव, वसुक, विन्द, वृषाक्षि तथा सर्वहरि।

सहयोग देना स्वीकार किया था कि देवराज इंद्र को इनका वाहन बनना पड़ेगा। पहले तो इंद्र ने इस प्रस्ताव को अपमानजनक समझकर इनकार कर दिया किंतु अंत में विष्णु के आग्रह पर वृषभ का रूप धारण कर इनका वाहन बनना स्वीकार कर लिया। वृषभ रूप धारी इंद्र के कुकुद्र पर चढ़कर इन्होंने दैत्यों से युद्ध किया था इस लिए इनका नाम ककुद्मिन पड़ा। युद्ध में इन्होंने दैत्यों का सदलबल विनाश किया। इनके वंश में अज, रघु, दशरथ, राम आदि प्रसिद्ध तथा पराक्रमी राजा हुए जो काकुत्सवंशीय कहलाए। इन्होंने भागवत् के अनुसार ३,५०० वर्ष (दिन ?) राज्य किया था।

ककुद्मिन (रैवत) - रैवत राजा के पुत्र का नाम जो अपनी कन्या रैवती के योग्य वर की खोज में ब्रह्मा के पास गए थे। ब्रह्मदेव ने विचार कर बताया कि द्वापर में परमेस्वर के अंश सम्भूत बलराम का अवतार होगा और वही रैवती के उपयुक्त वर होंगे।

ककुभ-१. धर्म ऋषि की पत्नी अरुंधती का नामांतर जो दत्त प्रजापति की कन्या थीं। २. एक रागिनी का नाम। ककुसेन-१. महाभारत के अनुसार एक प्रसिद्ध राजर्षि का नाम जिन्होंने असित नामक पर्वत पर उग्र तपस्या की थी। २. महाभारत के अनुसार युधिष्ठिर की सभा के एक क्षत्रिय का नाम।

कक्षीवत्-ऋग्वेद के अनुसार ऋषिदीर्घ तमस तथा उशजिज के पुत्र का नाम। दे० 'दीर्घतमस'।

कक्षेपु-विष्णु पुराण के अनुसार रौद्राश्व के पुत्र का नाम और मत्स्य पुराण के अनुसार अद्राश्व के पुत्र का नाम।

कच-एक प्रसिद्ध महर्षि का नाम जो देवगुरु बृहस्पति के पुत्र माने जाते हैं। एक बार अधिकार-विस्तार की लिप्सा के कारण देवता तथा दैत्यों में घोर युद्ध छिड़ा जिसमें मरे हुए दैत्यों को दैत्यगुरु शुक्राचार्य संजीवनी विद्या के प्रताप से पुनः जीवित कर देते थे पर देवता लोग इस विद्या से अनभिज्ञ होने के कारण ऐसा नहीं कर पाते थे। इस अभाव का परिहार करने के लिए देवताओं ने यह निश्चय किया कि कच शुक्राचार्य के पास जाकर उनका शिष्यत्व ग्रहण करें और इस विद्या का रहस्य प्राप्त करें। कच ने आज्ञानुसार ऐसा ही किया किंतु दैत्यों को इस बात का पता लग गया और उन्होंने कच का वध कर डाला। इससे दुर्वासा की पुत्री देवयानी को, जो कच पर अनुरक्त थी, बड़ा दुःख हुआ और वह पिता के सामने फूट-फूट कर रोने लगी। इससे द्रवित हो दैत्यगुरु ने संजीवनी द्वारा उसे जीवित कर दिया। इसी प्रकार दैत्यों ने दो बार और उसका वध किया और दोनों ही बार शुक्राचार्य ने उसे जीवित किया। अंत में ऊबकर दैत्यों ने कच को मारकर जला डाला और उसने भस्म को मदिरा में मिला कर गुरु को पिला दिया। न चाहते हुए भी पुत्री की दशा देखकर शुक्राचार्य को उसे पुनः जीवित करने का उपक्रम करना पड़ा; किंतु जब उन्होंने मंत्र द्वारा कच का आह्वान किया तो वह उनके पैर में ही बोलने लगा। उससे आचार्य को जब सारी बातें ज्ञात हुईं तो उन्हें बड़ी चिंता हुई। उसे

जीवित करने पर उनकी मृत्यु निश्चित थी क्योंकि वह उनका पैर फाड़कर ही बाहर निकल सकता था। अतः उन्होंने पहले कच को संजीवनी विद्या की शिक्षा देकर इस शर्त पर उसे जिलाया कि बाहर निकलने पर वह उसी विद्या के सहारे उन्हें भी पुनः जीवित कर दे। कच ने प्रतिज्ञा की और उसका पालन भी किया। तदनंतर शुक्राचार्य ने दीर्घकाल तक कच को शिक्षा दी और जब उसका अध्ययन समाप्त होने को हुआ तो देवयानी ने उससे अपने पाणिग्रहण की प्रार्थना की किंतु कच ने गुरु कन्या होने के नाते ऐसा करने में अपनी असमर्थता प्रकट की। इस पर क्रुद्ध हो देवयानी ने कच को शाप दिया कि तुम्हारी विद्या फलवती न होगी। कच ने भी देवयानी को शाप दिया कि तुम्हारी वासना कभी पूर्ण न हो सकेगी और कोई भी ब्राह्मण तुम्हारा पाणिग्रहण न करेगा। मेरी विद्या मेरे लिए चाहे फलवती न हो किंतु जिसे मैं इसकी शिक्षा दूँगा उसे अवश्य ही फलेगी। इसके बाद कच स्वर्ग चले गए और वहाँ उन्होंने देवताओं को संजीवनी की शिक्षा दी जिसके फलस्वरूप देवता लोग दैत्यों की ओर से निश्चिंत हुए। दे० 'देवयानी'।

कचचायण-महर्षि कात्यायन का पात्नी नाम। दे० 'कात्यायन'।

कच्छ-विष्णु का एक अवतार। कहा जाता है कि देवासुर संग्राम के बाद जो वस्तुएँ इस संघर्ष में खो गई थीं, उनकी प्राप्ति के लिए समुद्र-मंथन का आयोजन हुआ तो मयानी बनाए गए मंदराचल पर्वत को चौरसागर में धारण करने के लिए विष्णु ने कच्छप का रूप धारण किया था। वासुकि नाग की रस्सी बनाई गई थी और देवताओं तथा असुरों ने एक-एक और खड़े होकर समुद्र-मंथन किया था, जिससे निम्नलिखित चौदह वस्तुएँ प्राप्त हुईं थीं—१. अमृत, २. धन्वंतरि, (देवताओं के चिकिरसक), ३. लक्ष्मी, ४. सुरा, ५. चंद्र, ६. रंभा, ७. उच्चैश्रवा (एक सुंदर अश्व), ८. कौस्तुभ मणि, ९. पारिजात वृक्ष, १०. सुरभि गाय, ११. ऐरावत हाथी, १२. शंख, १३. धनुष तथा १४. विप।

कच्छप-१. विष्णु के कच्छ अवतार का नाम। दे० 'कच्छ'। २. विरवामित्र के एक पुत्र का नाम। ३. कुबेर की नौ निधियों में से पंचम निधि का नाम।

कट्य-दे० 'कटु'।

कटायनि-भृगुकुलोत्पन्न एक गोत्रकार का नाम।

कटु-अंगिरा कुलोत्पन्न एक गोत्रकार का नाम। कंकट अथवा कट्य भी इनके नामांतर हैं।

कठ-वसिष्ठ कुलोत्पन्न एक गोत्रकार ऋषि का नाम। इनके नाम से कठोपनिषद्, कठब्राह्मण, कठसंहिता, कठसूत्र तथा कठपरिशिष्ट आदि ग्रंथ प्रसिद्ध हैं। कात्यायन श्रौत सूत्रों में कठसूत्रों का भी सन्निवेश है। कठोपनिषद् का अंग्रेजी अनुवाद डा० रूर ने विब्लग्रोथिका इंडिका में किया है।

कठशाठ-एक शाखा प्रवर्तक ऋषि का नाम। दे० 'पाणिनि'।

कणिक-धतराष्ट्र के नीतिविशारद मंत्री का नाम जिन्होंने पांडवों के साथ व्यवहृत धतराष्ट्र की नीति का विरोध किया था।

कणीशा-कश्यप तथा क्रोधा की पुत्री का नाम जिनका विवाह पुलह के साथ हुआ था।

कण्व-एक ब्राह्मण का नाम जिनकी गणना कभी-कभी सप्तर्षियों में भी होती है। इस नाम के कई ऋषियों का उल्लेख मिलता है जिनमें सबसे प्रमुख घोर-पुत्र कण्व है। जिन्होंने ऋग्वेद के अष्टम मण्डल की रचना की थी। एक कण्व अंगिरस कुलोत्पन्न तथा दूसरे कश्यप कुलोत्पन्न प्रसिद्ध हैं। कण्व नामक एक ऋषि ने शकुंतला का पालन पोषण किया। उनका आश्रम मालिनी नदी के तट पर था जहाँ मेनका नामक अप्सरा, जो विश्वामित्र का तप-भंग करने आई थी, शकुंतला को छोड़कर चली गई थी। वहीं पर कण्व ने अपनी कन्या की तरह उसका पालन किया था।

कद्रु-दक्ष प्रजापति की कन्या तथा कश्यप की पत्नी का नाम। ये अत्यंत सुंदरी तथा गुणवती थी। पुराणों के अनुसार इन्होंने एक सहस्र नागों को जन्म दिया था जिनमें वासुकि तथा शेष मुख्य थे।

कनक-१. एक प्राचीन राजा का नाम जो हैहय वंशीय ददम (मत्स्य) अथवा दुर्मद (वायु) के पुत्र माने जाते हैं। इनके चार पुत्र थे; कृतवीर्य, कृतांजा, कृतवर्मा तथा कृताग्नि। २. विप्रचिति तथा सिंहिका के पुत्र जिन्हें परशुराम ने मारा था।

कनकध्वज-धतराष्ट्र के एक पुत्र का नाम। इसने भी द्रौपदी-स्वयंवर की मत्स्य भेद प्रतियोगिता में भाग लिया था। महाभारत में युद्ध इसका वध भीम के हाथों हुआ। कनकांगद-महाभारत के अनुसार धतराष्ट्र के एक पुत्र का नाम।

कनकायु-महाभारत के अनुसार धतराष्ट्र के एक पुत्र का नाम।

कनिष्क-शकजातीय एक प्रसिद्ध राजा का नाम जो ७८ ई० में पुरुषपुर (पेशावर) में राज्यसिंहासनारूढ़ हुए थे। ये बड़े प्रतापी थे। इन्होंने अपना एक अलग संवत्सर चलाया था जो शकाब्द के नाम से प्रसिद्ध है और जो इनके सिंहासनारोहण काल से प्रारंभ होता है। कनिष्ठ-भौतिक नन्वंतर में देवताओं के एक समूह विशेष का नाम।

कन्हूर-एक वैष्णव भक्त तथा कथा-वाचक।

कप-एक देवता का नाम।

कपट कश्यप तथा दनु के एक पुत्र का नाम।

कपर कश्यप तथा दनु के एक पुत्र का नाम।

कपर्दिन-गणेश का एक नामांतर। दे० 'गणेश'।

कपर्देय-विश्वामित्र कुलोत्पन्न एक गोत्रकार का नाम।

कपालभाग-विश्व निधासिनी एक विष्णु कन्या सुशीला का शुचि नामक ब्राह्मण पुत्र जो घोर तपस्या में रत था और जिनमें प्रवृत्त कर इंद्र ने उसका विनाश किया। उसकी मृत्यु के परचात् इनका पुत्र दुर्मेधन् गद्दी पर बैठा।

कपालिन्-१. कश्यप के पुत्र का नाम। इनकी माता का नाम सुरभि था। ये एक रुद्र माने गए हैं। २. रुद्र का एक नामांतर।

कपाली-दुर्गा का एक नामांतर अथवा रूपांतर। दे० 'दुर्गा'।

कपिलजल-वसिष्ठ कुलोत्पन्न एक गोत्रकार का नाम।

कपि-१. तामस नन्वंतर के सप्तर्षियों में से एक का नाम।

२. भृगु गोत्रीय एक शाखा प्रवर्तक ऋषि का नाम। ३. उमुच्चय (नामांतर उभच्चय) नामक एक क्षत्रिय के पुत्र का नाम। क्षत्रिय कुलोत्पन्न होते हुए भी ये उग्र तपस्या के प्रभाव से ब्राह्मण वर्ण में सम्मिलित कर लिए गये थे। इस नाम के कई ऋषियों के उल्लेख यत्रतत्र मिलते हैं, जिनमें से कोई मनुपुत्र, कोई सूक्तद्रष्टा तथा कोई सप्तर्षियों में से एक माने गये हैं।

कपित्थक-कद्रुपुत्र एक सर्प का नाम।

कपिसुख-पराशर कुलोत्पन्न एक गोत्रकार का नाम। कपि-श्रवस् इनका एक अन्य नामांतर है। दे० 'कपिश्रवस्'।

कपिराय-वंदरों के राजा सुग्रीव का पर्याय। कपिराइ, कपीश आदि इनके अन्य नामांतर हैं। दे० 'सुग्रीव'।

कपिल-१. विष्णु के अवतारों में एक (पाँचवें) जिनकी उत्पत्ति कर्दम मुनि की पत्नी देवहृति के गर्भ से हुई थी। देवहृति ने भगवान की तपस्या करके उनसे विष्णु के समान पुत्र प्राप्त की इच्छा प्रकट की। भगवान ने अपने समान केवल अपने को ही पाकर स्वयं उनके गर्भ से जन्म ग्रहण करने का वचन दिया। फलतः देवहृति के गर्भ से कपिल भगवान भी उत्पत्ति हुई। दीर्घकाल तक सांसारिक सुख भोगते रहने पर अंत में जब कर्दम और देवहृति को इस जीवन से विरक्ति हुई तो उन्होंने भगवान से ज्ञान-प्राप्ति की प्रार्थना की। देवहृति के ज्ञान और भक्ति संबंधी प्रश्नों के उत्तर के रूप में जो कुछ कपिल मुनि ने कहा वही आगे चलकर सांख्य दर्शन के रूप में प्रसिद्ध हुआ। हरिवंश पुराण के अनुसार ये चिंतय के और श्वेताश्वतर के अनुसार ब्रह्मा के मानस पुत्र थे। कपिल के नामपर निम्नलिखित ग्रंथ प्रसिद्ध हैं—१. सांख्य सूत्र, २. तन्वसनास, ३. व्यास प्रभाकर, ४. कपिलगीता, ५. कपिल पंचरात्र, ६. कपिल संहिता, ७. कपिल स्मृति, ८. कपिल स्तोत्र। दे० 'कर्दम'। २. एक अग्नि-विशेष का नाम जो क्रमे (विश्वपति प्राप्ति) तथा हिरण्यकश्यप की पुत्री रोहिणी के पुत्र थे। ३. कश्यप तथा दनु के एक दानव पुत्र का नाम। ४. कश्यप तथा कद्रु ने उत्पन्न एक सर्प का नाम। ५. विश्व निधासी एक यानर का नाम। ६. रुद्रगणों में से एक का नाम। ७. शिवास्त्रार दधिवाहन के एक शिष्य का नाम। ८. एक वध का नाम। ९. भद्राश्व के पुत्र का नाम।

कपिला-१. कश्यप की पत्नी का नाम जो दक्ष की कन्या थी। २. कश्यप तथा न्यसा से उत्पन्न एक पत्नी का नाम।

कपिलाश्व-कश्यप के पुत्र का नाम।

कपिवन्-तामस नन्वंतर के सप्तर्षियों में से एक का नाम।

कपिवचन-एक ऋषि का नाम । इनके नाम से एक यज्ञ प्रसिद्ध है जो दो दिन का होता था ।

कपिश-कश्यप तथा दनु के एक दानव पुत्र का नाम ।

कपिश्रवस्-दे० 'कपिश्रवस्' ।

कपीतर-अंगिरस् कुलोत्पन्न एक गोत्रकार का नाम ।

कपूर-एक मध्यकालीन वैष्णव भक्त ।

कपोत-१. गरुड के पुत्र का नाम । २. एक तत्वज्ञानी राजर्षि का नाम ।

कपोतक-एक सर्पराज का नाम जो पाताल के स्वामी थे ।

कपोत नैऋत-एक सूक्तद्रष्टा का नाम ।

कपोतरीमन्-१. भागवत के अनुसार विलोमन् के पुत्र का नाम । अन्य पुराणों में इन्हें घृष्ट, घृति अथवा वृष्टि का पुत्र माना गया है । २. राजा शिवि के पुत्र का नाम । दे० 'शिवि' ।

कबंध-१. वाल्मीकि रामायण के अनुसार दण्डकारण्य में रहनेवाले एक भयानक दैत्य का नाम, जिसके मस्तक विहीन शरीर में केवल कबंध (धड़) था । इसी से इसका नाम कबंध था । इसके पेट में विकराल दाँत थे, वक्षस्थल में एक भयानक आँख थी, आकार पर्वत के समान था और भुजाएँ एक-एक योजन लंबी थीं । यह पहले एक गंधर्व था किंतु इसने इंद्र से झगड़ा कर लिया जिसमें उन्होंने वज्र से इसके शिर और जंघाएँ इसके पेट में घुसेड़ दीं । मत्तान्तर से किसी ऋषि के शाप के कारण वह इस प्रकार कुरूप हो गया था । जटायुवध के अनंतर सीता की खोज करते हुए राम-लक्ष्मण के ऊपर कौंचवन में मत्तंग मुनि के आश्रम के पास कबंध ने आक्रमण किया । राम ने उसकी भुजाएँ काट डालीं जिससे मुमूर्षु अवस्था में प्राप्त हो उसने राम से अपना शरीर जला डालने की प्रार्थना की । भस्मीभूत होने पर यह सद्गति को प्राप्त हुआ और विरवावसु नामक एक दिव्य शरीर-धारी गंधर्व के रूप में परिणत हो गया । राम को सीता का पता बताते हुए सुग्रीव से उनकी मैत्री करवा कर वह रावण के विरुद्ध जय यात्रा में राम का बड़ा सहायक सिद्ध हुआ । २. समंतु ऋषि के पुत्र का नाम जो व्यास की अथर्वन् शिष्य-परंपरा में थे । दे० 'कबंध आथर्वण' । ३. अष्टहास नामक शिवावतार के शिष्य का नाम ।

कबंध आथर्वण-एक ऋषि का नाम जो अथर्ववेद के आदि आचार्य थे । बृहदारण्यक उपनिषद् के अनुसार इन्होंने पतंजलि से अध्यात्मविद्या प्राप्त की थी । दे० 'कबंध' ।

कबंधिन् कात्यायन-पिप्पलाद मुनि के एक शिष्य का नाम ।

कबंधी-पद्मशिख मुनि की माता का नाम ।

कवीर-मध्ययुगीन हिंदी-साहित्य के एक प्रसिद्ध संत कवि । निर्गुणोपासना के अंतर्गत कवीर-पंथ के जन्मदाता, एक स्वतंत्र क्रांतिकारी चिंतक तथा समाज-सुधारक । इनकी जाति, जन्म माता-पिता आदि के संबंध में विद्वानों में मतभेद है । किंवदंती है कि इनकी उत्पत्ति एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुई थी जिसने काशी के 'लहरतारा' नामक तालाब में इन्हें फेंक दिया था वहाँ से नीरू नामक

एक जुलाहे ने इनको उठा लिया । इनका पालन-पोषण उसी के यहाँ हुआ । कवीर-कसौटी नामक ग्रंथ में इनका जन्म १४५५ सं० और मृत्यु १५७३ सं० लिया गया है । कवीरपंथिकों में और कई कथाएँ प्रचलित हैं जो अत्यंत अस्वाभाविक हैं । श्री हजारी प्रसाद जी द्विवेदी का मत है कि कवीर का जन्म 'योगी' (गोसाईं) नामक जाति में हुआ था जिसे वास्तव में न हिंदू कह सकते हैं और न मुसलमान । यद्यपि कवीर ने अपने गुरु के विषय में कोई विशेष विवरण नहीं दिया, किंतु जनश्रुति और विद्वन्मण्डली इन्हें रामानंद की शिष्य-परंपरा में मानती है । कुछ लोग शेष 'तकी' को इनका गुरु बतलाते हैं किंतु अंतर्साक्ष्य के आधार पर यह कहा जा सकता है कि तकी से कवीर का परिचय भले ही रहा हो लेकिन कवीर के वे गुरु किसी प्रकार भी नहीं हो सकते । कवीर ने अपने पदों में 'तकी' को समझाते हुए संबोधन किया है; और नाम लेकर गुरु को संबोधित करना संतों की परंपरा के वित्कुल विरुद्ध है । कवीर के विवाह के संबंध में भी मतभेद है । जो लोग यह मानते हैं कि इनका विवाह हुआ था उनके मतानुसार इनकी स्त्री का नाम 'लोई' था जिससे 'कमाल' नामक एक पुत्र और 'कमाली' नामक एक पुत्री उत्पन्न हुई थी । नाथ-संप्रदाय की साधना कवीर को पूर्वजों से चली आती हुई धरोहर के रूप में मिली थी । वैष्णव भक्ति का बीज रामानंद से मिला । इसी प्रकार तत्कालीन प्रचलित सूफी साधना से भी कवीर प्रभावित हुए । उपनिषदों के वेदांत संबंधी अद्वैतवाद की भावना भी उनको रामानंद से मिली होगी । इन्हीं सब के समन्वय से अपने क्रांतिकारी व्यक्तित्व की अमिट छाप लगा कर कवीर ने अपने अमर साहित्य का प्रणयन किया था । कवीर की धर्म-भावना के अनुसार कवीर के 'राम' निर्गुण राम हैं, जिनकी प्राप्ति के लिए भक्ति ही परम साधन है । कवीर जाति-पाँति विरोधी थे ।

कमठ-१. सुधिरि के दरवार के एक क्षत्रिय वीर का नाम । २. महानगर में रहनेवाले हारीत नामक एक ब्राह्मण के पुत्र का नाम । ३. विष्णु से कच्छपावतार का एक नामान्तर । दे० 'कूर्म' ।

कमला-१. लक्ष्मी का एक पर्याय । दे० 'रमा' । २. एक मध्यकालीन हरिभक्त पराशर महिला ।

कमलाकर भट्ट-मध्व संप्रदाय के अनुयायी एक विख्यात दार्शनिक आचार्य का नाम जो अपनी असाधारण प्रतिभा के कारण 'द्वितीय मध्वाचार्य' के नाम से प्रसिद्ध हुये । ये भगवान के सभी अवतारों को पूर्ण मानते थे और विजय ध्वजी पद्धति के अनुसार भागवत की कथा कहते थे । भक्तमाल के अनुसार इन्होंने अपनी भुजाओं पर भगवान के आयुधों की तस मुद्रा धारण की थी ।

कमलाक्ष-तारक के पुत्र का नाम जो त्रिपुरांतर्गत सुवर्ण-पुरी का अधीश्वर था । इसका वध शिवजी ने किया था । कथाधू-हिरण्यकशिपु नामक प्रसिद्ध राक्षस की स्त्री का नाम । यह तारकासुर के जंभासुर नामक सेनापति की कन्या थी ।

करंधम-विष्णु पुराण के अनुसार अतिभूति नामक एक प्राचीन राजा के पुत्र तथा अवीक्षित के पिता का नाम । अन्य पुराणों के अनुसार ये त्रिभान, त्रिशांव, त्रिसारि अथवा त्रिसानु के पुत्र माने गये हैं । महाभारत के अनुसार एक बार इन्होंने अपना कर कंपित कर अनेक सेनानी उत्पन्न किये थे और अपने आक्रमणकारियों को परास्त किया था । इसी कारण इनका नाम करंधम पड़ा था । विष्णुपुराण के अनुसार इनके पौत्र का नाम मरुत्त था ।

करंभ-१. अगस्त्य कुलोत्पन्न एक गोत्रकार का नाम । २. एक दानव का नाम । ३. मत्स्य तथा वायु पुराण के अनुसार शकुनि के पुत्र का नाम ।

करंभि-भागवत तथा विष्णुपुराण के अनुसार शकुनि के पुत्र का नाम । दे० 'करंभ' ।

करकर्प-शिशुपाल के चार पुत्रों में से एक का नाम ।

करकाक्ष-एक राजा का नाम जिसने महाभारत युद्ध में कौरवों की सहायता की थी ।

करकायु-धृतराष्ट्र के सौ पुत्रों में से एक का नाम ।

करभाजन-एक प्रसिद्ध भक्त का नाम जो नव योगीश्वरों में से एक थे । ऋषभदेव के नौ सिद्ध पुत्रों में से एक का नाम । ये प्रसिद्ध योगी तथा अध्यात्मवित् थे । इन्होंने ही राजा जनक को ज्ञानोपदेश दिया था जिससे वे 'विदेह' पदवी प्राप्त कर सके थे ।

करमानंद-एक प्रसिद्ध चारण भक्त जो कुशल गायक भी थे । २. पर्जन्य सुत नवनेदों में से एक का नाम । दे० 'पर्जन्य' ।

कररोमन-करयप तथा कद्रू के एक पुत्र का नाम । इनका एक नामांतर करवीर भी है ।

करवीर-दे० 'कररोमन' ।

करालजनक-एक धर्मवेत्ता ऋषि का नाम जिनका वसिष्ठ के साथ चराचरलक्षण विषयक शास्त्रार्थ हुआ था ।

करिक्रत वृत्तिगशन-एक सूक्तद्रष्टा का नाम ।

करीश-त्रिदवामित्र कुलोत्पन्न गोत्रकार ऋषिगणों का सामूहिक नाम ।

करुश-चैरन्वत मनु के दस पुत्रों में से एक का नाम जो दक्ष सावर्णि मन्वन्तर के अधिपति थे । इनकी संतति काल्पक नाम से प्रसिद्ध है । इन्होंने केवल वायु सेवन कर दीर्घकाल तक देवी की उपासना की थी जिससे प्रसन्न होकर उन्होंने इन्हें मन्वन्तराधिप बनाया था ।

करेणुमती-पांडुपुत्र नकुल की पत्नी का नाम जो शिशुपाल की कन्या थी ।

कर्कट-मर्गादा नामक पर्वत पर रहनेवाले एक भीम का नाम ।

कर्कटी-हिमालय के उत्तर प्रांत में रहनेवाली एक राजसी का नाम जिसे लोगों को मारने का बर मिला हुआ था । बाहर जनमंथार का कार्य कर यह पुनः हिमालय में चली जाती थी जहाँ इसका नाम कंदरा देवी हो जाता था । विष्णुचिन्ता तथा शन्यागदाधिष्ठा इसके अन्य नामांतर हैं । कर्कोटक-अष्टहजी महासर्पों में से एक प्रसिद्ध महा-

सर्प जो तक्षक का भाई था । कद्रू ने एक सहस्र सर्प उत्पन्न किये थे जिनमें शेष,वासुकि, ऐरावत,तक्षक तथा कर्कोटक मुख्य थे । कर्कोटक ने एक बार नारद से कपट व्यवहार किया था, जिससे क्रुद्ध हो उन्होंने शाप देकर इसे स्थावर बना दिया और साथ ही कलि के प्रथम चरण में राजा नल द्वारा उसके उद्धार का भी वचन दिया । कलि के प्रभाव से राज्यच्युत होकर जब नल कालांतर में उस वन से होकर गुजर रहे थे तो वह वन दावानल से भस्मीभूत हो रहा था । कर्कोटक ने नल को देखकर 'ब्राह्मिन्' की पुकार लगाई और नल ने उसका उद्धार किया किंतु कर्कोटक ने उलटा उन्हें ढँस लिया । इससे उनका उपकार ही हुआ क्योंकि उसके विप के प्रभाव से उनके शरीर में रहनेवाला कलि नष्ट हो गया ।

कर्ण-१. कुंती के गर्भ से उत्पन्न सूर्य के पुत्र । कुंती ने एक बार ऋषि दुर्वाला का विशेष आदरसत्कार किया था जिससे प्रसन्न होकर उन्होंने कुंती को एक मंत्र बताया था, जिसकी सहायता से वह किसी भी देवता से सहवास कर सकती थीं । कुंती उस समय कुमारी ही थीं । उत्सुकता वश उन्होंने उसी अवस्था में सूर्य का आवाहन किया । उसी के फल-स्वरूप कर्ण का धनुष चाण कुंडल कवच सहित जन्म हुआ । किंतु कुंती ने लोक-लाज के भय से अपने नवजात शिशु को शरव नदी में छोड़ दिया, जहाँ से धृतराष्ट्र के सूत अधिरथ ने उसे उठाकर अपनी पत्नी राधा के हाथ रख दिया । इस सूत-दंपति ने ही कर्ण का पालन पोषण किया था, जिससे वे सूत-पुत्र तथा राधेय कहलाए । कर्ण को शस्त्र-विद्या की शिक्षा द्रोणाचार्य ने दी थी, किंतु इनकी उत्पत्ति के विषय में संदेह होने के कारण उन्होंने इन्हें ब्रह्मास्त्र का प्रयोग नहीं सिखाया था । इसके लिए वे परशुराम के पास गये और अपने को आत्मण बताकर शस्त्रविद्या सीखने लगे । किंतु एक दिन परशुराम को यह किसी प्रकार ज्ञात हो गया कि यह ब्राह्मण नहीं हैं तो उन्होंने श्राप दिया कि "जिस समय तुम्हें इस विद्या की विशेष आवश्यकता होगी, उसी समय तुम इसे भूल जाओगे ।" कर्ण की दुर्योधन से वचन में ही विशेष मित्रता हो गई थी । दुर्योधन के लिए उन्होंने सफलतापूर्वक अश्वमेध यज्ञ भी किया था । जिस समय द्रौपदी के स्वयंवर के लिए राजा-गण द्रुपद के यहाँ एकत्र हो रहे थे दुर्योधन ने कर्ण को उसके उपयुक्त बनाने के लिए उन्हें कर्नागदेश का अधिपति बनाया था । द्रुपद के यहाँ अर्जुन के पूर्व कर्ण ने मन्य-वेध किया था किंतु द्रौपदी ने, सूत-पुत्र होने के कारण इनके साथ व्याहृ करना अस्वीकार कर दिया था । कर्ण ने इसने अपने को विशेष रूप से प्रपमानित समझा था । इनकी अर्घांगिनी का नाम प्रमायती तथा पुत्रों का नृपसेनु, नृपसेन तथा चित्रमेन आदि मिलता है । कर्ण की प्रतिद्विधा अर्जुन ने वचन में ही प्रारम्भ हो गई थी । कर्ण के मृत-पुत्र के रूप में विनाश होने के कारण अर्जुन बगवत उन्हें हीय रष्टि में देखते थे । उन्हें कर्ण के प्रवने बड़े भाई होने की दान ज्ञान न थी । भीष्म भी कर्ण को इसी कारण अधिरथ ही कहते थे । कर्ण ने पाँचों पांडवों का वध करने का प्रयत्न किया था, किंतु

कविरथ-चित्ररथ के पुत्र का नाम ।

कव्यवाह-एक पितृ-विशेष का नाम । ब्रह्मा की मानस-कन्या संध्या पर दक्ष आदि मोहित हो गये जिससे उनका स्वेदविंदु इस लड़की के ऊपर गिर गया और इसी से इनकी उत्पत्ति हुई ।

कव्हा-वायुपुराण के अनुसार उग्रसेन की कन्या का नाम ।

कश-पुरूरवा के वंशज राजा सुहोत्र के पुत्र तथा आयु के पौत्र का नाम ।

कशाय-एक शाखाप्रवर्तक ऋषि का नाम ।

कशु-वेदि के एक राजा का नाम जिनकी दानवीरता की प्रशंसा ब्रह्मातिथि काण्व ने की है ।

कश्यप-ब्रह्मा के मानसपुत्र मरीचि के पुत्र तथा सप्तर्षियों में से एक । ये सृष्टिकर्त्ता प्रजापतियों में प्रधान माने जाते हैं । इनकी सात स्त्रियाँ थीं जिनसे दैवी, आसुरी, मानवी आदि अनेक प्रकार की सृष्टियाँ उत्पन्न हुई थीं । इनकी दिति नामक स्त्री से दैत्य, अदिति से देवता (आदित्य-गण) विनता से खेचर जीव (पक्षी आदि) कद्रू से सरीसृप वर्ग, सुरभि से गो-महिष आदि, दनु से दानव तथा हरिवंश पुराणों के अनुसार कश्यप के दिति, अदिति, दनु, विनता, कद्रू, स्वप्ना, मुनि, क्रोधा, अरिष्ठा, इरा, ताम्र, इला तथा प्रधा नाम की तेरह स्त्रियाँ थीं । कश्यप का शब्दार्थ कच्छप अथवा कछुआ होता है । शतपथ ब्राह्मण में कहा गया है कि प्रजापति ने कच्छप का रूप धारण करके सारी सृष्टि का निर्माण किया । विष्णुपुराण के अनुसार भी विष्णु की उत्पत्ति वामन रूप में कश्यप और अदिति से हुई थी ।

कहोड-महर्षि उद्दालक के शिष्य तथा अष्टावक्र के पिता का नाम । शतपथ ब्राह्मण के अनुसार ये याज्ञवल्क्य के समकालीन थे । व्रीहि, यव आदि नव धान्यों को नवान्न याग करने के अनंतर खाने की प्रथा इन्होंने ही आरंभ कराई थी । आश्वलायन गृह्य सूत्रों में ब्रह्म यज्ञांग-तर्पण के प्रसंग में भी इनका उल्लेख है । कहोल कौपीतिक इनका एक अन्य नामांतर है । दे० 'अष्टावक्र' ।

कहोल कौपीतिक-दे० 'कहोड' ।

कांकायन-एक प्राचीन ऋषि का नाम जिनका उल्लेख शांल्युदक संबंधी मंत्रों के संबंध में मिलता है ।

कांचन-१. च्यवन भार्गव का एक नामांतर । २. भागवत तथा विष्णु पुराण के अनुसार भीम के एक पुत्र का नाम । वायुपुराण में इनका नाम कांचनप्रभ मिलता है ।

कांचन मालिनी-एक अप्सरा का नाम जिसे प्रयाग में माघस्नान करने से सुक्ति प्राप्त हुई थी ।

कांड्य-अंगिरस् कुलोत्पन्न एक गोत्रकार तथा प्रवर का नाम ।

कांडमायन-एक वैयाकरण का नाम जिसके मत का उल्लेख विसर्ग संधि के प्रकरण में मिलता है ।

कांडशय (कांडूष्य)-पराशर कुलोत्पन्न एक गोत्रकार का नाम ।

कांयोज-१. उपमन्यु कुलोत्पन्न एक आचार्य का नाम ।

२. भारत के उत्तर-पश्चिम प्रदेश में रहने वाली एक जाति-विशेष का प्राचीन नाम । यह प्रदेश अच्छी नस्ल के घोड़ों के लिए प्रसिद्ध है ।

काकभुशुंडि-भगवान के एक भक्त जो कौवे के रूप में रहते हैं और जिनका मानस के अनुसार कभी नाश नहीं होता । ये पूर्व जन्म के ब्राह्मण थे किंतु लोमश मुनि के शाप से कौवे की योनि में आ गए और प्रकाण्ड ज्ञानी हुए । ये राम के बालरूप के उपासक थे ।

काकी-१. स्कंद के शरीर से उत्पन्न होनेवाली मातृकाओं में से एक का नाम । २. करयप तथा ताम्रा की कन्याओं में से एक का नाम ।

काकुत्स्थ-ककुत्स्थवंशीय राजाओं का पैत्रिक नाम । राम, दशरथ आदि इसी वंश के थे । दे० 'ककुत्स्थ' । काकेयस्थ-कृष्ण पराशर कुलोत्पन्न एक गोत्रकार का नाम ।

काक्षीवत्-दे० 'दीर्घतमस्' ।

काण्व-१. एक प्राचीन आचार्य का नाम जिन्होंने स्व-त्रिपयक मत का प्रतिपादन किया था । २. वसिष्ठ गोत्रीय ऋषिगणों का सामूहिक नाम । ३. व्यास की याज्ञवल्क्य शाखाओं में से एक का नाम ।

काण्वायन-अंगिरस् कुलोत्पन्न एक गोत्रकार का नाम ।

काण्व्यायन-एक आचार्य का नाम ।

कात्थक्य-एक प्राचीन ऋषि का नाम जिन्होंने अर्थ-विषयक विचार किया है ।

कात्यायन-१. विश्वामित्र कुलोत्पन्न एक प्राचीन ऋषि का नाम जिन्होंने श्रौतसूत्र, गृह्यसूत्र तथा प्रतिहारसूत्र नामक ग्रंथों की रचना की थी । २. गोमिल नामक एक प्राचीन ऋषि के पुत्र का नाम जिनके बनाए हुए गृह्यसंग्रह छंदोपरिशिष्ट और कर्मप्रदीप ग्रंथ हैं । ३. एक बौद्ध आचार्य जिन्होंने 'अभिधर्म ज्ञान प्रस्थान' नामक ग्रंथ की रचना की । इनका समय बुद्ध के लगभग ४५ वर्ष बाद माना जाता है । ४. एक अन्य बौद्ध आचार्य जिन्होंने पाणि-व्याकरण की रचना की और जो पाली में कच्छयान नाम से प्रसिद्ध है । ५. प्रसिद्ध महर्षि तथा व्याकरण शास्त्र के प्रणेता जिन्होंने पाणिनि की अष्टाध्यायी का परिशोधन कर उस पर वार्तिक लिखा था । कुछ विद्वान् प्राकृतप्रकाश के रचयिता वररुचि को इनसे अभिन्न मानते हैं; किंतु इस कथन के लिए कोई ठोस प्रमाण नहीं है । कात्यायन का समय मैक्समुलर के अनुसार चौथी शताब्दी ई० पू०, गोलहस्टकर के अनुसार दूसरी शताब्दी ई० पू० तथा वेबर के अनुसार ईसा के जन्म के २५ वर्ष पूर्व था । व्याकरण के अतिरिक्त श्रौत सूत्रों तथा यजुर्वेद प्रातिशाख्य के रचयिता भी कात्यायन ही माने जाते हैं । वेबर ने इनके सूत्रों का संपादन किया है । इन्हें एक स्मृति ग्रंथ का रचयिता भी माना जाता है । कथासरित्सागर के अनुसार ये पुष्पदंत नामक गर्बंध के अवतार थे । कात्यायन के नाम पर प्रसिद्ध सभी ग्रंथों की सूची निम्नलिखित हैं :- १. श्रौतसूत्र, २. इष्टि-पद्धति, ३. गृह्यपरिशिष्ट, ४. कर्म प्रदीप, ५. त्रिलोडिक सूत्र, ६. श्राद्ध कल्प सूत्र, ७. पशुबंध सूत्र, ८. प्रतिहार

सूत्र, ६. आजरलोक, १०. रुद्रविधान, ११. वार्तिकपाठ, १२. कात्यायनी शांति, १३. कात्यायनी शिक्षा, १४. स्नान-विधि, १५. कात्यायन कारिका, १६. कात्यायन प्रयोग, १७. कात्यायन वेद प्राप्ति, १८. कात्यायन शाखा भाष्य, १९. कात्यायन स्मृति (जिसका उल्लेख यज्ञवल्क्य, हेमाद्रि तथा विज्ञानेश्वर आदि ने किया है), २०. कात्यायनोपनिषद्, २१. कात्यायन गृह्य कारिका, २२. वृषोत्सर्ग-पद्धति, २३. आतुरसन्त्यास विधि, २४. गृह्य सूत्र, २५. शुक्ल युजुः प्रातिशाख्य । २६. प्राकृत प्रकाश तथा २७. धर्मि-धर्म ज्ञान प्रस्थान । उपर्युक्त सभी ग्रंथ भ्रमवश वररुचि कात्यायन के ही मान लिए जाते हैं, जो ठीक नहीं हैं । कात्यायन स्मृति-अष्टादश स्मृतिग्रंथों में से एक जिसके रचयिता महर्षि कात्यायन वर्तते जाते हैं, किंतु यह ग्रंथ इस समय अप्राप्य है ।

कात्यायनी-१. याज्ञवल्क्य की दो परिणियों में से एक का नाम । इनकी दूसरी पत्नी मैत्रेयी अध्यात्मविद्या में पारंगत थी, किंतु सांसारिक विषयों में कात्यायनी का ही मत मान्य था । २. देवी के एक रूप विशेष का नाम । कात्यायन के ही द्वारा सर्वप्रथम पूजित होने के कारण इनका नाम कात्यायनी पड़ा था । देवी की यह मूर्ति दस भुजाओं से युक्त है और वे सिंह पर समासुद्ध रहती है । इसी रूप में इन्होंने साँ वर्ष के युद्ध के उपरांत महिषासुर नामक एक भयंकर दैत्य का वध किया था । इस रासत्र ने देवताओं को नाना प्रकार के कष्ट दिये थे जिससे विपन्न हो देवताओं ने त्रिदेवों की प्रार्थना की । अत्यंत क्रुद्ध होने के कारण त्रिदेवों के मुख से एक तेज निकला जिसने स्त्री का रूप धारण करके महिषासुर का वध किया । यही कात्यायनी देवी थीं । इनके अवतार का एक और कारण था । महिषासुर ने एक बार परम रूपवती स्त्री का रूप धारण करके कात्यायन के शिष्य को मोहित करना चाहता था जिससे क्रुद्ध हो कात्यायन ने शाप दे दिया कि स्त्री के हाथ से ही तेरा नाश होगा । दे० 'महिषासुर' तथा 'कात्यायन' । ३. एक हरि भक्ति परायण महिला जिनका प्रेम गोपियों के प्रेम के बराबर था और जो गान विद्या में भी बड़ी निपुण थीं ।

कादंबरी-संस्कृत के प्रसिद्ध महाकवि वाणभट्ट द्वारा प्रणीत एक विख्यात ग्रंथ का नाम जो काव्यमय गद्य में है और अपनी विशेषताओं में वैजोद् है । इसमें राजा चंद्र-पीठ तथा गंगवराज चित्ररथ की कन्या कादंबरी का प्रेमोपाख्यान वर्णित है । कादंबरी इन कथा की नायिका है । इतना प्रौढ़, प्रांजन तथा आलंकारिक गद्य विश्व-साहित्य में दुर्लभ है । वाण की प्रतिभा के संबंध में एक उक्ति प्रसिद्ध है; "वाणोन्मिद्धं जनसर्वं" अर्थात् कोई ऐसी अनूठी उक्ति नहीं जिस वाण ने पहले से ही न कह सके हो । दे० 'वाणभट्ट' ।

कादंबरी-१. विद्वत जी के पुत्र का नाम । २. उक्त ग्रंथ का अनुसार एक अन्य मनुष्यकालीन वैष्णव भक्त का नाम ।

कादंबरी-१. रामानंद संप्रदाय के एक अनुज

प्रचारक और भक्त जो पौहारी जी के शिष्य थे और अग्रदास जी के समकालीन थे । २. 'बुद्धिया' नामक ग्राम में रहनेवाले एक विख्यात वैष्णव भक्त का नाम जो किन्हीं सोभूराम जी के शिष्य थे ।

कान्हारा-भारतीय संगीत पद्धति का एक प्रसिद्ध राग । कान्हारे अठारह प्रकार के होते हैं किंतु अधिकतर कान्हारा से दरवारी कान्हारा का बोध होता है । इस राग का आविष्कार तानसेन ने किया था और सन्न्यास श्रकवर को यह बहुत प्रिय था । उनके दरवार में बहुधा इस राग का आलाप होने के कारण इसका नाम दरवारी कान्हारा पड़ गया । इसमें ग, ध नि कोमल तथा शेष स्वर शुद्ध लगते हैं । रे ग और ध का इस राग में प्राधान्य रहता है । गंधार सदा चक्र और आंदोलित तथा मध्यम का अंश लेकर लगता है । गंधार की ही भाँति धैवत भी आंदोलित रहता है और निषाद का अंश लेकर लगता है । इसके गाने का समय रात्रि का द्वितीय प्रहर है । इसका विस्तार मंद्र तथा मध्य सप्तक में ही अधिक होता है । प्रकृति शांत और गंभीर होने के कारण यह राग भक्ति रसात्मक पदों के लिए यह बहुत उपयुक्त है । यही कारण है कि संतों के पदों में कान्हारे और विलावल बहुत मिलते हैं ।

कामंद-एक ब्रह्मर्षि का नाम जिन्होंने राजा अंगरिष्ट को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के संबंध में उपदेश दिये थे । कामंदक-'कामंदकीय नीतिसार' नामक ग्रंथ के रचयिता एक प्रसिद्ध नीतिविशारद का नाम । इन्होंने अपने ग्रंथ में चाणक्य का उल्लेख किया है जिससे स्पष्ट है कि ये चाणक्य के बाद हुए थे ।

काम-१. दे० 'कामदेव' । २. संकल्प के पुत्र का नाम । ३. धर्म ऋषि के एक पुत्र का नाम । ४. परशुराम के एक भाई का नाम । ५. वैवस्वत मन्वन्तर में बृहस्पति के दाहिने का नाम ।

कामकला-एक गोपी, जो राधा की सखी थी ।

कामकायन-विश्वामित्र के कुल में उत्पन्न एक गोत्रकार ब्रह्मर्षि का नाम ।

कामठक-एक पौराणिक सर्प ।

कामदेव-प्रेम के देवता । ऋग्वेद में अद्वैत में सर्वप्रथम इच्छा की उत्पत्ति मानी गई है । यह इच्छा ही शाये चल कर प्रेम के देवता के प्रतीक-स्वरूप कामदेव के नाम से स्वीकृत हुई । अथर्ववेद में इनकी उत्पत्ति के संबंध में लिखा है: "काम की उत्पत्ति ही सर्वप्रथम हुई थी । उनकी समानता देवता प्रजापति और मनुष्य कोर्द भी नहीं कर सकते ।" इसके प्रतिरिक्त कामदेव को इन मन्त्रे महान् भी कहा गया है । तैत्तिरीय ब्राह्मण के अनुसार इन्हें न्याय के अधिष्ठाता धर्मराज तथा विश्वाम के प्रतीक स्वरूप स्वीकृत हुई देवी श्रद्धा का पुत्र कहा जा सकता है । हरिवंश पुराण में इन्हें नरमी का पुत्र कहा गया है । कुछ स्थानों पर इनके संबंध में प्रमा के पुत्र होने के उल्लेख भी मिलते हैं । इन्हें कामभू, पति तथा जनन्य भी कहा जाता है, जिससे ज्ञात होता है इनका जन्म स्वयं ही बिना माता-पिता के हो गया था । पुराणों में

इनकी स्त्री का नाम रति अथवा रेवा मिलता है। एक वार शंकर का ध्यान भंग करने के कारण इनके भस्म होने की कथा भी मिलती है। इस प्रकार अपने पति का सर्वनाश देखकर इनकी स्त्री रति के विलाप करने पर शंकर ने उसके अंगहीन होकर भी जीवित रहने तथा कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न के रूप में जन्म लेने की बात कही थी। रुक्मिणी के गर्भ से प्रद्युम्न का जन्म हुआ था और रति मायावती के रूप में उत्पन्न हुई थी। प्रद्युम्न के पुत्र का नाम अनिरुद्ध तथा पुत्री का नाम वृषा मिलता है। काम-देव के साथियों में वसंत का नाम लिया जाता है। इनका वाहन कौकिल अथवा शुक है और अस्त्र फूलों का धनुष-बाण कहा जाता है। इनकी ध्वजा में मकर का चिह्न है। दे० 'अनंग'।

कामधेनु-समुद्र-मंथन में प्राप्त चौदह रत्नों में से एक का नाम जिससे यथेष्ट वर की प्राप्ति हो सकती है।

कामध्वज-नाभादास के अनुसार एक मध्यकालीन प्रसिद्ध वैष्णव भक्त। इनके शेष तीनों भाई उदयपुर के राणा की नौकरी करते थे किंतु ये केवल हरिभजन करते थे और जंगल में पड़े रहते थे। केवल भोजन मात्र के लिए घर आ जाया करते थे। एक वार इनके भाई ने पूछा कि जंगल में मर जाने पर तुम्हें जालावेगा कौन? कामध्वज ने उत्तर दिया कि जिसका मैं दास हूँ वही जलावेगा भी। समयानुसार जंगल में ही उनकी मृत्यु हुई जहाँ राम की आज्ञा से हनुमान ने उनका दाह-संस्कार किया।

कामरूप-एक तीर्थ का नाम। वर्तमान रंगपुर, जलपाई गुड़ी तथा कूच विहार आदि आसाम के जिले प्राचीन कामरूप प्रदेश के अंतर्गत माने जाते हैं। कथा सरित्सागर तथा अन्य लोकप्रचलित कथाओं से ज्ञात होता है कि प्राचीन काल में किसी समय यह प्रदेश कौल साधना का मुख्य केंद्र रहा है।

कामलता-एक गोपी। राधा की सखी।

कामली-परशुराम की माता का नाम। इनका नामांतर रेणुका है। दे० 'रेणुका'।

कामाक्षी-कामरूप प्रांत की कामपीठस्थ देवी का नाम। नरकासुर नामक एक दैत्य ने इनके पाणिग्रहण की इच्छा प्रकट की थी जिस पर इन्होंने यह प्रतिबंध लगाया कि ऐसा तभी हो सकता है जब वह देवी का मंदिर रातों-रात तैयार करवा दे। नरकासुर ने तत्काल विश्वकर्मा को पकड़ कर मंदिर बनाने की आज्ञा दी किंतु देवी ने अनेक कुक्कुट उत्पन्न कर वास्तविक रात्रि व्यतीत होने के पूर्व ही उनके शब्दों से प्रातःकाल की सूचना दे दी जिससे दैत्य की इच्छा पूरी न हो सकी। इस पर क्रुद्ध हो उसने सारे कुक्कुटों का वध कर दिया। वर्तमान कामाक्षी देवी का मंदिर नरकासुर का वनवाया हुआ माना जाता है जिसे सन् १२६४ में काला पहाड़ ने नर-नारायण के राज्य-काल में नष्ट कर दिया था।

कामोदा-चीरसमुद्र की चार कन्याओं में से एक का नाम जिसकी उत्पत्ति अमृत के फेन से मानी जाती है और जिसे विष्णु ने अपनी पत्नी के रूप में ग्रहण किया।

काम्यक-महाभारत के अनुसार सरस्वती के तट पर स्थित

एक वन का नाम जिसमें पाण्डवों ने गुप्तवास किया था।

काम्या-कर्दम प्रजापति की एक कन्या का नाम।

कायानि-भृगुकुलोत्पन्न एक गोत्रकार का नाम।

कायव्य-क्षत्रिय पिता तथा निषाद माता से उत्पन्न एक दस्यु का नाम जो सदाचार से रहने तथा गो ब्राह्मण की रक्षा करने के कारण सद्गति को प्राप्त हुआ था।

कारकि-अंगिरस्कुलोत्पन्न एक गोत्रकार का नाम।

कारीर-ब्रह्मण ग्रंथों के अनुसार एक प्रचीन आचार्य का नाम।

कारीरथ-अंगिरस्कुलोत्पन्न एक गोत्रकार का नाम।

कारिपि-विश्वामित्र के पुत्र का नाम।

कारुकायण-विश्वामित्र कुलोत्पन्न एक गोत्रकार का नाम।

कारूपक-करुपक प्रदेश के एक प्राचीन राजा का नाम जिसका पुत्र दंतचक्र भारतयुद्ध में कौरवों के पक्ष में था।

कारोटक-अंगिरस्कुलोत्पन्न एक गोत्रकार का नाम।

कार्तवीर्य-हैहय राजा कृतवीर्य के पुत्र का नाम। इनका वास्तविक नाम अर्जुन था। दत्तात्रेय की कृपा से सहस्र भुजाएँ प्राप्त होने पर इनका नाम सहस्रार्जुन हो गया। सहस्रार्जुन कार्तवीर्य ने वायुपुराण के अनुसार २५००० वर्ष पृथ्वी पर राज्य किया और ऐश्वर्य, वैभव तथा पराक्रम में इनके समान कोई दूसरा राजा नहीं था।

सहस्र भुजाओं के अतिरिक्त दत्तात्रेय भगवान से इन्हें एक स्वर्णमय रथ मिला था, जिसकी सर्वत्र अवाधगति थी। साथ ही यह वरदान भी मिला था कि युद्ध में इन्हें कोई जीत नहीं सकता और समस्त भूमण्डल में इनका एकच्छत्र राज्य होगा। एक वार अपनी स्त्रियों के साथ जलविहार करते हुए इन्होंने अपनी सहस्र भुजाओं से नर्मदा का प्रवाह रोक दिया जिसका परिणाम यह हुआ कि नर्मदा की उल्टी धारा ने स्वर्णमय शिवलिंग की उपासना में रत राजसुराज रावण के यज्ञपात्र आदि को दूर बहा दिया। इससे क्रुद्ध हो रावण ने इन पर आक्रमण कर दिया किंतु इन्होंने उसे परास्त कर वन्य पशु की भाँति अपनी राजधानी के एक कोने में बँधवा दिया। वायुपुराण के अनुसार इन्होंने लंका पर आक्रमण कर वहाँ रावण को कैद किया था। इस प्रकार कार्तवीर्य अपरिमित शक्ति और ऐश्वर्य से मदांध हो मनमाना अत्याचार करने लगा। एक वार जमदग्नि के आश्रम में जाकर इन्होंने कामधेनु को प्राप्त करने की इच्छा प्रकट की किंतु महर्षि ने इसे अस्वीकार कर दिया। इस पर इन्होंने जमदग्नि का वध कर बलात् कामधेनु का अपहरण कर लिया। उस समय परशुराम अनुपस्थित थे। आने पर उन्हें जब यह समाचार मिला तो उनके क्रोध का टिकाना न रहा और तत्काल ही कार्तवीर्य का वध करके इन्होंने इक्ष्वाकु वार पृथ्वी को क्षत्रियों से रहित करने की प्रतिज्ञा की और अपनी यह प्रतिज्ञा उन्होंने पूरी भी की। मत्तांतर से कार्तवीर्य के मनमाना अत्याचार से तंग देवताओं की प्रार्थना पर विष्णु ने परशुराम का अवतार ग्रहण कर कार्तवीर्य का वध किया था। दे० 'जमदग्नि' तथा 'परशुराम'।

कार्तिक-१. वर्ष के वारह महीनों में से एक का नाम ।
 २. कार्तिकेय का एक नामांतर । दे० 'गणेश' तथा 'स्कंद' ।
 कार्तिकेय-इनका नामांतर स्वामि कार्तिक भी है । दे० 'गणेश' तथा 'स्कंद' ।
 कार्तिमति-शुक की कन्या तथा अणुह की पत्नी का नाम ।
 कार्तिरुद्रायुध-कृत के पुत्र का नाम । दे० 'कृत' ।
 कार्तिवय-कश्यपगोत्रीय एक ब्रह्मर्षि का नाम ।
 काद्रुमायनि-भृगुगोत्रीय एक ब्रह्मर्षि का नाम ।
 कार्पण-भृगुकुलोत्पन्न एक ब्रह्मर्षि का नाम ।
 कार्पण-भृगुकुलोत्पन्न एक गौत्रकार ब्रह्मर्षि का नाम ।
 कार्णार्जिनि-एक प्राचीन आचार्य का नाम जिन्होंने कार्णार्जिनि-स्मृति-ग्रंथ की रचना भी की थी । इस ग्रंथ का उल्लेख हेमाद्रि माधवाचार्य आदि ने किया है । मिताचारा, स्मृतिचंद्रिका आदि ग्रंथों में भी इसका उल्लेख है ।
 कार्णायिन-कृष्ण पराशर कुलोत्पन्न एक गौत्रकार का नाम ।
 कार्णि-१. कृष्ण के पुत्रों मुख्यतः—प्रद्युम्न का नाम ।
 २. अभिमन्यु का एक नामांतर ।
 काल-१. ध्रुव वसु के पुत्र का नाम । २. एक असुर का नाम । दे० 'महिषासुर' । ३. एक प्राचीन योद्धा का नाम । दे० 'कुशीलव' । ४. रुद्रों में से एक का नाम ।
 कालकंज-एक असुर का नाम । इसने स्वर्ग प्राप्ति की इच्छा से अश्विचक्र का अनुत्पान किया था किंतु इंद्र ने उसमें विघ्न उपस्थित कर इसे युद्ध में परास्त कर दिया ।
 कालका-वैश्वानर नामक दानव की कन्या, तथा कश्यप की स्त्रियों में से एक का नाम । यह सारीच नामक एक राक्षस की पत्नी थी, जिससे कालकेय अथवा कालकंज नाम से अनेक पुत्र उत्पन्न हुए थे ।
 कालकान्त-एक असुर का नाम जिसका वध गरुड ने किया था ।
 कालकामुक कार्मुक-खर नामक प्रसिद्ध राक्षस के वारह मंत्रियों में से एक का नाम ।
 कालकूट-त्रिपुरासुर के आश्रित एक दैत्य का नाम ।
 कालकेतु-एक असुर का नाम जिसका वध एकवीर नामक एक हंसराजा ने किया था ।
 कालकेय-हिरण्यपुर में रहने वाले असुरों का नाम जिन्हें अर्जुन ने मारा था ।
 कालकंज-दे० 'कालकंज', 'कालका' तथा 'कालकेय' ।
 कालघट-जनमेजय के नागयज्ञ में सम्मिलित एक सभा-सद का नाम ।
 कालजित-लक्ष्मण के सेनापति का नाम ।
 कालजित-एक रुद्र का नाम ।
 कालनर-भागवत के अनुसार यमानर के पुत्र का नाम । इसके पुत्र का नाम मृजय था ।
 कालनाभ-१. व्याभासु का पुत्र और दिग्बलनिपु का एक सभासद । २. कश्यप तथा दनु से उत्पन्न एक दानव का नाम । ३. विप्रधिति तथा सिद्धि का एक पुत्र का नाम जिसका वध परशुराम ने किया था ।

कालनेमि-१. लंका का एक राक्षस जो लक्ष्मणको शक्ति लगने पर श्रोत्रधुके लिए जाते हुए हनुमान के मार्ग में विघ्न उपस्थित करने के लिए रावण के द्वारा भेजा गया था । यह ऋषिवेश में उस स्थान पर बैठा था जहाँ हनुमान जल-पान के निमित्त रुके थे । ज्ञानी हनुमान को इसका कपट वेश ज्ञात हो गया और उन्होंने क्षण भर में ही उसका वहीं काम तमाम कर दिया । २. शंभर मुख के एक दैत्य का नाम । ३. पातालवासी एक दैत्य का नाम जिसका वध विष्णु के हाथ से हुआ था । पद्मपुराण के अनुसार यही कालांतर में कंस के रूप में प्रकट हुआ था ।
 कालपथ-विश्वामित्र के एक पुत्र का नाम ।
 कालपृष्ठ-कश्यप तथा दिति के एक पुत्र का नाम । इसने शिव की तपस्या कर यह वर प्राप्त कर लिया था कि जिसके सिर पर मैं हाथ रखूँ वह भस्म हो जाय । वर प्राप्त होते ही उसने इस शक्ति का प्रयोग पहले शिव पर ही करने का निश्चय किया । इस पर विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण कर ऐसा उपाय किया कि यह स्वयं अपने सिर पर हाथ रखने से भस्म हो गया । दे० 'भस्मासुर' ।
 कालभीति-मांठी के पुत्र का नाम । इन्होंने पुत्र की कामना से सौ वर्ष पर्यंत रुद्रयज्ञ किया था जिसके परिणामस्वरूप इनकी पत्नी गर्भवती हुई, किंतु काल के भय से गर्भस्थ बालक चार वर्ष तक भूमिष्ठ नहीं हुआ । इससे दुखी हो मांठी ने शिव के पास जाकर इस समस्या को हल करने की प्रार्थना की । शिव ने गर्भस्थ बालक को धर्म, ज्ञान तथा वैराग्य का बोध कराने का उपदेश दिया जिसके परचान् शिशु का जन्म हुआ । संस्कार होने पर इसने कालभीति क्षेत्र में जाकर अनुत्पान किया जिससे प्रसन्न हो शिव ने इसे 'महाकाल' नाम से प्रसिद्ध होने का आशीर्वाद दिया ।
 कालभैरव-भैरव तथा रुद्र का नामांतर । ये संभवतः अनार्यों के देवता थे । काशी में इनका मंदिर है । दे० 'भैरव' तथा 'रुद्र' ।
 कालयवन-एक प्राचीन राजा का नाम जिसके पिता महर्षि नार्य तथा माता गोपाली नाम की अक्सरा थी । इसकी उत्पत्ति के संबंध में यह कहा है कि एक बार भरी सभा में यादवों ने नार्य (महर्षि नार्य के पुत्र) को नपुंसक कष्ट कर उनकी वध्वी हँसी उड़ाई । इसमें घुब्य हो इन्होंने वाराह वर्ष तक लोहचूर्ण खाकर पुत्र-प्राप्ति की कामना ने शिव की घोर तपस्या की । काल यवन इसी तपस्या का फल था जो अंधकों तथा गृणियों का घोर शत्रु हुआ । शंभय में इसका पालन एक निम्संतान यवन राजा (यूनानी) ने किया था । इसी ने इनका नाम काल-यवन पद दिया । कालयवन का पराक्रमी पुत्र । इसने जगत्संध के साथ यादवों पर आक्रमण किया जिसने अयोध्या में कृष्ण के परामर्श ने मारे वादर शरणा भाग गए । युद्ध में पराजित हो कृष्ण नार्य किसानाय की पत्नी मुपता में भाग गए जहाँ मांधाना के पुत्र मुचरुंद शयन कर रहे थे । कालयवन भी इसका पीछा करता हुआ वहाँ पहुँचा और मुचरुंद को ही कृष्ण भगवान्

उन्हें पाँव की ठोकड़ों से उठाने लगा। निद्राभंग होने पर ज्योंही मुचकुंद ने नेत्र उठाकर कालयवन की ओर देखा, वह भस्म हो गया।

कालवीर्य-एक असुर का नाम।

कालशिख-वसिष्ठ गोत्रीय एक ऋषि का नाम।

काला-१. कश्यप की स्त्री का नाम जो दक्ष प्रजापति तथा असिक्री की कन्या थीं। इनका नामांतर काष्ठा है। २. देवताओं की प्रार्थना पर पार्वती द्वारा उत्पन्न की हुई शक्ति का नाम, जिसने शुंभ, निशुंभ, रक्तबीज, चंडमुंड तथा धूम्रलोचन आदि दैत्यों का नाश किया था। कालो, कालिका, कौशिकी, ब्राह्मणी, वैष्णवी, शांकरा, इंद्राणी, भवानी, वाराही आदि इनके अनेक नामांतर हैं।

कालादा-प्रसिद्ध राक्षस घटोत्कच का नामांतर।

कालानल-१. एक दैत्य का नाम जिसका वध गणेश ने किया था। २. कालानर का नामांतर।

कालायनि-न्यास की ऋक्ष शिष्य परंपरा में वाष्कली के एक शिष्य का नाम।

कालिंदी-१. प्रसिद्ध यमुना नदी का एक नामांतर। २. कृष्ण की एक स्त्री का नाम। पूर्व जन्म में ये सूर्य की कन्या थीं और तभी कृष्ण को पतिरूप में पाने के लिए इन्होंने तप किया था, जिससे प्रसन्न हो कृष्ण ने इनका पाणिग्रहण किया था। इनसे कृष्ण को दस पुत्र उत्पन्न हुए थे - श्रुत, कवि, वृष, वीर, सुबाहु, भद्र, शांति, दर्श, पूर्णमास तथा सोमक।

कालिक-न्यास की ऋक्षशिष्य-परंपरा के अंतर्गत हिरण्यनाभ के एक शिष्य का नाम।

कालिक वृक्षीय मुनि-एक प्राचीन ऋषि का नाम जिनके पास भूत, भविष्य, वर्तमान बताने वाला एक पत्नी था। एक बार ये अपने पत्नी के साथ कोसल के राजा क्षेमदर्शी के यहाँ गए जिन्होंने पत्नी का गुण जानकर उससे यह पता लगाना चाहा कि उसके मंत्री उसके संबंध में क्या सोचते हैं। इस पर पत्नी ने मंत्री के दुर्गुणों को स्पष्ट बतला दिया जिससे रूष्ट हो अन्य मंत्रियों ने रात को उसे मरवा डाला। इससे राजा ने समझा कि उसके विरुद्ध कुछ और पद्यों हो रहा होगा। इस आशंका से उसने अपने मंत्रियों को वीर दंड दिया।

कालिंग-एक अंत्यज का नाम। एक बार यह चोरी करने गया हुआ था जब कि इसका उद्धार हुआ।

कालिदास-संस्कृत के एक सुविख्यात महाकवि और नाटककार का नाम। कालिदास का समय अभी अनिश्चित ही है। परंपरा इन्हें उज्जयिनी के विख्यात राजा विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक मानती चली आई है। विल्सन की धारणा है कि यह वही विक्रमादित्य है जिनका चलाया हुआ विक्रम संवत् २६ ई० पू० से चल रहा है और यही कालिदास के आश्रयदाता थे। किंतु कुछ विद्वान् उस विक्रम को हर्ष विक्रमादित्य मानते हैं जो ईसा की ६ वीं शताब्दी में हुए थे। विलियम्स के अनुसार कालिदास का रचनाकाल ईसा की तीसरी शताब्दी में मानना चाहिए। लासेन इनका समय इससे लगभग ५० वर्ष और पूर्व का ठहराते हैं। कुछ विद्वान्

यह भी मानते हैं कि ऐसे कई कवि हो चुके हैं जिन्होंने कालिदास उपनाम से ग्रंथरचना की। इन विद्वानों के अनुसार मानसूत्रार्थ ही विवेच्य कालिदास हैं। एक मत के अनुसार कालिदास बौद्ध नैयायिक दिङ्नाग के समकालीन थे जिसका उल्लेख उन्होंने स्वयं मेघदूत में किया है-दिङ्नागानां पथि परिहरन् स्थूल हस्तावलेपान्। किंतु दिङ्नाग का भी समय अनिश्चित रहने के कारण कालिदास जी के समय निर्धारण में विशेष सहायता नहीं मिलती। कालिदास की जीवनी के संबंध में एक प्रबल किंवदंती प्रचलित है जिससे ज्ञात होता है कि शारंग में ये एक दरिद्र ब्राह्मण के पुत्र थे और साथ ही गूंगे और मूर्ख भी थे। अवंतिराज की विदुषी तथा सुंदरी कन्या विद्याधरी ने यह प्रण किया था कि वह जिससे शास्त्रार्थ में पराजित हो जायगी उसी से विवाह करेगी। स्वयंवर सभा में देश भर के अग्रगण्य पंडित उससे शास्त्रार्थ में पराजित हो गये थे। इसी दल के तीन पंडित म्लानसुख सभा से लौट रहे थे। रास्ते के जंगल में उन्होंने देखा कि एक ब्राह्मण कुमार जिस डाल पर बैठा है उसी को काट रहा है। उन लोगों ने लड़के को समझाया कि ऐसा करने में उसके प्राणों का खतरा है किंतु उसने इशारे से इसका प्रतिवाद किया। ईर्ष्यालु पंडितों ने सोचा कि किसी प्रकार ऐसे ही मूर्खाधिराज से विद्यावती का पाणिग्रहण करवा कर अपना बदला चुकाना चाहिए। उन लोगों ने उसे समझा-बुझाकर अपने साथ चलने को राजी किया और स्वयंवर सभा में पहुँचकर यह प्रसिद्ध किया कि यह ब्राह्मणकुमार महान ज्ञानी है किंतु मौन रहता है, अतः विद्यावती को हंगित से ही शास्त्रार्थ करना पड़ेगा। सभा प्रारंभ हुई राजकुमारी ने अपनी एक उँगली उठाई जिसका आशय अद्वैत का प्रतिपादन करना था। ब्राह्मण-कुमार ने समझा कि यह मेरी एक आँख फोड़ देने को कहती है। इसलिए उसने अपनी दो अँगुलियाँ दिखा कर यह आशय प्रकट किया कि मैं तुम्हारी दोनों आँखें फोड़ दूँगा। ब्राह्मणों ने इस हंगित का यह भाष्य किया कि ब्राह्मण महोदय अद्वैत के विरुद्ध द्वैत का प्रतिपादन कर रहे हैं, इसी प्रकार राजकुमारी ने तीन प्रश्न किये और तीनों का उत्तर उन्हें उसी शैली में दिया गया। ब्राह्मण-कुमार मूर्ख होते हुए भी परम तेजस्वी तथा दर्शनीय था। राजकुमारी ने प्रभावित होकर पराजय स्वीकार करते हुए उससे अपना विवाह कर लिया; किंतु उसी रात उसकी मूर्खता का पता चलने से उसे त्याग दिया। ब्राह्मण को इससे बड़ा दुःख हुआ जिससे मूर्छित हो वह मंदिर में सरस्वती की प्रतिमा के सामने गिर पड़ा। गिरने से उसकी जिह्वा कट गई और रक्त की धारा देवी के चरणों में बह चली इससे देवी ने प्रसन्न हो 'वरं वृद्धि' कहा। ब्राह्मण कुमार किसी प्रकार केवल विद्या विद्या! कह सका। वरदान मिला। फिर उसने बारह वर्ष तक विध्याध्ययन किया। कई महाकाव्य रचे और देश में बड़ी ख्याति अर्जित की। अंत में विक्रम के दरबार में एक विराट् कविसम्मेलन का आयोजन हुआ जिसमें कालिदास नामधारी ब्राह्मणकुमार

और दिङ्नाग की प्रतियोगिया हुई । विद्यावती, भी अपने पिता के साथ इस सभा में सम्मिलित हुई थी । उसने कालिदास को पहचान लिया और उससे प्रश्न किया "अस्ति कश्चित् वाग्भिलासः?" कहा जाता है कि कालिदास ने उक्त वाक्य के प्रत्येक शब्द को लेकर तीन काव्यों की रचना की । 'अस्ति' पर कुमार-संभव की रचना की जिसकी पहली पंक्ति है : 'अस्तुत्तरस्यां दिशि देवतात्मा' इत्यादि । इसी प्रकार 'कश्चित्' पर मेघदूत की और 'वाक्' पर रघुवंश की रचना की । इन काव्यों से कालिदास की ख्याति देशभर में मूँज उठी और विद्यावती राजमहल का त्याग कर पत्नीरूप से कालिदास की सेवा करने लगी । कालिदास की निम्नलिखित रचनाएँ प्रसिद्ध हैं : नाटक १. अभिज्ञान शाकुन्तल, २. विक्रमोर्वशीय, ३. मालविकाग्निमित्र । काव्य-१. रघुवंश, २. कुमार संभव, ३. मेघदूत, ४. अतुसंहार, ५. नलोदय । इनके अतिरिक्त कुछ अन्य ग्रंथ भी कालिदास के रचे हुए बताए जाते हैं किंतु इस संबंध में बड़ा मतभेद है । उक्त ग्रंथों में शाकुन्तल की प्रशंसा संसार के सभी विद्वानों ने मुक्तकंठ से की है । इसका सबसे पहला अंग्रेजी अनुवाद सर विलियम जोन्स ने किया था: इससे संस्कृत साहित्य के प्रति यूरोपीय विद्वानों का ध्यान आकृष्ट हुआ । जर्मन महाकवि गेटे शाकुन्तल के कला सौंदर्य पर सुग्ध था । उसने जिन शब्दों में उक्त नाटक की प्रशंसा की है उन्हें भुलाया नहीं जा सकता :- "क्या तुम नूतन वर्ष के पुष्प और उसके फल एक साथ चाहते हो ? क्या तुम ऐसी चीजें चाहते हो जिससे हृदय मंत्रमुग्ध हो, प्रेरित हो, और संतुष्ट हो ? क्या तुम स्वर्ग और मर्त्य दोनों एक ही नाम में एकत्र चरते हो ? तो शकुन्तले ! मैं तुम्हारा नाम लेता हूँ जिसमें ये सभी बातें समाहृत हैं !"

कालिय-कद्रपुत्र एक नाग का नाम । यह पत्तग जाति का सर्प था । यह पहले रमणक द्वीप में रहता था पर गरुड के भय से भागकर व्रज के समीप यमुना के एक दह में रहने लगा था जहाँ सौमरि के शाप से गरुड की गति नहीं थी । पर यहाँ उसने दह का पानी विप्रेता कर दिया था जिससे व्रज के गोप-गोपी और उनकी गाएँ सरने लगीं । इस पर श्रीकृष्ण ने उस दह में जाकर इसका दमन किया । भयभीत होकर कालिय ने प्राणों की भिजा माँगी । कृष्ण ने उसे फिर वसुद्व में चले जाने की आज्ञा दी और उसके फण पर अपना चरण-चिह्न छोड़कर उसे अभयदान दिया क्योंकि उसे देखकर गरुड फिर उसको नहीं सता सकता था । दे० 'कालीनाग' ।

काली-१. देवी का एक रूप विशेष । कालिकापुराण के अनुसार इनके चार हाथ हैं । दाहिने हाथों में नटवांग और चंद्रहास तथा बाएँ हाथों में दाल और पाश हैं । इनके गले में नरमुंड की माला है । व्याघ्रचर्म इनका परिधान तथा शीश-रहित शत्रु इनका वाहन है । दे० 'काला' । २. उपरिष्पर वसु की कन्या का नाम जो मन्वन्तर्गंधा, योजनगंधा तथा नन्वन्ती के नाम से भी विख्यात है । दे० 'मन्वन्ती', तथा 'शंतनु' । ३. भीम की दूसरी पत्नी का नाम जिनसे नवगंत नामक पुत्र की उत्पत्ति हुई थी ।

कालीदह-यमुना की धारा में व्रजभूमि में एक दह । गरुड के भय से यहाँ कालिय नाग के आकर रहने का उल्लेख मिलता है । सौमरि मुनि के शाप के कारण गरुड के उस दह में न आ सकने की बात कही जाती है । दे० 'कालीनाग' ।

कालीनाग-नाग-राज । गरुड के भय से यह नागों के निवास-स्थान रमणक द्वीप को छोड़कर सौमरि मुनि के शाप से गरुड से संरक्षित व्रजभूमि में, एक दह में, आकर रहने लगा था । कहा जाता है उसके वहाँ रहने से वह स्थान उजाड़-सा हो गया था । एक बार कृष्ण जब छोटे थे तो खेलते-खेलते उस स्थान में पहुँचकर दह में गिर पड़े थे । कालिय तथा उसके साथी अन्य नागों ने आकर उन्हें घेर लिया था । व्रजवासी गोप-गोपियाँ तथा नंद-यशोदा यह देखकर बहुत चिंतित हो गये थे । अंत में कृष्ण ने उसे वश में किया था और उसके फण पर खड़े होकर नृत्य किया था । कहा जाता है कृष्ण के उस दिन अंकित किये हुये पद-चिह्न आज तक काले नागों में देखे जा सकते हैं । कृष्ण ने कालिय नाग को अपने वंधु-बंधव के साथ फिर अपने पूर्व-स्थान रमणक द्वीप में जाकर रहने की आज्ञा दी थी । गरुड से अपने पद-चिह्न अंकित कर देने के कारण उन्होंने उसे पूर्ण अभय दान दिया था । दे० 'कालिय' ।

कालीयक-कद्र तथा कश्यप के एक पुत्र का नाम । कालिय-१. अत्रिकुलोत्पन्न एक गोत्रधार का नाम । २. रसातल निवासी एक दैत्य का नाम । इसके भाई का नाम कालकेश था जिसका वध इंद्रपुत्र जयंत ने किया था । कावपेय-एक तत्वज्ञानी आचार्य का नाम जिनके पिता नुर अग्रपि थे और माता का नाम कवपा था । काव्य-१. कवि के पुत्रों का नाम । यह पितृगणों का सामूहिक नाम भी है । २. चारुणी कवि के पुत्र का नाम । ३. तामस मन्वन्तर के सप्तर्षियों में से एक का नाम ।

काशिकृत्स्न-एक प्रसिद्ध तत्वज्ञानी आचार्य तथा व्याकरणकार का नाम जिन्होंने तीन अध्यायों के एक व्याकरण ग्रंथ की रचना की थी ।

काशिक-एक राजा का नाम जिसने भारत-युद्ध में पांडवों की सहायता की थी ।

काशिराज-१. काश के पुत्र तथा काशी के एक प्राचीन राजा का नाम । शंखा, अंबिका तथा अंबालिका इनकी तीन कन्याएँ थीं । कालान्तर में यह नाम उपाधि के रूप में काशी के सभी राजाओं के लिए व्यवहृत होने लगा । २. प्रनंदन को काशिराज देवोदासि भी कहा गया है । वे एक सूक्तग्रथ थे । ३. भास्कर संज्ञितान्तर्गत 'चिकित्सा-कौमुदी' नामक तंत्र के लेखक का नाम । ४. एक राजा का नाम जो भारत-युद्ध में कौरवों के पक्ष में लड़ा था । काशी-भारतवर्ष के एक नगर का नाम जो प्राचीन काल से ही मंडूकति तथा धर्म का केन्द्र रहा है । वाराणसी इसका नामान्तर है जिसमें इसका आधुनिक नाम वाराणस निकला है ।

काशीश्वर गुसाई-नाभादान के अनुसार ईतन्य नटा-प्रभु के प्रभुपतिश्रियों में से एक जो गुरु की आज्ञा से

घृदावन आकर बस गये और वहीं गोविंद जी की पूजा करने लगे।

काश्य-१. भागवत के अनुसार सुहोत्र के पुत्र का नाम।

२. संदीपनी ऋषि के पिता का नाम।

काश्यप-परीक्षित का समकालीन, सर्पविद्या का एक आचार्य, जो इस विद्या में पारंगत होते हुए भी अत्यंत लोभी था। जब शमीक ऋषि के पुत्र ने परीक्षित को तक्षक द्वारा डसे जाने का शाप दिया तो काश्यप भी धन और यश की आशा से राजधानी की ओर चला। रास्ते में इनके मंत्र की परीक्षा के लिए तक्षक वृद्ध ब्राह्मण के वेश में इन्हें मिला जिसने अपने विप से एक वृक्ष को जला दिया, किंतु काश्यप ने अपने मंत्र द्वारा उसे पुनः हरा कर दिया। तक्षक ने इन्हें अतुल संपत्ति देकर प्रसन्न कर लिया और वापस लौटा दिया। २. कश्यप प्रजापति द्वारा उत्पन्न की हुई प्रजा मात्र का सामूहिक अथवा सर्वसाधारण पैतृक नाम। पर विशेषतया यह नाम कश्यप गोत्रीय मंत्रकारों के लिए प्रयुक्त होता है जिनमें ऋगु, कश्यप, अवत्सार, असितदेवल, निधुवि, भतांश, रेभ, रंभसूक्तितथा वित्रि मुख्य हैं। ३. एक धर्मशास्त्रकार का नाम जिनके द्वारा प्रणीत काश्यप संहिता में ५० प्रकरण तथा १५०० श्लोक हैं। इस ग्रन्थ में सर्व प्रथम द्रुवीक्षणादि मंत्रों का उल्लेख हुआ है। ४. कुछ मन्वन्तरों के सप्तर्षियों में से एक का नाम। ५. दाशरथि राम की सभा के एक विदूषक तथा एक धर्मशास्त्री का नाम। ६. वसुदेव के पुरोहित का नाम। ७. अत्रि के मानसपुत्र का नाम। ८. गोकर्ण नामक शिवावतार के शिष्य का नाम।

काश्या-भीम की एक स्त्री का नाम। दे० 'काली'।

काण्ठा-प्राचेतस दत्त प्रजापति तथा आसिक्री की कन्या का नाम।

किंकर-एक राक्षस का नाम। विश्वामित्र की आज्ञा से यह राजा कल्माषपाद के शरीर में प्रवेश कर गया था। जिसके प्रभाव से वे नरभोजी हो गए थे। दे० 'कल्माषपाद'।

किंकर जी-नाभादास जी के अनुसार उनके समकालीन एक प्रसिद्ध वैष्णव भक्त का नाम।

किंदम-एक ऋषि जो ऋग का रूप धारण कर ऋषियों के साथ विहार किया करते थे। इन्हें पांडुराज ने मारा था जिस पर इन्होंने राजा को शाप दिया था।

किंपुरुष-१. भागवत के अनुसार आग्निध्रि के नौ पुत्रों में से दूसरे का नाम। इसकी पत्नी का नाम प्रतिरूपा था।

२. मतांतर से मनु के एक पुत्र का नाम।

किन्नर-विष्णु तथा वायु के मत से सुनच्छत्र के पुत्र का नाम। किन्नर एक प्रकार के देवता हैं जिनका मुख घोड़े के समान होता है। ये संगीत विद्या में बड़े निपुण होते हैं। ये कैलास पर कुबेर की पुरी में रहते हैं। इनकी उत्पत्ति ब्रह्मा के अंगूठे से हुई थी और ये पुलस्त्य के वंशज तथा कश्यप के पुत्र माने जाते हैं।

किन्नराश्व-'किन्नराश्व' के शाब्दिक अर्थ होते हैं "मनुष्य या घोड़ा?"। इनका मुख घोड़े का और शेष शरीर मनुष्य का होता था। दे० 'किन्नर'।

किरात-शिव का एक अवतार। इस रूप में इन्होंने मूक नामक राक्षस का वध किया था और अर्जुन से युद्ध कर उन्हें पाशुपतास्त्र दिया था।

किर्मीर-एक राक्षस का नाम जो चकासुर का भाई था और वैत्रकीय नामक वन में रहता था। यह वन नरभोजी राक्षसों से भरा था। वनवासी पांडव जब इस वन में आए तब किर्मीर ने आगे बढ़कर इनका मार्ग रोका और युद्ध के लिए ललकारा। भीम ने भयंकर मल्लयुद्ध के पश्चात् इसे परास्त किया।

किशोर-बलिदैत्य के पुत्रों में से एक का नाम।

किशोर जी-स्वामी अग्रदास के शिष्य तथा नाभा जी के समकालीन एक वैष्णव भक्त का नाम।

किशोर सिंह-नाभाजी के अनुसार एक राजवंशीय वैष्णव भक्त जिनके पिता रामरतन तथा पितामह खेमालरतन भी प्रसिद्ध भक्त थे। ये लोग 'खेमाली' भक्तों के नाम से प्रसिद्ध थे।

कीकक-१. भागवत के अनुसार ऋषभ और जयंती के एक पुत्र का नाम। २. धर्मपुत्र संकट के पुत्र का नाम।

कीकट-अनार्यों के एक देश का नाम जो वर्तमान मगध और दक्षिण बिहार के आस पास था।

कीर्ति-१. राजा प्रियव्रत की महिषी का नाम। दे० 'प्रियव्रत'। २. दत्त प्रजापति की एक कन्या का नाम जो धर्म की पत्नी थीं। वृषभानु की पत्नी तथा श्री कृष्ण की प्रधान सहचरी राधा की माता का नाम। नंददास ने 'स्यामसगाई' में लिखा है कि पहले यह राधा का ब्याह कृष्ण के साथ करने के लिए प्रस्तुत न थीं। किंतु एक चार राधा जब कृष्ण को देखकर हतश्चान हो गई थीं तो इन्होंने कृष्ण को गोकुल से बुलवा कर अपनी कन्या को सजग किया था, और कृष्ण के साथ उसके विवाह की भी अनुमति दे दी थी। इनका निवास स्थान गोकुल के पास वरसाने ग्राम में होने का उल्लेख मिलता है।

कीर्तिधर्मन-एक प्राचीन राजा का नाम जिन्होंने भारत युद्ध में पांडवों की सहायता की थी।

कीर्तिमत्-१. नृग के पुत्र का नाम। दे० 'नृग'। २. उत्तानपाद तथा सुनीता के दो पुत्रों में से कनिष्ठ का नाम जो ध्रुव के भाई थे। ३. वसुदेव तथा देवकी के एक पुत्र का नाम जिसका वध कंस ने किया था। ये कृष्ण के बड़े भाई थे।

कीर्तिमती-शुक्राचार्य तथा पीवटी की कन्या का नाम। ये। नीप की पत्नी थीं। मतांतर से इनका विवाह राजा अणुह के साथ हुआ था। इनके पुत्र का नाम ब्रह्मदत्त था।

कीर्तिमुख-शिव की जटा से उत्पन्न होनेवाले गणों का नाम। इनके तीन पाँच, तीन पूँछ और सात हाथ थे।

कीर्तिरथ-वायुपुराण के अनुसार ये प्रतित्वक् के पुत्र थे। कृतिरथ इनका एक ग्रन्थ नामांतर है।

कीलहदेव-१. कृष्णदास पयहारी के प्रधान शिष्य और राजा मानसिंह (जयपुर) के समकालीन। नाभादास जी के कथानुसार इन्होंने भीष्म के समान मृत्यु पर अधिकार प्राप्त कर लिया था। इनके पिता का नाम सुमेर देव था।

जो गुजरात के निवासी थे। एक अन्य मध्यकालीन वैष्णव भक्त जो बड़े यशस्वी थे।

कुंजर-१. तारकासुर के सेनापति का नाम। २. एक वानर का नाम जिसे अंजनी का पिता माना जाता है। ३. कश्यप और कद्रू के एक पुत्र का नाम।

कुंड एक राक्षस का नाम जिसकी आकृति हाथी के समान थी। इसका वध गणेश ने किया था।

कुंकरणी-दंडी मुंडीश्वर नामक शिवावतार के एक शिष्य का नाम।

कुंडज-महाभारत के अनुसार धृतराष्ट्र के एक पुत्र का नाम जिसका वध भीम ने किया था।

कुंडधार-१. एक सर्प का नाम। २. धृतराष्ट्र के एक पुत्र का नाम जिसका वध भीम ने किया था।

कुंडपायिन्-एक प्राचीन आचार्य का नाम। सूत्रग्रंथों में इनके नाम से एक सूत्र प्रसिद्ध है।

कुंडभेदिन्-धृतराष्ट्र के एक पुत्र का नाम जिसका वध भीम ने किया था।

कुंडला-मदालसा की एक सखी का नाम। यह विध्यवान् की पुत्री तथा पुष्करमाली की स्त्री थी। इसके पति को शंभ ने मारा था।

कुंडिन-वसिष्ठ कुलोपन्न एक गोत्रकार, मंत्रकार तथा प्रवर का नाम।

कुंडिनेय-मित्रावरुण के पुत्र का नाम।

कुंडोदर-राजर्षि रुरु के पुत्र का नाम।

कुंतल-कौतल के राजा का नाम और चंद्रहास का नामांतर।

कुंतलस्वातिकर्ण-मत्स्यपुराण के अनुसार मृगेंद्र स्वातिकर्ण के पुत्र का नाम।

कुंति-भागवत के अनुसार नेत्र के पुत्र का नाम। अन्य मतों के अनुसार यह धर्मनेत्र अथवा क्रथ के पुत्र कानाम था।

कुंतिभोज-महाभारतकालीन एक राजा का नाम। निरस्तान होने के कारण इन्होंने शूरसेन की कन्या पृथा उपनाम कुंती को गोद लिया था। एक बार दुर्वासो इनके अतिथि हुए थे। कुंती के अतिथ्य से प्रसन्न होकर उन्होंने इसे एक ऐसा मंत्र दिया था जिससे किसी भी देवता का आह्वान कर उससे समागम किया जा सकता था। इसी मंत्र के प्रभाव से पांडवों की उत्पत्ति हुई थी। कुंतिभोज शूरसेन की पुत्री के पुत्र थे, अतः उनके फुफेरे भाई होते थे। महाभारत के अनुसार इनके ग्यारह पुत्र थे जिनमें से पुरुजित नामक एक पुत्र को द्रोणाचार्य ने मारा था, शेष दस पुत्रों का वध अश्वत्थामा के हाथों हुआ। २. भविष्य-पुराण के अनुसार क्रथ के पुत्र का नाम।

कुंती-महाराज पांडु की पत्नी तथा युधिष्ठिर, भीम और धर्मज की माता का नाम। ये पंच कन्याओं में से एक थीं और अपने समय की श्रेष्ठ मुंदरी थीं। इनके पिता का नाम शूरसेन था जो मथुरा के अधिपति थे, किंतु इनका पालन-पोषण महाराज कुंतिभोज ने किया था। दे० 'कुंतिभोज'। कुंती जब कुमारी थी तभी मार्त्तिदुर्वासो ने इन्हें एक ऐसा मंत्र प्राप्त हुआ था जिसके द्वारा आह्वान होने पर यथेच्छ देवता तत्काल उपरिगत हो आह्वानकर्ता के साथ सहवास करता था। एक बार विवाह के पूर्व ही इन्होंने

इस मंत्र का प्रयोग किया। इन्होंने सूर्य का आह्वान किया था जिनके सहयोग से महावीर और महादानी कर्ण की उत्पत्ति हुई। लज्जावश कुंती ने सद्यःजात शिशु को भागीरथी में फेंक दिया जो अधिरथ तथा राधा नामक एक निरस्तान शूद्र दम्पति के हाथ बहना हुआ लगा। उन्होंने इसका पालन पोषण किया। इसके अनंतर पांडु से इनका विवाह हुआ और विवाहित जीवन में क्रमशः धर्म, पवन तथा इंद्र के आह्वान तथा सहयोग से युधिष्ठिर भीम तथा अर्जुन नामक तीन लोकप्रसिद्ध वीरों की उत्पत्ति हुई। कुंती ने अपनी सपत्नी माद्री को भी दुर्वासो द्वारा प्राप्त मंत्र बता दिया था जिससे उन्होंने अश्विनीकुमारों का आह्वान कर नकुल तथा सहदेव को उत्पन्न किया था। माद्री से ईर्ष्या करते हुए भी उसके सती होने के बाद इन्होंने उसके बच्चों का यत्पूर्वक लालन-पालन किया था। महाभारत युद्ध के अनंतर कुंती धृतराष्ट्र तथा गांधारी के साथ वन में चली गई, जहाँ सभी दावानल में भस्म हो गए। दे० 'कर्ण', 'पांडु' और 'पांडव'।

कुंददंत-एक प्राचीन ब्राह्मण का नाम। कुंद पुष्प के सनान दांत होने के कारण इनका नाम कुंददंत पड़ा था। ज्ञान-प्राप्ति के लिए इन्होंने घर का परित्याग करके बहुत समय तक वन-विचरण कर तत्वज्ञानी महात्माओं का सत्संग किया, किंतु पूर्ण रूप से ज्ञानप्राप्ति करने में असमर्थ रहे। अंत में अयोध्या आकर वसिष्ठ से मोक्षोपाय संहिता का श्रवण करके ही इन्हें सच्चा ज्ञान प्राप्त हुआ।

कुंदनपुर-विदर्भ देश का राजनगर। आज यह अमरावती से कोई चालीस मील दूर कुंदपुर के रूप में शेष रह गया है। लक्ष्मिणी यहाँ के महाराज भीष्म की पुत्री थी।

कुंपय-कश्यप तथा दनु के पुत्र का नाम।

कुभ-प्रहाद के पुत्र का नाम। २. कुंभकर्ण के ज्येष्ठ पुत्र का नाम। ३. हिरण्याच की सेना के एक राक्षस का नाम। इसने कुबेर से युद्ध किया था। कुबेर ने इसके सब दांत तोड़ दिये तब यह कुबेर के सहायक इंद्र पर दूट पड़ा और उन्होंने वज्र-प्रहार से इसका वध किया।

कुंभकर्ण-पुलस्त्य ऋषि के पौत्र तथा विश्रवा के पुत्र का नाम। मुमाली की कन्या केकसी से उत्पन्न यह रावण का भाई था। उत्पन्न होते ही यह हजारों लोगों को खा गया। सब लोगों का हाहाकार सुनकर इंद्र ने इस पर वज्र चलाया, किंतु घोर गर्जना करके इसने परावत का एक दांत उखाड़ लिया और उसे इंद्र के ऊपर चलाया। इस पर लोगों की प्रार्थना से व्रता ने इसे थाप दिया कि यह सदैव निद्रित रहे। रावण के बहुत विनती करने पर उन्होंने कहा कि ६ माह में एक बार इसकी नाँद टूटा करेगी। कुबेर की बराबरी करने के लिये इसने व्रता की उग्र तपस्या की। जब व्रता वर देने चाये, तो लोग हाहाकार करने लगे। मरस्यती इसके कंठ में जा बैठेगी और परि-त्यागनः इसने शपथ करते रहने का ही वरदान माँगा। राम-नारण युद्ध के समय रावण ने इसके जगाने का बहुत प्रयत्न किया। कहा जाता है कि एक दृष्टात्वाग्नि ने यह रस्सी काँची थी जो इसके गले में बैठी थी। कर्ण-

रंघ्र और नासा-रंघ्र में जल-श्रोत बहाये गये थे। खीरकर रावण प्रहार करने लगा। बड़ी कठिनाई से जगने पर इसने सीता-हरण के लिये रावण की निंदा की और सीता को उसी प्रकार लौटा देने को कहा। रावण ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया और इसे युद्ध के लिये उत्तेजित किया। युद्ध करते समय राम-दल में इसने हाहाकार मचा दी। हनुमान् को मीज दिया। सुग्रीव को लंका की ओर फेंक दिया। अंत में रामचंद्र ने इसका वध किया।

कुंभज-अगस्त्य ऋषि का एक पर्याय। दे० 'अगस्त्य'। कुंभनदास-नाभादास के अनुसार एक प्रसिद्ध वैष्णव भक्त तथा कवि जिनकी गणना अष्टछाप के प्रख्यात कवियों में होती है। ये महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्य थे।

कुंभनाभ-कश्यप तथा दनु के एक पुत्र का नाम। कुंभ-निकुंभ-कुंभकर्ण के दो पुत्रों का क्रमशः नाम। राम-रावण युद्ध में कुंभ की मृत्यु सुग्रीव और निकुंभ की मृत्यु हनुमान द्वारा हुई थी।

कुंभमान-कश्यप तथा दनु के एक पुत्र का नाम। कुंभयोनि-१. अगस्त्य मुनि का नामांतर। दे० 'अगस्त्य'। २. द्रोणाचार्य के लिये भी यह नाम आया है।

कुंभरेतसु भारद्वाज अग्नि तथा वीरा के पुत्र का नाम। इनकी स्त्री का नाम सरयू तथा पुत्र का सिद्ध था। यह एक प्रकार की अग्नि हैं।

कुंभहनु-प्रहस्त के मंत्री का नाम। तार नाम के वानर वीर ने इनको मारा था।

कुंभांडु-वाणासुर के मंत्री का नाम। ये बलि के मंत्रियों में प्रधान और चित्ररेखा के पिता थे। बलराम से इनका युद्ध हुआ था जिसमें इनकी मृत्यु हुई। २. दंडी मुंडीश्वर नामक शिवावतार के शिष्य का नाम।

कुंभीनसी-१. बलि दैत्य की कन्या का नाम। यह वाणासुर की बहन थी। २. रावण की माता कैकसी की बहिन का नाम। ३. माल्यवान राक्षस की कन्या अनला की कन्या का नाम। इसके पिता का नाम विश्वासु था। गुप्त रीति से मधु नामक राक्षस से इसने विवाह किया था, जिससे लवणासुर नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। ४. अगार-पर्ण गंधर्व की स्त्री का नाम। ५. चित्ररथ गंधर्व की स्त्री का नाम। वनवास के समय एक बार पांडव एक घने अरण्य को पार कर गंगा में उपस्थित हुये। वहीं पर चित्ररथ अपनी स्त्रियों सहित जलक्रीड़ा कर रहा था। अपने एकांत विहार में इस प्रकार विघ्न पड़ते देखकर चित्ररथ ने युद्ध के लिये ललकारा। अर्जुन और चित्ररथ में घोर युद्ध हुआ। अंत में अर्जुन ने उसे बांध लिया। इस पर चित्ररथ की पत्नी कुंभीनसी ने युधिष्ठिर से प्रार्थना की। युधिष्ठिर के कहने से अर्जुन ने छोड़ दिया। इससे चित्ररथ ने उन्हें माया युद्ध करने का कौशल सिखाया। अर्जुन द्वारा परास्त होने के कारण उसने अपना चित्रवर्ण नामक एक विचित्र रथ जला दिया और अपना नाम दग्धरथ प्रसिद्ध किया।

कुंभीपाक-नरक विशेष। श्रीमद्भागवत में लिखा है कि जो व्यक्ति पशु-पक्षियों को मार कर खाता है, उसे यमदूत

मृत्यु के बाद कुंभीपाक के तप्त तेल में डाल देते हैं। कुंवरवर-नाभादास जी के अनुसार एक मध्यकालीन वैष्णव भक्त तथा कथावाचक का नाम।

कुकरा-एक सर्प का नाम। कुकर्दम-एक अन्यायी राजा का नाम जो पिंडारक क्षेत्र का अधिपति था। अपने कुकर्मों के कारण इसे प्रेतयोनि प्राप्त हुई थी। अंत में घूमते-घामते यह कहोड़ ऋषि के आश्रम में पहुँचा, वहाँ उन्होंने एक श्राद्ध का अनुष्ठान करके इसका उद्धार किया।

कुकुर-अंधक के पुत्र का नाम। इन्हीं से कुकुरवंश की उत्पत्ति हुई थी।

कुन्ति-१. रैभ्य ऋषि के पुत्र का नाम। २. पौव्येजि ऋषि के पुत्र का नाम जिन्होंने सामदेव की शंभर-संहिता का अध्ययन किया था।

कुचेतु-रौद्र के दस पुत्रों में से एक का नाम। पाटान्तर के अनुसार इनका नाम कचेतु भी मिलता है। कुचैल-कृष्ण के एक भक्त तथा सहपाठी का नाम जो अधिकतर सुदामा अथवा श्रीदामा के नाम से प्रसिद्ध हैं।

ये जाति के ब्राह्मण थे और परम जितेंद्रिय तथा ज्ञानी होते हुए भी अत्यंत दरिद्र थे। दरिद्रता से तंग आकर इनकी पत्नी ने कह-सुनकर इन्हें इनके मित्र श्रीकृष्ण के यहाँ धनप्राप्ति के लिए जाने को तैयार किया और साथ में संवलस्वरूप थोड़ा चावल भी बाँध दिया। भेंट होने पर श्रीकृष्ण ने इनका बड़ा सत्कार किया और वात-वात में ही इनकी भोली से एक मूठी तंडुल निकालकर खाया जिसके फलस्वरूप कुचैल के घर में अतुल संपत्ति आ गई। किंतु उस समय तक इसका उन्हें कोई ज्ञान नहीं था। रात्रि व्यतीत होने पर इन्होंने लौटने की इच्छा प्रकट की और कृष्ण ने सम्मानपूर्वक विदा कर दिया। चलते समय न तों कृष्ण ने इन्हें कुछ दिया और न इन्होंने ही माँगना उचित समझा। इन्होंने अपने मन को किसी प्रकार समझा-बुझा कर शांत कर लिया। लौटने पर इन्हें अपना घर धन-धान्य तथा ऐश्वर्य से परिपूर्ण मिला। हिंदी के वैष्णवसाहित्य में प्रायः सुदामा या श्रीदामा नाम मिलता है और भागवत में कुचैल। कथानक से यह स्पष्ट है कि कुचैल और सुदामा परस्पर अभिन्न हैं।

कुर्जभ-एक दैत्य का नाम जिसने तारक नाम के प्रसिद्ध असुर का राज्याभिषेक किया था।

कुज-१. मंगल ग्रह का नामांतर। २. नरकासुर का नामांतर। दे० 'नरकासुर' और 'मंगल'।

कुटीचर-शिव के विशेष गणों का नाम। कुटुंबिनी-कामंद वैश्य की स्त्री का नाम। दे० 'कामंद'। कुठारपानि-दे० 'परशुराम'।

कुणख्यडव-पतंजलि के अनुसार एक व्याकरणकार का नाम।

कुणारु-एक असुर का नाम। कुण्डि-पाण्डिनि के अनुसार एक वैयाकरण तथा धर्मशास्त्रकार का नाम। कैयट ने भी इनका उल्लेख किया है। २. प्रसिद्ध यादववीर सात्यकी के एक पुत्र का नाम। ३. वेदशिरसु नामक शिवावतार के एक शिष्य का नाम।

कृष्णिक-एक प्राचीन आचार्य का नाम ।
कृष्णिति-वसिष्ठ के एक पुत्र का नाम जो घृताची नाम की एक अप्सरा से उत्पन्न हुआ था । इसकी पत्नी का नाम पृथुकन्या था ।

कुवेरी-शक्र के साथ कंस के राजभवन की ओर जाते हुए कृष्ण को एक कुञ्जा नाम की दासी मिली थी । उसका कुञ्जा नामकरण उसकी पीठ में क्यूड़ होने के कारण हुआ था । कंस के यहाँ वह माला तथा अनुलेपन आदि ले जाती थी । कृष्ण ने, मिलने पर, इससे अनुलेपन माँगा था । उसने बड़े स्नेह के साथ उसे कृष्ण को दे दिया था । उसके इस कार्य से प्रसन्न होकर कृष्ण ने उसका क्यूड़ अच्छा कर दिया था । दे० 'कुञ्जा' ।

कुवेर-अलकापुरी के स्वामी का नाम । इनकी माता भरद्वाज की पुत्री देववर्णिनी, पिता विश्रवा तथा पितामह महर्षि पुलस्त्य थे । पिता के आदेश से ये पहले लंकापुरी में रहते थे और जहाँ ब्रह्मा के प्रसाद से माल्यवान, माली और सुमाली नाम के तीन राक्षस दीर्घजीवी होकर मनमाना अत्याचार करते थे । उन्हें दवाने के लिये स्वयं विष्णु को आना पड़ा जिनके आतंक से माल्यवान और माली तो पाताल में चले गए और सुमाली मृत्युलोक में विहार करने लगा । धनाधिप कुवेर को पुष्पक पर घूमते देख इसे ईर्ष्या हुई और इसने सोचा कि कोई ऐसा प्रतापी पुत्र उत्पन्न किया जाय जो कुवेर को लंका से भगा दे । इस अभिप्राय से उसने अपनी कन्या केरुसी को विश्रवा के पास संतानोत्पत्ति की इच्छा से भेज दिया जिसके गर्भ से महाप्रतापी रावण ने जन्म लिया । रावण के अत्याचार से कुवेर को लंका छोड़कर कैलास पर आश्रय लेना पड़ा । ये यज्ञों के स्वामी तथा शिव के धनरक्षक हैं । इनके तीन पैर और आठ दाँत हैं । अपनी कुरूपता के लिये ये बहुत प्रसिद्ध हैं । इनका एक अन्य नाम वैश्रवण भी है । ब्रह्मा की तपस्या के फल-स्वरूप ये चौथे लोकपाल भी हुए ।

कुवेर वारक्य-जयंत वारक्य के शिष्य का नाम ।

कुवेराणि-शंभिरसु कुलोत्पन्न एक गोत्रकार का नाम ।

कुञ्जा-१. एक स्त्री जिन्हें दुर्भाग्य से बाल-वैधव्य प्राप्त हुआ था और जिन्होंने ६० वर्षों तक पुण्य कर्म करते हुए अपना जीवन व्यतीत किया । माघ स्नान के पुण्य प्रताप से इनको वैकुण्ठ प्राप्त हुआ । इसके बाद सुन्द-उपसुन्द नामक राक्षस बंधुओं के वध करने के लिये ये तिलोत्तमा नाम से अवतरित हुईं । सुदोपसुन्द के वध के अनंतर महादेव ने इन्हें अभिर्नन्दित कर सूर्यलोक को भेज दिया । २. कंस की एक दासी का नाम । इसका शरीर तीन जगह से टेढ़ा था । कंस द्वारा आमंत्रित होकर जब कृष्ण और बलराम नधुरा गये उसी प्रयत्न पर कृष्ण की कृपा से इसका शरीर सीधा हो गया । हिंदी-वृष्ण साहित्य सुरुपतः 'अमरगोत' सम्बन्धी पदावली में इसका उल्लेख बार-बार मिलता है । दे० 'कुवेरी' । ३. कैकेयी की दासी मेघरा का उल्लेख भी इसी नाम से मिलता है । दे० 'मंरता' ।

कुमारि-ब्रह्मा के एक मानस पुत्र का नाम । ये एक प्रजा-

पति थे । वायु पुराण में ब्रह्मा के चार पुत्र सनक, सनंद, सनातन तथा सनतकुमार के साथ यह शब्द संयुक्त है । उत्पत्ति-काल से लेकर पाँच सौ वर्ष तक ये बालक के समान रहे, इसलिये इनको कुमार कहा गया है । ये लशरीर वैकुण्ठ गये । वहाँ द्वारपाल के रोकने पर इन्होंने उसे शाप दे दिया । २. शिव पुत्र स्कंद का नामांतर । दे० 'स्कंद' । ३. हृहय कुलोत्पन्न एक प्राचीन राजा का नाम । एक बार आखेट खेलते समय एक ऋषिकुमार को मृग समझकर इन्होंने मार तो डाला, किंतु तुरंत ही अपनी भूल जानकर ऋषिकुमार का पता लगाने के लिये वन में बहुत दूर तक निकल गये । अरिष्ट नेमि नामक ऋषि के आश्रम में पहुँच कर उस ऋषिकुमार को जीवित देखा । राजा ने ऋषि से इसका कारण पूछा । ऋषि ने बताया कि वह कुमार अपने तपोवत से इच्छामृत्यु हो गया है । चिंता करने की कोई बात नहीं है । राजा निश्चित होकर राजधानी को लौट आये ।

कुमार आग्नेय-एक मंत्रद्रष्टा का नाम । दे० 'वक्स' ।

कुमार आत्रेय-एक मंत्रद्रष्टा का नाम ।

कुमारदास-सिंहल द्वीप के एक प्रसिद्ध राजा जो संस्कृत के एक प्रसिद्ध कवि थे और काव्य-क्षेत्र में कालिदास की समता करते थे । इनका 'जानकी हरण' (अथ दुष्प्राप्य) नामक ग्रंथ प्रसिद्ध है । यह भी किंवदंती है कि कालिदास इनके समकालीन तथा मित्र थे और इनके आग्रह से एक बार इनकी राजधानी में गये भी थे । प्रसिद्ध कवि राजशेखर ने इनका उल्लेख किया है ।

कुमार पामायन-एक मंत्रद्रष्टा का नाम ।

कुमार हारित-गालव ऋषि के शिष्य का नाम । इनके शिष्य का नाम कैशोर्य काव्य था ।

कुमारिका-सिंहल के राजा शतशृंग की कन्या का नाम ।

वह प्रसिद्ध राजा भरत की पौत्री थीं । इनका सिर बकरी के सिर के समान था । इनकी कथा स्कंद पुराण में इस प्रकार वर्णित है- किसी समय एक बकरी समुद्र में पानी पीने गई परन्तु एक लताजाल में फँस जाने के कारण वहीं उसकी मृत्यु हो गई । उसका शरीर समुद्र में तथा मुँह लता में अलम्बा पड़ा रह गया । फिर समुद्र के प्रभाव से वह बकरी सिंहलराजा के यहाँ उत्पन्न हुई । उसका मारा शरीर मनुष्य का और सिर बकरी के सिर का था । इस रूप का ज्ञान होने पर वह बकरी दुर्गा हुई और राजा की आज्ञा लेकर उस स्थान पर गई जहाँ उस बकरी का मुँह लता में फँसा हुआ था । उसने उस मुँह को निकालकर समुद्र में फेंक दिया जिसके प्रभाव से उसका मुख एक सुंदर स्त्री-मुख में परिणत हो गया । वहीं पर इन्होंने अपनी शाराधना से शिव को प्रसन्न किया और उसने षट् वर्ष माँगा कि चाप नया वहाँ उपस्थित रहे जिसे शिव ने स्वीकार कर दिया । कुमारिका ने वहाँ मंदिर बनवा कर शिव की प्राण प्रतिष्ठा की जो चरित्रचर के नाम से प्रसिद्ध हुये । चरित्रचर नामक एक नाम पाताल को भेद कर कुमारिका के दर्शनार्थ जाया था, जिसने उस मंदिर के पास एक प्रयाह गत बन गया और यह

जल से भर गया। कुमारिका का विवाह महाकाल से हुआ था।

कुमारिल भट्ट—एक प्रसिद्ध दार्शनिक विद्वान। इन्होंने किसी बौद्ध पाठशाला में शिक्षा प्राप्त की थी, किंतु कालान्तर में उसी का विरोध किया। इससे इन्हें गुरु-विरोध के लिये प्रायश्चित्त करना पड़ा अर्थात् भूमी की आग में धीरे-धीरे जलना पड़ा। ये शंकराचार्य के पूर्व-कालीन थे। प्रसिद्ध शास्त्रज्ञ मंडन मिश्र इनके साले थे। जिस समय ये भूमी की आग में जल रहे थे, उसी समय शंकराचार्य इनके पास अपने 'भाष्य' का वार्तिक लिखाने आये। कुमारिल भट्ट ने उनको मंडन मिश्र के पास जाने की सलाह दी। कुमारिल मीमांसा दर्शन के माननेवाले थे। इन्हीं के प्रभाव से बौद्ध और जैनधर्म का विरोध करके हिंदू धर्म पुनः स्थापित हुआ।

कुमारी—१. दे० 'चित्रलेखा'। २. धनंजय की स्त्री का नाम।

कुमुद—१. विष्णु के पार्षदगणों में से एक का नाम। २. राम सेना के वानर वीर का नाम जो गोमती के तट पर स्थित रम्यक नामक पर्वत पर रहता था। ३. कश्यप तथा कद्रू के एक पुत्र का नाम। ४. व्यास की अथर्वन् शिष्य-परंपरा में परशु ऋषि के शिष्य का नाम। ५. नाभादास जी के अनुसार राम की वानर सेना के एक प्रमुख सेना-पति तथा सहचर जिन्होंने युद्ध में अतुल शौर्य का प्रदर्शन किया था। नाभाजी ने भगवान के १६ पार्षदों में कुमुद और कुमुदाक्ष को जय और विजय के समकक्ष माना है।

कुमुदाक्ष—१. कश्यप तथा कद्रू के पुत्र का नाम। २. मणिवर तथा देवजनी के पुत्र का नाम। इनके पुत्र शुद्धक नाम से प्रसिद्ध हैं। दे० 'कुमुद'।

कुमुद्वती—राम की एक पतोहू तथा कुश की दूसरी पत्नी का नाम। इनकी सपत्नी का नाम चंपका था। कुमुद्वती के पुत्र अतिथि ने सूर्यवंश का विस्तार किया था। एक बार जलक्रीड़ा करते समय कुश के कड़े सरयू में गिर पड़े और उन्हें कुमुद्वती नामक कुमुद नाग की बहिन नागलोक में उठा ले गई। चोभ से कुश ने सरयू को शुष्क कर देने के लिए शरसंधान किया, किंतु तभी कुमुद ने उपस्थित होकर कड़ों के साथ कुमुद्वती कुश को समर्पित कर दी। २. मयूरध्वज राजा की स्त्री तथा ताम्रध्वज की माता का नाम।

कुहंग—एक वैदिककालीन राजा का नाम। देवातिथि काण्व ने इनके दान की प्रशंसा की है।

कुरु—१. एक प्रसिद्ध चंद्रवंशी राजा का नाम। वैदिक साहित्य में इनका उल्लेख है। इनके पिता का नाम संवरण तथा माता का नाम तपती था। शुभांगी तथा वाहिनी नाम की इनकी दो स्त्रियाँ थीं। वाहिनी के पाँच पुत्र हुये जिनमें कनिष्ठ का नाम जनमेजय था जिनके वंशज धृतराष्ट्र और पांडु हुये। वास्तव में धृतराष्ट्र तथा पांडु दोनों के वंशज ही कौरव कहे जा सकते हैं, किंतु धृतराष्ट्र के पुत्र ही कौरव कहलाते हैं। कुरु के अन्य पुत्रों के नाम विदूरथ (शुभांगी से) अरववत्, अभिन्यत, चैत्ररथ तथा मुनि (वाहिनी से) और जनमेजय हैं।

२. अग्नीध्र के एक पुत्र का नाम। इनकी स्त्री का नाम मेरुकन्या था।

कुरुवत्स—नवरथ के पुत्र का नाम।

कुरुवश—मधुराजा के पुत्र का नाम। इनके पुत्र का नाम अनु था।

कुरुश्रवण त्रासदस्यव—त्रसदस्यु के पुत्र का नाम। ऋग्वेद में कल्प ऐतुष ने इनके दान की प्रशंसा की है।

कुरुसुति काण्व एक सूक्तद्रष्टा का नाम।

कुल—१. दशरथ पुत्र राम के दरबार के एक विद्वपक का नाम। २. राम-सेना के एक वानर का नाम।

कुलक—रत्न का राजा का नामांतर। मत्स्यपुराण के अनुसार यह छुद्रक राजा के पुत्र थे।

कुलह—कश्यप कुलोत्पन्न एक गोत्रकार का नाम।

कुलिक—कद्रू और कश्यप से उत्पन्न एक नाग का नाम।

कुल्मल बर्हिष शैलूष—एक सूक्तद्रष्टा का नाम।

कुवलयापीड—हाथी के रूप में एक राक्षस का नाम।

कृष्ण और बलराम जब मथुरा में उत्सव में सम्मिलित होने के लिये आ रहे थे तब रास्ते में ही इनका वध करने के लिये कंस ने कुवलयापीड को भेजा था। कृष्ण ने रास्ते ही में इसका वध कर दिया था।

कुवलयाश्व—एक विख्यात चक्रवर्ती राजा का नाम। भविष्य पुराण के अनुसार ये बृहदश्व के पुत्र थे। दिवोदास के पुत्र प्रतर्दन का दूसरा नाम भी यही था। ये कई नामों से प्रसिद्ध हैं जैसे कुवलारव, धुमत्, शत्रुजित तथा ऋतुध्वज आदि।

कुवलाश्व—राजा श्रावाज के पौत्र तथा बृहदश्व के पुत्र का नाम। उन्होंने महर्षि उत्तंककी आज्ञा से धुंध नामक राक्षस का वध किया था, जिससे इनका नाम धुंधमार भी प्रसिद्ध है। यह राक्षस एक बालुकामय समुद्र में रहता था और उसमें से उसे निकालना असंभव ही था। पर कुवलाश्व ने अपने २१००० पुत्रों की सम्मिलित खोज से इसे किसी प्रकार निकलने के लिए बाध्य किया। निकलने पर इसके अश्वरंध्र से अग्नि की ऐसी लपटें निकलीं कि इनके तीन पुत्रों—दृदारव, कपिलाश्व तथा भद्रारव—को छोड़कर शेष सब भस्म हो गये, पर राजा कुवलाश्व के सामने वह अधिक न ठहर सका और वीरगति को प्राप्त हुआ। उत्तंक ऋषि की तपस्या में विघ्न डालने के कारण ही धुंध का वध किया गया था। हरिवंश पुराण के अनुसार इनके केवल १०० पुत्र थे। इनकी मृत्यु के बाद इनका पुत्र दृदारव गद्दी पर बैठा। मार्कण्डेय पुराण के अनुसार ये शत्रुजित के पुत्र थे।

कुश—१. राम के पुत्र का नाम। इनकी माता वैदेही तथा छोटे भाई लव थे। रावण को जीतने के बाद अग्नि-परीक्षा लेकर राम ने सीता को स्वीकार किया था; किन्तु बाद में लोकापवाद के भय से त्याग दिया। यद्यपि वे इस समय गर्भवती थीं। लक्ष्मण उन्हें तमसा नदी के किनारे वाल्मीकि के आश्रम के पास छोड़ आये। आश्रम में जैसे अन्य ऋषि-पत्नियाँ रहती थीं वैसे ही इनके भी रहने की व्यवस्था हो गई। श्रावण मास की मध्य रात्रि में इनके कुश और लव नामक दो पुत्र उत्पन्न हुए। वाल्मीकि

ने उनके सब संस्कार किये तथा शस्त्र-शास्त्र आदि की भी शिक्षा दी। वे दोनों सभी विद्याओं में पारंगत हो गये। इसी बीच राम ने अश्वमेध यज्ञ किया। इनका छोड़ा हुआ यज्ञाश्व वाल्मीकि आश्रम के पास से निकला। घोड़े के मस्तक पर तिलक लगा हुआ था और एक पत्र भी लगाया हुआ था। इस घोड़े को देखकर लव ने कौतूहलवश पकड़ लिया और उस पत्र को पढ़ा। उसमें लिखा था—'एक वीराव कौसल्या तस्या पुत्रो रघुद्वहः। तेन रामेण मुक्तोऽसौ वाजी गृहणावित्वमं वली।' यह पढ़कर इनकी छात्रवृत्ति जागृत हो उठी और इन्होंने अश्व को रोक लिया। उसकी रक्षक सेना के सेनापति शत्रुघ्न थे। दोनों में युद्ध हुआ। शत्रुघ्न के आहत होने पर लक्ष्मण, फिर लक्ष्मण के आहत होने पर भरत और भरत के आहत होने पर राम आये। किशोर बालकों के अद्भुत पराम्परा को देखकर राम के हृदय में वात्सल्य प्रेम उमड़ आया। अंग-प्रत्यंग शिथिल हो गये। धनुष नहीं उठा। उन्होंने इन्हें प्रेम से घुलाकर पूछा, "तुम किससे लड़के हो। धनुर्विद्या तुम्हें किससे प्राप्त हुई?" लड़कों ने पहले तो कहा, "युद्ध करो, इन प्रश्नों से तुम्हें क्या मतलब?" किन्तु बाद में अपनी माता का नाम बता दिया। फिर, वाल्मीकि की आज्ञा से स्वयं सीता ने कुमारों को बताया कि यही तुम्हारे पिता हैं। इस तरह सब लोगों का मिलन हुआ सीता ने राम को क्षमा कर दिया सभी लोग अयोध्या गए। कुश और लव की अध्वष्यता में अश्वमेध यज्ञ पूरा हुआ। वाल्मीकि रामायण में यह प्रसंग कुछ दूसरी प्रकार से वर्णित है। राम के अश्वमेध यज्ञ में वाल्मीकि ऋषि कुश और लव के साथ सम्मिलित हुये थे। कुश और लव ने बड़े राग के साथ रामायण गाकर सबको मुग्ध कर लिया। परिचय पूछे जाने पर इन्होंने केवल इतना कहा कि हम वाल्मीकि के शिष्य हैं। किन्तु राम ने समझ लिया कि ये उन्हीं के ही आत्मज हैं। राम ने लव को कोसल और कुश को उत्तर कोशल दे दिया। कुश ने कुशस्थली नामक नगर बसाया। दे० 'राम', 'सीता' तथा 'लव'। २. भागवत के अनुसार सुहोत्र राजा के तीन पुत्रों में से द्वितीय पुत्र का नाम। इनके पुत्र का नाम प्रतिनामक था। कुश वंश का प्रारंभ इन्हीं से हुआ। ३. ये अजक राजा के पुत्र थे। कुशांव, अमूर्तरजस्, वसु तथा कुशनाम के इनके चार पुत्र थे। ये चारों कौशिक नाम से प्रसिद्ध हुये। नामांतर कुशिक। ४. एक दैत्य का नाम जिसे शिव की कृपा से अमरत्व मिला था। यह विष्णु को ही मारने को उद्यत हुआ, पर उन्होंने इसके मस्तक को पृथ्वी में गाड़कर उस पर शिव-लिंग की स्थापना कर दी। तब यह शरणागत हुआ। ५. विदर्भ राजा के तीन पुत्रों में से पहले का नाम।

कुशाध्वज—रथध्वज राजा के पुत्र का नाम। इनकी कन्या का नाम वेदवती था। २. हस्वरोमा जनक के कनिष्ठ पुत्र का नाम। ये सीरध्वज जनक के छोटे भाई थे। मांडवी और धृतकीर्ति इनकी दो कन्याएँ क्रम से भरत तथा शत्रुघ्न को ध्याती थीं। इनके बड़े भाई सीरध्वज जनक की पुत्री सीता और उर्मिला क्रम से राम और लक्ष्मण

को व्याही थीं। सीरध्वज ने प्रसिद्ध राजा सुधन्वा को जीता था। इनके राज्य का नाम सांकाश्य था जिसे इन्होंने अपने छोटे भाई कुशाध्वज को दे दिया था। ३. बृहस्पति के पुत्र का नाम। ४. एक प्राचीन राजा का नाम जो पूर्वजन्म में वानर था।

कुशानाम—१. कुश अथवा कुशिक राजा के चार पुत्रों में से कनिष्ठ पुत्र का नाम। इन्होंने महोदय नामक एक नगर की स्थापना की। २. एक मनु पुत्र का नाम।

कुशारीर—वेदशिरस् नाम के शिवावतार के शिष्य का नाम। कुशल—एक ब्राह्मण का नाम। ये और इनकी पत्नी दोनों दुराचारी थे जिसके कारण नरक में पड़े। पर इनके पुत्रों ने गया में पिंडदान किया जिसके फल से इनका उद्धार हो गया।

कुशांव—कुश (कुशिक) राजा के ज्येष्ठ पुत्र का नाम। ये चार भाई थे। इन्होंने ही कौशांबी नामक नगरी की स्थापना की थी। इनके पुत्र का नाम गाधि था। दे० 'कुशिक'। २. उपरिचर वसु नामक राजा के पुत्र का नाम। ये चेदि नामक राजा के पुत्र थे। इनका नामांतर मणियाहन था।

कुशाग्र—बृहद्रथ के कनिष्ठ पुत्र का नाम। इनके बड़े भाई का नाम जरासंध था। ये दोनों उपरिचर वसु के पौत्र थे। भागवत के अनुसार इनके पुत्र का नाम ऋषभ था।

कुशाल—अशोक के पुत्र का नाम।

कुशावत—ऋषभदेव तथा जयंती के पुत्र का नाम।

कुशिक—विश्वामित्र के पितामह तथा गाधि के पिता का नाम। एक समय महर्षि च्यवन को ध्यानवल से भान हुआ कि कुशिक वंश के संयोग से इनके वंश में वर्णासंकरता का प्रवेश होकर क्षत्रियत्व की प्राप्ति होगी। इमें अवांछनीय समझकर इन्होंने कुशिक वंश के नाश का प्रयत्न किया; परन्तु असफल रहे। च्यवन के वंशज ऋचीक मुनि ने गाधिराज की कन्या का पाणिग्रहण किया। इसी संबंध से महर्षि जमदग्नि का जन्म हुआ जिनके पुत्र परशुराम ब्राह्मण कुलोत्पन्न होते हुये भी छात्रधर्म में प्रवृत्त हुये। कुशिक महोदयपुर में रहते थे। उनके यहाँ एक बार च्यवन ऋषि गये थे। कुशिक तथा उनकी स्त्री ने बड़ी सेवा-सुश्रूषा की थी जिसके फलस्वरूप यह वर मिला कि इनके वंश में ब्राह्मणत्व का प्रवेश होगा। कुशिक का उल्लेख वैदिक ग्रंथों में भी मिलता है। कुशिक कुलोत्पन्न मंत्रकारों के नाम भी मिलते हैं।

कुशिक गेपारथि—एक सूक्तद्रष्टा का नाम।

कुशिक सौभट—एक सूक्तद्रष्टा का नाम।

कुशीलव—भायशर्मा नामक ब्राह्मण तांडी पीने के कारण तांड के पेड़ के रूप में जन्मा। उस तांड पर कुशीलव नामक एक ब्राह्मण सखटुंग्य राजस होकर रहता था क्योंकि उसने कभी किसी को दान नहीं दिया था। अंत में गीता के आठवें अध्याय का पाठ करने से उसका दानार हुआ।

कुशुभ—भविष्य पुराण के अनुसार शत्रुघ्नी के पुत्र का नाम। कुशुमिन् नाम की नामशिष्य परंपरा में पौष्यंजी के शिष्य का नाम।

कुश्रि वाजश्रवस्-एक ऋषि जिन्हें अग्निचयन का ज्ञान था। ये यज्ञवचस् के शिष्य थे। इनके शिष्य उपवेशि और वात्स्य थे।

कुश्रीनक सामश्रवस्-इनको लुशाकपि श्वार्मली ने यह शाप दिया था कि कौपीतकी शाखा (सांख्यापन) के लोगों को गौरव नहीं प्राप्त होगा।

कुपंड-सर्पयज्ञ के अंत में पंड नामक ऋत्विज के साथ इनका नाम आया है। इस यज्ञ के अंत में अभिगिरि (स्तुति) तथा अपगर (निंद) नामक कर्मों का उल्लेख है।

कुसीदकि-अंगिरस् कुलोत्पन्न एक गोत्रकार का नाम।

कुसीहि-एक ऋषि का नाम जो व्यास की परंपरा में पौष्यंजी के शिष्य थे।

कुसु-मणिवर तथा देवजनी के पुत्र का नाम।

कुसुदिन काव्य-एक सूक्त द्रष्टा का नाम।

कुसुमायुध-कामदेव का नामांतर। दे० 'कामदेव'।

कुसुमि-एक सामवेदी श्रुतिर्षि का नाम।

कुसुर्विद्वि औद्दालकि-एक ऋषि जिन्होंने पशु-संपत्ति की प्राप्ति के लिये सप्तरात्र नामक यज्ञ किया था जिसके फल से इन्हें चौपायों की प्रचुर सम्पत्ति प्राप्त हुई थी।

कुन्तुक शाकराक्ष्य-श्रवणदत्त के शिष्य का नाम। इनके शिष्य का नाम भवजात था।

कुस्तुवुरू-एक यज्ञ का नाम।

कुहर-१. महाभारत युद्ध में कौरवपक्षीय एक राजा का नाम। २. करयप तथा कद्रू के एक पुत्र का नाम।

कुहुन-सौवीर देस के एक राजपुत्र का नाम। वह जयद्रथ के भाई थे।

कुहुडू-अंगिरा तथा श्रद्धा की एक कन्या का नाम।

कूचीमुख-विश्वामित्र मुनि के पुत्र का नाम।

कूट-कंस के एक सभासद का नाम।

कूपकर्ण-एक रुद्रगण। वाणासुर के साथ युद्ध के प्रसंग में बलराम के साथ इनके युद्ध का वर्णन है।

कूवाजी-मध्यकालीन वैष्णव भक्त केवलदास जी का एक नामांतर। दे० 'केवलदास'।

कूर्च-मीडवान राजा के पुत्र का नाम। इनके पुत्र का नाम इंद्रसेन था।

कूर्म-विष्णु के द्वितीय अवतार का नाम। प्रजापति ने संतति-उत्पादन करने के अभिप्राय से कूर्म का रूप धारण किया था। इस कूर्म की पीठ का वेरा एक लाख योजन का था। कूर्म की पीठ पर मंदराचल पर्वत को स्थापित करने पर ही ससुद्र-मंथन संभव हो सका था। पंचपुराण के अनुसार इसीलिये विष्णु ने कूर्म का अवतार लिया था। दे० 'कच्छप'।

कूर्म गात्समर्द-एक सूक्तद्रष्टा का नाम।

कूर्मपुराण-अष्टादश महापुराणों में से एक जिसकी रत्नोक्त संख्या १७००० तथा प्रकृति तामसी कही गई है। पुराण के अंतर्साध्य से ज्ञात होता है कि इसमें भगवान विष्णु ने अपने कच्छपावतार में इंद्रधम्म तथा अन्य ऋषियों से इंद्र के सामने जीवन के चार लक्ष्यों-धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष-का वर्णन किया है; किंतु वास्तव में यह बात उक्त पुराण में पूर्ण रूप से चरितार्थ नहीं होती। वस्तुतः यह

वैष्णव पुराण है भी नहीं। इसमें प्रमुख रूप से शैव सिद्धांत ही प्रतिपादित हुए हैं और इसके अधिकांश भाग में शिव तथा दुर्गा की उपासना का ही प्रतिपादन है। इस पुराण की रचना बारहवीं शताब्दी के बाद हुई है। कूर्मपांड-एक दैत्य का नाम जिसका वध विष्णु ने कार्तिक शुक्ल नवमी को किया था।

कुरु-एक ऋषि का नाम। दे० 'वाल्मीकि'।

कृतंजय-१. भागवत के अनुसार ये वहिराज के पुत्र थे। अन्य पुराणों में यह धर्म तथा वृहद्राज के पुत्र कहे गये हैं। २. व्यास का नाम।

कृतंस्यती-एक प्रसिद्ध अप्सरा का नाम।

कृत-१. जय राजा के पुत्र का नाम। २. वसुदेव और रोहिणी के सातवें पुत्र का नाम।

कृतक-वसुदेव और मदिरा के चार पुत्रों में से तृतीय का नाम।

कृतद्युति-चित्रकेतु राजा की एक करोड़ स्त्रियों में से ज्येष्ठा का नाम। अंगिरा ऋषि की कृपा से इन्हें पुत्र हुआ था, जिसे इनकी सपत्नी ने विष देकर मार डाला। पर अंगिरा ऋषि ने उसे पुनर्जीवित कर दिया। दे० 'चित्रकेतु'।

कृतध्वज-१. दे० 'प्रतदन'। २. धर्मध्वज जनक के दो पुत्रों में से एक का नाम।

कृतप्रज्ञ-राजा भगदत्त के पुत्र का नाम जिसे नकुल ने भारत-युद्ध में मारा था।

कृतयशस् अंगिरस्-एक सूक्तद्रष्टा का नाम।

कृतयुग-पुराणों के अनुसार चार युगों में से सर्वप्रथम का नाम जिसका आरंभ सृष्टि के आदि से ही होता है। इसका दूसरा नाम सत्ययुग है।

कृतवर्मन-१. हृदीक राजा के पुत्र, एक प्रसिद्ध वीर राजा। भारतयुद्ध में एक अर्धोहिणी सेना लेकर दुर्योधन के पक्ष में संगमिलित हुये थे। बलराम ने रैवतक पर्वत पर एक बहुत बड़ा उत्सव किया था, जिसमें आमंत्रित होकर ये आये थे। भारत-युद्ध में भीम ने इन्हें तीन वाणों से विद्ध किया था। दुर्योधन पक्ष के बचे हुये तीन वीरों में से ये भी एक थे। युधिष्ठिर के अश्वमेध के समय रक्षक सैन्य के अधिपति अर्जुन के साथ ये भी थे। इनकी मृत्यु यादव वीर सात्यकी के हाथ से हुई। २. भागवत के अनुसार धनक के पुत्र का नाम। दे० 'कृतवीर्य'।

कृतवाक् (कृतवाच)-अंगिरस् कुलोत्पन्न एक मंत्रद्रष्टा का नाम।

कृतवीर्य-भागवत तथा विष्णु-पुराण के अनुसार धनकराजा के ज्येष्ठ पुत्र का नाम। ये चार भाई थे। कृतवीर्य के पुत्र का नाम अर्जुन था जो कृतवीर्य तथा सहस्रार्जुन आदि नामों से प्रसिद्ध हैं। धनक का नामांतर कनक भी मत्स्य आदि पुराणों में मिलता है। संकष्टी चतुर्थी व्रत के प्रभाव से कृतवीर्य को सहस्रार्जुन ऐसा अपूर्व पराक्रमी तथा प्रतापी पुत्ररत्न प्राप्त हुआ था।

कृताश्व-संहृताश्व राजा के दो पुत्रों में से पहले का नाम। कृशाश्व इनका नामांतर है।

कृति-१. राजा नहुप के एक कनिष्ठ पुत्र का नाम। २. बहु-लाश्व जनक के पुत्र का नाम। ये निमि के वंशज थे।

इस वंश में इस नाम के दो राजे हुये हैं । ३. भागवत के अनुसार च्यवन ऋषि के पुत्र । इनके पुत्र का नाम उपरिचर वसु था । ४. राजा वधु के पुत्र का नाम । इनके पिता का नाम रोमपाद तथा पुत्र का नाम उशिक था ।

कृतेयु-भागवत तथा विष्णु पुराण के अनुसार रौद्राश्व तथा घृताची के पुत्र का नाम ।

कृतीजस्-राजा कनक के पुत्र का नाम । भागवत तथा विष्णु पुराण के अनुसार ये धनक के पुत्र थे ।

कृत्तिका-१. एक नक्षत्र का नाम । २. प्राचेतस दक्ष की सत्ताहस कन्याओं में से एक । ३. अग्नि नामक वसु की पत्नी का नाम । इनके पुत्र का नाम स्कंद था ।

कृप-शारद्वत ऋषि के पुत्र का नाम । ऋषि की तपस्या से भयभीत होकर इन्द्र ने उनका तप भंग करने के लिए जालवती (भागवत तथा मत्स्य पुराण के अनुसार उर्वशी) नामक अप्सरा को भेजा था । वह अपने उद्देश्य में असफल रही, किंतु ऋषि का वीर्य एक सरकंडे पर स्वलित हो जाने से एक पुत्र तथा एक पुत्री की उत्पत्ति हुई । संयोगवश मृगयार्थ आये हुये शांतनु ने इन अरक्षित शिशुओं को अपने साथ ले लिया और कृपापूर्वक उनका पालन किया । कृपा से पोषित होने के कारण इनका नाम क्रमशः कृप तथा कृपी रखा गया । कालांतर में कृप धनुर्विद्या के आचार्य हुये और धृतराष्ट्र ने अपने पुत्रों को उक्त विद्या की शिक्षा देने के लिए इन्हें नियुक्त किया था । भारत युद्ध में इन्होंने कौरवों का पक्ष लिया और पांडव पक्ष के अनेक उद्भट योद्धाओं का वध किया । कुट्टव्यक्तिगत कारणों से इनका कर्ण से वैमनस्य हो गया था । युद्ध के अनंतर कौरव पक्ष के जो तीन वीर वच रहे थे उनमें एक कृपाचार्य भी थे । विष्णुपुराण के अनुसार कृप तथा कृपी सत्यधृति की संतान थे, जो शारद्वत के पौत्र थे ।

कृपा-कृप की बहन का नाम । इनका विवाह द्रोणाचार्य से हुआ था, जिनमें अश्वत्थामा की उत्पत्ति हुई थी । विष्णुपुराण के अनुसार ये सत्यधृति की कन्या थी जो शारद्वत के पौत्र थे । दे० 'कृप' ।

कृपाचार्य-महाभारत कालीन एक प्रसिद्ध धनुर्धर का नाम । दे० 'कृप' ।

कृपी-कृपाचार्य की बहन का नाम । दे० 'कृप' तथा 'कृपा' ।
कृमि-१. विष्णु तथा वायु पुराणों के अनुसार उशीनर के पुत्र का नाम । २. मत्स्यपुराण के अनुसार महर्षि च्यवन के पुत्र का नाम । कृत, कृतक तथा कृति इनके अन्य नामांतर हैं ।

कृश-१. ऋग्वेद के अनुसार एक सूक्तद्रष्टा का नाम, जिन्होंने यज्ञों द्वारा इन्द्र को प्रसन्न किया था । ये बड़े मन्यवादी थे और अश्विनीकुमारों के विशेष कृपापात्र थे । २. एक प्राचीन ऋषि का नाम जो उग्र तप के कारण अग्र्यंत कृश रहा करते थे । ये शंभु ऋषि के मित्र थे । इनका एक नामांतर 'कृशतनु' भी है ।

कृशानु-सोमरूपक गंधर्वों में से एक का नाम जिन्हें देवासुर संघाम के पानन्तर अश्विनी कुमारों ने प्यन्दा किया था ।

कृशाश्व-१. पाणिनि के अनुसार नाट्यकला के एक आचार्य

का नाम । दे० 'शिलालिनु' । २. एक ऋषि तथा मजापति का नाम जिनके साथ दक्ष ने अर्चि तथा विपणा नामक अपनी दो कन्याओं का विवाह किया था । ३. सहदेव के पुत्र का नाम । इनके पुत्र का नाम सोमदत्त था ।

कृष्ण-भारतीय वाङ्मय में यह नाम सर्वाधिक पूज्य है । आज इस नाम में वैदिक, पौराणिक और ऐतिहासिक कृष्ण के व्यक्तित्व निहित हैं । अतएव कृष्ण अथ केवल भावजगत के व्यक्ति रह गये हैं । ऋग्वेद में इस नाम का उल्लेख हुआ है । कृष्ण आंगिरस एक मंत्रद्रष्टा थे, किन्तु संहिता साहित्य से स्पष्ट है कि कृष्ण आंगिरस तथा कृष्ण एक ही व्यक्ति के नाम नहीं हैं । छांदोग्य उपनिषद् में सर्व प्रथम देवकी-पुत्र कृष्ण का वर्णन एक आचार्य के रूप में हुआ है । विश्वक के पुत्र, एक ऋषि का नाम भी कृष्ण था । कृष्ण नाम का एक असुर भी हुआ है जिसने दस सहस्र सेना के साथ त्रिलोक में हाहाकार मचा रखा था । अंत में इंद्र ने इसे परास्त करके इसका नाश किया । एक अन्य वैदिक मंत्र में ५०००० कृष्णों के वध का उल्लेख है । अन्यत्र वंश-परंपरा को रोकने के लिये कृष्ण की गर्भवती स्त्रियों के वध का उल्लेख है । संभवतः श्वेतवर्ण आदिम आर्यों और कृष्ण (काला) वर्ण आर्यों के युद्ध की ओर इस वर्णन का संकेत है । पुराणों के अनुसार कृष्ण विष्णु की पूर्ण कला से सम्पन्न उनके आठवें अवतार थे । महाभारत में स्पष्टतः परमदेव के रूप में तो नहीं, किन्तु कुछ रहस्यात्मकता से युक्त राजा कृष्ण को देखते हैं । सर्वशक्तिमान ईश्वर के रूप में कृष्ण का वर्णन भगवद्गीता में मिलता है, जो निर्विवाद रूप से महाभारत में वाद को जोड़ी गई है । महाभारत के द्वितीय और तृतीय संस्करणों के मक्षिष्ठ अंशों में इनकी ईश्वरीय सत्ता उत्तरोत्तर परिवर्धित होती चली गई । हरिवंश पुराण में जो बहुत वाद में महाभारत के साथ संयुक्त किया गया तथा भागवत पुराण में इनकी ईश्वरीय सत्ता पूर्णता को प्राप्त हुई । उपर्युक्त दोनों ग्रंथों के आधार पर इनकी कथा संक्षेप में निम्नलिखित है:-इनके पिता वसुदेव तथा माता देवकी थीं । देवकी कंस की बहन थीं और वसुदेव ने इनके विवाह के समय यह आकाशवाणी हुई कि देवकी के आठवें गर्भ से जो संतान होगी वही कंस का वध करेगी, इसी कारण से कंस ने देवकी और वसुदेव को कारागार में डाल रक्खा था और जो संतान उनमें होती थी उसे चटान पर पटक कर मार डालता था । भाद्रपद कृष्णाष्टमी को, अर्धरात्रि के समय कारागार में ही कृष्ण का जन्म हुआ । उस समय देवयोग ने नभा पहरेदार खी गये थे । सुमनाधार गृष्टि हो रही थी । पूरे निश्चय के अनुसार वसुदेव मत्स्यजान कृष्ण को लेकर बड़ी हुई यमुना को पार करके गुन्दावन में वसोदा के पान्न स्न आये और वसोदा की वपगत कन्या को लाकर देवकी की गोद में विश्रा दिया । प्रातः काल कंस ने ज्योंही चटान पर पटक कर उसको मार डालना चाहा, वहाँ ही यह कन्या नष्ट करती हुई आत्मज्ञ में उद्ग गई- 'तरे दुर्भति कंस ! तस्य मारनेवाला प्रष्ट हो

गया है। यह कन्या योगमाया थी। इसके अनन्तर कंस को शिशु कृष्ण का पता चला और उसके वध के लिये उसने अनेकानेक प्रयत्न किये। सर्वप्रथम पूतना नाम की राक्षसी भेजी गई कि वह विपाक्त रतन्य-पान करा कर कृष्ण को समाप्त कर दे, किन्तु वह खुद ही मारी गई। इसी प्रकार कागासुर, बकासुर, वृषासुर आदि राक्षस छद्मवेश में कृष्ण को मारने के लिये भेजे गये, किन्तु सभी कृष्ण के द्वारा मार डाले गये। कालियनाग तथा कुवलयापीड नामक मदोद्धत हाथी आदि का भी कृष्ण ने वध किया। कंस के द्वारा भेजे गये प्रलम्भ, नरक, जंभ, पीड तथा मुरु नामक अन्य राक्षस भी मारे गये। बड़े होने पर कृष्ण ने अपने बड़े भाई बलराम की सहायता से कंस के भाई सुनामन को मारा और जरासंध ऐसे पराक्रमी राजा के सहायक होने पर भी कंस का वध किया। तत्पश्चात् जरासंध और शिशुपाल जैसे अन्य अत्याचारी राजाओं को मारा। अंग-वंग आदि देशों को जीत कर पाताल लोक में पंचजन नामक राक्षस को मारा और पांचजन्य नामक दिव्यशंख प्राप्त किया। अर्जुन की सहायता से इन्होंने खांडव बन जलाने में अग्नि की सहायता की जिससे प्रसन्न होकर अग्नि ने कृष्ण को सुदर्शन चक्र और कौमोदकी गदा तथा अर्जुन का गाँधीव धनुष दिया। इन्होंने गांधार नरेश की कन्या का स्वयंवर-सभा से अप-रहण किया और राजा को अपने रथ के पहिये से बाँध-कर अपने यहाँ ले गये। विदर्भराज भीष्मक के पुत्र रुक्म के घोर विरोध करने पर भी उसकी बहन रुक्मिणी के साथ इन्होंने विवाह किया, जिससे प्रद्युम्न, चारुवेष्य आदि दस पुत्र तथा चारुमती नाम की एक कन्या उत्पन्न हुई। रुक्मिणी को लक्ष्मी का अवतार माना गया है। सत्य-भामा, जांबवती, सुशीला तथा लक्ष्मणा इनकी अन्य प्रधान महिपियाँ थीं। कहा जाता है कि इनके १६००० स्त्रियाँ थीं। पांडवों के साथ इनका घनिष्ठ संबंध था। द्रौपदी के स्वयं-वर में सम्मिलित होकर मत्स्यवेध-प्रतियोगिता में इन्होंने अर्जुन के पक्ष में अपना निर्णय दिया। पांडवों के हस्तिनापुर में राज्य करते समय ये अतिथि के रूप में उनके यहाँ गये। कुछ दिन बाद अर्जुन द्वारका गये। कृष्ण ने उनका बड़ा स्वागत किया। वहीं कृष्ण की बहन सुभद्रा से अर्जुन का प्रेम हो गया और बलराम को असम्मति होने पर भी कृष्ण की सहायता से अर्जुन सुभद्रा को लेकर निकल गये। युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ के समय कृष्ण ने जरासंध के वध करने की सलाह दी, क्योंकि जरासंध के कारण ही कृष्ण को मथुरा छोड़कर द्वारका जाना पड़ा था। भीम द्वारा जरासंध का वध हुआ। राजसूय यज्ञ में कृष्ण को सम्मानित होते देख शिशुपाल ने उनका अपमान किया। उस पर कृष्ण ने अपने चक्र से उसका शिरच्छेदन किया। कौरवों और पांडवों के बीच छत क्रीड़ा के अवसर पर भी कृष्ण वर्तमान थे। जब सर्वस्व हारने के बाद युधि-ष्ठिर द्रौपदी को भी दाँव पर लगा कर हार गये, तब दुःशासन द्रौपदी को उसके केश पकड़कर खींच लाया और नग्न करने लगा। किन्तु कृष्ण की कृपा से उसकी साड़ी इतनी बढ़ गई कि वह उसे नग्न न कर सका।

पांडवों के अज्ञातवास के बाद और पारस्परिक महायुद्ध के पूर्व कृष्ण ने दुर्योधन की सभा में जाकर युद्ध न करने की सगमति दी थी किन्तु दुर्योधन ने इनकी बात न मानी। युद्ध के पूर्व इनकी सहायता लेने के लिए पहिले अर्जुन और फिर दुर्योधन एक ही समय पहुँचे। कृष्ण ने एक को अपना तटस्थ व्यक्तिगत साथ, तथा दूसरे को अपनी सेना लेने के लिए कहा। दुर्योधन ने इनकी सेना को लेना स्वीकार किया। कृष्ण ने तब अर्जुन के आग्रह से उसका सारथी होना स्वीकार किया। युद्धारम्भ के समय युद्ध-क्षेत्र में अर्जुन को मोह उत्पन्न हुआ और उन्होंने युद्ध करना अस्वीकार कर दिया। वहाँ पर कृष्ण ने अर्जुन को विश्व प्रसिद्ध 'भगवत गीता' का उपदेश दिया और उनको कर्तव्य का ज्ञान कराया। सारथी-रूप से कृष्ण युद्ध में अर्जुन की आग्रह सहायता करते रहे। दो एक स्थानों में अनुचित रूप से भी अर्जुन की सहा-यता की। जैसे, १. गुरु द्रोण को विरत करने के लिए 'अश्वत्थामा हतो' वाले अर्धसत्य के प्रयोग में और २. भीम और दुर्योधन के गदायुद्ध में—दुर्योधन के मर्मस्थल पर आघात करने के लिए संकेत करने में। युद्धोपरांत ये विजयी पांडवों के साथ हस्तिनापुर गये और उनके अश्वमेध यज्ञ में सम्मिलित हुए। तदनंतर ये द्वारका लौट गये। वहाँ इन्होंने मद्यपान का निषेध कर दिया। इसके बाद द्वारका में बहुत से अपशकुन होने लगे। कृष्ण ने समस्त यादवों को समुद्र-तट पर जाकर देवताओं को प्रसन्न करने की आज्ञा दी। इन्होंने मद्यपान करने का एक दिन निश्चित कर दिया था। इसके फलस्वरूप मदोन्मत्त यादवों में भयानक युद्ध हुआ, जिसमें समस्त यादव-गण इनके पुत्र प्रद्युम्न के साथ मारे गये। बलराम इस युद्ध से अलग रहे और शांति के साथ एक वृक्ष के नीचे शरीर त्याग दिया। कृष्ण स्वयं जरस नामक एक व्याध के तीर से आहत होकर दिवंगत हुये, क्योंकि भूल से इन्हें हरिण समझकर उसने इन पर तीर चला दिया था। यह समाचार पाकर अर्जुन द्वारका गये और इनका अन्त्येष्टि संस्कार किया। पाँच मुख्य रानियाँ इनके साथ सती हो गईं। द्वारका समुद्र में जलमग्न हो गई। भागवत आदि पुराणों में कृष्ण के बाल्य तथा शैशव की कथाओं का विशेष रूप से वर्णन किया गया है। हिंदी के प्रधान कवि विद्यापति, सूर, तुलसी आदि ने कृष्ण चरित सम्बन्धी कथावस्तु भागवत आदि पुराणों से ही प्रधान रूप से ली है। काव्योचित रूप देने के लिये तथा धार्मिक महत्त्व की स्थापना के लिये कृष्ण के महत्त्व का अतिरंजित वर्णन भी किया गया है। सुरसागर और प्रेम-सागर आदि पुस्तकों में कृष्ण का यही अतिरंजित रूप हमें मिलता है। काले बादल के रंग का होने के कारण इनका एक नाम घनश्याम हो गया। इसी प्रकार उखल-बंधन के समय यशोदा ने इनके पेट में रस्सी बाँधी थी जिससे इनका एक नाम दामोदर भी पड़ा। गोवर्धन धारण करने के कारण इनका एक नाम गिरधारी या तुंगीश हुआ मथुरा-निवास के समय जरासंध और कालयवन नामका एक विदेशी के आक्रमण का वर्णन भी मिलता है। काल-

यवन की कल्पना पौराणिकों ने संभवतः कृष्ण की गौरव रक्षा के लिये की है। कृष्ण चरित के साथ सम्मिलित होने वाली घटनाओं में राधा की उद्भावना अत्यंत महत्वपूर्ण एवं मौलिक है। भागवत में राधा का उल्लेख नहीं है। राधा संभवतः आभीरों की वनदेवी और गोपाल बाल देव थे। राधा का उल्लेख सर्वप्रथम ब्रह्मवैवर्त पुराण में हुआ है। (दे० राधा) यही भावना जयदेव, विद्यापति से आती हुई हिंदी साहित्य में पल्लवित हुई। भागवत में गोपी-कृष्ण के प्रेम का उल्लेख है। साथ ही उसमें एक प्रधान गोपी की आराधना का भी उल्लेख है। है। 'भ्रमरगीत' की निर्गुण-सगुण-विवाद की उद्भावना हिंदी साहित्य के कवियों की मौलिकता है। विष्णु पुराण के अनुसार विष्णु ने अपने दो केश उत्पन्न किये। एक सफेद और दूसरा काला। ये दोनों केश क्रम से रोहिणी तथा देवकी के गर्भ में स्थापित हुए। श्वेत केश से बल-राम और काले से कृष्ण की उत्पत्ति हुई। केश से उत्पन्न होने के कारण इनका नाम 'केशव' पड़ा। कृष्ण पांडवों के फुफेरे भाई भी कहे गये हैं। मतान्तर से कृष्ण और अर्जुन नरनारायण के अवतार माने गये हैं। जैकोवी तथा भंडारकर आदि विद्वानों की धारणा है कि कृष्ण नाम 'क्राइस्ट' के आधार पर रक्खा गया है, किन्तु यह धारणा अब असत्य सिद्ध की जा चुकी है। २. दे० सहस्रार्जुन। ३. कद्र-पुत्रों में एक पुत्र का नाम। ४. हविधान राजा के एक पुत्र का नाम। ५. सिंधुके एक भाई का नाम। ६. एक ऋषिका नाम। ७. शुक्राचार्य के चार पुत्रों में से एक नाम।

कृष्ण आग्नेय-आयुर्वेद को पृथ्वी पर लाने वाले एक महर्षि का नाम। चरक-संहिता के अनुसार इन्होंने ही सर्वप्रथम अग्निवंश भंड, तथा हारित आदि छः शिष्यों को आयुर्वेद की शिक्षा दी।

कृष्णकणामृत-विल्वमंगल सूरदास रचित एक वैष्णव ग्रंथ का नाम जिसमें श्रीकृष्ण तथा ब्रजवधुओं के पारस्परिक प्रेम तथा रसकेलि आदि का वर्णन है। दे० 'विल्व मंगल'।

कृष्णकिकर-एक प्रसिद्ध वैष्णव भक्त जो संभवतः चैतन्य महाप्रभु के समकालीन तथा उनके शिष्य थे।

कृष्ण चैतन्य-इनका वास्तविक नाम निमाई था। दे० 'चैतन्य'।

कृष्ण जीवन-एक प्रसिद्ध हरिभक्त तथा कथा वाचक।

कृष्णदत्त लौहित्य-ये और कृष्ण कान्त लौहित्य श्याम जयंत लौहित्य के शिष्य थे। दे० 'त्रिवेद'।

कृष्णदास-१. स्वर्णहार जाति के एक मध्यकालीन वैष्णव भक्त जो गायन तथा नृत्य में कुशल थे। भक्तमाल के अनुसार स्वयं कृष्ण ने अपना नूपुर निकाल कर इन्हें पहनाया था। २. एक प्रसिद्ध वैष्णव भक्त तथा नाभाजी के गजमान। ३. मनातन नामक एक विद्यापति वैष्णव ध्याचार्य के शिष्य जो चैतन्य महाप्रभु के शिष्यों में थे। नारायण भट्ट नामक इनके एक भट्ट शिष्य भी प्रसिद्ध वैष्णव भक्त थे। कृष्णदास जी नदनमोहन विमल के

उपासक थे। ४. एक प्रसिद्ध वैष्णव भक्त जिन्होंने रासपंचाध्यायी गोवर्धनचरित्र तथा भगवद्भोजन-विधि नामक तीन ग्रन्थों की रचना की थी।

कृष्णदास पयहारी-गलता गद्दी के एक प्रसिद्ध वैष्णव भक्त का नाम। ये अतिथि-सत्कार को इतना महत्त्व देते थे कि एक बार अपनी कुट्टी के सामने आये हुए एक बाघ को इन्होंने अपने शरीर का मांस काट-काटकर खिलाया था। ये बाल ब्रह्मचारी थे और परोपकार में दूसरे दधीचि माने जाते थे।

कृष्ण द्वैपायन-दे० 'व्यास'।

कृष्णधृतिसात्यकि-सत्यश्रवा के शिष्य का नाम।

कृष्ण पराशर-पराशर कुलोत्पन्न एक ब्रह्मर्षि का नाम। काष्णायन, कपिस्राव, काकेयस्थ, अंतःयाति तथा पुष्कर इस कुल में उत्पन्न मुख्य ऋषियों के नाम हैं।

कृष्णमिश्र-संस्कृत के प्रसिद्ध पंडित (१०४२ ई०) तथा कवि। ये चंदेल-राजा कीर्तिवर्मा के सभा पंडित थे। इन्होंने 'प्रबंध-चंद्रोदय' नामक नाटक लिखा था।

कृष्णहारित-एक प्रसिद्ध आचार्य जिन्होंने अपने शिष्यों को वाग्देवता संबंधी उपासना के एक प्रकार की शिक्षा दी थी। इन्होंने कालात्मक प्रजा उत्पन्न की थी जिसके कारण विकलांग हो गये पर प्रयत्न करके अपने शरीर को पुनः ठीक कर लिया।

कैकेय-एक प्राचीन राज्य तथा उसके राजा का नाम। रामायण के अनुसार इस राज्य की राजधानी गिरिव्रज अथवा राजगृह थी। इनका वास्तविक नाम विवादास्पद है। एक मत के अनुसार इनका नाम धृष्टकेतु था और यह कृष्ण के स्वसुर थे। इनके पाँच पुत्रों ने महाभारत-युद्ध में भाग लिया था। दशरथ की प्रिय पत्नी तथा भरतमाता कैकेयी का संबंध इसी राज्य से था। कैकेयी अश्वकेतु की पुत्री थीं।

केतव-वायु पुराण के अनुसार व्यास की शिष्य परंपरा में शाकभूषी स्थविर के एक शिष्य का नाम।

केतु-१. नवग्रहों में से एक ग्रह। इसके रथ को लाग्न के रंग के आठ घोड़े खींचते हैं। प्रति संक्रांति यह सूर्य को ग्रहित करता है। मतांतर से यह एक दैत्य का नाम है, जिसके धनु मात्र है। समुद्र-मंथन के बाद सत्य देवता अमृतपान करने के लिये बैठे। यह भी अमरत्व की इच्छा से देवताओं की पंक्ति में देवता-वेप में बैठ गया। पर सूर्य और चंद्र ने इसे पहचान लिया और इसके रहस्य को गोल दिया। तत्काल विष्णु ने इसका गिर काट दिया, किन्तु अमृत हमके गले में जा चुका था, फलस्वरूप कटे होने पर भी इसके सिर और धनु अलग-अलग अमर हो गये। मस्तक का नाम राहु पड़ा और धनु का नाम केतु। सूर्य और चंद्र से अपना वैर चुकाने के लिए राहु और केतु सूर्य, चंद्रमा को ग्रहित करते हैं। ज्योतिष में ये पाप-ग्रह माने गये हैं। विशेषरूप से गणना के अनुसार केतु की दगा का फल साल वर्ष तक रहता है। केतु की दगा के पहिले कुछ और उनके बाद शुक्र की दगा आती है। केतु की माना का नाम सिद्धिका था। मतांतर से यह कश्यप तथा द्युन का पुत्र था। २. ऋग्वेद तथा जपंतो के १०० पुत्रों में से

एक । ३. यह तामस मनु के एक पुत्र थे । नामांतर से यह तपोधन भी कहे गये हैं । ४. ब्रह्मा ने अपनी प्रजा की अत्यधिक वृद्धि होते देख मृत्यु नाम की एक कन्या उत्पन्न की । उससे असंख्य प्रजा का संहार होते देखकर वह रोने लगी । उसके श्रांसुओं से हज़ारों रोग पैदा हुये । फिर उन्होंने तप किया जिससे उनको यह वर मिला कि इस नाश से उनको कोई पाप न लगेगा । इस आश्वासन से उन्होंने एक लम्बी साँस ली जिससे केतु उत्पन्न हुआ । इसके एक शिष्य था जो धूमकेतु के नाम से प्रसिद्ध है ।

केतु आग्नेय—एक सूक्तद्रष्टा का नाम ।

केतुमत्—१. धन्वतरि के एक पुत्र का नाम । इनके एक पुत्र का नाम भीमरथ उपनाम भीम था । २. एकलव्य नामक प्रसिद्ध व्याध का पुत्र । यह निबध देश का राजा था । महाभारत युद्ध में दुर्योधन के पक्ष से लड़ा और भीम के द्वारा मारा गया । ३. भागवत के अनुसार अंबरीष के एक पुत्र का नाम ।

केतुमती—सुमाली राक्षस की स्त्री, रावण की मातामही का नाम ।

केतुमात—अग्नीध्र राजा के नौ पुत्रों में से कनिष्ठ का नाम । इनकी माता का नाम उपचिती तथा स्त्री का नाम देव-वीति था जो मेरु की कन्या थी ।

केतुवर्मन्—तिर्गत राजा सूर्यवर्मा के भाई का नाम । इन्हें अर्जुन ने मारा था ।

केदार—एक राजर्षि का नाम ।

केदारा—संगीत-शास्त्र के अनुसार एक राग का नाम । भरत मत से यह मेघ राग का चौथा पुत्र है । प्रचलित केदारा रात्रि के दूसरे प्रहर का एक श्रुतिमधुर राग है जो कल्याण ठाट के अंतर्गत गाया जाता है । पहले यह राग विलावल ठाट के ही अंदर था । इसमें विलावल का मुख्य अंग—ग म रे सा—अब भी प्रयुक्त होता है और गंधार का प्रयोग विकृत अथवा दुर्बल रूप में किया जाता है । पहले के शुद्ध मध्यम स्वर माधुर्य के लिये मध्यम में लगाये जाने लगे और यह राग विलावल से कल्याण मेल में गाया जाने लगा । यह तंत्र, भ्रुपद तथा विलांघित खयाल तीनों के उपयुक्त है । वीररस प्रधान होने के कारण ठुमरी, टप्पा आदि छुद्र प्रकृति का गायन इस राग में असंभव है । केदारा राग के कुञ्ज लोकप्रिय रूप भी प्रचलित है जिनमें जलधर तथा मलुहा केदारा मुख्य हैं ।

केदारेश्वर—शिव के एक अवतार का नाम । नर-नारायण इन्हें पृथ्वी पर लाये थे । काशी में इनके नाम से एक घाट है ।

केरल—१. कश्यपगोत्री गोत्रकारों का नाम । २. दक्षिणी भारत में एक प्रांत का नाम ।

केलि—ब्रह्मधान के पुत्र का नाम ।

केवट—निपाद राज गुह की उपाधि जो आजकल साधारण-तया जाति का बोधक है । दे० 'गुह' ।

केवल—नर राजा के पुत्र का नाम ।

केवलदास—एक मध्यकालीन वैष्णव भक्त जो भिन्ना वृत्ति द्वारा संत-सेवा किया करते थे । कुवड़े होने के कारण

इनका एक नामांतर 'कूवा जी' भी था । एक बार ऋण चुकाने के लिये महाजनों का कुर्वा इन्हें अकेले खोदना पड़ा जिसमें ऊपर से मिट्टी गिरने के कारण ये दब गये । किंतु जब एक महीने बाद मिट्टी हटाई गई तो राम-राम करते हुये ये जीवित निकले । अयोध्या के लक्ष्मण किला के संस्थापक यही माने जाते हैं । भक्तमाल के टीकाकारों ने इनकी महिमा में कई प्रसंग उद्धृत किये हैं ।

केवलराम—नाभाजी के अनुसार एक योग्य वैष्णव साधु जिनके संसर्ग से अनेक नास्तिक भी हरिभक्त हो गये थे । घर-घर जाकर हरिभक्ति का प्रचार करना इनका नित्य का कार्य था ।

केवलवहि—भागवत के अनुसार अंधक के पुत्र का नाम ।

केशरि औरस—अक्षराज जांबवान का एक पर्याय । दे० 'जांबवान' ।

केशव—१. नाभादास जी के अनुसार एक मध्यकालीन वैष्णव भक्त । २. कृष्ण का एक पर्याय । दे० 'कृष्ण' ।

केशव (लहेरा)—नाभा जी के अनुसार एक वैष्णव भक्त और स्वामी सुरसुपनंद के शिष्य ।

केशव दंडवती—नाभा जी के अनुसार 'मथुरा मंडल' के विशिष्ट भक्त तथा वैष्णव भक्ति-प्रचारक । अपना अधिकांश समय कृष्ण को दंडवत करने में ही बिताने के कारण इन्हें "केशवदंडवती" कहा जाता था ।

केशवदास—२. नाभा जी के अनुसार एक मध्यकालीन वैष्णव भक्त ।

केशवभट्ट—नाभादास जी के अनुसार एक मध्ययुगीन वैष्णव भक्त जिसका शास्त्रार्थ श्री 'चैतन्यमहाप्रभु' से हुआ था । शास्त्रार्थ में पराजित होने से ये बहुत दुखी थे, किंतु देवी ने इन्हें स्वप्न दिया कि तुमको हरानेवाले साक्षात् कृष्ण के अवतार हैं । तब से ये कृष्ण के अनन्य भक्त हो गए । यह प्रसिद्ध है कि मथुरा के विश्राम घाट पर वहाँ के काजी और सूवेदार के कुचक से वहाँ पहुँचने वाले हिंदुओं की सुन्नत कर ली जाती थी, किंतु इनके प्रभाव से यह अत्याचार बंद हो गया ।

केशिध्वज—कृतध्वज अथवा कीर्तिध्वज के पुत्र का नाम । इनके पुत्र का नाम भानुमत् जनक और चचेरे भाई का नाम खांडिक्य था । खांडिक्य धार्मिक तत्त्वज्ञान के विशेषज्ञ थे । प्रतियोगिता के कारण दोनों में वैमनस्य हो गया, जिनके फलस्वरूप केशिध्वज ने खांडिक्य को निकाल दिया । किंतु एक कठिन समस्या के सुलझाने के लिये फिर उन्हें बुलवाया गया । इसके पुरस्कार-स्वरूप केशिध्वज ने खांडिक्य को अज्ञान का यथार्थ स्वरूप बतला कर योग और तत्त्वज्ञान की शिक्षा दी । दे० 'खांडिक्य' ।

केशिन् (केशी)—१. कंस की आज्ञा से घोड़े का रूप धारण कर कृष्ण पर आक्रमण करने वाले एक राक्षस का नाम जो कृष्ण द्वारा मारा गया । २. कश्यप तथा दक्ष के एक पुत्र का नाम । प्रजापति को देवसेना और दैत्यसेना नाम की दो कन्याओं में से दूसरी का भार इसको समर्पित किया गया था । इसने इंद्र से युद्ध किया था ।

एक राजा का नाम । ३. यह उच्चैःश्रवा कौण्टोप के भाग्निनेय थे । नामांतर से इन्हें दाल्म्य भी कहते हैं ।

केशिन सात्यकाम-इन्होंने केशिन दाम्य से सप्तपदा शाकृती नामक मंत्र की शिक्षा ली थी ।

केशिनी-१. एक अप्सरा, जो कश्यप तथा प्राधा की कन्या थी । २. राजा सगर की दो स्त्रियों में से एक का नाम । शेव्या, भानुमती तथा सुमति इनके अन्य नाम हैं । ३. सुहोत्रपुत्र अजमीड़ की तीन स्त्रियों में से एक का नाम । जन्हु, जन तथा रुपिन इनके तीन पुत्र थे । ४. रावण की माता, विश्रवा ऋषि की एक पत्नी का नाम । रावण, कुंभकर्ण तथा विभीषण इनके तीन पुत्र थे । नामांतर केसकी । दे० 'कैकसी' । ५. एक असाधारण लावण्यवती राजकन्या का नाम । इसने अपना स्वयंवर स्वयं किया था, जिसमें अंगिरा ऋषि के पुत्र सुधन्वा तथा प्रह्लाद पुत्र विरोचन उपस्थित हुये थे । दोनों में कौन श्रेष्ठ है, इस पर विवाद छिड़ा । दोनों ने अपने प्राणों की बाज़ी लगाई । अंत में सर्वसम्मति से निर्णय धर्मात्मा प्रह्लाद के ऊपर छोड़ दिया गया । उन्होंने सुधन्वा का पक्ष लिया । इससे प्रभावित हो सुधन्वा ने उदारता पूर्वक विरोचन को ही वरे जाने की सम्मति दी । केशिनी ने विरोचन को पति रूप वरण किया । ६. नल द्वारा परित्यक्त होने के बाद दमयंती की एक दूती का नाम ।

केशी-१. कृष्ण को भारने के लिए अत्याचारी कंस द्वारा भेजे हुए एक राक्षस का नाम जो एक बृहदाकार अश्व का रूप धारण कर व्रजवासियों की गायों को मार कर खा जाता था । इसके भय से गोपों का गाय चराना बंद हो गया था । अंत में कृष्ण ने उसका वध करके व्रजवासियों को उसके आतंक से मुक्त किया । २. नाभा जी के अनुसार एक मध्यकालीन हरिभक्ति-परायण महिला ।

केसरी-एक वीर वानर का नाम जो अंजनी के पति थे और गोकर्ण नामक पर्वत पर रहते थे । शंखसादन नामक एक असुर ऋषियों को सताया करता था । इन्होंने ऋषि की आज्ञा से युद्ध करके उसका वध किया । इससे संतुष्ट हो ऋषि ने आशीर्वाद दिया कि इनके एक भगवद्भक्त तथा अति पराक्रमी पुत्र होगा फलतः मारुति (हनुमान) की उत्पत्ति हुई ।

केसि(केसी)-एक दैत्य, कंस का अनुचर । यह कंस की आज्ञा से एक अश्व का रूप बना कर कृष्ण का वध करने के लिए वृंदावन गया था अपनी लातों के प्रघात से इसने यहाँ के गोपों तथा जीव-जंतुओं को विशेष कष्ट दिया था । कृष्ण ने यह देखकर उसके पिट्टले पैर पकड़ कर उसे चार सौ हाथ दूर फेंक दिया था, जिससे यह कुछ देर के लिए मूर्च्छित हो गया था । सचेत होने पर उसने फिर कृष्ण से युद्ध किया था, जिसमें कृष्ण ने उसके मुग में शपना हाथ डाल कर उसका वध कर डाला था ।

कैकय-कैकय देश (वर्तमान काश्मीर) के एक प्राचीन राजा जो फोसलेश दशरथ के समकालीन थे । उनकी कन्या कैकेयी (जो सुन्दरता में श्रद्धितीय थी) का विवाह दशरथ के साथ हुआ था । ये उनकी मिय नहिपी और भरत की जननी थीं ।

कैकयसुता-दशरथ की दूसरी रानी कैकेयी का नामांतर । दे० 'कैकेयी' ।

कैकसी-सुमाली राक्षस की कन्या का नाम जो विश्रवा ऋषि की पत्नी थी और जिससे रावण, कुंभकर्ण, विभीषण तथा सुर्षणखा ये चार संतानें हुई थीं । सुमाली कुबेर से ईर्ष्या करता था । इसी से उसकी यह इच्छा थी कि उसे ऐसी संतान हो जो ऐश्वर्य में कुबेर का दर्प चूर्ण करे । अन्य राक्षसों के विवाहेच्छुक होने पर भी सुमाली ने इसी उद्देश्य से कैकसी का विवाह स्थागित रक्खा था । अंत में जब कैकसी की यौवनावस्था दबने लगी तब इसे सुमाली ने विश्रवा को सौंप दिया । दे० 'केशिनी' (४) ।

कैकेयी-महाराज कैकय की पुत्री तथा दशरथ की तृतीय रानी का नाम । वाल्मीकि रामायण के अनुसार ये अपने समय में सुन्दरता में श्रद्धितीय थीं । इनके गर्भ से भरत की उत्पत्ति हुई थी । एक बार देवासुर संग्राम में ब्राह्मण हुए दशरथ की इन्होंने बड़ी सेवा-शुश्रूषा की थी, जिससे प्रसन्न होकर दशरथ ने इन्हें दो वरदान देने का वचन दिया था । राम के राज्याभिषेक का अवसर निकट आने पर इन्होंने अपनी मंथरा नामक एक दासी के बहकावे में आकर राम के लिए चौदह वर्ष का वनवास और भरत के लिए राज्य का उत्तराधिकार वरदान रूप में माँग लिया । दशरथ ने प्राण देकर वचन पूरा किया । राम स्वयं सहर्ष वन चले गये और भरत ने भी चौदह वर्ष राम की उपासना में बिता कर उनके लौटने पर राज्य पुनः उन्हीं को सौंप दिया । दे० 'राम' तथा 'दशरथ' ।

कैटभ-मधु नामक दैत्य का भाई । विष्णु जब एकाराव में में सोते थे, उनके कर्णामूल से कई बलवान असुर निकले, जिनमें एक का नाम कैटभ था । मार्कण्डेय पुराण के अनुसार विष्णु से इन दोनों का १००० वर्षों तक युद्ध होता रहा । अंत में महामाया इनके गले में धँस गई और विष्णु ने इनसे ही वरदान पाकर इन्हें मार डाला । हरिवंश के अनुसार ब्रह्मा ने मिथी के दो स्त्रियों को बनाये । बाद में ब्रह्मा के आदेश से उनमें वायु ने प्रवेश किया और ये दोनों बलवान असुर हो गये ।

कैतय-शकुनि के एक पुत्र का नाम । नामांतर 'उल्फ' । कैरात (कैराति)-कश्यप तथा अंगिरा-कुलोत्पन्न गोभ्ररारों का नाम ।

कैलास-हिमालय स्थित एक पर्वतशृंग का नाम जो शिव तथा कुबेर का निवास-स्थान माना जाता है ।

कैलासक-एक सर्प का नाम ।

कौक-सत्रासह नामक पांचाल राजा के पुत्र का नाम । कौचरत्न-एक प्रसिद्ध राजा जिन्दरी की का नाम सुप्रसन्न था । ये नियम से एकादशी व्रत करती हुई रात्रि जागरण किया करती थीं । पूर्व जन्म की ये वंशदा थीं । इसी के पुण्य-प्रताप से कौचरत्न ने राजवंश में जन्म ग्रहण किया । एक दिन पुराणी हो यह बात किसी प्राणिक को सुनाया, सुनकर यह भी धन करने लगा और इसे धैर्य की प्राप्ति हुई ।

कोटरक-एक प्रसिद्ध क्षत्रकुंडली नदाक्षर ।

कैटभ—मधु नामक दैत्य के अनुज का नाम जिसका वध विष्णु ने किया था। दे० 'मधु'।
 कोटरा—पार्वती का अष्टमावतार। वाणासुर की माता। अनिरुद्ध के उद्धार के लिये जब कृष्ण और वाण में युद्ध हुआ और कृष्ण ने अपना चक्र उठाया उस समय नग्न होकर यह कृष्ण के सम्मुख दौड़ी थी।
 कोटकृष्ण (कोटकृष्ण)—वसिष्ठ कुलोत्पन्न ऋषिगण का सामूहिक नाम।
 कोटिक (कोटिकाश्य)—सूर्य के पुत्र का नाम। जयद्रथ के कहने से इसने द्रौपदी को सताया था। भारत युद्ध में भीम ने इसका वध किया।
 कोटिश—एक महारथी का नाम।
 कोपचप—एक गोत्रकार ऋषि का नाम।
 कोपवेडा—पांडव-सभा के एक ऋषि का नाम।
 कोमलक—राजा जनमेजय के सर्पयज्ञ में सम्मिलित होने वाले एक सर्प का नाम।
 कोलासुर—एक दैत्य का नाम। इसका वध कहोड ऋषि ने कराया था। कहोड के पिता पिप्पलाद जब तपश्चर्या में ध्यानस्थ थे, उस समय इसने उन्हें कष्ट दिया था।
 कोलाहल—सभानर के एक पुत्र का नाम।
 कोसल—भारतवर्ष का एक प्राचीन विस्तृत जनपद। वाल्मीकि रामायण के अनुसार इसकी स्थिति सरयू नदी के तट पर थी और अयोध्या इसकी राजधानी थी। इससे वर्तमान अवध प्रदेश का बोध होता है। महाभारत तथा रघुवंश में इसे 'उत्तर कोसल' कहा गया है। सुप्रसिद्ध चीनी परित्राजक ह्वेनत्सांग के अनुसार कोसल राज्य कर्लिंग के उत्तर-पश्चिम लगभग १८०० 'लि' (डेढ़ सौ फोस) के अंतर पर था। इसका परिमाण ५००० लि और राजधानी का परिमाण लगभग ४० लि था। यह चारों ओर पहाड़ और जंगलों से घिरा था और इसके दक्षिण में लगभग ६०० 'लि' पर आंध्र राज्य था। उसके वर्षानों से यह भी विदित होता है कि उक्त प्रदेश के तत्कालीन राजा का नाम सद्यह (सातवाहन ?) था। उसके पीछे यह विस्तृत जनपद हैहय वंशी क्षत्रियों के हाथ में चला गया। विष्णुपुराण के अनुसार प्राचीन काल में देवरहित नाम का कोई वीर राजा इस पर शासन करता था। सूर्यवंशियों का यह प्रधान केंद्र था।
 कोसला—कोसल देश की राजधानी अयोध्या का एक नामांतर। दे० 'अयोध्या'।
 कोसली—एक रागिणी का नाम। इसमें ऋषभ नहीं लगता।
 कोहल—व्यास की शिष्य-परंपरा में लांगली के शिष्य का नाम जो जनमेजय के नागयज्ञ में सम्मिलित हुए थे।
 कौकुसंडि—उत्तम मन्वंतर में सप्तर्षियों में से एक।
 कौटिल्य—एक वैदिक आचार्य का नाम जिन्होंने अक्षरोपासना तथा अक्षर ब्रह्म संबंधी माहात्म्य का प्रचार किया था।
 कौटिल्य—दे० 'चाणक्य'।
 कौडिन्य—प्रसिद्ध आचार्य जो एक वृत्तिकार थे। हिरण्य के शिष्या की पितृ तर्पण शाखा में इनका उल्लेख है।

२. शांडिल्य ऋषि के शिष्य का नाम। इनके शिष्य कौशिक थे। दे० 'विदमिन्'। ३. कुंडिन कुलोत्पन्न एक ब्रह्मर्षि का नाम जो युधिष्ठिर के अश्वमेधयज्ञ में सम्मिलित हुये थे।

कौणकुत्स्थ—एक ऋषि का नाम।

कौणाप—एक सर्प का नाम।

कौत्स—१. निरुक्तकार यास्क के पूर्व, महित्य ऋषि के शिष्य। इनके शिष्य माण्डव्य थे। यह वेद को निरर्थक और ब्राह्मणों को कपोलकल्पित व्याख्या मानते थे। इनके इस मत का खंडन यास्क ने किया था। २. विश्वामित्र के शिष्य का नाम जिन्होंने रघु से चौदह कोटि स्वर्णमुद्रा लेकर गुरु दक्षिणा दी थी। ३. रघुवंश में वटतंतु शिष्य कौत्स का उल्लेख है। ४. एक ब्रह्मर्षि जिन्हें राजा भगीरथ ने अपनी कन्या हंसी समर्पित की थी।

कौथुमिन्—१. हिरण्यनाभ नामक ब्राह्मण के शिष्य का नाम। ये एक बार जनक के आश्रम में गये, जहाँ ब्राह्मणों और पंडितों से इनका किसी बात पर विवाद हो गया। क्रुद्ध हो इन्होंने एक ब्राह्मण की हत्या कर डाली। इस पाप से इन्हें महारोग और कुष्ठ हो गया। सब तीर्थों में घूमने पर भी यह पाप से मुक्त न हुये। अंत में अपने पिता के परामर्श से स्याव्य नामक सूत्र का सूर्योदय के समय जप तथा पुराण-श्रवण से इनका उद्धार हुआ। २. सामवेद की एक शाखा का नाम। इस वेद की अब दो ही शाखायें उपलब्ध हैं—एक कौथुमी और दूसरी कारावायन।

कौपथेय—उच्चैःश्रवा का पैतृक नाम।

कौरव—कुरु के वंशजों की सम्मिलित संज्ञा। ऋतु वास्तव में धृतराष्ट्र के सौ पुत्रों के लिए ही इस शब्द का प्रयोग होता है। धृतराष्ट्र और पांडु क्रमशः अंघिका और अंबालिका के गर्भ से उत्पन्न हुए थे जो विचित्रवीर्य की पत्नियों थीं। इन दोनों को सत्यवती-पुत्र व्यास का औरस पुत्र माना जाता है। धृतराष्ट्र के दुर्योधन आदि सौ पुत्र हुए जो कौरव कहलाए और पांडु के युधिष्ठिर आदि पाँच पुत्र हुए जो पांडव कहलाए। इनमें परस्पर कुक्षेत्र का प्रसिद्ध महाभारत युद्ध हुआ। दे० 'सत्यवती', 'व्यास', 'कुरु' और 'पांडु'।

कौरव्य—१. एक कौरव राजा का नाम। ये परीक्षित के समय में स्त्री-सुख में रत हो, जीवन व्यतीत करते थे। राजा बरिहिक प्रातिपीय ने इन्हें कौरव्य कहा है। २. ऐरावत कुलोत्पन्न एक नाग का नाम। यह उलूपी का पिता था।

कौलायन—वसिष्ठ कुलोत्पन्न एक ऋषि का नाम।

कौलिनर—एक दास का नाम। यह कुलिनर का पुत्र था। ऋग्वेद में इसका उल्लेख हुआ है।

कौशल—इस नाम के राजा के वंश का नाम। ये सात थे। कौशल्य—१. इस नाम के कई ऋषि हो गये हैं। ये गोत्रकार थे। २. सुकर्म नामक ब्राह्मण के शिष्य का नाम, जिन्होंने सामवेद का अध्ययन किया था। ३. पिप्पलाद के शिष्य का नाम। ये आश्वतापन कुल के थे। कौशल्या—दे० 'कौशल्य'।

कौशिक-१. दे० 'विश्वामित्र' । २. कौटिल्य के शिष्य का नाम । यह एक शाखा प्रवर्तक ऋषि थे । अथर्ववेद के गृहसूत्रों के रचयिता भी यही थे । कौशिकस्मृति तथा कौशिक गृहसूत्र का उल्लेख हेमाद्रि ने परिशेष खंड में किया है । ३. एक सत्यवादी ब्राह्मण का नाम । ४. एक गायक का नाम । ये सिवा विष्णु के और किसी का गुणगान नहीं करते थे । ५. एक राजा जिनकी स्त्री का नाम विशाला था । ६. प्रतिष्ठान नगरी के एक ब्राह्मण का नाम जो कुष्ठ रोगी और वेश्यागामी थे । इनकी स्त्री आदर्श पतिव्रता थी । एक बार अपनी स्त्री के कंधे पर चढ़कर ये वेश्या के यहाँ जा रहे थे, रास्ते में इनसे मांडव्य ऋषि को धक्का लग गया । रुष्ट हो उन्होंने शाप दिया कि सूर्योदय तक इसकी मृत्यु हो जायगी, किंतु स्त्री के पातिव्रत के प्रभाव के कारण सूर्योदय रुक गया । तब देवताओं ने इन्हें संतुष्ट किया और इनके पति को रोग मुक्त कर दिया । ७. इंद्र का एक पर्याय ।

कौशिकपति-एक आचार्य का नाम । ये कौशिक के शिष्य थे । इनके शिष्य वैजयायन तथा सायकायन थे ।

कौशिकी-जमदग्नि की माता सत्यवती का नामांतर ।

कौशिल्य-सामवेदी श्रुतीर्ष का नाम ।

कौशिक-एक ऋषि का नाम । इन्होंने बकुलासंगम पर ईश्वरावराधन किया था ।

कौशीति-एक ऋग्वेदी ब्रह्मचारी का नाम ।

कौपारव-एक प्रसिद्ध भक्त ऋषि जिनके पिता का नाम कुपारु तथा माता का नाम मित्रा था । इसी कारण इनका दूसरा नाम मैत्रेय भी है । भक्तमाल के अनुसार जब श्री कृष्ण विदुरजी के लिए अपने सखा उद्धव को दान भक्ति का उपदेश दे रहे थे उस समय मैत्रेय जी भी वहाँ उपस्थित थे । इसके उपरांत ही श्रीकृष्ण गोलोकवासी हुए और उनके विरह में उद्धव जी बदरिकाश्रम चले गये और विदुर के पास श्रीकृष्ण का उपदेश पहुँचाने का भार इन्हों पर छोड़ गये जिसका इन्होंने भली-भाँति निर्वाह किया ।

कौपी-१. एक प्रसिद्ध ऋषि तथा आचार्य का नाम । इनके नाम से प्रसिद्ध ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद्, सांख्यपन, श्रौत तथा गृहसूत्र आदि अनेक ग्रंथ उपलब्ध हैं । कौपीतिक तथा कौपीतकेय कहोड ऋषि का पैतृक नाम है । लुशाकपि नामक ऋषि ने इन्हें तथा इनके शिष्यों को शाप दिया था । सर्वजित इनके एक शिष्य थे । २. ऋग्वेद की एक शाखा का नाम । यही ऋग्वेद के ब्राह्मण के नाम से भी प्रसिद्ध है ।

कौसल्या-कोसल देश के राजा भानुमान की कन्या तथा दशरथ की पटरानी का नाम । ग्यो धन के रूप में एक महान गाँव इन्हें मिले थे । रामचंद्र इन्हों के पुत्र थे । इनकी सपत्नी भरत-माता कैकेयी को राजा अधिक प्यार करते थे । उन्हीं के कहने से राज्याधिकारी राम को चौदह वर्ष का वनवास हुआ था । कौसल्या आदर्श पत्नी तथा आदर्श माता थीं । कैकेयी से कई बार स्वपमानित होने पर भी इन्होंने उनके प्रति कोई प्रतिहिंसा का भाव नहीं रखा था और कैकेयी के प्रति वचनदण्ड पति के प्रति भी

उदासीन नहीं हुईं । २. काशिराज की एक कन्या अंविका का नाम । ३. कृष्ण के पिता वसुदेव की एक पत्नी का नाम । ४. पुरुराज की पत्नी का नाम । ५. जनमेजय की माता का नाम । ६. सत्यवान की पत्नी का नाम । ७. सात्वती की माता का नाम ।

कौशल्या था ।

कौसि-भृगु कुलोत्पन्न एक गोत्रकार का नाम ।

कौसिक-दे० 'विश्वामित्र' ।

क्रंचु आंगिरस-सामवेद के द्रष्टा ऋषि का नाम ।

क्रतु-१. स्वयंभुव मन्वन्तर में ब्रह्म के एक मानस पुत्र का नाम जो सप्तपियों में से एक हैं । इनकी स्त्री का नाम संतति था जो दत्त प्रजापति की एक कन्या थीं । इनके बालखिल्य नाम के साठ हजार पुत्र हुए थे । ये सब उर्ध्वरेता ब्रह्मचारी थे, अतः इनका वंश नहीं चला । भागवत के अनुसार कर्दम प्रजापति की नौ कन्याओं में से क्रिया इनकी स्त्री थीं जिन्होंने साठ सहस्र बालखिल्यों को जन्म दिया । विष्णु पुराण के अनुसार सत्रति नाम की स्त्री से इनको बालखिल्य नामक साठ सहस्र पुत्र उत्पन्न हुए । २. एक क्षत्रिय । ३. एक राजस जिसकी स्त्री वैश्वानर की कन्या ह्यशिरा थी । ४. पर्जन्य नामक एक यज्ञ जो फाल्गुन मास में सूर्य की परिक्रमा किया करता है । ५. कृष्ण और जांबवती से उत्पन्न एक पुत्र का नाम ।

क्रतुस्मृति-अष्टादश स्मृतियों में से एक जो इस समय अप्राप्य है । इसके रचयिता क्रतु ऋषि माने जाते हैं । दे० 'क्रतु' ।

क्रथ-१. एक प्राचीन राजा जो शुलिमान नामक पर्वत पर रहते थे । इन्होंने भारत युद्ध में कौरवों का पक्ष लिया था । २. विदर्भ राजा के चार पुत्रों में से एक का नाम । इनके पुत्र का नाम कुंति अथवा कृति था । भविष्य पुराण में इनका नाम क्रथ है ।

क्रथन-अस्मृत की रक्षा करनेवाले एक देवता का नाम ।

क्रिया-स्वयंभुव मन्वन्तर में दत्त प्रजापति की एक कन्या का नाम । ये धर्मऋषि की पत्नी थीं । इनके पुत्र का नाम योग था । इन्होंने साठ सहस्र बालखिल्य नामक ऋषियों को जन्म दिया । मतांतर से यह कर्दम प्रजापति की एक कन्या थीं और क्रतु की व्याही थीं । यही बालखिल्यों की जननी थीं ।

क्रैव्य पांचाल-क्रिची के राजा का नाम । इन्होंने अद्यमेव यज्ञ किया था । दे० 'क्रिचि' ।

क्रोध-१. यह क्रमा की भृकुटी से उत्पन्न हुआ था । एक समय जब जमदग्नि ऋषि ध्वाद कर रहे थे, उनके आश्रम में जाकर इसने कामधेनु के दुग्ध से बनाई गीर को सर्प का रूप धारण करके पी लिया । पर इससे ऋषि क्रुद्ध नहीं हुये, क्योंकि वह जान गये, कि यह क्रोध है । इससे भयभीत होकर यह उनके शरणागत हुआ और बोला, 'मैं तो जानता था कि मन्त्री भागव क्रोधों होते हैं । शाप मुझे घमा पर शभयदान दें ।' जमदग्नि ने अमयदान देकर घमा तो पर दिया, पर जिन चित्तों के वांग्यी गीर वह पी गया था, उनके नाश में इसे नष्ट र्थ

योनित् प्राप्त हुई। पितरों को संतुष्ट करके इसने शाप का प्रतीकार पूछा। उन्होंने कहा कि जब धर्मसभा में कृष्ण के पास अंधवृत्ति ब्राह्मण जायगा तब तुम्हारी मुक्ति होगी। २. कश्यप तथा काला के एक पुत्र का नाम।

क्रोधदान-भविष्य के अनुसार शाक्यवर्धन के पुत्र का नाम।

क्रोधन-१. कौशिक ऋषि के सात पुत्रों में से एक का नाम।
२. अयुत राजा के पुत्र का नाम। इनके पुत्र देवातिथि थे।

क्रोधवश-कश्यप तथा क्रोधा (क्रोधवशा) के ज्येष्ठ पुत्र का नाम। क्रोधा के सभी पुत्र 'क्रोधवश' इस सामान्य नाम से प्रसिद्ध थे। इनके वंशजों का भी यही नाम था। इनके वंशजों में से एक को कुबेर ने सौगंधिक नाम के सरोवर की रक्षा का भार सौंपा था। इसी सरोवर में सौगंधिक नामक कमल लेने एक बार भीम आये थे जिसके कारण भीम से इसका युद्ध हुआ और यह मारा गया। २. महातल वाली एक सर्प का नाम। यह कद्रू का वंशज था। ३. इन्द्रपति राक्षस का एक अनुचर। यह अदृश्य विद्या में पटु था। यह राम-रावण-युद्ध में अदृश्य होकर युद्ध करता था, पर विभीषण ने वानरों को इसे दिखाया, जिससे वानरों ने इसे मार डाला।

क्रोधवशा-दे० 'क्रोधा'।

क्रोधशत्रु-कश्यप तथा काला के एक पुत्र का नाम।

क्रोधहंती-१. कश्यप तथा काला के एक पुत्र का नाम।
२. पांडवपत्नीय एक रथी का नाम।

क्रोधा-दत्त प्रजापति की एक कन्या तथा कश्यप की एक पत्नी। इनके पुत्र तथा वंशज 'क्रोधवश' नाम से प्रसिद्ध हैं। दे० 'क्रोधवश'।

क्रोष्टु-यदु के पुत्र का नाम। इनके पुत्र का नाम वृजिन था। हरिवंश, पद्म तथा ब्रह्म पुराण में इनको वृष्णि कहा गया है। क्रोष्टु के कुल में ज्ञानदा, यजमान, वृष्णि तथा अंधक अलग-अलग वंश चले।

क्रौंच-हिमवान पर्वत तथा मेना के पुत्र का नाम। इनके निवासस्थान का नाम क्रौंच द्वीप पड़ा। हिमवान की पत्नी मेना ने मैनाक तथा क्रौंच दो पुत्र तथा अपर्णा, एकपर्णा, एकपाटला और मेनका को जन्म दिया। मतांतर से मेनका मेना का ही नामांतर था।

क्रौष्टुकि-एक आचार्य जिन्होंने द्रविणोद्सु शब्द का अर्थ इंद्र किया है। ये एक विद्वान्, वैयाकरण थे। नामांतर क्रौष्टिकि है।

क्षत्र-विदुर का नाम। ये दासीपुत्र के नाम से भी उल्लिखित हुए हैं। दे० 'विदुर'।

क्षत्रजय-धृष्टदुन्न के पुत्र का नाम। द्रोण के हाथ से इनकी मृत्यु हुई थी।

क्षत्र-एक प्राचीन सूर्यवंशी राजा जो वैवस्वत मनु के पौत्र और राजा धृष्ट के पुत्र थे।

क्षत्रदेव-शिखंडी के पुत्र एक उच्च कोटि के रथी।

क्षत्रधर्मन्-धृष्टदुन्न के पुत्र का नाम। महाभारत युद्ध में द्रोणाचार्य के हाथ से इनकी मृत्यु हुई।

क्षत्रवंधु-एक प्राचीन राजा जो बड़े क्रूर और हिंस्र प्रकृति के थे। अंत में ज्ञान प्राप्त होने पर इनकी मृत्यु हुई।

क्षत्रवृद्ध-आयुराज के द्वितीय पुत्र तथा प्रसिद्ध राजा पुरूरवा के पौत्र और नहुष राजा के भाई का नाम। काश्य वंश इन्हीं से आरम्भ हुआ। इनके पुत्र का नाम सुहोत्र था। क्षत्रश्री-राजा प्रवर्द्धन के पुत्र। ऋग्वेद में इनके पुत्र का उल्लेख हुआ है।

क्षत्रौनसु-वायुपुराण के अनुसार ये अजातशत्रु के पुत्र थे। क्षपणक-महाराजा विक्रम की सभा के कथित नवरत्नों में से एक। संभवतः यह बौद्ध या जैन थे; क्योंकि 'क्षपणक' शब्द कालांतर में बौद्ध या जैन संन्यासियों की साधारण उपाधि के रूप में व्यवहृत होने लगा। इनका रचित कोई ग्रंथ उपलब्ध नहीं है। केवल काव्य-संग्रह में एक श्लोक उद्धृत है।

क्षमा-दत्त प्रजापति की एक कन्या जो सप्तर्षियों में से एक ऋषि पुलह की पत्नी थीं।

क्षमावत्-देवल ऋषि के पुत्र का नाम।

क्षिप्र प्रसादन-प्रियव्रत के पुत्र का नाम।

क्षीर-१. अंगिरा कुलोत्पन्न एक गोत्रकार का नाम। २. एक समुद्र का नाम जहाँ विष्णु शेषनाग की शय्या पर विश्राम करते हैं।

क्षुद्रक-सूर्यवंशी इषवाकुवंश कुलोत्पन्न प्रसेनजित के पुत्र का नाम। यह अजातशत्रु का समकालीन था।

क्षुद्रमृत-१. वसुदेव तथा देवकी के एक पुत्र का नाम। इनका जन्म कृष्ण के पहले हुआ था। कंस ने इन्हें मरवा डाला था। २. मरीचि ऋषि के एक पुत्र का नाम।

क्षुधि-कृष्ण के एक पुत्र का नाम।

क्षुप-१. एक प्रजापति का नाम। एक बार ब्रह्मा को यज्ञ करने की इच्छा उत्पन्न हुई पर उन्हें अपने से योग्यतर ऋत्विज नहीं मिल रहा था। अतः क्षुप प्रजापति की सृष्टि की जिन्होंने यज्ञ के पौरोहित्य का कार्य किया। रामायण, उत्तरकांड के अनुसार ये पृथ्वी के आदि राजा थे। २. एक राजा का नाम। इन्होंने महर्षि दधीचि से इस विषय पर विवाद किया था कि ब्राह्मण बड़े हैं या कि क्षत्रिय। इसके अनंतर इन्होंने दधीचि पर चढ़ाई की। शिवभक्ति के प्रताप से दधीचि ने इन्हें परास्त किया। ३. खनित्र के पुत्र का नाम। एक बार नारद ने शुधिष्ठिर से यम की सभा का वर्णन किया था जिसमें राज्य के स्वामी से संबंधित वर्णन में इनका नाम आया है।

क्षेम-१. इक्ष्मजिह्वा के पुत्र का नाम। २. कौरवपत्नीय एक राजा का नाम। यह क्रोध वंशोत्पन्न एक राजा के अंशावतार थे। ३. शुचि के पुत्र का नाम।

क्षेमक-१. पांडवपत्नीय एक राजा का नाम। २. भागवत् के अनुसार निमि के पुत्र का नाम। अन्य पुराणों के अनुसार ये खनित्र, निरामित्र अथवा खंडवारित के पुत्र थे। ३. कद्रू पुत्र एक सर्प का नाम। ४. एक राक्षस का नाम। यह निर्जन वाराणसी में रहता था। अलर्क ने इसको मारकर इस नगरी को बसाया था।

क्षेमकर-१. सोमकांत राजा के मंत्री का नाम। २. परिचम के द्रिगर्तदेशीय राजा का नाम। महाभारत में

नकुल से युद्ध करते हुये यह परास्त हुआ था ।
क्षेम गुसाईं-एक मध्यकालीन वैष्णव भक्त जो धनुर्धर राम की उपासना किया करते थे ।

क्षेमजित-मत्स्य के अनुसार क्षेमधर्म के पुत्र का नाम ।
क्षेमदर्शिन-उत्तर कोशल देश के राजा का नाम । दुर्बल होने के कारण ये राज्य-भ्रष्ट हो गये थे । कालकवृक्षीय नामक ऋषि की शरण में जाकर उनसे कपटनीति तथा सुनीति की शिक्षा ली, जिससे इनमें धर्मवृद्धि ही प्रबल हुई । विदेहवंशीय राजा जनक से इनकी मित्रता थी ।
क्षेमधर्मन्-भागवत और विष्णु पुराण के अनुसार ये काक-वर्ण के पुत्र थे ।

क्षेमधी-चित्रस्थ जनक के पुत्र का नाम । विष्णु पुराण में इनको क्षेमरि कहा गया है ।

क्षेमधूर्ति-१. यह सात्व राजा के मंत्री तथा सेनापति थे । इनको सांव ने परास्त किया था । महाभारत युद्ध में कौरवों के पक्ष से युद्ध करते हुए बृहत्क्षत्र ने इनका वध किया था । २. एक चरित्र वीर का नाम । ये बृहंत के भाई थे । सात्यकी से इनका युद्ध हुआ था ।

क्षेमधूर्ति-धृतराष्ट्र के एक पुत्र का नाम । इसकी मृत्यु भीमारा हुआ थी । पाठान्तर से इसे क्षेमधूर्ति भी कहते हैं ।

क्षेमवर्मन्-दे० 'क्षेमधर्मन्' ।

क्षेमवृद्धि-सात्व राजा के सेनापति का नाम ।

क्षेमशर्मन्-दुर्योधनपक्षीय एक राजा का नाम । जिस समय द्रोणाचार्य दुर्योधन की सेना का सेनापतित्व कर रहे थे, उस समय इसने अपनी सेना की व्यूह-रचना सुपर्याकार की थी ।

क्षेमा-१. एक अप्सरा का नाम जो कश्यप तथा मुनि की कन्या थी । २. एक बौद्ध भिक्षुणी, जिससे कोसलराज प्रसेनजित ने अनेक धर्म-संबंधी प्रश्न किये थे ।

क्षेम्य-१. राजा उग्रयुध के पुत्र का नाम । इनके पुत्र का नाम सुवीर था । २. दे० 'क्षेम' ।

क्षेमेन्द्र-१. (समय लगभग १०५० ई०) एक सुविख्यात कद-मीरी, कवि, लेखक तथा आचार्य । इनके पिता का नाम प्रकाशेन्द्र और पितामह का नाम सिंधु था । इनका जन्म त्रिपुरशालशिखर पर हुआ था । इन्होंने अभिनवगुप्त के निकट साहित्य, अलंकार तथा भागवताचार्य सोमपाद के निकट धर्मशास्त्र का अध्ययन किया था । इनके उपाध्याय का नाम गङ्गकथा । निश्चय रूप से यह नहीं कहा जा सकता कि ये किस धर्म के माननेवाले थे । हि० वि० कोषकार इन्हें हिन्दू ही मानते हैं । इन्होंने हिंदू होते हुये भी बौद्ध शास्त्र को माना था तथा बुद्धदेव की भगवद्वतार स्वीकार किया । मतांतर से ये पहले शैव, फिर वैष्णव और अंत में बौद्धमतवाली हो गये थे । इनकी रचित ३६ संस्कृत पुस्तकों का पता मिलता है जिनमें ने निम्नलिखित छति प्रसिद्ध हैं—(१) शौचिन्य विचार पद्यों, (२) कला विनास, (३) व्यं दलन, (४) गृहकथा मंजरी, (५) भारत मंजरी, (६) रामायण मंजरी, (७) समय मातृका, (८) सुवृत्त तिनक, (९) पद्मावतार चरित तथा (१०) शयदान कल्पलता । इनके रचित ग्रंथों के द्वारा कदमीर के इतिहास पर भी प्रकाश

पड़ता है । निरपेक्ष भाव से इन्होंने शैव, वैष्णव और बौद्ध ग्रंथों की आलोचना की थी । २. मदन-महार्णव नामक संस्कृत ज्योतिशास्त्रकार । ३. लोकप्रकाश नामक संस्कृत ग्रंथ के रचयिता । ४. गुर्जर निवासी यदुशर्मा के पुत्र तथा हस्तजनप्रकाश नामक संस्कृत-ग्रंथ के रचयिता । ५. एक ग्रंथकार जो राजनगरवासी ब्राह्मण थे । पितृवृद्ध नरेश शंकरलाल के आदेश से क्षेमेन्द्र ने संस्कृत भाषा में लिपि-विवेक और मातृका-विवेक की रचना की थी ।

क्षेमि-१. सुदक्षिणा का पैतृक नाम । २. श्याम पराशर कुलोत्पन्न एक ऋषि का नाम ।

खंगसेन-ये जाति के कायस्थ थे । अच्छे लेखक थे । गोपी तथा गोपों के माता-पिता के नाम ग्रंथों से हँडकर इन्होंने एक ग्रंथ बनाया था जिसमें श्रीकृष्ण की लीलाओं का विशद वर्णन है ।

खंडपाणि-ये अहीर के पुत्र थे । अन्य पुराणों में इनको दंडपाणि कहा गया है ।

खंडिक औद्भाटि-केशिन के गुरु का नाम । केशिन के यज्ञ में एक व्याघ्र ने एक गाय मार डाली । केशिन ने सभा बुलाकर इनसे प्रायश्चित्त पछा था । ये एक शांता-प्रवर्तक भी थे । दे० 'पाणिनि' । खंडिक और खंडिक्य पर्यायवाची हैं । दे० 'केशिध्वज' ।

खगड-वज्रनाभ के पुत्र का नाम । विष्णु पुराण के अनुसार इनका नाम खंखनाभ और वायु पुराण के अनुसार खंखण था । इनके पुत्र का नाम विधृति था ।

खगपति-गरुड का एक पर्याय ।

खगम-एक तपस्वी ब्राह्मण का नाम । एक समय जब ये अग्निहोत्र में संलग्न थे, इनके एक मित्र सहस्रपाद ने विनोदार्थ तिनके का एक सर्प बनाकर इनके अंग पर डाल दिया, जिससे ये मूर्च्छित हो गये । इन्होंने शाप दिया, "जिस प्रकार का सर्प मेरे शरीर पर डाला है, वैसा ही सर्प तू स्वयं हो जा ।" मित्र के अत्यंत करुण विनाप करने पर इन्होंने कहा कि ऋगुक्तोत्पन्न रूप से जब तेरी भेंट होगी तब मुक्ति होगी और फिर तुम्हें पूर्ण रूप मिल जायगा ।

खगराय-दे० 'गरुड' ।

खट्वांग-विश्वसह राजा के पुत्र का नाम । इन्होंने देवा-सुर संशाम में देवताओं की बड़ी सहायता की थी । प्रसन्न होकर देवताओं ने इनसे वर मांगने को कहा । इन्होंने उनसे केवल यह जानना चाहा कि अभी इनकी कितनी आयु शेष है । उत्तर मिला -- 'कितन एक सुहृत्' (एक घड़ी या एक घंटा) । तत्काल ही ऋगुक्तोक्त में अपनी राजधानी अयोध्या में आकर अपने ज्येष्ठ पुत्र दीर्घयाहु को सिंहासनारूढ़ कर, ये प्यानस्थ हो आत्म-स्वरूप में लीन हो गये । भविष्य पुराण के अनुसार खट्वांग के जन्मान कोई ऐसा न होगा जो स्वर्ग में आकर बड़ी भर में अपने ज्ञान और ज्ञान के यत्न से परमहम में लीन हो । मतांतर से दिगीप और खट्वांग एक ही व्यक्ति थे । दे० 'दिगीप' ।

खड्गवाहु-एक प्राचीन राजा जिसको

ने एक हाथी दिया था। इनके पुत्र दुःशासन के एक सेनापति इस हाथी पर सवारी करते समय गिर कर मर गये।

खड्गधर-सौराष्ट्र देश के एक राजा का नाम, जिन्होंने गीता के १६वें अध्याय के पाठ द्वारा एक ब्राह्मण को मद से मुक्त किया था।

खड्गिन-छतराष्ट्र के पुत्र का नाम। भारतयुद्ध में ये भीम के हाथ से मारे गये।

खनक-विदुर के मित्र का नाम। ये खोदने के काम में अत्यंत निपुण थे। जब दुर्योधन ने पांडवों को मारने के लिये लाक्षागृह में भेज दिया था, उस समय विदुर के आग्रह से इन्होंने एक बड़ी सुरंग खोद डाली थी, जिससे पांडव निकल सके थे।

खनपान-भागवत के अनुसार अंगराज के पुत्र का नाम। इनके पुत्र दिविरथ थे।

खनी-एक विदुषी स्त्री का नाम। महाराज विक्रमादित्य की सभा के नवरत्नों में से एक रत्न मिहिर यह की स्त्री थीं। मिहिर के पिता का नाम वराह था। अतः उनके पुत्र वराहमिहिर के नाम से प्रसिद्ध हुये। वराह ने गणना करके यह समझा था कि उनके पुत्र का एक वत्सर मात्र परमायु था। इसलिये एक ताम्रपात्र में रखकर समुद्र में बहा दिया जिससे अपने पुत्र की मृत्यु अपनी आँखों से न देखें। बहते-बहते वह पात्र लंका पहुँचा। वहाँ उसे लंकावासियों ने पकड़कर पाला-पोसा और अंत में खना नाम की कन्या से विवाह कर दिया जो स्वयं ज्योतिष शास्त्र में प्रवीण थी। खना से अपने जन्म का समाचार सुनकर मिहिर पत्नी सहित समुद्र के मार्ग से उज्जयिनी की ओर चल पड़े। एक सद्यःजात बछड़े की आयु-गणना में अपनी भूल समझ कर मिहिर ने अपने सब ज्योतिष-ग्रंथ समुद्र में फेंक दिये, परन्तु खना ने पुनः गणना करके सिद्ध किया कि उन्होंने भूल नहीं की थी। अतः मिहिर ने अपने सब ग्रंथ समुद्र से निकाल लिये। केवल पाताल गणना नामक ग्रंथ समुद्र के अथाह जल में जा चुका था। उसका उद्धार न हो सका। उज्जयिनी पहुँचकर खना ने अपने श्वसुर को सप्रमाण सिद्ध करके दिखा दिया कि उन्होंने अपने पुत्र की आयु-गणना में भूल की थी। पुत्र की आयु १ वर्ष न होकर १०० वर्ष की थी। एक बार महाराज विक्रमादित्य ने वराह के नक्षत्रों की गणना करने का आग्रह किया, पर इसे असंभव समझकर ये बड़े चिंतित हुये। तब खना ने नक्षत्रों की गणना की सरल-विधि इन्हें समझा दी। खना की विद्वता सुनकर महाराज ने दरवार में इसे आने की आज्ञा दी। राजा खना का सम्मान करने को उत्सुक थे, किन्तु वराह ने पुत्र-वधू के दरवार में जाने से अपना अपमान समझकर मिहिर को उसकी जीभ काटने की आज्ञा दी। मिहिर ने इसका विरोध किया। किन्तु खना ने कहा कि मेरी आयु पूरी हो चुकी है। अतः जीभ काटने में कोई हानि नहीं है। जीभ काटने के साथ ही खना की मृत्यु हो गई।

खनित्र-भागवत के अनुसार राजा प्रभात के पुत्र। इनके

पुत्र का नाम चाक्षुष था। विष्णु और वायु पुराणों के अनुसार ये प्रजानि के पुत्र थे और इनके पुत्र का नाम क्षुप था।

खनिनेत्र-रंभ के पुत्र का नाम। यह अत्यंत दुष्ट प्रकृति के थे जिससे राज्य से पदच्युत कर दिये गये थे। इनके बाद इनके पुत्र सुवर्च गद्दी पर बैठे।

खर-१. एक राक्षस। यह रावण तथा सूर्पणखा का भाई कहा जाता है। सुमाली राक्षस की कन्या राखा तथा विश्ववसु मुनि का यह पुत्र था। वनवास के समय पंचवटी में जब लक्ष्मण ने सूर्पणखा के नाक-कान काट लिये थे तब अपनी बहन के लिये यह रामचंद्र जी से युद्ध करने के लिये आया था। उसी समय राम ने इसका वध किया। २. एक राक्षस जो कंस का अनुचर था। ३. रावणपक्षीय एक अन्य राक्षस का नाम। ४. लंबासुर के एक भाई का नाम। ५. त्रिजटा के एक पुत्र का नाम।

खशा-प्राचेतस् दत्त प्रजापति तथा आसक्री की कन्या जो कश्यप की पत्नी और यज्ञ गण की जननी थीं।

खांडव-१. एक ब्रह्मर्षि का नाम। इनका जन्म भृगुशास्त्र के अंतर्गत गात्रपुकुल में हुआ था। २. एक वन का नाम जिसे अग्नि को संतुष्ट करने के लिये अर्जुन ने श्रीकृष्ण की सहायता से जलाया था। यज्ञ घृतपान करते-करते अग्नि को अजीर्ण हो गया था और इसी से उस वन को आत्मसात कर वह स्वस्थ होना चाहते थे। इंद्र ने इसका विरोध किया था, क्योंकि उस वन में उसका मित्र तक्षक नामक सर्प रहता था।

खांडवायन-परशुराम ने एक महान यज्ञ किया था। उसमें एक सुवर्णमय वेदिका वनवाकर कश्यप को अर्पित की। कश्यप की अनुमति से जो ब्राह्मण यज्ञभाग के अधिकारी समझकर उस पर बैठ गये वे खांडवायन समझे गये।

खांडिक्य-मृतध्वज के पुत्र का नाम। ये केशिध्वज के सौतेले भाई थे। दे० 'केशिन्दार्मि'।

खाटिक-एक प्रसिद्ध वैष्णव भक्त, कवि तथा मत-प्रचारक का नाम।

खातादास-एक प्रसिद्ध वैष्णव भक्त। ये टीका जी की पद्धति के अनुयायी थे।

खादित-द्राह्मयाण का नामांतर। दे० 'द्राह्मयाण'।

खार्गलि-लुशा कपि का पैतृक नाम।

खिलि-(खिलिखिलि)-विश्वामित्र कुलोत्पन्न गोत्रकार तथा प्रवर के नाम।

खीचनि-एक प्रसिद्ध हरिभक्त।

खीची-एक प्रसिद्ध वैष्णव भक्त। ये अग्रदास जी के शिष्य तथा नाभादास जी के गुरुभाई थे।

खुर्दक-भविष्यकालीन तिमिरलिंग वंशोत्पन्न श्लेच्छ राजा।

खेता-एक प्रसिद्ध वैष्णव भक्त। इन्होंने चारों धामों में हरिभक्ति का प्रचार किया।

खेम-एक प्रसिद्ध वैष्णव भक्त। नाभादास जी के अनुसार ये एक दिग्गज भक्त थे तथा अन्य भक्तों के रक्षक थे।

नामांतर खेमदास है।

खेम (पंडा)-एक प्रसिद्ध वैष्णव भक्त। ये 'गुनौरा' नामक

स्थान के निवासी थे। भिष्मावृत्ति द्वारा संत-सेवा में रत रहते थे।

खेम वैरागी-एक प्रसिद्ध वैष्णव भक्त।

खेमाल रत्न-राठौरवंशीय एक प्रसिद्ध वैष्णव भक्त।

खेल-एक प्राचीन राजा का नाम। इनकी स्त्री का नाम विश्वला था। युद्ध में जब इनका पैर टूट गया, तब अश्विनीकुमारां में रात ही भर में दूसरा पैर लगा दिया। दूसरे दिन पुनः ये युद्ध में सम्मिलित हुये।

खोजी-एक प्रसिद्ध वैष्णव भक्त तथा साधक। इनके विषय में यह जनश्रुति प्रसिद्ध है कि इन्होंने अपनी कुटी में एक घंटा बांध रक्खा था और कह रक्खा था कि जब हम प्रभु के समीप होंगे तो यह घंटा स्वयं बजने लगेगा। कहते हैं, इनके देह-त्याग के अथवासर पर वह घंटा स्वयं बजा था।

खोरा जी-मथुरा निवासी एक प्रसिद्ध वैष्णव भक्त। ये भिष्मावृत्ति-द्वारा जीविका निर्वाह तथा संतसेवा करते थे। ख्याति-भागवत के अनुसार उल्मुक तथा पुष्करणी के पुत्र का नाम। मत्तांतर से यह कर्दम तथा देवहृति की कन्या थीं जिनके पति भृगु थे।

ख्यातेय-एक प्राचीन ऋषि का नाम। इनका जन्म नील-पराया कुल में हुआ था।

गंग-अकबरी दरवार के एक प्रसिद्ध हिंदी कवि। इनके एक छप्पय पर रहीमखानखाना ने ३६ लाख रुपये पारितोषिक रूप में दिये थे। इनकी भाषा-प्रौढ़ता के लिये ही संभवतः यह उक्ति प्रसिद्ध है—'तुलसी गंग दुहें भये कवियन के सरदार।' इनका वास्तविक नाम गंगाप्रसाद था।

गंग ग्वाल-एक प्रसिद्ध वैष्णव भक्त जो जाति के ग्वाल तथा ब्रजवासी थे। राधा जी की सखियों एवं ब्रज की गायों के नाम हँड कर उनकी महिमा का गान करते फिरते थे।

गंगल-प्रसिद्ध वैष्णव भक्त तथा कथक जो अन्य प्रसिद्ध वैष्णव कथावाचक के भाई तथा भीष्मभट्ट के पुत्र थे। नामा जी के अनुसार ये दोनों भाई हरिभक्ति के कथास्तंभ थे।

गंगा-एक अति पुण्य सलिला नदी जो पुराणों में देवी रूप में वर्णित है। अग्वेद में भी दो स्थानों पर इनका उल्लेख मिलता है। इनकी स्थिति के संबंध में दो प्रकार की कथाएँ प्रचलित हैं—१. विष्णु के चरणों से इनकी उत्पत्ति हुई थी और ब्रह्मा ने इन्हें अपने कमंडल में भर लिया था। कहा जाता है कि चिराट अवतार के आकाश-स्थित तीसरे चरण को धोकर ब्रह्मा ने अपने कमंडल में रख लिया था। कुछ लोग अन्य प्रकार से इसकी व्याख्या करते हैं। उनके अनुसार समस्त आकाश मंडल में स्थित मेघ का ही पौराणिक गण विष्णु जैसा वर्णन करते हैं। मेघ से वृष्टि होती है और उसी से गंगा की उत्पत्ति है। २. इनका जन्म हिमालय की कन्या के रूप में सुमेरु-तनया मनोरमा दायया मैना के गर्भ से हुआ था। देवता-गण किसी कारण इन्हें हिमालय से भाग लाये थे। किसी विशेष कारण से ये ब्रह्मा के कमंडल में जा टिपी थीं। देवी भागवत के अनुसार लक्ष्मी, नरद्वती और गंगा तीनों नारायण की पत्नी हैं। पारस्परिक कर्तव्य के कारण तीनों ने एक दूसरे को नदी रूप में अवतरित होकर

मृत्युलोक में निवास करने का शाप दिया, जिससे तीनों पृथ्वी पर अवतरित हुईं। पुराणों में गंगा शतनु की पत्नी और भीष्म की माँ कही गयी है। पृथ्वी पर गंगा-वतरण की कथा इस प्रकार है। कपिल मुनि के शाप से सगर के साठ सहस्र पुत्र भस्म हो गये। उनके वंशजों ने गंगा को पृथ्वी पर लाने के लिये घोरतपस्या आरंभ की। अंत में भगीरथ की घोर तपस्या से ब्रह्मा प्रसन्न हुये और उन्होंने गंगा को पृथ्वी पर भेजने की अनुमति दे दी। किंतु ब्रह्मलोक से आनेवाली गंगा का भार सहन करने में पृथ्वी असमर्थ थी। भगीरथ ने अपनी तपस्या से महादेव जी से गंगा को धारण करने की प्रार्थना की। ब्रह्मा के कमंडल से निकल कर गंगा महादेव की जटाओं में खो गईं। भागीरथ के तपस्या करने पर गंगा जी को शंकर जी ने निचोड़ दिया। मार्ग में जह्नु ऋषि अपने यज्ञ की सामग्री नष्ट हो जाने के कारण गंगा को पान कर गये। भगीरथ के प्रार्थना करने पर फिर उन्होंने गंगा को अपने कर्णबंध से निकाल दिया। तभी से गंगा का नाम जाह्नवी पड़ा। भगीरथ ने आगे-आगे चलकर अपने पूर्वजों की मातृभूमि तक उन्हें ले जाकर उनको मुक्ति दिलाई। भगीरथ के प्रयत्न से प्रवाहित होने के कारण गंगा को भागीरथी भी कहते हैं। इनके अन्य पर्याय निम्नलिखित हैं—विष्णुपत्नी, मंदाकिनी, सुरसरि, देवापगा, हरिनदी, तथा ध्रुवन्दा आदि।

गंगागान-एक प्रसिद्ध भक्त कवि।

गंगाजी-धृपेत निवासी एक प्रसिद्ध वैष्णव भक्त तथा नामा जी के यजमान।

गंगादास-रामानंदी संप्रदाय के एक प्रमुख भक्त तथा प्रसिद्ध पयहारी जी के २४ प्रधान शिष्यों में से एक। ये नामा जी के गुरु और अग्रदास जी के गुरु-भाई थे।

गंगासिंह-अग्निवंशीय कश्यपसिंह राजा के पुत्र का नाम। ये कल्प क्षेत्र में रहते थे। इनकी वहिन का नाम वीरमती था जो रत्नभानु की स्त्री थीं। इन्होंने ६० वर्ष की अवस्था में कुरुक्षेत्र में प्राणत्याग किया।

गंडकी-एक नदी का नाम। प्रसिद्ध राजा भरत का जन्म इसी नदी के किनारे हुआ था। दे० 'भरत'।

गंधमादन-१. एक प्रसिद्ध चानर वीर जो राम के मुख्य सहचरों तथा सामंतों में से थे। इनका स्थान धंगद, नल, नील आदि के समकक्ष था। २. एक प्रसिद्ध पर्वत का नाम।

गंधर्व-१. वेदों में गंधर्व एक देवता का नाम है, जिन्होंने स्वर्ग तथा विश्व के रहस्य को जानकर सव्यन्धाधारण पर व्यक्त किया। २. कर्दु पुत्र एक स्वर्ग का भी यह नाम है। ३. देवताओं की एक जाति-विशेष जिसका निवास स्वर्ग तथा अंतरिक्ष था और जिनका मुख्य कार्य देवताओं के लिए सोमरस तैयार करना था। ये शिष्यों के विशेष छात्रांगी तथा उन पर सर्व्व अधिकार रखते थे। अथर्ववेद में ६३२३ गंधर्वों का उल्लेख है, ये सौषधि तथा यन्त्रपति के विशेषज्ञ कहे गये हैं। विष्णु पुत्राण के अनुसार इनकी उत्पत्ति ब्रह्मा ने तथा हरिवंश के अनुसार ब्रह्मा की नाक से हुई। चित्ररथ प्रधान गंधर्व थे।

इनकी उत्पत्ति कश्यप की स्त्री मुनि से हुई। गंधर्वों और नागों का युद्ध प्रसिद्ध है। महाभारत में गंधर्व एक जाति विशेष के लिये कहा गया है जो जंगलों में रहती थी। नागों ने विष्णु की अनुमति से अपनी भगिनी नर्मदा को पुस्कृत के पास भेजकर इनका संहार करवाया।

गंधर्वराज—दे० 'नारद'।

गंधर्वसेन—अग्निवंशोत्पन्न देवदूत का पुत्र। इन्होंने ५० वर्ष राज्य करने के बाद ईश्वराधन के द्वारा मोक्ष प्राप्त किया। गंधर्वसेना—धन वाहन नामक गंधर्व की कन्या। यह गंधर्व कैलास के पास स्वयंप्रभा नामक नगरी में रहता था। इस कन्या को कुष्ठ रोग था। सोमवार-व्रत करके वह इस रोग से मुक्त हुई।

गंधवती—सत्यवती का नामांतर।

गंभीर—१. रसभ राजा के पुत्र का नाम। इसके एक पुत्र का नाम अक्रिय था। २. भौव्य मनु के पुत्र का नाम।

गंभीरवृद्धि—इन्द्र सावणि मनु के एक पुत्र का नाम।

गज—१. शकुनि के एक भाई का नाम जो दुर्योधन के मामा थे। भारत में अर्जुन के पुत्र इरावान के हाथ से इनकी मृत्यु हुई। २. एक वीर वानर का नाम था जो राम-सेना के सेनापतियों में से एक थे। ३. गजासुर नाम से प्रसिद्ध एक दैत्य।

गजकर्ण—एक यज्ञ का नाम।

गजपति—एक प्रसिद्ध वैष्णव भक्त जिन्होंने चारों धाम में हरि भक्ति का प्रचार किया था।

गजमुक्ता—गजसंग की एक कन्या का नाम जो बलाखान की स्त्री थी। सामंतपुत्र रक्तवीज चामुंड और बलाखान का युद्ध हुआ था जिसमें बलाखान वीरगति को प्राप्त हुये और गजमुक्ता उनके साथ सती हो गई।

गजसेन—दे० 'गजमुक्ता'।

गजासुर—१. वारक नाम प्रसिद्ध असुर का एक सेनापति। कपाली नामक रुद्र ने इसका वध किया। यह शिव का बड़ा भक्त था। काशी में शिवलिंग की स्थापना भी इसने की थी। २. महिपासुर का पुत्र।

गजेंद्र—त्रिकूट पर्वत पर रहनेवाला एक प्रसिद्ध गज। पूर्व जन्म में यह राजा इंद्रधुम्न था और ऋषि अगस्त्य के शाप से हाथी होकर जन्मा था। जलक्रीड़ा करते समय इसने ऋषि के प्रति सम्मान नहीं प्रकट किया था, इसी-लिए शाप का भागी हुआ। यह एक बार एक तालाब में स्नान कर रहा था। वहीं इसे एक ग्राह ने पकड़ लिया। घमासान युद्ध हुआ। अंत में हार मानकर गज ने हरि को पुकारा। भगवान ने प्रकट होकर इसका लुटकारा किया, तभी पशुयोनि से इसकी मुक्ति हुई। भागवत के अनुसार भगवान का इस प्रकार प्रकट होना 'गजेंद्र-मोचन' अवतार के नाम से प्रसिद्ध है। दे० 'इंद्रधुम्न' तथा 'देवल'।

गरिका—जीवन्ती नाम की एक वेश्या जो अपने तोते को बहुत प्यार करती थी। एक दिन उसी रास्ते से एक महात्मा निकले। उन्हें मालूम न था कि वह वेश्या का घर है। वे वहाँ भिक्षा के लिए चले गये। जब उन्हें वास्तविकता मालूम हुई और साथ ही उन्होंने यह

भी जाना कि यह वेश्या अपने तोते से बहुत प्रेम करती है, तब उन्होंने वेश्या से कहा कि तुम इसे रामनाम पढ़ाया करो। उसी दिन से वेश्या तोते को रामनाम पढ़ाने लगी। यद्यपि उसे मालूम न था कि राम नाम का क्या प्रभाव है किंतु उसकी जीभ राम नाम के उच्चारण में इतनी अभ्यस्त हो गई थी कि मृत्यु के समय भी अन-जान में ही उसके मुख से राम नाम निकलता रहा और वह भवसागर पार हो गई।

गणेश—१. एक प्रसिद्ध वैष्णव भक्त। नामा जी ने इनका नाम देश प्रसिद्ध भक्तों में गिनाया था। २. शिव के गणों के अधिपति इन्हें शिव तथा पार्वती का पुत्र कहा जाता है। इनका समस्त शरीर मनुष्य का और मुख हाथी का है। कहा जाता है कि इनके जन्म के समय शनि भी इन्हें देखने आये थे। शनि जिसे देख लेते थे, उसका सिर धड़ से अलग हो जाता था। शनि के देखते ही गणेश का सिर अलग हो गया। उस समय विष्णु के कहने पर उत्तर दिशा में सर किये हुए इंद्र के हाथी ऐरावत का सिर काटकर गणेश को लगा दिया गया। इनके एक दन्त होने के लिए यह प्रसिद्ध है कि एक बार शंकर और पार्वती निद्रा मग्न थे। गणेश उस समय द्वारपाल थे। परशुराम शंकर से मिलने आये। गणेश ने उन्हें रोका जिससे क्रुद्ध होकर परशु से उन्होंने इनका एक दाँत काट डाला। कहा जाता है कि एक बार देवताओं ने पृथ्वी की परिक्रमा करनी चाही। सभी लोग पृथ्वी के चारों ओर गये। गणेश ने सर्वव्यापी राम नाम लिखकर उसी की परिक्रमा कर डाली, जिससे देव-ताओं में सर्वप्रथम उन्हीं की वन्दना या पूजा होती है। कहा जाता है कि व्यास के बोलने पर गणेश ने ही महा-भारत को लिपिवद्ध किया था। इनका वाहन मूपक है। लंबोदर, हेरंब, द्वैमातुर, इकदंत, मूपकवाहन, गजवदन, गणपति तथा विनायक आदि इनके अन्य नाम हैं।

गणेश देईरानी—एक प्रसिद्ध, हरिभक्तिपरायणा मध्यकालीन महिला। ये ओढ़छा नरेश मधुकरशाह की पटरानी थीं। इनके संबंध में कई विचित्र कहानियाँ प्रसिद्ध हैं। भक्तों के लिए इनके यहाँ कोई परदा न था। एक बार भक्त वेप में कोई डाकू वहाँ घुस गया और उसने रानी से धन माँगा। रानी ने कहा—'धन तो सब भक्तों की सेवा में लग गया।' इससे क्रुद्ध होकर डाकू रानी को छुरी मारकर भाग गया। रानी ने घाव को छिपा लिया और राजा से इसलिए नहीं बताया कि फिर भविष्य में भक्तियों के आने में रुकावट होगी।

गति—भागवत के अनुसार पुलह ऋषि की स्त्री का नाम।

गद्—१. भागवत के अनुसार वासुदेव की पत्नियों। देवकी तथा देवरक्षिता नामक स्त्रियों से जो बच्चे हुए वे वे गद् कहलाये। महाभारत के अनुसार ये कृष्ण के सौतेले भाई थे और भारतयुद्ध में पांडवों के पक्ष में थे। २. एक असुर का नाम जिसे मारकर विष्णु ने इसकी हड्डियों से एक गदा बनाई थी। इसी गदा को धारण करने के कारण उनका नाम गदाधर हुआ था।

गद्गद्-जांबवान तथा केसरी नामक विख्यात वानर वीरों के पिता का नाम ।

गदांद्दयौवन-भागवत के अनुसार देवर्षिता से उत्पन्न एक पुत्र का नाम ।

गदाधर-एक प्रसिद्ध हरिभक्त तथा कथावाचक ।

गदाधरदास-एक प्रसिद्ध वैष्णव भक्त । बुरहानपुर के निकट इनकी गद्दी थी । ये सदा 'लाल विहारी' नाम से कृष्ण की उपासना करते थे ।

गदाधर भट्ट-एक प्रसिद्ध वैष्णव, भागवत के प्रसिद्ध कथावाचक तथा बृंदावनवासी भक्त । ये शकवर सम्राट के समकालीन थे । इनके जीवन की कई रोचक कथाएँ भक्तमाल की टीकाओं में मिलती हैं । नाभाजी ने इस नाम के कई भक्त गिनाये हैं । एक बंगाली, एक बाँदाखाले और एक बल्लभाचार्य जी के शिष्य गदाधर मिश्र ।

गदाभक्त-एक प्रसिद्ध मध्यकालीन वैष्णव भक्त ।

गभस्तिनी-लोपामुद्रा की बहिन तथा दध्यञ्च ऋषि की पत्नी । इसका नामांतर श्रांतियेयी भी था ।

गयंती-नल पुत्र गय की स्त्री का नाम ।

गय इस नाम के कई प्राचीन राजा हो गये हैं । १. भागवत के अनुसार उलूक तथा पुष्करणी के पुत्र का नाम ।

२. हविष्य के पुत्र का नाम । ३. श्रायु के पुत्र का नाम ।

४. अमूर्तरथ के पुत्र का नाम । ये शत वर्ष तक केवल यज्ञाहुति की राख खाकर रहे थे । अग्नि के वरदान से ये वेदज्ञान के अधिकारी हुये । एक बार इन्होंने एक महान् यज्ञ किया । इस यज्ञ फल से एक बट वृक्ष चिरजीवी हुआ, जो अक्षयवट नाम से प्रसिद्ध है । इसके द्वारा श्रामं त्रित होने पर सरस्वती नदी प्रादुर्भूत होकर विशाला नाम से प्रसिद्ध हुई । ५. रामायण के अनुसार एक वानर का नाम जो रामचंद्र की सेना का एक सेनापति था । ६. नल तथा द्रुति के पुत्र । इनकी स्त्री का नाम गयंती था ।

चित्ररथ, सुगति तथा श्रवरोधन इनके तीन पुत्र थे । इन्होंने एक बार ऐसा यज्ञ किया कि इनके कठिन प्रण के अनुसार सब देवताओं ने प्रत्यक्ष होकर अपना-अपना भाग ग्रहण किया । नाभाजी के अनुसार ये एक प्रमुख हरिभक्त थे । ७. इल अथवा सुसुम्न राजा के मध्यम पुत्र । यह गयाकुटी में राज्य करते थे ।

गयश्रात्रेय-एक सूत्रद्रष्टा का नाम ।

गयप्लात-एक सूत्रद्रष्टा का नाम । यह प्लती के पुत्र थे ।

गयासुर-एक राक्षस जिसका वध विष्णु ने कैकट देश में किया था । इसका शरीर पाँच कोस लम्बा था ।

गर-मुचाणु का पुत्र । इसने ईहय, तालजंघ, शक, यतन, पारद, कांबोज तथा पल्लव राजाओं का राज्य क्षपण किया था । एक बार यह सपरिवार भार्गव ऋषि के आश्रम में गया था । वहाँ छल्पकावांतर ही मरण को प्राप्त हुआ । इसकी स्त्री का नाम फल्गारी तथा पुत्र का नाम सगर था ।

गरिष्ठ-एक ऋषि का नाम जो इंद्र सभा में सम्मिलित हुये थे ।

गरुड-एक बौराषिक पक्षी, जिनका आधा शरीर नमुष्य था और आधा पक्षी का है । ये विष्णु के वाहन माने

जाते हैं । पुत्रेष्टि यज्ञ के पश्चात् बालशिल्या की तपस्या के फलस्वरूप कश्यप और वनिता से पश्चिराज गरुड की उत्पत्ति हुई । कद्रु और वनिता की शत्रुता के कारण कद्रु पुत्र सपों के ये बहुत बड़े शत्रु हैं । इनका मुख रवेत, पंख लाल और शरीर सुनहला है । इनके पुत्र का नाम संपाती और पत्नी का नाम विनायका है । अपनी माता को कद्रु से स्वतंत्रता दिलाने के लिये इन्होंने पाताल लोक से अमृत की चोरी की जिससे इंद्र से घोर युद्ध हुआ । अंत में अमृत को इंद्र ने ले लिया । मानस के अनुसार एक

बार गरुड के मन में राम के परम-ब्रह्मत्व पर संदेह उत्पन्न हुआ क्योंकि लंका युद्ध में मेघनाद ने उनको नागपाश में बाँध लिया और गरुड को उनका बंधन काटने के लिये जाना पड़ा । इस संदेह को गरुड ने नारदादि से कहा । किसी प्रकार भी संदेह दूर न हुआ । अंत में शंकर जी ने इनको काकभुशुंडि के पास भेजा । वहाँ जाते ही इनका संदेह दूर हो गया । रामचरित मानस के चार वक्ता और श्रोता वर्ग में से काकभुशुंडि और गरुड भी एक वर्ग हैं । इनके अन्य पर्याय हैं :—गरुडवान्, ताड्य, वैन्तेय, खगे-श्वर, नागान्तक, विष्णुरथ, सुपर्ण, पन्नगाशन, पश्चि-सिंह, उरगाशन, विष्णुरथ, शाल्मलीस्थ तथा खगेन्द्र आदि ।

गरुड पुराण-अष्टादश महापुराणों में से एक, जिनकी श्लोक संख्या १६००० तथा प्रकृति सात्विक कही गई है । गरुड कल्प में विष्णु भगवान ने इसे सुनाया जिसमें विनतानंदन गरुड के जन्म की कथा कही गई है । इस पुराण में तंत्रों के मंत्र और श्रांषधियों का बर्णन अधिक है । रत्न, धातु आदिकी परीक्षाविधि विस्तार से दी गई है । इसके पश्चात् सृष्टि-प्रकरणसे लेकर सूर्य तथा चतुर्वर्ती राजाओं का इतिहास तक का बर्णन किया गया है । पादचात्य विद्वान् विल्सन गरुड पुराण के अस्तित्व पर ही संदेह प्रकट करते हैं ।

गर्ग-यदु-वंश के पुरोहित । कृष्ण का नामकरण करने के लिए वसुदेवने इन्हें गोकुल भेजा था । नंद ने इनका विशेष आदर-सत्कार किया था । सर्व-प्रथम इन्होंने रोहिणि-पुत्र का नाम 'संकर्षण' रक्खा था । फिर राज की परम प्रभिरामता बता कर, अति बलवुक्त होने के कारण उनका नामकरण 'वलराम' भी किया था । देवर्षी-पुत्र का नाम इन्होंने ही 'कृष्ण' रक्खा था तथा वसुदेव का पुत्र होने के कारण उन्होंने उसे वसुदेव भी कहा था एवं उसमें नारायण ने अधिक गुण बताए थे । इस प्रकार नामकरण के बाद वे मथुरा वापस चले गये थे ।

गर्ग भारद्वाज-एक सूत्रद्रष्टा का नाम ।

गर्ग भूमि-वायुमत से गान्धे के पुत्र का नाम ।

गर्दभी मुग्ध-कश्यप कुनोदपन्न एक गोशरार का नाम ।

गर्दभी मुग्ध शांडिल्यायन-एक आचार्य का नाम । इनके गुरु का नाम उदर-शांडिल्य था ।

गवय-गममेना में एक वानर का नाम । ये कश्यप के समय अक्षयवट के लिए मन्त्रा के नाय गये थे ।

गविजात-एक महर्षि का नाम ।

गविष्ट-कश्यप तथा द्रु के एक पुत्र का

गविष्ठिर आत्रेय-एक सूक्तद्रष्टा का नाम ।

गांगेय-१. भीष्म का मातृक नाम । दे० 'भीष्म' । २.

एक बार पार्वती ने अपने शरीर का मैल छुड़ा कर उसकी एक मूर्ति बनाकर गंगा में डाल दी जो सजीव हो गई और देवनाओं ने उसका नाम गांगेय रखकर उसे गणों का आधिपत्य प्रदान किया ।

गांगोदधि-अंगिरा कुलोत्पन्न एक गोत्रकार । गांगोदधि नामांतर है ।

गांदिनी-काशिराज की एक कन्या का नाम जो यदुवंशी स्वफल्क को व्याही थी अक्रूर आदि इन्हीं के पुत्र थे । गांदिनी शब्द का अर्थ है—प्रतिदिन गाय देने वाली । कहा जाता है किये १२ वर्षों तक माता के गर्भ में रहों । भूमिष्ट होने की प्रार्थना किये जाने पर इन्होंने कहा कि तीन वर्ष तक प्रतिदिन ब्राह्मणों को गो-दान करो । ऐसा ही किया गया और तब ये उत्पन्न हुई । इन्होंने प्रतिदिन एक गऊ-दान करने की प्रथा जारी रखी ।

गांधार-भागवत के अनुसार आरुघ के पुत्र का नाम । मत्स्य के अनुसार ये शरद्धानु के तथा वायु के अनुसार अरुद्ध के पुत्र थे । गांधार देश के राजाओं मुख्यतः शकुनि का यही नाम था । दे० 'गांधारनग्नजित्' ।

गांधार नग्नजित्-एक गांधार राजा का नाम । इनको सोम के संबंध में विशेष जानकारी थी । एक समय इन्होंने प्राण शब्द के अर्थ के संबंध में अपना वस्तंत्र मत प्रकाशित किया था ।

गांधार कायन-अगस्त कुलोत्पन्न एक गोत्रकार का नाम ।

गांधारी-१. गांधार देश के राजा सुयल की कन्या का नाम । इन्होंने बाल्यकाल में शिव की आराधना की थी, जिससे इन्हें १०० पुत्र होने का वरदान मिला था । कुरुवंश में पुत्रों की कमी थी, अतएव भीष्मादि ने धृतराष्ट्र के लिये गांधारी को मांगा । गांधारी का विवाह धृतराष्ट्र से हो गया । यह जानकर कि पति अन्धे हैं, गांधारी ने अपनी आँखों में सदा के लिये पट्टी बाँध ली । कालक्रम से इनसे दुर्योधनादि सौ पुत्र हुये । उनके उत्पत्ति की कथा इस भाँति है :—गांधारी १०० पुत्रों का वरदान पाकर गर्भवती हुई, किंतु दो वर्ष व्यतीत हो जाने पर भी किसी प्रकार गर्भ बाहर नहीं निकला । बलपूर्वक बाहर निकालने से शिशु के स्थान पर केवल एक मासपिंड निकला । व्यास ने उस मासपिंड के सौ टुकड़े कर अलग अलग घृतकुंभों में रख दिया । समय पर उसमें से दुर्योधन उत्पन्न हुआ, किंतु वह ऐसे अशुभ लक्षणों से प्रकट हुआ कि धृतराष्ट्र ने अगत्या उसे त्याग दिया । उसके बाद अन्य नित्यानत्रे पुत्र उत्पन्न हुये । एक घड़े से दुःशला नाम की कन्या उत्पन्न हुई । ये आदर्श पत्नी तथा आदर्श माता थीं । पतिव्रताओं में इनका स्थान अग्रगण्य है । पारस्परिक युद्ध के ये अत्यंत विरुद्ध थीं । अपने सामने ही जब इनके १०० पुत्र मारे गये, तब कृष्ण को बुलाकर इन्होंने उनकी बहुत भर्त्सना की और युद्ध होने का उत्तरदायित्व उन्हीं पर डालकर उन्हें शाप दिया कि वे भी अपने सभी पुत्रों की मृत्यु देखें, और परिवार-रहित हो वनचारी होकर मारे जायँ । पतिव्रता गांधारी

का यह शाप अक्षरशः सत्य हुआ था । युधिष्ठिर के राज्याभिषेक के अवसर पर इन्होंने दस दिनों तक हस्तिनापुर में अपने मृतपुत्रों का अंतिम संस्कार किया, और फिर कर्तिकी पूर्णिमा को पति के साथ वन चली गईं । एक बार वेदव्यास इनके आश्रम में गये । उनके प्रभाव से कुरुक्षेत्र में मृत द्रोण और भीष्म आदि के इनको दर्शन हुये । व्यास के प्रभाव से इनके सब मृत पुत्र भी दिखाई पड़े । इन्हें इस बात से बहुत संतोष हुआ । इस घटना के ६ महीने के बाद उस वन में एक भयानक आग लग गई । धृतराष्ट्र, कुंती तथा गांधारी आदि की दावानल में अग्नि-समाधि हुई । भाव्यवश संजय भागकर बच गये । २. क्रोष्ट्र की कन्या का नाम । ३. अजमीड़ की तीसरी स्त्री का नाम । ४. कश्यप तथा सुरभि की एक कन्या का नाम ।

गातु आत्रेय-एक सूक्तद्रष्टा का नाम ।

गात्र-उत्तम मन्वन्तर में सप्तर्षियों में से एक का नाम ।

गात्रवत्-कृष्ण के एक पुत्र का नाम ।

गाथिन्-विश्वामित्र के पिता तथा कुशिक के पुत्र का नाम । गाथिन कौशिक मंत्रद्रष्टा भी थे । यह अंगिराकुलोत्पन्न एक गोत्रकार तथा (वेदार्थदीपिका के अनुसार) इंद्र के अवतार थे । इन्हीं को पुराणों में गाधि कहा गया है । दे० 'गाधि' ।

गाधि-विश्वामित्र के पिता । वायु पुराण के अनुसार ये कुशावर के पुत्र थे । इनकी माता पुरुकुत्सु की कन्या थी । ऋचीक ऋषि के दिये हुये चरु के प्रभाव से इनके विश्वामित्र नामक पुत्र उत्पन्न हुआ । इस बालक में तृणिय और ब्राह्मण दोनों के गुण विद्यमान थे । इनकी कन्या का नाम सत्यवती था । ये काव्यकुञ्ज देश के राजा थे । नाभाजी के अनुसार इन्हीं के नाती (कन्या के पुत्र) प्रसिद्ध यमदग्नि मुनि हुये जिनके शात्मज परशुराम थे ।

गानवंपु-एक अत्यन्त प्रसिद्ध गायनाचार्य का नाम । इनकी उत्पत्ति वाराह-कला के पूर्व घोरकल्प में हुई थी । नारद ने इन्हीं से गान-विद्या सीखी थी । कालांतर में किसी कारण से इन्हें उलूक योनि प्राप्त हुई ।

गामटी-(गाँवरीदास) एक प्रसिद्ध मध्यकालीन वैष्णव भक्त । ये जतियाने के निवासी थे ।

गायत्री-ब्रह्मा की स्त्री का नाम । कहा जाता है कि एक बार ब्रह्मा ने एक यज्ञ आरंभ किया । यज्ञ में अर्धांगिनी का होना परमावश्यक है । अतः ब्रह्मा ने अपनी प्रथम पत्नी सावित्री को बुला भेजा, किंतु सावित्री ने कहा कि अभी हमारी सहेलियाँ नहीं आई हैं । अतः इंद्र मृत्युलोक से एक ग्वालिन लाये जिसके साथ ब्रह्मा ने गंधर्व विवाह किया । इसी का नाम गायत्री पड़ा । गायत्री के एक हाथ में मृग-शृंग और दूसरे में पद्म है । वस्त्र लाल रंग का है । गले में मुक्ताहार और सिर पर मुकुट है । एक बार वृहस्पति ने पाद-प्रहार द्वारा इनका सिर तोड़ दिया । इससे इनकी मृत्यु नहीं हुई बल्कि देवों की उत्पत्ति हुई । गायत्री मंत्र वेद का सबसे प्रचलित मंत्र और गायत्री छंद सबसे प्रसिद्ध छंद है । गायत्री को वेदमाता भी कहा गया है । यह मंत्र सबसे अधिक पुनीत तथा पावन माना

गया है। प्रत्येक ब्राह्मण के लिये त्रिसंध्या में इसका जप करना अनिवार्य माना गया है। गायत्री मंत्र इस प्रकार है:—ॐ भूः भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो योनः प्रचोदयात्। मंत्र का मौलिक आशय इस भाँति है—‘हम उस परम तेजमय सूर्य (सविता) के उस तेज की उपासना करते हैं कि वह हमारे मन और बुद्धि को प्रकाशमान करे।’

गायन-भृगु कुलोत्पन्न एक गोत्रकार का नाम।

गार्ग—विश्वामित्र के एक पुत्र का नाम।

गार्गी वाचस्पती—१. एक अत्यन्त ब्रह्मनिष्ठ तथा पंडिता वैदिक स्त्री का नाम। जनक की सभा में इन्होंने याज्ञवल्क्य मुनि के साथ शास्त्रार्थ किया था। यह वचवक्र ऋषि की कन्या थीं। पाणिनि ने इनका उल्लेख किया है। २. दुर्गा का एक पर्याय।

गार्ग्य—१. महर्षि गार्ग के पुत्र। अपनी अत्यधिक ब्रह्मनिष्ठा से इन्होंने गार्ग से स्वतंत्र अपना गोत्र चलाया। पाणिनि ने इनका उल्लेख किया है। ये यादवों के कुलगुरु थे। एक बार यादवों ने सभा में नर्पुंसक कहकर इनका उपहास किया जिससे रूठ होकर इन्होंने लौहचूर्ण खाकर शिव की तपस्या की और यह वर प्राप्त किया कि यादवों का विनाश करनेवाला पुत्र इन्हें प्राप्त हो। इन्होंने गोपाली नामक अप्सरा से विवाह करके काल्यवन नामक महापराक्रमी पुत्र उत्पन्न किया जिसने यदु कुल का नाश किया। २. एक तत्वज्ञानी महर्षि। यह गार्ग्य तथा गौतम के शिष्य थे। ३. एक प्रसिद्ध धर्मशास्त्रकार तथा वैद्याकरण ऋषि। इनका उल्लेख यास्क तथा पाणिनि ने किया है। हेमाद्रि ने इन्हें एक ज्योतिषी माना है। यही गार्ग्य बालाकि के नाम से प्रसिद्ध हैं।

गार्ग्यहरि—आंगिरस् कुलोत्पन्न एक गोत्रकार का नाम। गार्गिहर नाम से भी ये प्रसिद्ध हैं।

गार्ग्यायण—उघालकायन के शिष्य का नाम इनके शिष्य पाशशर्यायण थे।

गार्हायण—भृगु कुलोत्पन्न एक ऋषि का नाम।

गाल—एक राजा का नाम। इन्होंने नील पर्वत पर एक मंदिर बनवाया था।

गालव—१. विश्वामित्र के प्रिय शिष्य, एक प्रसिद्ध ऋषि। शिष्या समाप्त होने पर विश्वामित्र इनसे गुरु दक्षिणा लिये विना ही प्रसन्न थे, किंतु इन्होंने दक्षिणा देने का आग्रह किया, अतएव रूठ होकर इन्होंने ८०० श्याम-कर्ण घोड़े मंगे। इसे अपनी शक्ति से बाहर की वात समझकर इन्होंने विष्णु की प्राराधना की। प्रसन्न होकर विष्णु ने इनकी सहायता के लिये गरुड़ को भेजा। सब दिशाओं में घुमाकर गरुड़ इन्हें राजा ययाति के यहाँ ले गये और उन्हें अपनी समस्या बताई। ययाति भी असमर्थ हो रहे थे। उन्होंने अपनी परम सुंदरी कन्या माधवी गालव को सौंपकर कहा कि इसे योग्य घर को सौंपकर उससे घोड़े प्राप्त कर सकते हो। माधवी को यह वर प्राप्त था कि पति-समागम होने पर भी उसका कौमार्य नष्ट नहीं होगा। उसे लेकर वे हरीद्वय, द्वियोदास, और उर्गानर तीन राजाओं के पास गये। इन तीनों ने चारी-चारी

से माधवी से विवाह करके पुत्र प्राप्त किया और उसके बदले दो-दो सौ घोड़े दिये। इस प्रकार गालव ऋषि ने ६०० घोड़े विश्वामित्र को दे दिये और २०० के लिये उस कन्या को ही विश्वामित्र को सौंप दिया। इसे पाकर गुरु संतुष्ट हुये और उनसे भी माधवी को अष्टक नामक एक पुत्र हुआ। दे० ‘माधवी’। २. विदर्भ कौटिल्य के शिष्य का नाम। इनके पुत्र कुमार हारित थे। ३. वायु के अनुसार याज्ञवल्क्य के शिष्य। ४. विश्वामित्र के पुत्र का नाम। इनका नाम ‘गालव’ क्यों पड़ा, इसकी एक कथा हरिवंश में इस प्रकार दी हुई है—राजा सत्यव्रत के निन्द्य आचरण के कारण राज्य में घोर अकाल पड़ा और सब अन्न के यभाव में प्राहिप्राहि करने लगे। विश्वामित्र ने निरुपाय हो इन्हें गल से बांध कर वेचने के लिये खड़ा किया। इसी से इनका नाम गालव पड़ा। राजा सत्यव्रत ने इन्हें बंधन मुक्त करके इनके पिता के हवाले किया। ये वैद्याकरण थे। पाणिनि ने इनका उल्लेख किया है।

गालवि—अंगिरा कुलोत्पन्न एक गोत्रकार का नाम। गालवित् इनका नामांतर है।

गावलाणि—संजय का नामांतर है। दे० ‘संजय’।

गिरधर—एक प्रसिद्ध वैष्णव आचार्य, पुष्टिमार्ग के अनुयायी तथा प्रचारक। ये गोस्वामी विठ्ठलनाथ जी के सात पुत्रों में से एक तथा श्री वल्लभाचार्य जी के पौत्र थे।

गिरपति—हिमालय का एक पर्याय।

गिरा—सरस्वती का एक पर्याय। दे० ‘सरस्वती’।

गिरापति—दे० ‘ब्रह्मा’।

गिरिका—उपरिचर वसु राजा की स्त्री। इससे वृहद्रथ आदि छः पुत्र तथा काली अथवा मत्स्यगंधिनी नाम की एक कन्या उत्पन्न हुई थी।

गिरिज्ञत्र—विष्णु पुराण के अनुसार श्यफळक के पुत्र का नाम।

गिरिजा—उमा का एक पर्याय। दे० ‘उमा’।

गिरिधर—कृष्ण का एक पर्याय। कृष्ण ने इंद्र की उपासना बंद करके गोकुल निवासियों को गोवर्धन की पूजा करने की सम्मति दी। सभी लोगों ने ऐसा ही किया, जिससे क्रुद्ध होकर इंद्र ने सुसस्ताधार वर्षा प्रारंभ कर दी। शक्ति वृष्टि से पीड़ित गोकुल निवासियों के रक्षार्थ कृष्ण ने अपनी द्धिगुनी पर गोवर्धन धारण किया। इसी से उनका नाम गिरधर या गिरधारी हुआ। दे० ‘कृष्ण’।

गिरिधरगवाल—एक प्रसिद्ध वैष्णव भक्त जो मालपुरना नामक गाँव में रहते थे। इस नाम के कई भक्तों का उल्लेख भक्तमाल में किया गया है। वल्लभाचार्य के पौत्र का नाम भी गिरधर था जो इनसे भिन्न था।

गी—वाष्पी की अधिष्ठात्री सरस्वती का नामांतर। दे० ‘सरस्वती’।

गीतविद्याधर—एक गंधर्व का नाम।

गुणकेशी—इंद्र सारथि मातलि की कन्या का नाम। इसकी नाता का नाम सुवर्मा था। इनके सनुहन कोड़े का नहीं भिन्न रत्न था। पंच में नागनाक के चिह्न नाम का पुत्र मंगोनीत हुआ। किंतु नागों को गरुड़ वा चतुर्भुज

था, अतएव मातलि ने इंद्र से पहिले अमृत दिलाकर उसे अमरत्व दिलाया और तब गुणकेशी का उससे विवाह किया।

गुणनिधि-१. यज्ञदत्त नामक एक वैदिक ब्राह्मण का पुत्र। यह अत्यंत दुर्गुणी तथा व्यसनी था। पर शिव पूजा के प्रताप से इसे मुक्ति मिली। अनंतर कुबेर ने इसे उत्तर-दिशा का अधिपति बना दिया। २. एक प्रसिद्ध वैष्णव भक्त। इन्होंने चारों धाम में हरिभक्ति का प्रचार किया।

गुणवती-१. सिंहल देश के चंद्रसेन राजा की स्त्री। २. दे० 'सत्राजित'।

गुण शंखर-गौड़ देश के राजा। इन्हें अभयानंद ने जैन मत में दीक्षित किया था।

गुणाकर-१. अचट्टीप के एक प्रतापी तथा परमेश्वर्यवान राजा। इनकी स्त्री का नाम सुशीला था जिससे सुलोचना नाम की एक कन्या उत्पन्न हुई थी। २. पुलह तथा श्वेता के पुत्र का नाम।

गुपाल-दे० 'गोपाल'।

गुप्तक-पांडवों के समकालीन सिंधु-देशीय एक राजा का नाम।

गुरु-१. दे० 'बृहस्पति'। २. भागवत के अनुसार सांक्रुति के पुत्र का नाम। मत्स्य में इनको गुरुधि, विष्णु में रुचिरधि तथा वायु में गुरुवीर्य कहा गया है। दे० 'सांक्रुति'। ३. भौत्य मनु के पुत्र का नाम।

गुरुक्षेप-विष्णु के अनुसार ये बृहत्क्षय के पुत्र थे।

गुरुधि-दे० 'गुरु'।

गुरुभार-गरुड़ के पुत्र का नाम।

गुरुवीर्य-दे० 'गुरु'।

गुर्वच-वशि दैत्य के एक पुत्र का नाम।

गुलाम चिरिती-एक प्रसिद्ध सूफी विचारक तथा पहुँचे हुए फकीर जो हिंदी के प्रसिद्ध कवि मलिक मुहम्मद जायसी के गुरु थे। जायसी ने इनके विषय में लिखा है—“वेह मखदूम जगत के हउँ उनके घर बाँद।”

गुह-१. (निपाद) प्रसिद्ध राम-भक्त निपादराज गुह जो श्रंगवेर-पुर के स्वामी थे। वनवास के समय इन्होंने राम, सीता और लक्ष्मण को गंगा पर कराया था। नाव पर बैठाने के पूर्व इन्होंने राम के चरण धोये थे। राम के चित्रकूट निवास के समय भरत जब उनसे मिलने जा रहे थे उस समय उनको राम का शत्रु समझकर ये युद्ध करने को प्रस्तुत हो गये थे। इन्होंने द्रुमिदा नामक एक राक्षस का वध किया था जो अयोध्यावासियों को दुख देने के लिए भेजा गया था। २. कार्तिकेय का नामांतर।

गुहवासिन्-वैवस्वत मन्वंतर के वाराह कल्पांत में शंकर के एक अवतार का नाम। इनका स्थान हिमालय के महोत्तुंग शिखर पर है। उत्थय, वामदेव, महायोग तथा महाबल नाम के इनके चार पुत्र थे।

गुहिल-एक यवन राजा का नाम। ये न्यूह वंश में उत्पन्न हुए थे। इनके पुत्र का नाम वाप्यकर्मा था। इन्होंने १० वर्ष तक राज्य किया।

गुह्यकपति-दे० 'कुबेर'।

गुत्समद-१. एक ऋषि का नाम। यह इनका अपना तथा

इनके कुल, दोनों का नाम है। ये आंगिरस् कुलोत्पन्न शुनहोत्र के पुत्र थे। विष्णु पुराण के अनुसार ये चंद्रवंशी पुरुवा के वंशोत्पन्न एक क्षत्रिय थे। प्रसिद्ध शौनक ऋषि जिन्होंने चारों वर्णों की व्यवस्था की, इन्हीं के वंशज थे। वायु पुराण के अनुसार शुनक इनके पुत्र थे और शौनक इनके पौत्र। ये इतने पराक्रमी थे कि इनको देखकर लोगों को इंद्र का भ्रम हो गया अतएव लोग इन्हें उठा ले गये, पर इंद्र ने इन्हें छुड़ाया और इनका नाम गुत्समद रक्खा। अनुक्रमणी के अनुसार ये एक आंगिरस् थे जो भृगु के कुल में उत्पन्न हुये थे। महाभारत के अनुसार ये हैहयराज वीतहव्य के पुत्र थे जो ब्राह्मण हो गये थे। महाभारत की एक कथा के अनुसार एक बार इन्होंने इंद्र का रूपधारण किया और इंद्र को असुरों के बंधन से निकल भागने का अवसर दिया। कुछ परिवर्तन के अनुसार यह कथा कई पुराणों में मिलती है। असुरों द्वारा बद्ध होने पर एक मंत्र-पाठ द्वारा इन्होंने मुक्ति पाई जिसमें इन्होंने दिखाया था कि इंद्र एक दूसरे व्यक्ति हैं। ऋग्वेद के द्वितीय मंडल में इनके अनेक मंत्र हैं।

गृध्र-श्री कृष्ण के एक पुत्र जो उनकी मित्रविदा नाम की स्त्री से उत्पन्न हुए थे।

गृध्रिका-१. कश्यप की एक कन्या का नाम जो तमश की स्त्री थीं और जिन्होंने गृध्रों की सृष्टि की थी।

गृहपति-विश्वानर नामक एक मुनि-पुत्र का नाम। इनकी माता का नाम शुचिष्मती था। विश्वानर सपत्नीक नर्मदा तट पर नर्मपुर नामक स्थान में रहते थे। ये बड़े कर्मनिष्ठ तथा वेदाध्ययन में रत रहते थे। पर इनके कोई पुत्र नहीं था। स्त्री के आग्रह से इन्होंने काशी जाकर वीरेश्वर महादेव की उग्र तपस्या की। उन्होंने प्रत्यक्ष दर्शन देकर वर दिया और इन्हें गृहपति नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। बालक के नवें वर्ष में नारद ने आकर कहा कि विद्युत अथवा अग्नि इस बालक को घातक है। इन्होंने शिव की कठिन तपस्या आरंभ की। शिव ने प्रसन्न हो इन्हें वर दिया और अग्नि की पदवी दी। इनका स्थापित किया हुआ शिवलिंग काशी में अभीश्वर नाम से प्रसिद्ध है। २. दे० 'अग्नि'।

गो-१. राजा ब्रह्मदत्त की स्त्री का नाम। ये देवल ऋषि की कन्या थीं। इनको सरस्वती अथवा सन्नत भी कहते हैं। २. मानस नाम के पितरों की कन्या का नाम। ३. शमीक ऋषि की स्त्री। प्रसिद्ध श्रंगी ऋषि इन्हीं के पुत्र थे। ४. शुक्र की स्त्री का नाम।

गोकर्ण-१. वैवस्वत मन्वंतर के सातवें वाराह कल्प में गोकर्ण नामक शिव का एक अवतार हुआ था। इनके चार पुत्र थे—काश्यप, उशनस्व, च्यवन तथा बृहस्पति। २. दे० 'आत्मदेव'। ३. काश्मीर के एक राजा का नाम। ये गोपादित्य के पुत्र थे। इन्होंने गोकर्णेश्वर महोदव की स्थापना की थी। इन्होंने १८ वर्ष तक राज्य किया था। **गोकुलनाथ (गोस्वामी)-प्रसिद्ध वैष्णव आचार्य, कवि तथा मत प्रचारक।** ये विट्ठलनाथ के सात पुत्रों में से एक तथा वल्लभाचार्य के पौत्र थे। ये स्वयं भी एक कवि तथा विद्वान् थे। कहा जाता है कि 'दो सौ यावन

वैष्णवों की वार्ता' और 'चौरासी वैष्णवों की वार्ता' के संकलन या प्रणयन इन्होंने ही कराये थे। बिना जाति-पाँति का विचार किये केवल हरिभक्ति के आधार पर ही ये दीक्षा दिया करते थे। एक बार इन्होंने 'कान्हा' नामक एक भंगी को श्रीनाथ जी के मंदिर में गले लगाया था, जिससे वह उनका दर्शन पा सके।

गोखल-विष्णु के अनुसार व्यास की शिष्य-परंपरा में वेदमित्र के शिष्य। मतांतर से ये देवमित्र के पुत्र थे। भागवत में इनका नाम गोखल्य लिखा हुआ है।

गोखल्य-शाक्य ऋषि के शिष्य का नाम। इन्होंने उनसे ऋग्वेद की एक शाखा का अध्ययन किया था। दे० 'गोखल'।

गोणीपति-१. अंगिरा कुलोत्पन्न एक गोत्रकार का नाम।
२. अत्रि कुलोत्पन्न एक गोत्रकार का नाम।

गौतम (गौतम)-शतपथ ब्राह्मण के अनुसार सप्तऋषियों में से एक ऋषि और न्याय दर्शन के प्रणेता। ये एक धर्मशास्त्र के भी रचयिता हैं, जिसका नाम गर्ग संहिता है। इसका संपादन स्तेज्जनर नामक एक पाश्चात्य विद्वान् ने किया है। इन्हें गौतम भी कहते हैं। पंच कन्याओं में से प्रथम अहिल्या इनकी ही स्त्री थीं। चंद्रमा और इंद्र से उनका अवैध संबंध प्रसिद्ध है। दे० 'चंद्रमा', 'इंद्र' तथा 'अहिल्या'।

गोदावरी-दक्षिण प्रान्त की एक पवित्र नदी का नाम।

गोधन-दे० 'गोवर्धन'।

गोपति-१. कश्यप तथा प्राध के एक पुत्र का नाम। २. पांचाल देश के एक राजा का नाम। भारतयुद्ध में ये पांडवों के पक्ष में थे। ३. राजा शिवि के पुत्र का नाम। ४. विश्वभुज नामक अग्नि का नामांतर। इनकी स्त्री का नाम नदी था।

गोपनंद-एक प्रसिद्ध वैष्णव भक्त तथा नाभा जी के यजमान।

गोपन-एक गोत्रकार का नाम। ये अत्रि के कुल में उत्पन्न हुये थे।

गोपवन आत्रेय-एक सूक्तद्रष्टा का नाम।

गोपा-सिद्धार्थ या बुद्ध की पत्नी। राहुल नामक एक पुत्र उत्पन्न होने पर गौतम इन्हें छोड़ कर विरक्त हो गये थे। यशोधरा इन्हीं का नाम है। मैथिलीशरण के 'यशोधरा' नामक खण्ड काव्य की नायिका ये ही हैं।

गोपाजी-एक प्रसिद्ध हरिभक्ति परायणा महिला। इनका निवास संभवतः नाभाजी के आस-पास था।

गोपाल-१. एक प्रसिद्ध वैष्णव भक्त जो नागजी के पुत्र थे। नाभाजी के अनुसार ये एक दिगन्त वैष्णव आचार्य तथा श्रसंन्य भक्तों के पालक हुए। २. जयपुर नामक स्थान के रहनेवाले एक प्रसिद्ध वैष्णव भक्त। ये ऐसे भक्तों में थे जिनके विषय में भगवान् ने स्वयं कहा है कि भगवान् की पूजा से अधिक महत्वपूर्ण भक्तों की पूजा का है। ये इतने पमाशील थे कि किसी ने इनके एक गाल पर एक थप्पड़ मारा तब दूसरा गाल दिखाकर इन्होंने कहा यह तो हम कृपा से वंचित रह गया। (भक्तमान में गोपाल नाम के कुल छः भक्तों के उल्लेख हैं) ३. सन-खान नामक स्थान के रहने वाले एक प्रसिद्ध वैष्णव भक्त।

गोपाल जी (ग्वाल)-एक प्रसिद्ध वैष्णव भक्त। ये चैता के रहनेवाले थे।

गोपाल भट्ट-महात्मा व्यंकट भट्ट के पुत्र, प्रसिद्ध वैष्णव भक्त। ये चैतन्य महाप्रभु के प्रधान शिष्यों में से एक थे। सर्वस्व त्याग कर वृन्दावन में इन्होंने निवास किया। कहा जाता है कि इनकी सेवा वाली शालिग्राम की मूर्ति में से ही वैशाखी पूर्णिमा को राधारमण की सुंदर मूर्ति प्राप्त हुई जिसे इन्होंने मंदिर में स्थापित किया, जो अभी तक विद्यमान है।

गोपल भक्त-एक प्रसिद्ध वैष्णव भक्त। कारी के पास बयुलिया नामक गाँव के रहने वाले थे।

गोपाली-१. एक अप्सरा का नाम। गान्धर्व ऋषि ने इससे विवाह कर कालयवन नामक महापराक्रमी पुत्र उत्पन्न किया था, जिसने यदुवंश का नाश किया। दे० 'गान्धर्व' तथा 'कालयवन'। २. एक प्रसिद्ध हरिभक्तिपरायणा महिला। इन्हें नाभाजी ने यशोदा का अवतार माना है।

गोपीनाथ (पंडा)-एक प्रसिद्ध वैष्णव भक्त। इन्होंने चारों धाम में हरिभक्ति का प्रचार किया था।

गोभानु-राजा बह्मि के पुत्र और तुर्यसु के पौत्र। हरिवंश के अनुसार ययाति के शाप से इनके वंश का यह नाम हो गया।

गोभिल-१. एक गोत्रकार ऋषि जो वत्समित्र के शिष्य तथा कश्यप कुलोत्पन्न एक प्रसिद्ध आचार्य थे। इनके द्वारा रचित कई ग्रंथ प्रसिद्ध हैं। जैसे-गोभिल गृहसूत्र, गोभिल गृहकारिका तथा गोभिल परिशिष्ट इत्यादि। गोभिल को हेमाद्रि ने नारायणीय तथा कौयुभी शाखा का गोत्रकार माना है। २. कुवेर के एक दूत का नाम। एक बार विमान से यह आकाशमार्ग से यात्रा कर रहा था, उस समय इसने सत्यकेतु की कन्या तथा उग्रसेन की स्त्री पद्मावती को जल-क्रीड़ा करते हुए देखा। पद्मावती असाधारण सुंदरी थी। उसके सौंदर्य से यह मोहित हो गया और उग्रसेन का रूप धारण करके एक वृक्ष के नीचे बैठ गया। इसे देखकर पद्मावती भी कामवशा होकर पतित हुई।

गोमती-अवध प्रांत की एक नदी का नाम।

गोमुख-मातलि के पुत्र का नाम। मातलि इंद्र का विपान वाहक था और गोमुख इंद्र-पुत्र जयंत का सारथि।

गोरख-(गोरखनाथ) नाथसंप्रदाय के संस्थापक, एक महान योगी। इनके गुरु मत्स्येन्द्र (महोदरनाथ) थे। एक बार हिमालय-स्थित वीरसिंह नगर पर कृष्णाश ने चढ़ाई की थी उस समय गोरख ने उस नगर की रक्षा की। वहाँ के राजा के छोटे भाई प्रवीर और कृष्णाश में घोर युद्ध हुआ। प्रवीर के पक्ष के सभी वीरों को गोरख ने संजीवनी मंत्र से जीवित कर दिया, जिससे कृष्णाश को विजय प्राप्त न हो सकी। फिर गोरख को प्रसन्न करके उन्होंने इनकी सब विद्या सीख ली। गुरु गोरख ज्ञानाश्रयी शाखा के जन्मदाता माने जाते हैं। इनकी जात्या में हिंदी साहित्य में निर्गुणपंथी कई कवि जाते हैं। प्रवीर पंथ के निर्माण में नाथ पंथ का बहुत बड़ा भ्रूय है। गोरखनाथ के संप्रदाय में जानि-पाँति का विचार नहीं होता था। यह एक प्रकार से मानव मात्र का धर्म था।

गोरखनाथ के समय के विषय में विद्वानों में मतभेद है। 'नाथ संप्रदाय' नामक अपनी पुस्तक में श्री हज़ारी प्रसाद जी द्विवेदी इनका समय विक्रम सं० की दसवीं सदी मानते हैं। इनकी जाति और जन्म स्थान के विषय में भी निश्चित मत नहीं है। द्विवेदी जी का अनुमान है कि गोरखनाथ जाति के ब्राह्मण थे और ब्राह्मण वातावरण में पले थे। इनके गुरु मत्स्येन्द्र कभी बौद्ध साधक थे। गोरखनाथ के नाम से २८ संस्कृत ग्रंथ प्रसिद्ध हैं, जिनमें अमनस्क, अमरौघशासनम् गोरक्ष पद्धति, गोरक्ष संहिता, तथा सिद्ध सिद्धान्त पद्धति बहुत महत्वपूर्ण हैं। हिंदी में भी गोरखनाथ की कई पुस्तकें मिलती हैं। डा० बदधवाल की खोज से ४० पुस्तकों का पता चला है। 'सबदी' को वे सबसे अधिक प्रामाणिक मानते हैं यद्यपि सबसे अधिक प्रचलित 'गोरखबोध' है। शंकराचार्य के बाद भारत में इतना महिमावान पुरुष नहीं हुआ। नाथ-संप्रदाय किसी न किसी रूप में महाराष्ट्र प्रदेश में कर्नाटक में अब भी प्रचलित है।

गोलम—एक गंधर्व योद्धा का नाम। लगातार १५ वर्षों तक बालि से युद्ध करने के बाद यह वीरगति को प्राप्त हुआ।

गोवर्धन—व्रज में स्थित गोकुल के समीप के एक प्रसिद्ध पहाड़ का नाम। व्रजवासी पहिले इंद्र की पूजा करते थे। कृष्ण ने इंद्र की पूजा छोड़ गोवर्धन की पूजा करने की सलाह दी। इससे अप्रसन्न हो इंद्र ने व्रज को हथाने के लिये मुसलाधार वर्षा की। गोकुल में त्राहि-त्राहि मच गई। तब भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपने बायें हाथ की छिगुनी पर उठा लिया, जिससे एक भी वेद पानी व्रजवासियों के ऊपर नहीं पड़ा। अन्त में इंद्र को हार मान लेनी पड़ी। इसी से कृष्ण का एक नाम गिरधर पड़ा।

गोवर्धनाचार्य—एक प्रसिद्ध संस्कृत कवि। गीतगोविंदकार जयदेव ने इनका उल्लेख किया है। 'आर्या सप्तशती' नामक इनका प्रसिद्ध ग्रन्थ है। इनके पिता का नाम नीलाम्बर था। इनके एक शिष्य उदयन थे जो संभवतः नैयायिक उदयनाचार्य थे।

गोवासन—एक क्षत्रिय वीर जो शैब्य नाम से प्रसिद्ध हैं। भारत युद्ध में ये कौरवों के पक्ष से लड़े थे।

गोविंद—१. एक प्रसिद्ध वैष्णव भक्त तथा कथावाचक।
२. एक प्रसिद्ध वैष्णव भक्त। ये मथुरा-मंडल के प्रसिद्ध भक्तों में से एक थे। ३. एक प्रसिद्ध मध्यकालीन वैष्णव भक्त। ४. दे० 'विष्णु'।

गोविंद (दास)—रामानंदी संप्रदाय के एक प्रमुख भक्त तथा प्रचारक। ये बाबा पैहारी जी के प्रधान शिष्यों में से एक थे। नाभा जी इनके गुरु अग्रदास जी के गुरुभाई थे।

गोविंद गोस्वामी—गोस्वामी विठ्ठलनाथ जी के सात पुत्रों में से एक पुत्र जो प्रसिद्ध वैष्णव आचार्य तथा मठाधीश थे। गोस्वामी जी के सातों पुत्रों ने अलग-अलग गढ़ियाँ स्थापित कीं। दे० 'विठ्ठलनाथ'।

गोविंद ठक्कर—काव्यप्रकाशकार मम्मट के समकालीन

एक प्रसिद्ध आचार्य। ये अलंकारशास्त्री थे। चंद्रदत्त मैथिलकृत भक्तमाला में इनको काव्य-प्रदीप का रचयिता कहा गया है।

गोविंददास—एक प्रसिद्ध वैष्णव भक्त। ये नाभा जी के समकालीन (संभवतः उनके शिष्य) थे। इन्हें पूरी भक्तमाल कंठ थी जिसका ये नित्य पारायण करते थे। भक्तमाल पूरा होने के बाद नाभा जी ने एक छुप्य उनके विषय में भी लिखा है।

गोविंद ब्रह्मचारी—एक प्रसिद्ध वैष्णव भक्त। इन्होंने चारों धाम में हरि-भक्ति का प्रचार किया।

गोविंद शर्मन्—भास्करांश निवादिष्य के पिता का नाम। गोविंद स्वामी—प्रसिद्ध 'अष्टछाप' के आठ कवियों में से एक कवि। ये महाप्रभु बल्लभाचार्य के शिष्य, अनन्य हरिभक्त तथा उच्चकोटि के व्रजभाषा-कवि थे।

गोवृषध्वज—कपाचार्य का नामांतर। दे० 'कृप' तथा 'कृपी'। गोशर्य—ऋग्वेद में इनका उल्लेख ऋषि कश्यप, पश्य तथा वसुदस्यु के साथ हुआ है।

गोश्रु जाबाल—एक यज्ञकर्ता ऋषि का नाम। ये सुदक्षिण क्षौम प्राचीन शालि तथा शुक्र जाबाल के समकालीन थे।

गोष्ठायन—एक गोत्रकार ऋषि।

गोसू—एक प्रसिद्ध हरिभक्त तथा कथावाचक।

गोहिल—गिलहोत वंश के आदि पुरुष का नाम। ये सूर्यवंशी राजा शिलादित्य के पुत्र थे। इनके पिता शिलादित्य युद्ध में मारे गये। उस समय इनकी माता पुष्कलावती गर्भवती थीं और वे भाग कर पर्वत की ओर जा छिपीं। वहाँ गुहा में इनका जन्म हुआ। इसीलिए इनका नाम गोहिल हुआ।

गौडिनि—एक गोत्रकार ऋषि।

गौतम आंध्र—वायुपुराण के अनुसार ये शिव स्वामी के पुत्र थे।

गौतम आरुणि—एक ऋषि। ब्रह्मज्ञान के संबंध में इनका वशिष्ठ के साथ संवाद हुआ था।

गौतम कृष्णांड—कचीवत की संतति का यह साधारण नाम है। वायुपुराण में कृष्णांड के स्थान में कृष्णांग पाठ है। कृष्णांग को देव सटश मानकर गृहस्थ के लिये नित्य तर्पण का विधान है।

गौतम स्मृति—अष्टादश स्मृतियों में से एक। इसके रचयिता गौतम ऋषि हैं।

गौतमी—अश्वत्थामा की माता तथा द्वोणाचार्य की स्त्री का नाम।

गौरदास—एक प्रसिद्ध वैष्णव भक्त। ये कीर्ति जी के शिष्य थे।

गौरमुख—१. उग्रसेन के उपाध्याय। सांव के साथ सूर्य के संबंध में इनका संवाद हुआ था। २. शमीक ऋषि के शिष्य। ३. एक राजा। इनके पास चिंतामणि थी, जिसकी सहायता से इन्होंने सुप्रतीक पुत्र दुर्जय की सैन्य समेत मेहमानी की थी। दुर्जय ने लोभवश इनसे चिंतामणि चाही पर इन्होंने देना अस्वीकार कर दिया। तब दुर्जय से इनका भीषण युद्ध हुआ, जिसमें इनका सर्वस्व नष्ट हुआ।

गौर वर्मन-अथर्ववेद के आचार्य परिहर का पुत्र । ये बौद्ध नेता थे । इन्होंने गौड़वंश में राज्य किया ।
 गौर वाहन-पाण्डवों के समय के एक राजा ।
 गौर वीति-अंगिरस् कुलोत्पन्न एक गोत्रकार तथा प्रवर का नाम ।
 गौर शिरस्-एक प्राचीन ऋषि का नाम ।
 गौरि-दे० 'पार्वती' ।
 गौरिक-मांधाता का मौलिक नाम । वायु के अनुसार युवनाश्व के पुत्र का नाम ।
 गौरिधीति-एक सूक्तद्रष्टा का नाम । यह शक्ति के पुत्र थे । एक मत से पाराशर और ये एक ही थे ।
 गौरी-१. मांधाता की माता का नाम । मत्स्य के अनुसार यह अंतिनार की कन्या थीं । २. देवकी का नामांतर । ३. दे० 'सीता' । ४. हरिभक्ति-परायण मध्यकालीन एक प्रसिद्ध महिला । ५. एक प्रसिद्ध राग । सुर आदि कवियों ने इसका प्रयोग प्रायः किया है । ६. दे० 'उमा' ।
 गौरीस-दे० 'शिव' ।
 ग्रंथिक-विराट के यहाँ अज्ञातवास के समय नकुल ने यह नाम धारण किया था ।
 ग्रसन-तारकासुर के सेनापति का नाम । यह तारकासुर और इंद्र के युद्ध के समय उपस्थित था । तारकासुर के युद्ध के अनंतर यह विष्णु के हाथ से मारा गया ।
 ग्रामद-भृगु कुलोत्पन्न एक गोत्रकार का नाम ।
 ग्राम्याणि-भृगु कुलोत्पन्न एक गोत्रकार का नाम ।
 प्रावा-कश्यप की एक स्त्री तथा दण की एक कन्या का नाम ।
 ग्लावमैत्रेय-बकदाल्म्य का नामांतर ।
 ग्वाल भक्त-एक प्रसिद्ध शहीर भक्त । एक बार वन में भैसे चराते हुए इन्हें एक साधु मिले । भैसे वहीं छोड़कर ये घर चले आये और घर में कह दिया कि उन्हें एक भिक्षुक को दे आये हैं जो घी-सहित दे जायेंगे । उधर भैसों को चोर हाँक कर चले गये । परन्तु दिवाली के दिन सब भैसों वहाँ पहुँच गईं । उसी दिन चोरों ने इन भैसों के गले में चाँदी की हंसुली बाँधी थी । वह हंसुली भी साथ में चली आई । इस प्रकार हरि ने अपने भक्त की सहायता की ।
 घंट-प्रसिद्ध कुलोत्पन्न एक धातुगण । इन्होंने वेलपत्रों से शिव की १०० वर्ष तक पूजा की थी ।
 घंटाकर्ण-शिव के एक गण का नाम । यह शाप के प्रभाव से मनुष्य योनि में उज्जयिनी में प्रकट हुआ और विक्रम की सभा के सब पंडितों को परास्त करने की महात्वाकांक्षा से शिव की उग्र तपस्या करने लगा । अंत में इसे घर मिला कि कालिदास को छोड़कर सब तुमसे परास्त होंगे । ऐसा ही हुआ । इसने शिव से कालिदान को भी परास्त करने का पर चाला था । शिव ने यह स्वीकार नहीं किया । इसलिये हमने भविष्य में शिव का नाम न लेने की प्रतिज्ञा की । सब पंडितों को परास्त करने के बाद इसने कालिदान को चुनौती दी । कालिदास ने हमने यह कहलाया कि यदि यद्ये पंडितों में यह शिव की स्तुति बनाकर पाठ करे तो मैं हार मान लूँगा । यह जानते थे कि यह शिव

का नाम न लेने की प्रतिज्ञा कर चुका है । पर घंटाकर्ण ने ऐसे छंद बनाकर सबको चकित कर दिया जिसमें शिव का नाम आये बिना ही उनकी पूरी अस्तुति विद्यमान थी । इसके प्रभाव से वह शाप मुक्त हुआ और शिव ने बुलाकर उसे अपने गणों में स्थान दिया । हरिवंश में कुछ भिन्न रूप में घंटाकर्ण की कथा वर्णित है । यह बड़ा शिव-भक्त और विष्णु का द्रोही था । विष्णु का नाम इसके कानों में न पड़े, इसलिये इसने अपने कानों में घंटे लटका रखे थे । इसी से इसका नाम घंटाकर्ण पड़ा । शिव से मुक्ति की उपासना करने पर दूतों ने वह्निकाश्रम में जाकर विष्णु की उपासना करने को कहा । ऐसा ही करने पर इसकी मृत्यु हुई । यह स्कंद का पार्षद था ।
 घंटामुख-दे० 'विभावसु' ।
 घंटेश-मंगल के पुत्र का नाम ।
 घटकपर्-महाराजा विद्ममादित्य की सभा के नवरत्नों में से एक । ये एक कवि तथा नीतिशास्त्र-विशारद थे । घट और यमक अलंकारों में ये सिद्धहस्त थे । इन्होंने राज-सभा में यह चुनौती दी थी कि यदि कोई इन्हें यमक में परास्त कर देगा तो ये उसकी दासता स्वीकार कर लेंगे । महाकवि कालिदास ने 'नलोदय' नामक काव्य लिखकर इन्हें परास्त किया । इनका रचित २२ रत्नों का 'घटकपर्' नामक काव्य तथा नीति-साहित्य का 'नीति-सार' ग्रंथ प्रसिद्ध है । 'राघस' नामक एक और ग्रंथ इनका माना जाता है । इनके 'घटकपर्' का अनुवाद जर्मन भाषा में प्रसिद्ध जर्मन प्राच्यवेत्ता दृर्श ने किया है । घटकपर् इनका कल्पित नाम या छद्म है ।
 घट जानुक-एक ऋषि का नाम ।
 घटोत्कच-द्वितीय पाण्डव भीम के एक पुत्र का नाम इसकी माता हिंदिया एक राजसी थी । जन्मकाल में इसका मस्तक घटक के सदृश था और सिर केश रहित था । इससे इसका नाम घटोत्कच (घट + उत्कच) पड़ा । यह महापराक्रमी योद्धा था । इसका शरीर पर्यंताकार था । यह देखने में अत्यंत विकराल लगता था । माता-पिता का बड़ा भक्त था । उत्पन्न होते ही इसने माता-पिता के चरण छुये थे । घटोत्कच का रथ आठ चक्रों का था और उसमें १०० घोड़े जुते थे । इसके रथ में गृध्र-पक्ष का झंडा था । इसका सारथी विरुपाक्ष नाम का राघस था । यह रात्रि-युद्ध तथा माया-युद्ध में पारंगत था । अलवुश नामक राघस को मारकर इसने दुर्योधन को भेंट किया था । महाभारत युद्ध में यह पाण्डवों की ओर से लड़ा था । दुर्योधन के वीर इसके द्वारा आहत होकर ब्राह्मि-ब्राह्मि करने लगे । अंत में विवश होकर कर्या ने अर्जुन को मारने के लिये जो शमोघ शक्ति प्राप्त की थी उसे इस पर चलाया । इने मारकर शक्ति अचना तेज सब दिशाओं में फैलानी हुई इंद्रलोक चली गई । इस शक्ति के रहते अर्जुन को विजय में आशंका थी । इसीलिये पाण्डवों की ओर से घटोत्कच को बुलाया गया था ।
 घटोदर-गवला-परायण एक राघस का नाम ।
 घन-नंका के एक गण का नाम ।
 घननाद-दे० 'नेवनाद' ।

घनश्याम-(गोस्वामी)-प्रसिद्ध मठाधीश वैष्णव आचार्य तथा पुष्टिमागीय कृष्णोपासना पद्धति के प्रचारक। पुष्टिमागीय पद्धति के आदि प्रचारक महाप्रभु बल्लभाचार्य के पौत्र तथा गोस्वामी विट्ठलनाथ जी के पुत्र।

घमंडी-प्रसिद्ध वैष्णव भक्त। वृन्दावन-निवासी विख्यात हरिसेवकों में से एक। ये महाप्रभु चैतन्य के समकालीन तथा उनकी शिष्यमंडली में से थे।

घर्मतापस-एक सूक्तद्रष्टा ऋषि का नाम।

घर्मसौर्य-एक मंत्रद्रष्टा का नाम।

घुश्मेश्वर-शिव के एक अवतार का नाम। इसका उप-लिंग व्याघ्रेश्वर नाम से प्रसिद्ध है। यह शिव के बारहवें अवतार थे।

घृटी-एक प्रसिद्ध वैष्णव भक्त। नाभा जी ने प्रसिद्ध वैष्णव भक्तों में इनका उल्लेख किया है।

घृणिका-देवयानी की दासी का नाम।

घृणि-१. स्वयंभुव मन्वंतर में मरीचि के पुत्रों में से एक का नाम। दे० 'मरीचि'। २. धृष्टुमान के पुत्र का नाम।

घृतकौशिक-१. पाराशर्यायण के शिष्य का नाम। इनके शिष्य कौशिकायनि थे। २. दे० 'त्रिश्वामित्र'।

घृतपृष्ठ-भागवत के अनुसार प्रियव्रत और बहिर्ष्मती के पुत्र। यह कौंच द्वीप के अधिपति थे। इन्होंने अपने द्वीप के सात भाग किये थे-आम, मधुरुह, मेघवृष्ट, सुवामा, आजिष्ट, लोहितार्ण तथा वनस्पति।

घृताची-स्वर्ग की एक अप्सरा का नाम। यह अत्यंत सुंदरी थी। इसे देखकर वेदव्यास मोहित हो गये थे, जिसके फलस्वरूप शुकदेव का जन्म हुआ। च्यवन ऋषि के पुत्र प्रमिति ने भी घृताची से संबंध किया जिसके फल से इनको कुरु नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। एक बार प्रसिद्ध ऋषि भरद्वाज ने अपने आश्रम के समीप घृताची को गंगा में स्नान करते देखा। उस पर मोहित होने से इनका वीर्यपात हो गया जिसको इन्होंने एक द्रोणि (मिट्टी का एक बर्तन) में रख दिया जिससे प्रसिद्ध धनुंघर द्रोणाचार्य की उत्पत्ति हुई। महापेय (कन्नौज) के राजा कुश-नाम ने भी घृताची से विवाह किया जिससे १०० कन्यायें हुईं। घृताची की उत्पत्ति कश्यप की स्त्री प्राधा से हुई थी।

घृताशिन-एक ऋषि का नाम। इन्होंने गोपी मोहन कृष्ण की तपस्या की थी जिससे इनको एक सुंदर गोपी का जन्म मिला था।

घृतेयु-रौद्रारव के पुत्र का नाम।

घांटम-एक प्रसिद्ध वैष्णव भक्त। पहले यह एक ढाकू थे। कालांतर में ज्ञान प्राप्त कर एक पहुँचे हुये भक्त हो गये।

घोर-हिरण्यारुचि की सेना का एक असुर।

घोरअंगिरस-एक मंत्रद्रष्टा का नाम। छांदोग्य के अनुसार इन्होंने कृष्ण को ब्रह्मज्ञान का उपदेश दिया था। ये अंगिरा ऋषि के पुत्र थे।

घोरवर्म-परिहार के पुत्र का नाम।

घोष-कक्षिबान की कन्या घोषा के पुत्र का नाम।

घोषा-कक्षिबान की कन्या। इसे कुष्ठ रोग था, अतएव

दीर्घकाल तक अविवाहित रूप में पिता के यहाँ रही। अंत में इसके पिता ने अश्विनीकुमारों को प्रसन्न किया जिन्होंने इसे रोगमुक्त किया और इसका विवाह हुआ। इससे घोष और सुहरस्थ नाम के दो पुत्र हुये।

घ्राण-सुपित देवों में से एक का नाम।

चंचला-१. एक गोपी। राधा की सखी। २. एक वेश्या का नाम। यह विष्णु-भक्त थी जिसके प्रभाव से वैकुंठ गई।

चंचु-विष्णु, वायु तथा भविष्य पुराण के अनुसार यह हरितपुत्र थे। भागवत में इनका नाम चंप है। भविष्य पुराण के अनुसार इन्होंने ३००० वर्षों तक राज्य किया था और चंपा नामक नगरी बसाई थी।

चंचुलि-विश्वामित्र-कुलोत्पन्न एक गोत्रकार का नाम।

चंड-१. एक प्रसिद्ध राजस का नाम। शुंभ-निशुंभ नामक विख्यात राजस वंशुओं का यह सेनापति था। चंड और मुंड दोनों भाई दुर्गा के हाथ से मारे गये थे और इसी से उनका नाम चंडी, चंडिका तथा चंडा आदि पड़ा।

२. त्रिपुरासुर के एक अनुयायी का नाम। जिस समय त्रिपुर शिव के साथ युद्ध कर रहा था, उस समय इसने नंदी के साथ युद्ध किया था। ३. एक व्याध का नाम। शिव-रात्रि के दिन शिव पर बेलपत्र चढ़ाने के कारण इसकी सुक्ति हुई। ४. एक प्रसिद्ध चारण भक्त। ईश्वर का गुण-गान इसका एक मात्र कार्य था।

चंडकौशिक-१. कबीचान राजा के पुत्र का नाम। उनके प्रसाद से राजा बृहद्रथ को जरासंध नामक पुत्र हुआ था।

२. एक प्रसिद्ध संस्कृत नाटक जिसके आधार पर भार-तेन्दु हरिश्चंद्र ने अपने 'सत्यहरिश्चंद्र' नाटक की रचना की थी।

चंडतुंडक-गरुड के पुत्र का नाम।

चंडवल-राम की सेना के एक विख्यात वानर सेनापति का नाम। कुंभकर्ण से युद्ध करता हुआ यह वीरगति को प्राप्त हुआ।

चंद भार्गव-महर्षि च्यवन के वंशज एक ऋषि का नाम। ये जनमेजय के सर्पयज्ञ के होता थे।

चंडमुंड-दे० 'चंड'।

चंडश्री-मत्स्य पुराण के अनुसार ये विजय के पुत्र थे। इनके नामांतर चंद्रविज, चंद्रश्री तथा दंसश्री आदि हैं।

चंडा-दे० 'चंड'। दुर्गा का एक नामांतर है।

चंडाश्व-कुवलयाश्व के पुत्र का नाम। इनका नामांतर भद्राश्व है।

चंडिका-दुर्गा तथा उमा का पर्याय है। नंददास ने 'दशम स्कंध' में, इस नाम का योगमाया के लिए प्रयोग किया है।

चंडी-१. दुर्गा का एक नाम। दे० 'चंड'। २. महर्षि उदालक की पत्नी का नाम।

चंडीश-रुद्र गणों में से एक का नाम। गणों ने जब दस प्रजापति का यह विध्वंस किया था तब उन्होंने पूषा नामक ऋषिज को बाँधा था। नामांतर-चंडी, चंड, चंडेश्वर, तथा चंडघंट आदि।

चंडीस-दे० 'शिव' ।

चंडोदरी-अशोक चाटिका में बंदिनी सीता की रक्षा के लिये नियुक्त एक राक्षसी का नाम ।

चंद्रनि-एक गोपी । राधा की सखी ।

चंद्र (चंद्रमा)-१. रात को प्रकाशित होने वाले एक ग्रह जो एक देवता के समान पूजे जाते हैं । चंद्रमा को लक्ष्मी का भाई भी कहा जाता है, क्योंकि दोनों की उत्पत्ति समुद्र-मंथन ने मानी जाती है । चंद्रमा और राहु में शत्रुता है । इसी से राहु सदैव चंद्रमा को ग्रसता है । चंद्रमा की उत्पत्ति ब्रह्मा के मानस-पुत्र अत्रि से भी मानी गई है । कहा जाता है कि एक सहस्र वर्षों की तपस्या के बाद महर्षि अत्रि का वीर्य ही सोम में परिवर्तित हो गया । ब्रह्मा ने उसे अपने रथ पर रख लिया । चंद्रमा ने इसी रथ पर बैठ कर २१ वार पृथ्वी की प्रदक्षिणा की थी । इसी प्रदक्षिणा में उनका जो तेज क्षरित होकर पृथ्वी पर गिरा था वह श्रांप्रधियों के रूप में संसार को निरोग करता है । कहा जाता है कि एक शत पद्म वर्ष तक चंद्रमा शिव की तपस्या में लीन रहे । इसी तपस्या से प्रसन्न हो शंकर ने चंद्र की कला को अपने मस्तक पर धारण किया था । चंद्रमा को एक राज्य भी मिला जो चंद्रलोक के नाम से प्रसिद्ध है । चंद्रमा ने दक्ष की कन्याओं से विवाह किया था, किंतु एक कथा के अनुसार रोहिणी से अधिक स्नेह रखने के कारण दक्ष ने उन्हें यक्ष्या रोग से पीड़ित कर दिया था । दिन-दिन चंद्रमा के क्षीण होने पर देवताओं ने दक्ष से उन्हें क्षमा करने की प्रार्थना की । दक्ष ने कहा कि चंद्रमा को अपनी सभी पत्नियों से समानता का व्यवहार करना चाहिये । उसी दिन से चंद्रमा की कलायें एक पक्ष में क्षीण हो जाती हैं और एक पक्ष में शिव के मस्तक की कला को लेकर पूर्ण हो जाती हैं । चंद्रमा के गोले पर एक कालिमा दिखाई पड़ती है जिसे चंद्रमा का कलंक कहते हैं । इसके विषय में कई कथाएँ प्रसिद्ध हैं । कहा जाता है कि दक्ष से शापित होने पर चंद्रमा ने हिरन को अपनी गोद में बिठा लिया था । इसके अतिरिक्त देवों के गुरु बृहस्पति की पत्नी तारा से संभोग करने के कारण उनके शरीर में यह कलंक हो गया । तारा के गर्भ से 'पुष्य' की उत्पत्ति हुई । इंद्र-अदित्या व्यभिचार में सुर्गावन कर इंद्र की सहायता करने के कारण मातम ने उन्हें मार दिया । वह घाव अभी तक कलंक के रूप में मौजूद है । चंद्रमा के विमललिखित पर्याय मिलते हैं:-इन्दु, सुधानिधि, कलानिधि, जैवात्रिक, शशि, सोम, शज, क्षमीकर, छपाकर, विधु, हिमकर तथा हिमरोम आदि । दे० 'केतु' तथा 'प्रहिल्या' । २. कश्यप की पत्नी के पुत्र । ३. दशरथ राम के एक सुज्ञ नामक मंत्री के पुत्र का नाम । चंद्रकला-१. सुबाहु की स्त्री । यह एक वार स्नान करने गई थी । वहाँ विक्रम का पुत्र माधव इस पर मोहित हो गया; पर इसने यह परामर्श दिया कि छाप पक्षशीप चासी गुणाकर की कन्या सुलोचना से व्याह कीजिये । उसने धैर्य ही किया । २. एक गोपी । यह राधा की सखी थी । चंद्रकांत-एक गंधर्व का नाम । इसकी कन्या का नाम सुतारा था ।

चंद्रकांति-यह पूर्वजन्म में एक वारांगना थी जो पुष्य-फल से वाण की कन्या उपा हुई और अनिरुद्ध से इसका विवाह हुआ । अगले जन्म में यह जंबुक राजा की कन्या विजयैषिणी हुई ।

चंद्रकेतु-१. हंसध्वज राजा का भाई । २. लक्ष्मण के पुत्र का नाम । ३. दुर्योधन-पत्नीय एक राजा । यह कृपाचार्य का चक्ररक्षक था । भारतयुद्ध में यह अभिमन्यु के हाथ से मारा गया ।

चंद्रगिरि-तारापीठ के पुत्र का नाम ।

चंद्रगुप्त (मौर्य)-मौर्य साम्राज्य का संस्थापक और भारतीय इतिहास का प्रथम सम्राट् । नंदवंश के नष्ट होने के बाद यह गद्दी पर बैठा । इसके जाति के विषय में मतभेद हैं । पारचात्य विद्वान् मुरा नाम की दासी (शूद्राणी) से इसका जन्म मानते हैं, किंतु भारतीय विद्वानों का मत है कि पिप्पलीकानन के क्षत्रिय वंश में इसका जन्म हुआ था । किन्हीं कारणों से इसका पिता नंद का सेनापति था जो बाद को बंदी कर लिया गया । चाणक्य की सहायता से नंदवंश का नाश कर इसने मौर्य वंश की नींव डाली थी । भविष्य पुराण के अनुसार यह काश्यप और बुद्धिसिंह का वंशज था । इसने यवन सेनापति सुकून (सेल्यूकस) को परास्त करके उसकी कन्या हेलेन से विवाह किया था । इसके पुत्र का नाम विंदुसार था । लगभग ६० वर्षों तक इसने राज्य किया ।

चंद्रचूड़-महादेव का पर्याय । मस्तक पर चन्द्रमा को धारण करने के कारण उनका यह नाम पड़ा ।

चंद्रदेव-१. पांचाल के एक क्षत्रिय राजा का नाम । यह युधिष्ठिर का चक्ररक्षक था और युद्ध में कर्ण के हाथ से मारा गया । २. दुर्योधन-पत्नीय एक राजा जो युद्ध में अर्जुन के हाथ से वीरगति को प्राप्त हुआ ।

चंद्रभानु-सत्यभामा द्वारा श्रीकृष्ण के एक पुत्र का नाम ।

चंद्रवर्मा-कांबोज देश के एक क्षत्रिय राजा का नाम ।

चंद्रवाह-कुकुस्थ राजा का नामांतर ।

चंद्रविह्वल-भागवत के अनुसार विजय के पुत्र का नाम । दे० 'चंद्रधरी' ।

चंद्रशामन्-मायापुरी के एक ब्राह्मण का नाम । यह अग्नि गोत्रज थे और इनके गुरु देवशर्मा थे । देवशर्मा की कन्या गुणवती इनकी स्त्री थीं ।

चंद्रशेखर-पुवन के नाती तथा पोष्य के पुत्र का नाम ।

चंद्रश्री-विष्णु पुराण के अनुसार विजय के पुत्र का नाम । दे० 'चंद्रधरी' ।

चंद्रसावणि-चतुर्दश मनु का नाम ।

चंद्रसेन-सिंहल द्वीप के राजा का नाम । ये रावण की महिषी मंदोदरी के पिता थे ।

चंद्रहास-१. केरल देश के राजा सुधर्मिक के पुत्र । इनका जन्म मूल नक्षत्र में हुआ था । दरिद्रता सूचक इनके पुत्रः शंभुलियाँ थीं । शत्रुओं ने इनके पिता को मारकर इनकी माता के साथ सहवास किया । ये शतनाथ हो गये । दिनकर एक दारु इनको चन ले गई । पर यह वहाँ रख मर गई । वन में ये झकेले पड़े थे । संभोग से राजमूर्त्ति उभर से जा निकले । शत्रुताघ्न मंत्री ने इन्हें

किंतु उसी का पुत्र मारा गया और ये बच गये। बड़े होने पर मंत्री की कन्या ने इन्हें देखा और इनके सुन्दर स्वरूप पर मुग्ध होकर इनके साथ विवाह कर लिया।

२. केरल देश के मेधावी नामक एक राजा के पुत्र। जब ये बहुत छोटे थे तभी इनके माता-पिता स्वर्ग सिधारे। अपने पिता के मंत्री के ये यहाँ अनाथ की तरह रहते थे। देवर्षि नारद ने एक बार इन्हें शालिग्राम की एक मूर्ति दी और उसी की पूजा करने को कहा। उन्हें खिलाकर खाने का उपदेश देकर वे अंतर्ध्यान हो गये। तब से आजन्म इन्होंने ऐसा ही किया। कई बार ये घोर विपत्ति में पड़े। घातकों ने इनके प्राण लेने का भी आयोजन किया पर भगवान की कृपा से सर्वत्र इनकी रक्षा विचित्र प्रकार से होती रही। इनके महत्त्व को पहचानने पर अपने शत्रुओं में भी ये पूज्य हो गये। ३. श्री-कृष्ण के पौदश सखाओं में से एक। सर्वदा श्रीकृष्ण की सेवा में लीन रहने से कारण ये पूज्य कहे गये हैं।

चंद्रा-१. कृष्ण के समय की एक गोपी का नाम। २. वृषपति दानव की कन्या तथा शर्मिष्ठा की बहिन।

चंद्रावती-अनंगपाल राजा की कन्या तथा जयचंद्र (संयोगिता के पिता) की माता।

चंद्रावली-एक गोपी जो राधा की एक सखी थी। भारतेन्दु रचित चंद्रावली नाटिका की नायिका यही है।

चंद्राशव-कुवलाशव के पुत्र।

चंद्रोदय-राजा विराट के भाई।

चंपक मालिनी-१. चंद्रहास की स्त्री तथा कौतलंक देश के राजा की कन्या। २. दशरथ राम के पुत्र कुश की स्त्री चंपिका की नौ कन्याओं में से एक का नाम।

चक्र-एक ऋत्विज का नाम। सर्प यज्ञ में इन्होंने उल्लेख नामक आतिर्विज्य कराया था। इनके साथ विशंग का उल्लेख है।

चकोर-सुनंदन के पुत्र का नाम। वायु, वष्णु तथा ब्रह्मांड में ये क्रम से शातकर्ण, चकोर शातकर्ण, तथा शातकर्ण कहे गये हैं।

चक्र-रावण की सेना के एक राक्षस योद्धा का नाम।

चक्रक-विश्वामित्र के एक पुत्र का नाम।

चक्रदेव-एक यादव का नाम।

चक्रधनु-कपिल ऋषि का नामांतर।

चक्रधर्मन्-विद्याधर का नामांतर।

चक्रपारिण-१. कृष्ण का नामांतर। २. सिंधु नामक दैत्य के पिता का नाम। ३. एक प्रसिद्ध वैष्णव भक्त और प्रचारक।

चक्रवात-नृणावर्त नामक राक्षस का नामांतर।

चक्रमाली-रावण के एक मंत्री का नाम।

चक्र सुदर्शन-भगवान श्रीकृष्ण के एक हाथ का अस्त्र। यह फँककर चलाया जाता था। श्रीकृष्ण ने इसी चक्र से शिशुपाल का वध किया था।

चक्रायण-उपस्त नामक मुनि के पिता का नाम।

चक्रसू मानव-एक सूक्तद्रष्टा का नाम।

चक्रसू सौर्य-एक सूक्तद्रष्टा का नाम।

चक्रु-१. छठवें मनु का नाम। भागवत के अनुसार यह सर्व-चेतस् तथा आकृति के पुत्र थे। इनकी स्त्री का नाम नड्वला था। २. विष्णु पुराण के अनुसार ये पुरुजाक के पुत्र थे। भागवत के अनुसार अर्क तथा मत्स्य और वायु के अनुसार पृथु और दित्त ये सब एक थे।

चतुरंग-चित्ररथ अथवा रोमय राजा के पुत्र का नाम। ऋष्यश्रंग ने पुत्रेष्टि यज्ञ किया था जिसके फल-स्वरूप इनका जन्म हुआ। इनके पुत्र का नाम पृथुलाशव था।

चतुरदास-एक प्रसिद्ध वैष्णव भक्त। ये कीर्तह जी के शिष्य थे।

चतुर्भुज-दे० 'विष्णु'।

चतुर्भुज (कीर्तननिष्ठ) एक प्रसिद्ध वैष्णवभक्त, कीर्तनिया तथा कवि। ये हरिवंश जी के शिष्य तथा 'गोडवाना' देश के रहनेवाले थे। उक्त स्थान में पहिले वैष्णवमत का अभाव था पर इनके प्रचार के फल से वहाँ के अधिकांश निवासी वैष्णव हो गये। यह स्थान भी तब से वैष्णवों के लिये एक तीर्थ सा हो गया।

चतुर्भुज-(नृपति) विट्ठलनाथ जी के शिष्य तथा पुष्टिभार्य के अनुयायी, एक प्रसिद्ध वैष्णव भक्त कवि। ये करौली के राजा थे। नाभाजी ने इस नाम के तीन व्यक्तियों के उल्लेख किये हैं। १. चतुर्भुज नृपति, २. चतुर्भुज मिश्र, जो भापा दशमस्कंध भागवत के प्रणेता थे और ३. चतुर्भुज वैष्णव कवि, जिनकी कविता बल्लभीय मंदिरों में गाई जाती है। ये हरिवंश जी के शिष्य थे।

चतुर्भुज स्वामी-'अष्टछाप' के कवियों में से मधुरामंडल के एक विशिष्ट भक्त तथा कवि। ये महाप्रभु बल्लभाचार्य के शिष्यों में से एक थे। इनका विशेष वर्णन 'वार्ताहरस्य' तथा वैष्णव वार्ताओं में मिलता है।

चतुर्मुख-ब्रह्मा का एक नामान्तर। दे० 'ब्रह्मा'।

चतुर्वेदिन्-कारयप तथा आर्यावती के दस पुत्रों में से एक का नाम। सरस्वती ने इनको अपनी कन्या दी थी जिससे इनको १६ पुत्र हुये। कश्यप, भरद्वाज, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि, वशिष्ठ, बल्ल, गौतम, पराशर, गर्ग, अत्रि, ऋषु, शंभु, श्रृंगी, कात्यायन और याज्ञवल्क्य। ये सब गोत्र-कार हुये।

चमस-एक महायोगी जो ऋषभ और जयंती के पुत्र थे। इन्होंने विदेह को तत्त्वज्ञान दिया था।

चमस जी-नाभादास जी के अनुसार एक प्रमुख भक्त। नवयोगीश्वरों में से एक। दे० 'योगीश्वर'।

चमूहर-एक विश्वदेव।

चयत्सेन-यह बृहत्कल्पांत इन्द्र थे। इन्होंने गौतम पत्नी अहिल्या से संबंध किया था।

चयहानि-एक कान्यकुब्ज ब्राह्मण ने आर्जुन शिखर पर ब्रह्मयज्ञ किया था, जिसके प्रभाव से उन्होंने चार सत्रिय निर्माण किये थे। चयहानि उनमें से एक थे।

चरक-एक महर्षि। यह एक महान् आयुर्वेद विशारद थे। चरक संहिता इनका प्रसिद्ध ग्रंथ है। इनके ग्रंथ के अंत-साध्य से यह विदित होता है कि इनको यह विद्या अग्नि-वेश से मालूम हुई और उन को यह विद्या आग्नेय भरद्वाज से मिली थी। चरक को शेषनाग का अवतार

भी कहा गया है । ८ वीं सदी में इनके ग्रंथ का अरबी में अनुवाद हुआ था ।

चरित्र भक्त-मथुरा-मंडल के त्रिशष्ट भक्त ।

चर्मवत-शकुनि के छोटे भाई का नाम । महाभारत के युद्ध में दुरावान के हाथ से ये मारे गये ।

चलुरो 'नगन'-एक प्रसिद्ध वैष्णवभक्त तथा नाभा जी के यजमान । ये सदा नग्न रहते थे । भक्तमाल की टीकाओं में इनके विषय में अनेक विचित्र कथाएँ मिलती हैं ।

चाँदन-रामानंद संप्रदाय के एक प्रमुख भक्त जो पैहारी जी के शिष्य तथा नाभा जी के गुरु अग्रदास जी के गुरु-भाई थे ।

चाँदा-एक वैष्णव भक्त । नाभा जी ने इनका उल्लेख किया है ।

चांद्रमसी-वृहस्पति की स्त्री का नाम ।

चांद्रायण-एक प्रसिद्ध व्रत जिसमें पूर्णिमा को १५ ग्रास, अमावस्या को निराहार तथा अन्य तिथियों में चंद्रमा की कला के घटने-बढ़ने के अनुसार ग्रास भी घटता बढ़ता है । इस व्रत का माहात्म्य लोकप्रसिद्ध है । इसका करनेवाला स्वर्ग का अधिकारी कहा गया है ।

चाजुप-१. दे० 'चुप' । २. चञ्चु के पुत्र का नाम । भागवत के अनुसार चञ्चु एक मनु थे । ये सर्वतेजस् तथा आकृति के पुत्र थे । इनकी स्त्री का नाम नद्वला था ।

चाचागुरु-एक प्रसिद्ध वैष्णव भक्त जिनका उल्लेख नाभा जी ने किया है ।

चाणक्य-एक विख्यात विद्वान् तथा कूटनीतिज्ञ ब्राह्मण । इसने प्रसिद्ध नंदवंश का नाश करके चंद्रगुप्त मौर्य को गद्दी पर बिठाया था । चाणक्य का 'अर्थशास्त्र' बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ है । 'चाणक्य सूत्र' नामक ग्रंथ भी इनका रचा हुआ कहा जाता है । वेबर ने इनका अनुवाद किया था ।

चाणूर (चानूर)-कंस के एक असुर अनुचर का नाम । हरिवंश और भागवत के अनुसार यह पूर्व जन्म में मय दानव था । यह मल्लयुद्ध में पारंगत था । कृष्ण को मारने के लिए कंस द्वारा रचे गये धनुष यज्ञ में इसने कृष्ण को युद्ध में ललकारा था । कृष्ण ने वहाँ पर इसका वध किया । इसलिए कृष्ण का एक नाम 'चाणूरसूदन' भी है ।

चापेरा-त्रिश्वामित्र के एक पुत्र का नाम ।

चामुंड-देवकी के एक पुत्र का नाम । यह कुलांगार था, शतएव देवकी ने इसे कल्पक्षेत्र के पास यमुना से ढाल दिया । पृथ्वीराज के पुरोहित सामंत ने इसको बाहर निकाला । १२ वर्ष तक इसने चंडिका की घोर तपस्या की । देवी ने प्रसन्न हो चरदान दिया । घनंतर सामंत की शाजा से रफथीज चामुंड ने बलवानी से युद्ध किया जिसमें उनके शंग से गिरे हुए रक्त से अनेक वीर उत्पन्न होने लगे; परंतु बलवानी के भाई खानी ने छात्रोय शर से उनको जला डाला । शंत में बलवानी और चामुंड में भयानक युद्ध हुआ जिसमें बलवानी मारा गया ।

चामुंडा-दुर्गा का एक पर्याय । दे० 'चंडी' तथा 'दुर्गा' ।

चारु-१. रुक्मिणी द्वारा धीकृष्ण के एक पुत्र का नाम ।

२. धतराष्ट्र के एक पुत्र का नाम । भीम ने इनका वध किया ।

चारुगुप्त-रुक्मिणी द्वारा श्रीकृष्ण के एक पुत्र का नाम ।

चारुचंद्र-रुक्मिणी द्वारा श्रीकृष्ण का एक पुत्र ।

चारुचित्रांगद-धतराष्ट्र के एक पुत्र का नाम ।

चारुदेष्ण-रुक्मिणी द्वारा श्रीकृष्ण का एक पुत्र । इसकी भगिनी का नाम चारुमती था ।

चारुदेह-रुक्मिणी द्वारा श्रीकृष्ण के एक पुत्र का नाम ।

चारुनेत्रा-एक अक्सरा का नाम ।

चारुमती-रुक्मिणी द्वारा कृष्ण की एक कन्या जो कृतवर्मा के पुत्र बलि को व्याही थी ।

चारुमत्स्य-विश्वामित्र के एक पुत्र का नाम ।

चारुयश-रुक्मिणी द्वारा कृष्ण के एक पुत्र का नाम ।

चारुवेश-कृष्ण और रुक्मिणी के एक पुत्र का नाम ।

चारुशीर्ष-एक राजर्षि का नाम । ये इंद्र के घनिष्ठ मित्र थे । आलंब के गोत्रज होने के कारण ये आलंबवायन कहलाते थे ।

चारुश्रवा-श्रीकृष्ण और रुक्मिणी के एक पुत्र ।

चार्वाक-१. एक राक्षस । यह दुर्योधन का मित्र था । जय युधिष्ठिर ने महाभारत युद्ध के बाद विजेता के रूप में हस्तिनापुर में प्रवेश किया, तब इसने छत्रवेशी ब्राह्मण के रूप में युधिष्ठिर को उनके किये पापों के लिए दोषी ठहराया, पर अन्य ब्राह्मणों ने वास्तविक बात को जानकर अपने नेत्र की ज्योति से इसे भस्म कर दिया । इसके द्वारा भाइयों की हत्या का दोष लगाये जाने पर इनको इतना क्षोभ हुआ कि ये वनवास के लिए प्रस्तुत हो गये । ब्राह्मणों ने समझा-बुझाकर इन्हें इस विचार से विरत किया । २. एक नास्तिक तत्त्वज्ञानी मुनि । अवंती देश की चित्रा और चामला नदी के संगम पर स्थिर शंखोद्वार नामक क्षेत्र में इनका जन्म हुआ था । इनके पिता का नाम इंद्रकांत और माता का रुक्मिणी था । पुष्करतीर्थ के यज्ञगिरि नामक पर्वत पर इनकी मृत्यु हुई थी । वंचनाशास्त्र के रचयिता श्री वृहस्पति के ये शिष्य थे । यह चार्वाक ध्वनि के रचयिता थे ।

चिंतामणि-१. एक प्रसिद्ध वारांगना । विख्यात वैष्णव कवि विल्वमंगल जी दीर्घकाल तक इसके प्रेमी रहे । एक बार उन्होंने बरसाती नदी को एक मुरदे के सहारे पार किया और इस बेश्या के यहाँ पहुँचे; किंतु इसने कहा कि जितना प्रेम अन्वि चर्ममय शरीर से है उतना यदि भगवान श्रीकृष्ण ने करते तो कृतार्थ हो जाते । उसी समय से विल्वमंगल जी को वैराग्य हो गया । अपनी आँखें फोड़कर वे हरिभक्ति में लीन हो गये । 'कृष्ण-करुणामृत' नामक एक बड़े मरस ग्रंथ की रचना इन्होंने की है । २. एक नरि का नाम । इसको धारण करनेवाला धमिलपित वरुण प्राप्त कर सकता है ।

चिति-स्वायंभुव मन्वन्तर में स्रष्टवर्ण शक्ति की स्त्री का नाम । इनके पुत्र का नाम द्रप्यंशु था जो प्रत्यक्षुर्गो था ।

चिकुर-एक नरप का नाम । इसके पिता का नाम शारंग और इनके पुत्र का नाम सुसुप था ।

चिह्नुर-मदिषानुर के सेनापति का नाम ।

चित्तसुखानंद-प्रसिद्ध वैष्णव भक्त तथा संन्यासी। इन्होंने गीता आदि की टीका की थी।

चित्तउत्तम-एक प्रसिद्ध वैष्णव भक्त।

चित्र-१. एक सर्प का नाम। २. हुय्योधन पचीय एक राजा। इसको प्रतिविष्य ने मारा था। ३. पांडव पचीय एक राजा। महाभारत युद्ध में कर्ण ने इनका वध किया। ४. धृतराष्ट्र के एक पुत्र का नाम जो भीमसेन के हाथ से मारा गया। ५. वृष्णि राजा के पुत्र। भागवत में इनको चित्ररथ और वायु पुराण में चित्रक कहा गया है। ६. एक दिग्गज का नाम।

चित्रक-वृष्णि के पुत्र का नाम।

चित्रकुंडल-धृतराष्ट्र के एक पुत्र।

चित्रकेतु-१. एक पौराणिक राजा जिनके लाखों स्त्रियाँ थीं। नारद और अंगिरा के यज्ञ कराने से 'कृतदूती' नामक स्त्री से एक पुत्र हुआ जिसे अन्य सपत्नी रानियों ने विप देकर मार डाला। स्नेहवशा राजा उसका दाह कर्म नहीं करना चाहते थे। अंत में उस मृत बालक के उपदेश से ही उनका मोह छूटा और तब इन्होंने उसकी अंत्येष्टि क्रिया की। नारद ने चित्रकेतु को संकर्षण भगवान का मंत्र दिया जिसके प्रभाव से सात ही दिन में इन्होंने अप्रतिहत गति पाई और सर्वत्र इनकी अवाध गति हो गई। एक दिन ये विमान पर बैठकर कैलाश में शिवजी के यहाँ पहुँचे और शिवजी को अपनी जंघा पर पार्वती की बैठायें देख उन्हें ज्ञानोपदेश करने लगे। शिव जी मुसकराये, पर पार्वती जी ने उनको राक्षस-योनि में जन्म लेने का शाप दे दिया, जिसके फलस्वरूप यह वृत्रासुर होकर उत्पन्न हुए। दे० 'वृत्रासुर' तथा 'दधीचि'। २. स्वायंभुव मन्वंतर में वशिष्ठ ऋषि के एक पुत्र का नाम। इनकी माता का नाम अर्जा था। ३. सुर-शेन देश के राजा। इनके एक करोड़ स्त्रियाँ थीं, परंतु तो भी ये निस्संतान रहे। अंत में अंगिरा ऋषि की कृपा से पुत्र हुआ। ४. राम के भाई लक्ष्मण के दूसरे पुत्र का नाम। यह चंद्रकोट नामक नगर में रहते थे। ५. पांचाल देश के राजा द्रुपद के पुत्र का नाम। द्रोणाचार्य ने इसके भाई वीरकेतु को मँगाया जिससे क्रुद्ध हो इन्होंने द्रोणाचार्य पर आक्रमण किया पर उनके हाथ से ही इसकी मृत्यु हुई।

चित्रगंधा-गोकुला की एक गोपी। जावलि ऋषि ने श्री कृष्ण की उपासना की जिसके फलस्वरूप गोकुल के प्रचंड नामक गोप के घर चित्रलेखा नाम की गोपी का जन्म हुआ।

चित्रगुप्त-एक वार जय ब्रह्मा ध्यान कर रहे थे तो उनके अंग से अनेक वर्याँ से चित्रित, लेखनी और मसि पात्र लिये एक पुरुष उत्पन्न हुआ। इन्होंने का नाम चित्रगुप्त हुआ। ब्रह्मा की काय से उत्पन्न होने के कारण इन्हें कायस्थ कहते हैं। उत्पन्न होते ही इन्होंने ब्रह्मा से पूछा कि मुझे कौन कार्य करना है। ब्रह्मा पुनः ध्यानस्थ हो गये। योग-निद्रा के अवसान के बाद ब्रह्मा ने इनसे कहा कि यम लोक में जाकर मनुष्यों के किये गये पाप और पुण्य का हिसाब लिखो तभी से ये यम लोक में इय्य और पाप

के गणक हैं। अंबष्ट, माथुर तथा गौड़ आदि इनके नौ पुत्र हुए थे। गरुड़ पुराण के अनुसार यमलोक के पास चित्रलोक भी है। कार्तिक मास की शुक्ल द्वितीया को इनकी पूजा होती है। इसी से इस द्वितीया का नाम यम द्वितीया पड़ा है। शापव्रस्त राजा सुदास इसी तिथि को इनकी पूजा करके स्वर्ग के भागी हुये थे। भीष्म पितामह ने भी इनकी पूजा करके इच्छा-मृत्यु का यर प्राप्त किया था। मतांतर से इनके पिता मित्र नाम के एक कायस्थ थे। इनकी वहन का नाम चित्रा था। पिता के मरने के बाद प्रभास क्षेत्र में जाकर इन्होंने सर्प की तपस्या की जिसके फल से इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई और तब यमराज ने इन्हें अपनी कचहरी में लेखक का पद दिया। तब से यह चित्रगुप्त के नाम से प्रसिद्ध हुये। यम ने इन्हें धर्म का रहस्य समझाया। चित्रलेखा की सहायता से इन्होंने अपने चित्रविचित्र भवन की इतनी अभिवृद्धि की कि दैवी शिल्पी विरवकर्मा भी स्पर्धा करने लगे। चित्रलेखा चित्रकला में अद्वितीय थी।

चित्रचाप-धृतराष्ट्र के एक पुत्र जो भीम द्वारा मारे गये।

चित्रदर्शन-धृतराष्ट्र के एक पुत्र।

चित्रधर्मन्-महाभारतकालीन एक क्षत्रिय राजा जो युद्ध में हुय्योधन के पक्ष में थे। ये विररुपाक्ष नामक असुर के अंशावतार थे।

चित्रध्वज-चंद्रप्रभ नामक राजा का पुत्र। इन्होंने कृष्ण की बड़ी स्तुति की थी जिसके फल से एक गोप-कन्या के रूप में इन्हें जन्म मिला।

चित्रवर्ह-गरुड़ के पुत्र का नाम।

चित्रवाण-धृतराष्ट्र का एक पुत्र।

चित्रबाहु-१. धृतराष्ट्र का एक पुत्र। २. श्री कृष्ण का एक पुत्र। यह एक महारथी था।

चित्रभानु-श्री कृष्ण के पौत्र। ये एक महारथी थे।

चित्रमुख-यह एक वैश्य थे। बाद में अपनी तपस्या के प्रभाव से ब्राह्मण होकर ब्रह्मर्षि पद प्राप्त किया।

चित्ररथ-१. हरिवंश के अनुसार धर्मरथ के पुत्र का नाम। यह अंग देश के राजा थे इनकी वंशावली इस प्रकार है- अंग → दधिवाहन → धर्मरथ → चित्ररथ।

२. एक गंधर्व का नाम। इनका वास्तविक नाम अंगपर्य था। इनकी स्त्री का नाम कुंभीनसी था। दे० 'अंगार पर्य' तथा 'कुंभीनसी'। ३. तुर्वंश के शत्रु जिनका इंद्र ने वध किया था। ४. रोमपाद राजा का नामांतर। यह दशरथ के मित्र थे। ये निस्संतान थे। अतएव दशरथ ने अपनी कन्या शांता को दत्तक के रूप में इन्हें दी जिसे इन्होंने ऋष्यश्रंग को व्याह दी। फिर इन्होंने पुत्रेष्टि यज्ञ किया जिसके फल से चतुरंग नामक एक पुत्र उत्पन्न हुआ। ५. राजा द्रुपद के एक पुत्र।

चित्ररेखा-१. कृष्ण की एक प्रियसी गोपी। २. वाणासुर के कुमार नामक प्रधान की कन्या। यह ऊपा की सहेली थी और चित्रकला में प्रवीण थी। इसी ने योगबल से कृष्ण के पुत्र अनिरुद्ध को ऊपा के पास ला दिया था। नामांतर 'चित्रलेखा'। दे० 'चित्रगुप्त'।

चित्ररेफ-मेधा तिथि के सात पुत्रों में से एक।

चित्रलेखा-१. एक अप्सरा । राजा पुरुरवा ने केयी नामक दैत्य को मारकर इससे संवद्ध किया । २. वाल्मीक राजा की कन्या । ३. दे० 'चित्ररेखा' ।

चित्रवती-वसु की पत्नी ।

चित्रवर्मन्-१. धृतराष्ट्र का एक पुत्र जो भीम द्वारा मारा गया । २. द्रुपद पुत्र जो महाभारत में द्रोणाचार्य के हाथ से मारा गया ।

चित्रवाहन-मणालूर नामक नगर के पांडव राजा का नाम । इनके आदि पुरुष प्रभंजन थे । मलयध्वज और प्रवीर इनका नामांतर है । यह स्थान वर्तमान मणिपुर राज्य में था जो वर्मा आसाम की सीमा पर है । चित्रांगदा इन्हीं की कन्या थी जिसका विवाह अर्जुन से हुआ था जब कि वह एकाकी तपस्या के लिए लिये गये हुए थे, इससे अर्जुन को वभ्रुवाहन नामक पुत्र उत्पन्न हुआ ।

चित्र वेग-एक सर्प । यह जनमेजय के सर्प-यज्ञ में जला । चित्र शिखंडी-मरीचि तथा अग्नि आदि सप्तर्षियों का सामूहिक नाम ।

चित्रसेन-१. धृतराष्ट्र के सौ पुत्रों में से एक, जिसे भारत युद्ध में भीम ने मारा था । २. एक यक्षराज का नाम । ३. गंधर्वराज चित्रसेन । यह चित्रवावसु के पुत्र थे । इनकी गणना देवर्षियों में होती थी । देवलोक में अर्जुन को इन्होंने संगीत और नृत्य की शिक्षा दी जिसका प्रयोग अज्ञातवास में बृहत्लला के रूप में उन्होंने किया । जब पांडव वन में अपना कालयापन कर रहे थे उस समय ससैन्य दुर्योधन उनको अपना वैभव दिखाने के लिये गये और उसी वन में एक सरोवर-तट पर डेरा डाल दिया । दुर्योधन ने गंधर्वों को हटा देने की आज्ञा दी । अंततः चित्रसेन से कौरवों का घमासान युद्ध हुआ, जिसमें चित्रसेन ने कौरवों की स्त्रियों को बाँध लिया । दुर्योधन के मंत्री युधिष्ठिर की शरण आये । युधिष्ठिर के कहने से अर्जुन आदि ने गंधर्वों को परास्त किया । अंत में चित्रसेन स्वयं आये । अर्जुन से उन्होंने युद्ध नहीं किया । युधिष्ठिर के कहने से कौरवों की स्त्रियों को सादर मुक्त कर दिया गया । ४. द्रुपद के पुत्र का नाम । भारत-युद्ध में इसे कर्ण ने मारा था । ५. कर्ण के पुत्र का नाम जो भारत-युद्ध में नकुल के हाथ से मारा गया । ६. एक पापी राजा । एक बार वन में मृगया के समय इसे भूख लगी । वन में अनेक अन्त्यज स्त्रियाँ मिलीं जो जन्माष्टमी का व्रत कर रही थीं । छुपार्त होने के कारण इसने उनसे अन्न माँगा; किन्तु व्रत समाप्त होने के पहले अन्न देना उन्होंने स्वीकार नहीं किया । राजा को भी धर्मशुद्धि जागृति हुई । राजा ने भी जन्माष्टमी का व्रत किया जिससे उसका उद्धार हुआ । ७. कर्ण के पुत्र । ८. परीक्षित के पुत्र । ९. जरासंध के सेनापति ।

चित्रसेना-एक अप्सरा का नाम ।

चित्रांग-१. धृतराष्ट्र का एक पुत्र जो भारतयुद्ध में भीम द्वारा मारा गया । २. एक वीर पुरुष का नाम । राम ने जब अश्वमेध यज्ञ किया था उस समय चित्रांग ने अश्व को रोक कर युद्ध किया था, पर वह पुष्कल के हाथ से मारा गया ।

चित्रांगद-१. महाराज शांतनु के पुत्र जो सत्यवती के गर्भ से उत्पन्न हुए थे । इनके छोटे भाई का नाम विचित्रवीर्य था । भीष्म इनके सौतेले भाई थे । चित्रांगद नामक गंधर्व से इनका तीन वर्ष तक युद्ध होता रहा जिसमें ये मारे गये । ये निस्संतान थे, अतएव इनके छोटे भाई विचित्रवीर्य गद्दी पर बैठे । २. एक गंधर्व का नाम जिससे शांतनु पुत्र चित्रांगद से तीन वर्षों तक युद्ध होता रहा । ३. द्रौपदी-स्वयंवर में उपस्थित एक राजा । ४. कलिंग के राजा, जो दुर्योधन के द्रुसुर थे । ५. दशार्ण देश के राजा । इन्होंने अर्जुन से युद्ध किया था ।

चित्रांगदा-चित्रवाहन राजा की कन्या तथा अर्जुन की स्त्री । इनके पुत्र का नाम वभ्रुवाहन था । चित्रवाहन को कोई पुत्र न होने से यही उनका उत्तराधिकारी बना ।

चित्रा-१. सोम की सत्ताइस स्त्रियों में से एक । २. चित्रगुप्त की स्त्री । चित्रगुप्त ने महामाया को प्रसन्न करके इसे प्राप्त किया । ३. वाराणसी निवासी सुवार नामक वारिक की स्त्री । ४. एक अप्सरा का नाम ।

चित्रान्त-धृतराष्ट्र का एक पुत्र जो भीम द्वारा मारा गया । चित्रायुध-१. पांचाल देश के एक महारथी राजा जो द्रौपदी के स्वयंवर में उपस्थित थे । भारतयुद्ध में कर्ण के हाथ से ये मारे गये । २. धृतराष्ट्र के एक पुत्र जो भीम के हाथ से मारे गये ।

चित्रारव-१. शाल्य देश के एक राजा । ये घोड़े के शौकीन थे इसीलिये इनका यह नाम पड़ा । इन्होंने मिट्टी से अश्व के चित्र बनाये थे । २. एक रामर्षि । ३. सत्यवान का नामांतर ।

चित्रिणी-कामसेन राजा की कन्या । काव्य-सौन्दर्य प्रेमी मित्रशर्मा नामक ब्राह्मण से इसका प्रेम हो गया । दोनों ने सूर्य की बड़ी तपस्या की जिससे चित्रिणी के माता-पिता ने दोनों के विवाह कर देने का स्वप्न देखा । दोनों पति-पत्नी-रूप में एक दूसरे को पाकर अति प्रसन्न हुये । चित्रोपचित्र-धृतराष्ट्र के सौ पुत्रों में से एक जो भीम के द्वारा मारा गया ।

चिरकारिक (चिरकारिन्)-मेधातिथि गौतम के दो पुत्रों में से कनिष्ठ पुत्र । दीर्घस्त्री होने के कारण इनका यह नाम पड़ा । अपनी स्त्री के प्रति व्यभिचार का संदेह होने के कारण गौतम ने उनसे माता का वध करने को कहा । एक तो दीर्घस्त्री दूसरे मातृ-हत्या के भय से उनसे तत्काल शस्त्र न उठा । पितृ-भय से ये बाहर रहने लगे । क्रोध शांत होने पर गौतम को पत्नी की मृत्यु पर अत्यंत पश्चाताप हुआ, किन्तु पत्नी को जीवित देखकर अति खानंद हुआ । उसी समय पुत्र भी शन उठाये तैय्यार थे । उन्हें रोककर पिता अत्यंत प्रसन्न हुये ।

चिरांतक-गरुड के एक पुत्र का नाम ।

चीधड़-प्रसिद्ध वैद्यक भक्त । ये मिसराग्नि द्वारा जीवन-निर्वाह तथा संत-सेवा करते थे ।

चीरवाससू-१. एक यज्ञ का नाम । २. वीर्य-पण्डित एक राजा ।

चूड़ाला-जिज्ञिष्वज राजा की स्त्री ।

चूड़ामणि-चूड़ापुर के राजा । इनकी

लाजी था जिसने शिव की प्रबल उपासना कर हरिस्वामी नामक बलवान पुत्र प्राप्त किया।

चेकितान—१. वृष्णि वंशीय एक पांडवपत्नीय क्षत्रिय राजा। इनकी मृत्यु दुर्योधन के हाथ से हुई। २. पांडवपत्नीय एक यादव राजा। इनके रथ के घोड़े पीले रंग के थे। भारतयुद्ध में सुशर्मा के साथ घोर युद्ध करने के अनंतर द्रोण के हाथ से ये मारे गये। ३. एक ब्राह्मण का नाम। **चेदि**—एक यादव। दे० 'चिदि'।

चैतन्य—बंगदेश के प्रसिद्ध वैष्णव आचार्य, प्रचारक तथा मतप्रवर्तक। इनका जन्म १४८२ ई० में नवद्वीप में हुआ था। आरम्भ में इनका नाम विश्वम्भर था। अपने असाधारण सौन्दर्य और उज्ज्वल गौर वर्ण होने के कारण इनका नाम गौराङ्ग पड़ गया। प्रारम्भिक यौवन काल में ही ये प्रकांड पंडित हो गये। पिता का श्राद्ध करने के लिए जब ये गयाधाम गये तभी से भक्ति का एक असाधारण स्रोत फूट निकला। ये रात-दिन श्रीकृष्ण का नाम जपते थे। भावावेश में कभी-कभी मूर्च्छित हो जाते थे। मध्व संप्रदायी एक संन्यासी 'ईश्वर पुरी' के प्रभाव से इनकी दैवी भक्ति-प्रेरणा उमड़ पड़ी। बंगाल में इन्होंने वैष्णव मत का प्रचार किया। इनकी उपासना-पद्धति मधुरभाव, की कही जाती है, जिसमें कांतासक्ति ही प्रधान मानी जाती है। छः वर्षों तक पूर्वी भारत और पच्छिमी भारत का पर्यटन करके इन्होंने अपने मत का प्रचार किया। वृन्दावन में भी आप ने कई वर्षों तक निवास किया। जगन्नाथ की मूर्ति के सामने प्रायः भावावेश में ये मूर्च्छित हो जाते थे। वहीं पर सार्वभौम राजा को अपना शिष्य बनाया। 'सनातन गोस्वामी' और 'रूप गोस्वामी' इनके शिष्य थे। पुरी में ही समुद्र को श्रीकृष्ण की यमुना समझ प्रेमोन्मत्त हो उसमें ये कूद पड़े और फिर इनका कहीं पता नहीं चला। इनकी मधुर भक्ति पद्धति ने हिंदी साहित्य के मध्ययुग के उत्तरकालीन कृष्ण भक्तों को प्रभावित किया है।

चैत्ररथ—कुरु के पुत्र।

चैद्य—चेदिराज्य धृष्टकेतु का नाम। ये शिशुपाल के पुत्र थे।

चोल—द्रविड़ देश के एक क्षत्रिय राजा।

चौड़ा—एक प्रसिद्ध चारण भक्त।

चौमुख—एक प्रसिद्ध चारण भक्त।

चौरासी—एक प्रसिद्ध चारण भक्त। ये अभिनय-कला तथा वर्णन-कला में सिद्धहस्त थे।

च्यवन—ऋग्वेद में च्यवन और अश्विनीकुमारों का आख्यान है। महाभारत के अनुसार इनकी माता फलोमा और पिता ऋगु थे। 'च्यवन' का शब्दार्थ है 'गिरा हुआ'। कहा जाता है, जब इनकी माँ गर्भवती थीं तभी एक राक्षस उन्हें ले भागा। मार्ग में भय से इनका गर्भपात हो गया। द्रवीभूत हो राक्षस ने उनको सद्यःजात पुत्र के साथ चले जाने की आज्ञा दे दी। उसी पुत्र का नाम च्यवन हुआ। च्यवन बहुत बड़े ऋषि हो गये हैं। एक बार नर्मदा तट पर घोर तप करते हुए ये बहुत दिनों तक समाधिस्त रहे। इनके सारे शरीर को दामकों ने ढक लिया केवल आँखें ही चमकती रहीं। उनके इस आश्रम

में एक बार राजा शर्यांत की कन्या सुकन्या पहुँची और इनकी आँखों को जुगनू समझकर खोद दिया जिससे आँखों से रक्त बहने लगा। राजा शर्यांत क्षमा माँगने आये, पर स्त्रीरूप में सुकन्या को देने पर ही च्यवन क्षमा करने को प्रस्तुत हुए। च्यवन अति वृद्ध और जीर्णकाय थे। सब लोग सुकन्या पर हँसते थे। एक बार च्यवन के बुढ़ापे की हँसी उड़ाकर अश्विनीकुमारों ने सुकन्या को विचलित करना चाहा। कुमारों ने उनके सतीत्व की परीक्षा ली। एक बार एक सरोवर में कुमारों के साथ च्यवन को स्नान कराया गया। दिव्य देह धारण किये वे सभी एक ही रूप धारण किये हुए निकले। सुकन्या को उनमें से एक को चुनने को कहा गया। उसने इन्हीं को चुना इससे कुमार सुकन्या से अत्यंत प्रसन्न हुये और दिव्य औपधि से च्यवन को स्थायी यौवन प्रदान किया। यह औपधि अब भी च्यवनप्राश के नाम से प्रसिद्ध है। इस उपकार के कारण च्यवन ने इंद्र से कहकर कुमारों को यज्ञ भाग दिलवाया।

छंदोग माहिक—ब्रह्मवृद्धि का पौत्रक नाम।

छंदोगेय—अत्रिकुलोत्पन्न एक गोत्रकार।

छंदोदेव—इंद्र की कृपा से प्राप्त मतंग का नाम। यह उनका जन्मांतरगत नाम था।

छंगल—१. एक शाखा-प्रवर्तक ऋषि। २. दंडी मुंडीश्वर नामक शिवावतार के शिष्य।

छद्रुमकारिन्—भविष्य पुराण के अनुसार दलपाल के पुत्र। इन्होंने चौदह हजार वर्षों तक राज्य किया।

छमा—पृथिवी का एक पर्याय। दे० 'पृथिवी'।

छाया—सूर्य की स्त्री का नाम। सूर्य की पहली पत्नी का नाम संज्ञा था। उससे सूर्य को यम नामक एक पुत्र और यमुना नाम की एक कन्या उत्पन्न हुई। सूर्य के तेज को सहने में असमर्थ हो संज्ञा उन्हें छोड़कर चली गई और अपनी छाया से एक स्त्री बनाकर सूर्य के पास रख गई। अपनी संतति की देख-रेख का भार भी वह उसी पर छोड़ गई थी। सूर्य को छोड़कर वह अपने पिता विश्वकर्मा के यहाँ गई किंतु पति का त्याग करने के कारण पिता ने उसकी भर्त्सना की और पुनः पति के पास जाने की आज्ञा दी। पर वह क्रुस्वर्ष में चली गई और वहाँ अश्विनी के रूप में धर-उधर विचरण करने लगी। धर सूर्य को छाया से सारथि और शनैश्चर नामक दो पुत्र हुए। इसके बाद स्वभावतः छाया अपनी संतानों के सामने सपत्नी की संतानों की अवहेलना करने लगी। अप्रसन्न हो छाया ने यम को यह शाप दिया कि तुम्हारे पाँव गिर पड़ें। इस पर सूर्य ने छाया की बहुत भर्त्सना की। यम से कहा कि तुम्हारे पाँव का मांस कीड़े पृथ्वी पर ले जायेंगे। आवेश में आकर छाया ने अपनी सारी कथा कह सुनाई। संज्ञा के लुप्त होने से सूर्य बहुत दुखी हुए और विश्वकर्मा के पास गये। दिव्यचक्षु से यह जानकर कि वह अश्विनी के रूप में धर-उधर विचरण कर रही है, सूर्य स्वयं अश्वरूप में उसके पास गये और उसके साथ संभोग किया, जिससे अश्विनीकुमारों की उत्पत्ति हुई। जब सूर्य ने अपना

तेज कम करने का वचन दिया, तब फिर संज्ञा उनके पास गई। दे० 'संज्ञा', 'यम' तथा 'विवस्वान'।

छीतम-एक प्रसिद्ध वैष्णव भक्त। नामा जी के अनुसार ये एक दिग्गज वैष्णव भक्त थे तथा साधारण भक्तों की रक्षा में सदैव लगे रहते थे।

छीतर-एक प्रसिद्ध वैष्णव भक्त।

छीतर जी-एक प्रसिद्ध वैष्णव भक्त। ये कीलह जी के शिष्य थे।

छीरसागर-(छीर सागर) पुराणों के अनुसार सात सागरों में से एक। यह दूध से भरा माना जाता है। विष्णु इसी सागर में लक्ष्मी के साथ शेष-शय्या पर शयन करते हैं।

छीरस्वामी-एक प्रसिद्ध हरिभक्त तथा कथावाचक।

जंगारि-विश्वामित्र कुलोत्पन्न एक गोत्रकार का नाम।

जंगी-एक प्रसिद्ध वैष्णव भक्त। ये स्वामी अग्रदास जी के शिष्य तथा नामादास जी के गुरुभाई थे।

जंघ-रावण की सेना का एक प्रसिद्ध राक्षस।

जंघपूत-एक ऋषि का नाम। इन्होंने गोपी-भाव से कृष्ण की उपासना की जिससे गोपी रूप से इनका जन्म हुआ।

जंघाबंधु-युधिष्ठिर की सभा के एक ऋषि।

जंघुक-एक राजा। इनके कालिय नामक पुत्र तथा विजय-पिणी नामक कन्या थी। पृथ्वीराज के मथ से ये नर्मदा तट पर पार्थिव-पूजन करने चले गये और वहाँ शिव को प्रसन्न करके वर प्राप्त किया।

जंघुमालिन्-रावण के मंत्री महस्त के पुत्र का नाम। हनुमान ने जिस समय लंका में अशोक वाटिका विध्वंस की रावण की आज्ञा से ये वहाँ गये और हनुमान के हाथ से मारे गये।

जंभ-१. बलि का मित्र। यह जंभासुर के नाम से प्रसिद्ध है। जिस समय इंद्र और बलि से युद्ध हो रहा था और वज्र के प्रहार से बलि मूर्च्छित हो गये, उस समय इसने इंद्र से युद्ध किया और मारा गया। २. रावणपत्नीय एक राजा। ३. राम पत्नीय एक वानर।

जगतसिंह(नृपमणि)-प्रसिद्ध वैष्णव भक्त राजा। इनके पिता का नाम आनंद सिंह तथा माता का नाम वासी-देई था। ये बड़े वीर, प्रतापी तथा वद्रीनारायण के परम भक्त थे। इन्हें संतनृपति कहा गया है।

जगदंबा-दे० 'पार्वती' तथा 'सीता'।

जगदानंद-एक प्रसिद्ध वैष्णव भक्त तथा संन्यासी।

जगदीश दास-एक प्रसिद्ध मध्यकालीन वैष्णव भक्त।

जगान-एक प्रसिद्ध वैष्णव भक्त।

जगन्नाथ धानेश्वरी-प्रसिद्ध वैष्णव भक्त। ये चैतन्य महा-प्रभु के प्रधान शिष्यों में से थे। इनके सख्यन्ध में जन-धृति है कि इन्होंने छपने घर में ही भगवान का प्रकाश-मान रूप तीन दिन देखा और फिर चैतन्य के शिष्य हो गये। इनका नाम चैतन्य जी ने कृष्णदासी रखा था।

जगन्नाथदास-एक प्रसिद्ध वैष्णव भक्त। ये अग्रदास स्वामी के शिष्य तथा नामा जी के गुरु-भाई थे।

जगन्नाथ पारीप-रामानुजाचार्य के धी मार्ग के अनुयायी

एक प्रसिद्ध वैष्णव भक्त। ये पारीप ब्राह्मण श्री रामदास जी के पुत्र थे। नामा जी ने इन्हें 'धर्म की सीमा' कहा है। जघन-धृत्राक्ष के पुत्र का नाम।

जटायु-एक प्रसिद्ध वृद्धराज। ये दशरथ के मित्र थे। इनके पिता विनतानंदन, सूर्य-सारथि अरुण थे। इनके भाई का नाम संपाती था। दोनों प्रबल पराक्रमी थे और एक बार इन्होंने आकाश-मार्ग में उड़कर सूर्य का रथ रोकने का दुस्साहस किया था। जटायु पंचवटी में निवास करते थे। सीता का अपहरण कर आकाश-मार्ग से जाते हुये रावण से इन्होंने युद्ध किया और प्रारम्भ में रावण को पछाड़ भी दिया; किन्तु अंत में रावण ने इनके पंख काट डाले और समुर्षु अश्वत्था में छोड़कर भाग गया। सीता को खोजते हुये राम ने मूर्छितावस्था में इन्हें देखा। इन्होंने राम के सामने ही प्राण त्याग दिये। राम ने अपने हाथों से इनकी अंत्येष्टि क्रिया की।

जटासुर-१. एक प्रसिद्ध राक्षस। पांडवगण वनवास के समय जब वदिकाश्रम में रहते थे उस समय द्रौपदी के हरण करने की भावना से इसने युधिष्ठिर आदि को बंदी कर लिया। उस समय भीम मृगयार्थ अन्वत्र गये थे और अर्जुन इन्द्रलोक में थे। हरण करके जाते हुये मार्ग ही में इस भीम मिल गये और युद्ध में परास्त करके द्रौपदी आदि का उद्धार किया। इसके पुत्र अलंबुश ने भारत-युद्ध में कौरवों की ओर से युद्ध किया। २. युधिष्ठिर की सभा का एक राजा।

जटिन्-पाताल का एक जटाधारी सर्प।

जटिल-एक ऋषि जिन्होंने कृष्ण की उपासना करके गोपी का जन्म प्राप्त किया। एक बार शिव इनका रूप धारणकर ब्रह्मचारी वेप में शिव के लिए तपस्या करती हुई पार्वती के पास गये और शिव की अत्यंत निंदा की पर पार्वती के ऊपर उसका जब तनिक भी प्रभाव न पड़ा, तब संतुष्ट हो शिव ने अपना रूप दिखलाया।

जटिला-गौतम केवंश की एक स्त्री। इनके पति सप्तर्षि थे।

जटी मालिन्-एक शिवावतार का नाम। ये वाराहकल्पान्त वैवस्वत मन्वंतर में प्रकट हुये थे। इनके चार पुत्र थे- हिरण्यनाभ, कौशल्य, लोकाजी तथा प्रोधाव।

जठर-एक ऋषि। ये जनमेजय के सर्पयज्ञ में उपस्थित थे।

जड़ कौशिक गोत्री एक दुराचारी ब्राह्मण। एक बार जय के व्यापार करने बाहर गये तभी चौरों ने इनका रथ बर डाला और पूर्ण जन्म के पापों से ये पिशाच योनि को प्राप्त हुये। इनका पुत्र परम धार्मिक था। काशी जाकर उसने इनका विधिवत् अंतिम संस्कार किया जहाँ ये पिशाच हुये थे वहाँ गीता के तृतीय अध्याय का पाठ किया और तब इनकी मुक्ति हुई। मार्कंडेय पुराण में भी एक जड़ का उल्लेख है।

जड़ भरत-एक प्रार्थन राजा। परम विद्वान् तथा राज्ञः होते हुये भी ये सांसारिक वासनाओं से पीड़ा न मुदा सके थे। यानमय होने पर भी स्व-जात एक नृग शायक को पालकर उनसे अत्यंत स्नेह किया। जन-ेश्वर के स्थान में उसी का ध्यान करते हुए इन्होंने

फलस्वरूप पशु-योनि में उत्पन्न हुये। चौरासी योनियाँ भोगते हुये पुनः मनुष्य योनि में आये, किन्तु फिर भी इनकी जड़ता नहीं गई जिसके कारण ये जड़ भरत नाम से प्रसिद्ध हुये। परम विद्वान् होते हुये भी इन्हें लोग मूर्ख समझते थे और केवल भोजन देकर इनसे खूब काम लेते थे। एक बार राजा सौवीर ने इन्हें पालकी ढोने में लगाना चाहा। इसी अपमान से इन्हें आत्मज्ञान हुआ। पालकी ढोना इन्होंने अस्वीकार किया जिससे इनके ऊपर मार पड़ी, किन्तु फिर भी ये टस से मस न हुए। अंत में राजा सौवीर ने इन्हें पहिचाना और क्षमा मागते समय इनसे ज्ञानोपदेश प्राप्त किया। भरत ने भी ज्ञानोद्देश द्वारा मोक्ष प्राप्त किया।

जटु (सं० यटु)-देवयानी के गर्भ से उत्पन्न महाराज ययाति के ज्येष्ठ पुत्र। इनके छोटे भाई का नाम तुर्वसु मिलता है। इनके पिता ने अपने श्वसुर शुक्राचार्य के शाप से जराग्रस्त होकर एक बार इनसे कहा था कि मुझे अपना यौवन दे दो। एक सहस्र वर्ष भोग करने के बाद मैं उसे तुम्हें वापस कर दूँगा। इन्होंने इस विषय में नकारात्मक उत्तर दिया था, जिससे क्रोधित होकर इनके पिता ने कहा था: "तुम्हारा तथा तुम्हारे वंशजों का आज से राज्य पर कोई अधिकार नहीं है।" फिर इनके पिता ने अपने राज्य का दक्षिण भाग इन्हें दिया था उस पर इन के वंशजों ने भी राज्य किया। कृष्ण का जन्म इन्हीं के वंश में हुआ था। यही यादव जाति के प्रथम पुरुष कहे जाते हैं।

जटुनाथ (सं० यटुनाथ)-यदुवंश के सबसे अधिक प्रतिभाशाली व्यक्ति होने के कारण ही संभवतः कृष्ण को इस संज्ञा से संबोधित किया गया है। दे० 'कृष्ण'।

जनक-अपने अध्यात्म तथा तत्त्वज्ञान के लिए प्रसिद्ध एक विख्यात पौराणिक राजा, जो राजा निमि के पुत्र थे। एक समय निमि ने कई सौ वर्षों में समाप्त होनेवाले एक महायज्ञ की तैयारी की और उसका पौरोहित्य करने के लिये वशिष्ठ से अनुरोध किया, परन्तु उस समय वह इंद्र के यज्ञ में व्यस्त थे। वशिष्ठ ने उनसे इंद्र का यज्ञ पूरा हो जाने तक के लिए रुक जाने को कहा। निमि मौन रहे और वहाँ से चले आये। वशिष्ठ ने समझा कि निमि ने सुभाव मान लिया; पर निमि ने गौतम आदि ऋषियों की सहायता से यज्ञ आरम्भ कर दिया जिससे रुष्ट हो वशिष्ठ ने इन्हें शाप दिया, प्रत्युत्तर में निमि ने भी शाप दिया। दोनों के शरीर भस्म हो गये। ऋषियों ने एक विशेष उपचार से निमि का शरीर यज्ञ समाप्ति तक सुरक्षित रखा। निमि निस्संतान थे। अतएव ऋषियों ने अरणि से इनके शरीर का मंथन किया जिससे एक पुत्र उत्पन्न हुआ। मृतदेह से उत्पन्न होने के कारण यही पुत्र जनक कहलाया। शरीर मंथन से उत्पन्न होने के कारण इनका एक नाम मिथि भी पड़ा। इन्होंने ही मिथिलापुरी बसाई। इनकी सत्ता-इसवीं पीढ़ी में सीरध्वज जनक उत्पन्न हुये जिनकी कन्या सीता थीं जो रामचंद्र की पत्नी हुईं। राजा निमि का मास सबकी पलकों पर माना जाता है।

जनगोपाल-एक प्रसिद्ध वैष्णव भक्त तथा कवि। ये 'नर-हृद्' नामक गाँव के निवासी थे। ये भागवत के विशेषज्ञ थे। इनसे आविष्कृत 'जत्ररी' नामक एक छंद की चर्चा नाभादास जी ने की है।

जन दयाल-एक प्रसिद्ध वैष्णव भक्त तथा कवि। जनदेव-जनक के वंशज एक ज्ञानी राजा। दे० 'धर्मध्वज'। जन भगवान्-एक प्रसिद्ध हरि-भक्त तथा कथावाचक।

जनमेजय-१. एक महान् राजा। अर्जुन के प्रपौत्र, तथा परीक्षित और माद्रवती के पुत्र। ब्रह्महत्या-दोष से मुक्त होने के लिये इन्होंने वैशंपायन से महाभारत सुना था। इनके पिता तक्षक नामक सर्प से मारे गये, अतएव सर्पों का नाश करने के लिये इन्होंने एक महान् सर्प-यज्ञ किया जिसमें समस्त सर्प और नाग मंत्राहृत होकर यज्ञाग्नि में भस्म हो गये। इनका और आस्तीक ऋषि का संवाद प्रसिद्ध है। इन्हें सरमा ने शाप दिया था। २. नीप के वंशज एक कुलघातक राजा। ३. राजा दुर्मुख के पुत्र और युधिष्ठिर के सहायक। ४. चंद्रवंशी राजा कुरु के पुत्र। इनकी माता वाहिनी थीं। ५. राजा कुरु के पुत्र। इनकी माता कौशल्या तथा स्त्री अनंता थीं। इनके पुत्र का नाम प्राचीन्वस था। ये भी ब्रह्महत्या पाप से भागी हुए थे और यज्ञ द्वारा पाप-मुक्त हुए थे। ६. चंद्रवंशी राजा अविचित् के वंशज। ७. एक नाग-विशेष।

जनशंकराक्षय-अश्वपति कैकेय, अरुण औपवेशि तथा उद्दालक आरुणि के समकालीन थे। इन्होंने उद्दालक से तत्त्वज्ञान की शिक्षा पाई थी।

जनादेन-प्रसिद्ध मध्यकालीन वैष्णव भक्त।

जमदग्नि-एक प्रसिद्ध महर्षि। ऋग्वेद में इनका कई बार उल्लेख हुआ है। ये महर्षि ऋचीक के पुत्र थे। इनका विवाह राजा प्रसेनजित की कन्या रेणुका के साथ हुआ था। एक दिन इनकी स्त्री गंगा-स्नान करने गईं। वहाँ उन्होंने राजा चित्ररथ को अपनी स्त्रियों के साथ जलक्रीड़ा करते देखा जिससे उनका मन विचलित हो गया और चित्ररथ के साथ व्यभिचार में प्रवृत्त हुईं। जब ये लौटीं तो ज्ञानबल से जमदग्नि सब जान गये। एक-एक करके पुत्रों को उनका वध करने को कहा; किन्तु पिता के क्रोध से सब जड़ हो गये। अंत में पिता की आज्ञा से परशुराम ने माता का वध कर डाला। इससे प्रसन्न होकर उन्होंने वर मांगने को कहा। परशुराम ने माता को पुनर्जीवित करने का वर मांगा। जमदग्नि ने ऐसा ही कर दिया। जमदग्नि की मृत्यु कार्तवीर्य के द्वारा हुई जब कि ये ध्यानमग्न अवस्था में थे। ये भी विश्वामित्र के विरोधी थे।

जमराज (सं० यमराज)-सूर्य के पुत्र तथा यमुना के भाई। ऋग्वेद में इन्हें पितृ-लोक में जानेवाला प्रथम पिता कहा गया है। एक स्थान पर यम तथा यमी (यमुना) से पारस्परिक बातचीत भी है जिसमें यमी इससे अपने साथ संभोग करने के लिए कह रही है। ऋग्वेद में यम का पाप तथा पुण्य के निर्यायक का भयकर रूप कहीं भी नहीं है, फिर भी भयंकरता है। उनके साथ दो भीषण कुत्तों का वर्णन मिलता है जिनके चार आँखें हैं तथा चौड़ी-

सी नाकें हैं। ये यम निवास-स्थान के द्वार पर खड़े रहते हैं और पथचारियों के हृदय में भय उत्पन्न करते हैं। मनुष्यों के बीच भी ये अपने स्वामी के संदेह-बाहकों के रूप में देखे जाते हैं। महाकाव्यों में इनको संज्ञा के गर्भ से उत्पन्न सूर्य-पुत्र कहा गया है। पुराणों में इनका मृत आत्माओं के बाद पुण्य के निर्णायकों के रूप में वर्णन है। मृत्यु-लोक में अपने शरीर-रूपी परिधान को छोड़कर आत्मा यमलोक जाती है और वहाँ यम अपने लेखक चित्रगुप्त की सहायता से उसके जीवन का विवरण ज्ञात कर उसके संबंध में अपना निर्णय सुनाते हैं। यम के दूत जो आत्माओं को मृत्यु-लोक से ले जाते हैं, बड़े भयंकर वताए गए हैं। यम की पत्नियों का नाम हेममाला, सुशीला तथा विजया मिलता है। इनका निवास-स्थान पाताल में स्थित यमपुर कहा जाता है। इनके दो मुख्य अनुचरों का नाम चंड अथवा महाचंड तथा काल-पुरुष है। यम दक्षिण के दिक्पाल भी कहे जाते हैं। कुंती के गर्भ से उत्पन्न युधिष्ठिर इन्हीं के पुत्र थे।

जमल—(यमल-अर्जुन)—नलकृवर और मणिश्रीव नामक कृवर के दो पुत्र नारद के शाप से यमलार्जुन के वृक्ष में परिणत होकर गोकुल में उगे। नारद के वरदान के कारण जड़ वृक्ष होने पर भी पूर्व जन्म की बातें इन्हें स्मरण थीं। बाल कृष्ण के ऊधम से ऊव कर एक बार यशोदा ने उन्हें ऊखल में बाँध दिया था। संयोग से श्री कृष्ण ऊखल को ढसीटते हुये वहाँ जा पहुँचे जहाँ यमलार्जुन वृक्ष थे। श्रीकृष्ण का चरण स्पर्श होते ही वे दोनों वृक्ष लुप्त हो गये और उनके स्थान पर दो सिद्ध पुरुष उपस्थित हुये जो श्री कृष्ण की स्तुति करते हुए उत्तर की ओर चले गये।

जमुना—१. एक प्रसिद्ध मध्यकालीन हरिभक्ति-परायणा महिला। २. दे० 'यमुना'।

जयंत—१. एक प्रसिद्ध मध्यकालीन वैष्णव भक्त। २. धी रामचन्द्र के एक सचिव तथा भक्त। ३. पांचाल देश के एक क्षत्रिय राजा। ये पांडव सेना के महारथी थे। ४. पौलोमी द्वारा इंद्र के एक पुत्र का नाम। देवासुर-संग्राम में इन्होंने कार्तिक नामक राक्षस का वध किया था। ५. राजा दशरथ के आठ महाशक्तियों में से एक। ६. अज्ञातवास के समय भीम का दृग नाम। ७. अष्ट षसुधों में से एक। ८. हादश आदिव्यों में से एक।

जयंती—राजा शपभद्र की ग्नी। इनके गर्भ से शपभद्र को निम्नानवे पुत्र उत्पन्न हुए और प्रत्येक नौ-नौ चंड पृथ्वी के स्वामी हुये। इनके ज्येष्ठ पुत्र का नाम भरत था जो भरत-वंश के स्वामी हुये थे। भरत परम धार्मिक, शास्त्रज्ञ और परम पराक्रमी राजा हुए। इन्होंने बहुत दिनों तक अपने स्वामी के साथ तप किया था। दे० 'भरत' तथा 'शपभद्र'।

जय—१. विजय का भाई। ये दोनों भाई विष्णु के द्वारपाल थे। एक बार इन्होंने सनकादिकों को विष्णु के पाम जानने से रोका जिसमें क्रुद्ध होकर उन्होंने शाप दे दिया। बहुत प्रार्थना करने पर उन्होंने कहा कि विष्णु में गा तो शत्रु भाव या श्लिष-भाव करके ही ये मुक्त हो सकते हैं। चौर-

गति पाने के लिए इन्होंने शत्रुता को ही श्रेयस्कर समझा अतः ये सतयुग में हिरण्याक्ष-हिरण्यक्षकशिषु, और त्रेता में रावण-कुम्भकर्ण के रूप में प्रकट हुए। वायु मत से जय विजय का पुत्र था। दे० 'विजय'। २. उत्तानपाद वंश में ध्रुव के पुत्र का नाम। ३. विदेह वंश में धृत नामक जनक के पुत्र। ४. धृतराष्ट्र के एक पुत्र। भीमसेन द्वारा इनकी मृत्यु हुई।

जयसेन—१. जरासंध का पुत्र। यह भरत-युद्ध में पांडवों की ओर से लड़ा था। २. अज्ञातवास के समय नकुल का दृग नाम। ३. सार्वभौम राजा का पुत्र। इनकी माता सुनंदा तथा श्री सुश्रुवा थीं। इनके पुत्र का नाम श्वाचीन था। ४. धृतराष्ट्र का एक पुत्र।

जयदेव—प्रसिद्ध संस्कृत कवि। इनकी माता का नाम वामा देवी तथा पिता का नाम भोजदेव था। बंगाल के वीर-भूमि जिले में केंदुला नामक स्थान इनकी जन्म-भूमि थी। इनका 'गीत गोविंद' संगीत और साहित्य का अनुपम ग्रंथ है। भाषा-लालित्य और काव्य-माधुर्य के लिये यह कृति प्रसिद्ध है।

जयद्रथ—१. महाभारत युद्ध में दुर्योधन-पक्षीय एक राजा। शंकर से इन्हें यह वर मिला था कि अर्जुन के अतिरिक्त और कोई इन्हें युद्ध में नहीं हरा सकता है। एक बार जब अर्जुन संसप्तों की ओर युद्ध करने चले गये उस समय द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह की रचना की जिसकी भेदन-क्रिया केवल अर्जुन को ज्ञात थी। अर्जुन-पुत्र अभिमन्यु ने गर्भ में ही भेदन-क्रिया सीख ली थी; लेकिन लौटने की विधि नहीं सीख पाये थे। चक्रव्यूह के समय यह निश्चित हुआ कि जब अभिमन्यु व्यूह तोड़ देगा तो अन्तर् पांडव विजय कर लेंगे। जयद्रथ प्रथम द्वार पर था। इसलिये अभिमन्यु के अतिरिक्त चक्रव्यूह में कोई प्रवेश न कर सका। अभिमन्यु चक्रव्यूह में मारा गया। जयद्रथ उसका मूल कारण ठहराया गया। अर्जुन ने दूसरे दिन नृयास्त के पूर्व जयद्रथ के मारने की प्रतिज्ञा, शन्यथा स्वयं चिन्ता में जल जाने का प्रण किया। संध्या तक जयद्रथ टिपा रहा। कृष्ण ने सूर्य को अपने चक्र से एक कर संध्या कर दी। इस संध्या काल में जब अर्जुन चिन्ता यनाने लगे तब जयद्रथ उन्हें चिदाने के लिए निकला। उसी क्षण श्रीकृष्ण ने चक्र का आवरण हटा लिया। सूर्य का प्रकाश सबको दिवाई पड़ा। अर्जुन ने जयद्रथ का वध किया। उसका मिर उठकर कुक्षेत्र के निकट ही तपस्या करते हुये उसके पिता की गोद में जा गिरा। तपस्या करने के बाद ज्योंही वह उठे त्योंही जयद्रथ का सिर पृथ्वी पर गिर पड़ा जिसमें उसके पिता का सिर टुकड़े-टुकड़े हो गया क्योंकि उसके पिता ने जयद्रथ को परदान दिया था कि जिसके द्वारा जयद्रथ का सिर पृथ्वी पर गिरगा उसका मिर टुकड़े-टुकड़े हो जायगा। इसी कारण अर्जुन ने जंकर द्वारा पाये गये पाशुपत बाण से इसका सिर उड़ा दिया था। २. राम की सभा का एक राजा।

जयद्वल—अज्ञातवास के समय साहदेव का दृग नाम। **जयमल**—१. नैऋत के राजा, एक प्रसिद्ध वैष्णव भक्त। गाभा जी ने इनकी मीराबाई का भाई कहा है। २.

मध्यकालीन भक्त राजा । एक बार प्रबल शत्रु ने उसे बेर लिया । इन्होंने कहा, 'प्रभु सब भला ही करेंगे' और सबको रणक्षेत्र में सुसज्जित होने की आज्ञा दी । स्वयं तैय्यार हो अपना युद्धाश्व मँगवाया । जब उसे लाया गया तब वह पसीने से तर था । फिर पता लगाने पर मालूम हुआ कि कोई श्याम वर्ण वीर अकेले सारी शत्रु सेना को परास्त करके चला गया । इस प्रकार प्रभु ने अपने भक्त की रक्षा की । देखिए 'कामध्वज', 'माल-भक्त' तथा 'देवा' ।

जयरात-कर्लिंग के राजकुमार का भाई । भारत-युद्ध में यह कौरवों के पक्ष में था ।

जयशर्मन-एक प्रसिद्ध ब्राह्मण । इंद्रप्रस्थ के राजा अर्नंग-पाल ने अपनी चंद्रकांति नाम की कन्या इन्हें ब्याह दी थी । ये जय हिमालय पर समाधिस्थ थे तो इन्हें राज्योंपभोग की लालसा उत्पन्न हुई । देहत्याग कर ये चंद्रकांति के गर्भ से उत्पन्न हुये और जयचंद्र के नाम से प्रसिद्ध हुये । देखिए 'जयचंद्र' ।

जयसिंह-अजमेर के चौहान राजा के वंशोत्पन्न मद्रदेव के पुत्र । इन्होंने ५० वर्षों तक राज्य किया ।

जयसेन-मत्स्य, वायु तथा महाभारत के अनुसार कैकेयी के द्वारा सार्वभौम के पुत्र । इनका नाम जयत्सेन भी प्रसिद्ध है । विष्णुपुराण के अनुसार ये अहीन के पुत्र थे । जयानीक-१. द्रुपदपुत्र पांचाल । महाभारत-युद्ध में ये द्रोण पुत्र अश्वत्थामा द्वारा मारे गये । २. मत्स्य देश के राजा जो विराट के भाई थे ।

जयाश्व-१. जयानिक के भाई और द्रुपद के पुत्र का नाम । इनकी मृत्यु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा के हाथ से हुई । २. विराट के भाई ।

जयेश-विराट नगर में अज्ञातवास के समय भीम का गुप्त नाम ।

जरत्कारु-१. नागराज वासुकि के बहनोई एक प्रसिद्ध सर्प का नाम । इनकी स्त्री का नाम भी जरत्कारु था । इनके पुत्र का नाम 'आस्तीक' था । एक बार इनकी पत्नी ने इन्हें सोते से जगा दिया, जिससे अप्रसन्न हो, ये उसे छोड़ कर चले गये । चलते समय इन्होंने 'अस्ति' (गर्भ है) कहा था । इस कारण जो संतान हुई उसका नाम आस्तीक पड़ा । २. नागराज वासुकि की भगिनी और जरत्कारु की स्त्री का नाम ।

जरदुगौरी-वासुकि की भगिनी जरत्कारु का नामांतर । दे० 'जरत्कारु' ।

जरसु-वसुदेव की रथराज्ञी नाम की स्त्री से उत्पन्न द्वितीय पुत्र का नाम । क्षत्रिय कुलोत्पन्न होकर भी दुष्कर्मों के कारण ये व्याध हो गये थे । इन्हीं के वाण से श्रीकृष्ण की मृत्यु हुई । कालांतर में भक्तलतीर्थ में इनकी मृत्यु हुई । इनका नामांतर 'जरा' है । ये पूर्व जन्म में बालि थे ।

जयस्तोभ-एक प्रसिद्ध राजा । ये कुष्ठ रोग से पीड़ित थे । सूर्यदेव की श्राधना से रोगमुक्त हुये ।

जरा-एक राजसी का नाम । यह जरासंध की उपमाता थी । राजा बृहद्रथ की दो रानियों को आधा-आधा पुत्र हुआ जिससे राजा ने दोनों को श्मशान भूमि में फेंकवा

दिया । यह राजसी श्मशान भूमि में रहती थी । इसने दोनों भागों को जोड़कर पूर्ण कर दिया । पूर्णाङ्ग बनाकर राजा से कहा कि जब तक इसके बीच की संधि नहीं टूटेगी तब तक इसे कोई मार नहीं सकता । दे० 'जरासंध' ।

जरासंध-१. मगधाधिपति बृहद्रथ के पुत्र का नाम । बृहद्रथ ने पुत्र-प्राप्ति के लिए चंद्र कौशिक की श्राधना की । एक फल देकर राजा से कहा कि इसे रानी को खिला दो । राजा के दो रानियाँ थीं । अतः फल को बीचोबीच से काटकर इन्होंने एक-एक टुकड़ा रानियों को दे दिया । समय पर दोनों रानियों को आधा-आधा पुत्र हुआ राजा ने उन्हें फेंकवा दिया किंतु श्मशान निवासनी 'जरा' नाम की राजसी ने दोनों को जोड़ (संधि) दिया । इसलिए उसका नाम जरासंध पड़ा । कालांतर में यह एक महायुद्धा हुआ । अस्ति और प्राप्ति नाम की कंस की दोनों कन्याएँ इसी को ब्याही थीं । कृष्ण के द्वारा कंस के मारे जाने के बाद जरासंध ने कृष्ण को अपने आक्रमणों के कारण मथुरा छोड़ने के लिए बाध्य किया । कृष्ण द्वारा कंस में रहने लगे । युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ के पूर्व जरासंध और भीम में द्वन्द्व युद्ध कराया गया । कृष्ण के संकेत से भीम ने जरासंध के शरीर की संधि तोड़ दी और वह मर गया । दे० 'जरा' । २. धृतराष्ट्र का एक पुत्र ।

जरितारि-मंदपाल ऋषि के पुत्र । इनकी माता का नाम जरिता शाङ्गी था ।

जरिता शाङ्गी-१. एक मंत्रद्रष्टा । २. मंदपाल ऋषि की पत्नी ।

जरुथ-एक राजस । यह जल में रहता था । वशिष्ठ मुनि ने अग्नि प्रज्वलित करके इसे भस्म किया था ।

जर्तिका-बाह्लीकों का एक गण ।

जलंधर-कश्यप कुलोत्पन्न एक गोत्रकार ।

जलंधरा-काशिराज की कन्या व भीमसेन की पत्नी । इसके पुत्र का नाम शर्वत्रात था ।

जल जातूकर्ण्य-एक प्रसिद्ध ब्राह्मण पुरोहित का नाम । यह काशी, विदेह तथा कोसलाधीश के पुरोहित थे । दे० 'जातूकर्ण्य' ।

जलद-अत्रि कुलोत्पन्न एक गोत्रकार का नाम ।

जलसंध-१. धृतराष्ट्र के एक पुत्र का नाम जिसे भीम ने मारा था । २. मगध के एक प्राचीन राजा । महाभारत युद्ध में ये दुर्योधन के पक्ष में थे और सात्यकी के हाथ से इनकी मृत्यु हुई । यह बड़े शूरवीर तथा पवित्रकर्मा थे । ३. अंगिरा कुलोत्पन्न एक ब्रह्मर्षि । इनका नामांतर जलसंधि था ।

जलेफ-एक पुरुवंशी राजा ।

जल्प-तामस मन्वंतर में सप्तर्षियों में से एक ।

जव-दंडकारण्य वासी एक राजस । विराध नामक राजस इसी का पुत्र था ।

जवीनर-भद्राश्व के पुत्र का नाम । भागवत में इनका नाम यवीनर है । अन्यत्र प्रवीरन नाम से भी ये प्रसिद्ध हैं ।

जसवंतसिंह-एक प्रसिद्ध वैष्णव भक्त और जयमाल सिंह

नाम के विख्यात राजपूत भक्त के छोटे भाई । ये हरिदास जी के शिष्य थे ।

जस गोपाल-एक प्रसिद्ध वैष्णव भक्त । इन्होंने चारों धामों में हरिभक्ति का प्रचार किया ।

जसू स्वामी-एक अनन्य हरिभक्त । एक बार ब्रजवासी इनके ब्रैल खोल ले गये । इन्हें दुखी देख श्री कृष्णजी ने इन्हें दो नये ब्रैल भेज दिये जिससे ये हल जोतते रहे । नाभा जी ने इस घटना को ब्रह्मा द्वारा वच्छ-हरण की कोटि में रक्खा है ।

जसोधर-एक प्रसिद्ध वैष्णव भक्त । इनकी उत्पत्ति दिवदास के वंश में हुई थी । भक्तमाल में इनके विषय में एक विलक्षण कथा मिलती है । कहा जाता है कि एक बार इनके यहाँ 'रामायण' की कथा हो रही थी । विश्वामित्र के यज्ञ-रक्षण के लिए राम-लक्ष्मण जा रहे थे । इस प्रसंग को सुन, भाव विभोर हो ये कहने लगे—'मैं भी साथ चलूँगा ।' यह कहकर ध्यान में तन्मय हो गये । प्रभु ने इनको प्रत्यक्ष दर्शन दिये और कहा—'तुम यहीं रहो, यज्ञ-रक्षण करके हम यहीं आते हैं ।' यह वियोग वचन सुन इन्होंने अपने प्राण ही न्योछावर कर दिये ।

जहु-भागवत के अनुसार सत्यहित के पुत्र का नाम ।

जहु-१. पुरुरवा वंश में उत्पन्न एक प्रसिद्ध राजर्षि । इनके पिता का नाम अजमीड तथा माता का नाम केशिनी था । एक बार ये यज्ञ कर रहे थे । उसी समय भगीरथ गंगा को लेकर उसी मार्ग से निकले । इनका सारा आश्रम जल-मग्न हो गया । घुब हो इन्होंने गंगा को पी लिया । भगीरथ आदि के बहुत प्रार्थना करने पर इन्होंने अपनी जाँघ से गंगा को निकाल दिया । इसी कारण गंगा का एक नाम जाह्नवी पड़ा । गंगा इनसे विवाह करना चाहती थी; किंतु इन्होंने युवनाश्रव की कन्या कावेरी का पाणि-ग्रहण किया । इनके पुत्र का नाम पुरु था । २. विश्वामित्र-वंश के आदि पुरुष 'जाह्नव' विश्वामित्र का पौत्रिक नाम है । 'जाह्नवी' शब्द ऋग्वेद में आया है जिसका अर्थ जहु की स्त्री तथा जहु का वंश दोनों हो सकता है ।

जांबवंत-अक्षराज जांबवान ब्रह्मा के पुत्र थे । वेता में राम-रावण युद्ध में इन्होंने राम की सहायता की थी । द्वार में स्वयंसेवक मणि के लिये श्रीकृष्ण ने इनसे युद्ध किया । अंत में स्वयंसेवक मणि के साथ-साथ इन्होंने अपनी कन्या जांबवती श्रीकृष्ण को साँप दी । संभवतः जांबवान कोई प्रतापी अनाय राजा थे । नाभाजी ने राम के अग्रगण्य भक्तों के साथ इनका उल्लेख किया है । दे० 'जांबवती' । जांबवती-अक्षराज जांबवान की कन्या जो कृष्ण को व्याही थी । यह कृष्ण की अष्ट पटरानियों में से एक थी । इनके साथ, सुमित्र, वसुमत, पुरजित, शतजित, सएजित, पित्रय, चित्रवंत, अविद तथा प्रतु नामक दस पुत्र तथा एक कन्या थी । अंत में इन्होंने अग्नि समाधि ली थी ।

जाड़ा-एक प्रसिद्ध वैष्णव भक्त । ये संभवतः 'गोर्जी' आदि पंडुंघे हुए साधकों के समरूप थे ।

जातकि एक राजा । यह चंद्र विनाशन अनुर का संशय-कार था ।

जातिस्मर-(कीट) एक कीड़ा जिसे पूर्व जन्म का वृत्तांत याद था । इससे व्यास का संवाद हुआ था । व्यास के उपदेशानुसार यह युद्ध में मरकर मोक्ष को प्राप्त हुआ । जातकएर्य-एक प्रसिद्ध पुरोहित । यह कान्यायनी के पुत्र तथा असुरायण और यास्क के शिष्य थे । इनके शिष्य पारागर्व थे । अलीक्यु तथा वाचस्वत्य आदि ऋषि इनके समकालीन थे । संधि-नियमों के संबंध में इन्होंने विचार किया था । सांख्यायन श्रौत सूत्रों में इनका नाम जात-कर्ण कहा गया है । आचार तथा श्राद्ध के संबंध में इन्होंने सूत्र लिखे हैं । श्रौतसूत्रों में एक उपस्मृतिकार के रूप में इनका उल्लेख है । इनका समय २००-४०० ई० के बीच में अनुमान किया जाता है ।

जानुजंघ-एक राजा ।

जावालि-१. एक प्रसिद्ध ऋषि । महाराजा दशरथ के मंत्री और पुरोहित । ये एक महान् दार्शनिक थे । इन्होंने राम को निज मतावलम्बी बनाने की चेष्टा की किंतु राम ने इनके मत का विरोध किया । ये एक नैयायिक थे । किसी विशेष कारण से इन्होंने अनीदवरवाद संबंधी अपने मत प्रकट किये । वास्तव में ये एक बड़े हरिभक्त थे । नाभादास जी ने इन्हें प्रमुख हरिभक्तों की श्रेणी में रक्खा है । २. मंदराचल पर तपस्या करनेवाले एक ऋषि । इनके एक लाख शिष्य थे । ऋतुंभर नामक एक निस्संतान राजा को इन्होंने विष्णुसेवा, गौसेवा और शिव की आराधना का उपदेश दिया था । एक बार ये वन में गये । वहाँ इन्होंने एक परम सुन्दरी स्त्री को तपस्या करते देखा । उससे प्रदम करना चाहा किंतु उसका ध्यान नहीं हटा । अंत में इन्हें मालूम हुआ कि वह कृष्ण की आराधना में मग्न थी । इनके मन में कृष्णोपासना की भावना जगी और गोकुल में चित्रगंधा नामक गोपी के रूप में ये जन्मे । ३. ऋगु-कुनो-त्पन्न एक ऋषि स्मृतिकार । हेमाद्रि और हलायुध ने इन्हें आधार माना है । ४. एक प्रसिद्ध ऋषि । ये विश्वामित्र के एक पुत्र थे ।

जालंधर-(जलंधर) शिव के तृतीय नेत्र की अग्नि से उत्पन्न एक अति पराक्रमी राक्षस । एक समय इंद्र शिव के दर्शन के लिये कैलाश गये । वहाँ उन्होंने एक भयंकर पुरुष को बैठे देखा । उससे उन्होंने पूछा कि तू कौन है । कुछ भी उत्तर न मिलने पर देवराज ने अपना वज्र-प्रहार किया जिस कारण उस पुरुष का कंठ नीलवर्ण हो गया और भाल स्थित तृतीय नेत्र खुल गया । अग्नि का ज्वालन निकल कर इंद्र को भस्म करने लगी । इंद्र की सन्नत में श्रवण था गया कि वे ग्याहान् शिव हैं । इंद्र प्रार्थना करने लगे । शंकर ने वह अग्नि समुद्र में फेंक दी जिससे एक बालक उत्पन्न हुआ और घोर रव के साथ रोने लगा । वह रव इतना भयानक था कि सारा संसार दहना ही गया । द्राक्ष के शाने पर समुद्र ने उन्हें बालक को नीप कर उसकी रक्षा करने के लिये कहा । द्राक्षा ने उसे अपनी गोद में ले लिया पर गोद में लेते ही, उसने अपने अंग से मल्ला की मूँट नोचनी शुरू की कि उरते नेत्रों से जल बहने लगा । तब द्राक्षा ने उसका नाम जालंधर रखा दिया और वर दिया कि शिव के सिवाय उसे

मार न सके । मतांतर से इसकी उत्पत्ति स्वर्ग-नदी गंगा तथा समुद्र के संयोग से हुई । पैदा होते ही यह त्रैलोक्य भेदी भयानक स्वर से रोने लगा । संसार कांपने लगा । ब्रह्मा स्वयं आये और उसे असुरों का राज्य दिया । वर दिया कि वह स्वर्ग और पाताल का राजा हो । इसने इन्द्र को परास्त किया । मय दैत्य ने इसकी राजधानी की रचना की । शुक्राचार्य ने इसे संजीवनी विद्या दी । इसने वृन्दा नामक कन्या से विवाह किया था । देवताओं ने इसके अत्याचारों से तंग आकर विष्णु से प्रार्थना की । लक्ष्मी के रोकने पर भी विष्णु गये । बहुत दिनों तक युद्ध होता रहा । अंत में प्रसन्न हो विष्णु वरदान देकर चले गये । कालांतर में इसने नारद से पार्वती की सुन्दरता सुनी । पार्वती को स्त्री रूप में ग्रहण करने की इसमें इच्छा उत्पन्न हुई । निशुंभ, शुंभ, काल-नेमि आदि राक्षसों को साथ ले इसने कैलाश पर आक्रमण किया । शङ्कर की सेना से पार न पाकर गांधर्वी विद्या से शिव को मोहित कर स्वयं शिव रूप धारण कर पार्वती के पास गया । पार्वती को जब यह ज्ञात हुआ कि यह राक्षस है, तब वह गुप्त हो गईं और विष्णु की शरण में गईं । जालंधर को यह वर था कि जब तक उसकी पत्नी का पातिव्रत धर्म नष्ट नहीं होगा तब तक कोई उसे मार नहीं सकेगा । विष्णु ने जालंधर का रूप धारण करके उसका सतीत्व नष्ट किया । ज्ञात होने पर वृन्दा ने विष्णु को श्राप दिया कि त्रेतायुग में उनकी पत्नी राक्षस के द्वारा अपहृत की जायेगी और वह वन-वन भटकते फिरेंगे । वृन्दा ने अपने पति को प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की । जिस स्थान पर उसने तपस्या की थी, उसका नाम वृन्दावन हो गया । एक बार फिर उसे पति के दर्शन हुए और अंत में विष्णु ने चक्र से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया । इसके शव के स्थान पर एक अपूर्व तेज निःसृत हुआ जो शिव के तेज में मिल गया । वृन्दा ने अग्नि में प्रवेश किया ।

जालाधि-भृगुकुलोत्पन्न एक गोत्रकार का नाम ।

जालमती-म्लेच्छराज वादल की कन्या । इसके वाल्मिक नामक पुत्र ने बड़ी प्रसिद्धि प्राप्त की थी । वह नागपूजा में बहुत तत्पर रहता था ।

जालवती-एक देवकन्या । इसके ऊपर मोहित हो शरद्वत का रेतस्खलन हो गया था जिससे कृप और कृपी का जन्म हुआ । दे० 'कृप' ।

जितराम-शकुनि नामक ऋषि के पुत्र । यह अत्यंत विरक्त थे और संन्यस्त रूप से मधुवन नामक स्थान में एकांत वास करते थे ।

जितवती-उशीनर की एक कन्या का नाम । यह घू नामक वसु की पत्नी थी ।

जितव्रत-हविधीन के पुत्र । इनकी माता का नाम हविधीनी था ।

जितशत्रु-एक ऋषि ।

जितारिमा-एक विरवदेव ।

जितारि-आवेष्टित नामक विख्यात सूर्यवंशी राजा के एक पुत्र का नाम ।

जितवन् शैलिन-शिलीन ऋषि के पुत्र । ये शैलिन नाम से भी प्रसिद्ध हैं । ये जनक तथा याज्ञवल्क्य के समकालीन थे और वाग्देवता को ब्रह्म मानते थे । इनके भाई का नाम जिन था ।

जिन-दे० 'जित्वनशैलिन' ।

जिष्णु-१. विष्णु, इन्द्र तथा अर्जुन का नामांतर । २. भौत्य मन्वंतर में मनु के पुत्र । ३. महाभारत युद्ध में पांडवों के एक मित्र राजा जिन्हें कर्ण ने मारा था ।

जीमूत-१. एक मल्ल जिसे विराट के यहाँ अज्ञातवास काल में भीम ने मारा था । २. भीम के एक पुत्र का नाम । ३. भागवत, विष्णु तथा मत्स्य के अनुसार व्योम के पुत्र ।

जीमूतवाहन-१. यह पूर्व जन्म में मध्य देश के अधीश्वर शूरसेन नामक राजा थे । २. शब्दार्थ = जीमूत (वादल) जिसके वाहन हैं । इन्द्र की एक उपाधि । इस नाम के कई व्यक्ति हैं, जिनमें 'दायभाग' के लेखक प्रसिद्ध हैं । जीवती-परशु नामक एक वैश्य की स्त्री का नाम । युवावस्था में ही इन्हें वैधव्य प्राप्त हुआ और कालांतर में इसने वैश्यावृत्ति स्वीकार कर ली । पर एक समय इसके मुख से 'राम' ये दो अक्षर निकले जिसके प्रभाव से यह पाप-मुक्त हो अपने जार के सहित विष्णुलोक को चली गई ।

जीव गुसाई-प्रसिद्ध वैष्णव भक्त, विद्वान् तथा लेखक । ये वैष्णव 'भक्त बंधु' रूपसनातन के भतीजे तथा शिष्य थे । ये लेखन कला में अद्वितीय थे एवं प्रसिद्ध दार्शनिक तथा संदेह-अंधियों के खोलने में सिद्ध थे । दे० 'रूपसनातन' । जीवनाथ-अंगिरा कुलोत्पन्न एक गोत्रकार । पाठांतर से इनका नाम युवनाथ भी मिलता है ।

जीवल-अयोध्यापति ऋतुपर्ण राजा के अश्वपाल का नाम । अज्ञातवास काल में जब राजा नल ऋतुपर्ण के सारथी बने थे तब उन्होंने इसकी प्रशंसा की थी ।

जीवा-१. प्रसिद्ध दाक्षिणात्य भक्त ब्राह्मण । ये कबीर के शिष्य थे तथा प्रसिद्ध भक्त तत्वा जी के भाई थे । दे० 'तत्वा' ।

२. एक प्रसिद्ध मध्य कालीन वैष्णव भक्त ।

जीवानंद-प्रसिद्ध भक्त तथा चारण ।

जुम्न-आकृत नामक म्लेच्छ का पुत्र । याकृत के पिता का नाम न्यूह था ।

जुहू-बृहस्पति की स्त्री का नाम । सर्वानुक्रमणी के अनुसार ये ब्रह्मदेव की स्त्री थीं ।

जूज-न्यूह नामक विख्यात म्लेच्छराज के वंशज, और म्लेच्छराज चरल का पुत्र । इसने दो सौ सैंतीस वर्ष तक राज्य किया ।

जूजुवा-एक प्रसिद्ध चारण भक्त । ये कुशल गायक थे । नामादासजी ने इस प्रकार के १२ गायकों का उल्लेख किया है ।

जूति-वातरशन के पुत्र । ऋग्वेद की एक ऋचा के रचयिता ।

जं भक-एक यज्ञ । यह बड़ा अत्याचारी था । धर्मारण्य के ऋषिगण इससे संत्रस्त रहते थे ।

जेवावाई-एक प्रसिद्ध हरिभक्ति-परायणा महिला ।

जैगीपन्य-१. एक प्रसिद्ध ऋषि । इनके शिष्य देवल इनके श्रमाधारण तेज और तप से प्रभावित थे । अश्वशिरस् राजा की सभा में कपिल ने विष्णु का तथा इन्होंने गरुड़ का रूप ग्रहण किया था । २. कृतयुग में शतकलाक नामक ऋषि के पुत्र का नाम । इन्होंने प्रभास क्षेत्र में बड़ी उग्र तपस्या की थी । ३. देवीभागवत में इस नाम के कई ऋषियों का उल्लेख मिलता है । इनसे शिक्षा प्राप्त करके व्रतदत्त-पुत्र विद्वक सेन ने योग शास्त्र पर ग्रंथ लिखा था ।

जैतारन-एक प्रसिद्ध वैष्णव भक्त, जो भिष्मावृत्ति द्वारा जीविका-निर्वाह कर संत-सेवा करते थे ।

जैत्र-१. कृष्ण के अनुचर का नाम । २. धृतराष्ट्र का एक पुत्र जिसे भीम ने मारा ।

जैत्रायण सहोजित-एक प्रसिद्ध राजा जिन्होंने राजसूय यज्ञ किया था ।

जोईसिन-एक प्रसिद्ध हरिभक्ति परायणा महिला ।

ज्ञानदेव-(ज्ञानेश्वर) एक महान् महाराष्ट्री भक्त कवि । मराठी साहित्य का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ 'ज्ञानेश्वरी' की रचना इन्होंने १२ वर्ष की अवस्था में की । इनके पिता ने पत्नी के रहने पर भी गुरु से भूट बोलकर संन्यास ले लिया । इनके गुरु जब दक्षिण गये तब इनकी माता को उन्होंने पुत्रवती होने का आशीर्वाद दे दिया । माता ने पति के संन्यास लेने की गाथा कह सुनाई । गुरु के कहने से इनके पिता को गृहस्थाश्रम स्वीकार करना पड़ा । इनके जाति-भाइयों ने इन्हें ब्राह्मणत्व से अप्ट ठहराकर अपमान के साथ इनका बहिष्कार किया । 'गैनीनाथ' और 'ज्ञानेश्वर' नामक दो पुत्र और 'मुलाबाई' नामक एक कन्या उत्पन्न हुई । ज्ञानदेव को वेद की शिक्षा देने से इंकार किया गया । इस पर इन्होंने कहा कि मनसा, वाचा, कर्मणा भगवान को जाननेवाला ही ब्राह्मण है क्योंकि वेद तो एक भैंसा भी पढ़ सकता है । ऐसा कहकर वहीं उपस्थित एक भैंसे से इन्होंने शुद्ध शुद्ध वेदोच्चारण करवाया । सब लोग आश्चर्य में पड़कर इन्हें एक सिद्ध महात्मा मानने लगे । इनके विषय में अनेक विलक्षण कथाएँ प्रसिद्ध हैं । अपने मत का प्रचार करके कुछ दिनों के बाद इन्होंने ज्ञानतः चिर समाधि ले ली ।

ज्ञानभद्र-द्वापर युग में सौराष्ट्र देश में रहनेवाले एक महारथी का नाम । एक बार वहाँ दुर्भिक्ष पड़ा । इन्हें सपत्नीक उपवास करना पड़ा । ये पर्वत पर चले गये और दोनों की वहाँ पर मृत्यु हो गई । इनकी सायुज्य सुक्ति प्राप्त हुई ।

ज्ञानश्रुति-एक पुण्यात्मा राजा । गोदावरी तट पर स्थित प्रतिष्ठान नामक नगरी में इनकी राजधानी थी । इन्हें शाकास में एक विचरणाशील एस द्वारा ज्ञात हुआ कि रैक नामक घातकेता इनसे अधिक पुण्यदीन है । यह सुन कर रथ पर गारुड़ होकर ये उनके पास गये । उपहार रूप में बहुत नी। ज्ञानश्री रसरी पर उन्होंने पत्नी-कार किया । इन्होंने पूरी गीता का माहात्म्य उनसे प्राप्त किया ।

ज्योति-१. एक वसु-पुत्र । इनके पिता का नाम यह

था । २. कार्तिकेय का एक मृत्यु जो उन्हें अग्निदेव से मिला था ।

ज्योतिक-एक सर्प ।

ज्योतिष्क-एक सर्प ।

ज्योतिष्मत-१. मधुवन-निवासी शाकुनि नामक ऋषि के पुत्र । २. एक अग्नि ।

ज्योतिस्-कश्यप तथा कद्रु के एक पुत्र का नाम ।

ज्योत्स्ना-सोम की कन्या, तथा वरुण-पुत्र पुष्कर की स्त्री ।

ज्वर-१. कश्यप तथा सुरभि के पुत्र । २. एक रोग जिसकी उत्पत्ति शिव के प्रस्वेद से हुई थी । यह देवराज वाणा-सुर के सेनापतियों में से एक था । इसके तीन पैर, तीन मस्तक, ६ बाहु और ६ आँखें थीं । अनिरुद्ध-उद्धार के लिए बलराम आदि के साथ श्रीकृष्ण ने जब वाणासुर पर चढ़ाई की तब ये ज्वराकांत हुये । उसे नष्ट करने के लिए श्रीकृष्ण ने एक शीतज्वर की सृष्टि की । ज्वर कृष्ण को छोड़कर अलग हो गया और उनकी स्तुति करने लगा जिससे संतुष्ट हो इन्होंने उसको घना कर दिया और यह वर दिया कि पृथ्वी पर तुम्हें छोड़कर और दूसरा ज्वर नहीं रहेगा । भागवत में केवल त्रिपाद और त्रिशिर ज्वर का उल्लेख है ।

ज्वलंती-तक्षक की कन्या तथा ऋष की स्त्री । अत्यंतर इसके पुत्र का नाम था ।

ज्वलना-प्रसिद्ध सर्प तक्षक की कन्या तथा सोमवंशीय आँचेयु अथवा ऋचेयु की स्त्री ।

भाभू-एक प्रसिद्ध वैष्णव भक्त ।

भाजी-एक प्रसिद्ध हरिभक्ति-परायणा महिला । ये विख्यात भक्त रैदासजी की शिष्या थीं और मारवाड़ प्रांत की रहनेवाली थीं ।

भिल्ली-वृष्णिवंशीय एक यादव । यह द्रौपदी-स्वयंवर में उपस्थित था । नामांतर भिल्लीयन्न है ।

भिल्लीरव-एक यादव ।

टरुड-एक शारणा-प्रवर्तक ऋषि । दे० 'पाणिनि' ।

टीला-एक प्रसिद्ध वैष्णव भक्त । ये भक्तों में टीला (शिखर) के सनाम ही उच्च थे ।

टीला जी-रामानंदी संप्रदाय के एक प्रमुख भक्त तथा प्रचारक, जो पैहारी जी के २४ प्रधान शिष्यों में से एक एवं नाभा जी के गुरु अग्रदास जी के गुरुभाई थे ।

टेकराम-रामानंदी संप्रदाय के एक प्रसिद्ध भक्त । ये पैहारी जी के शिष्य तथा नाभा जी के गुरु अग्रदास जी के एक गुरु भाई थे ।

डंबर-कार्तिकेय का एक अनुचर जो उन्हें धन ले मिला था ।

डगर-एक प्रमुख वैष्णव भक्त । नाना जी ने इनके चैतन्य द्वारा प्रभावित अष्टादश प्रधान वैष्णव भक्तों के साथ किया है ।

डिंडिक-एक मूषक ।

डिभ-नरासिंह का प्रधान सेनापति ।

भाई। हंस और दिम्ब शिव के वर से अजेय और अघय्य हो गये थे। विरुपाक्ष और कुंडोदर शिव के दो गण भी सदैव इनकी सहायता करते थे। तपस्या में तल्लीन दुर्वासा ऋषि का इसने अपमान किया। मुनि के शिकायत करने पर श्रीकृष्ण ने इससे घोर युद्ध किया। वे रुद्ध करते-करते इसे बहुत दूर हटा ले गये। इसी बीच उसे ज्ञात हुआ कि उसका भाई हंस मारा गया। इससे भयभीत होकर वह यमुना में कूद पड़ा और वहाँ आत्म-हत्या कर ली। इस पाप से दीर्घकाल तक उसे नरक-यातना भोगनी पड़ी।

तंडि-अंगिरा-गोत्रीय एक कृतयुगीन विख्यात ऋषि। इन्होंने दीर्घकाल तक शिव की तपस्या करके शिव सहस्र नाम योग से उन्हें प्रसन्न किया। वरदान मिला कि तुम्हारा पुत्र सूक्तकार हो। सूर्यवंशी त्रिधन्वा राजा इनके शिष्य थे। शिव पुराण में इनका नाम दंडी मिलता है, यद्यपि शिव सहस्र नाम में तंडि शब्द ही मिलता है।

तंति-धृञ् पराशर कुलोत्पन्न एक प्रख्यात ऋषि।

तंतिपाल-अज्ञातवास-काल में सहदेव द्वारा गृहीत छद्म नाम। महाभारत के कुंभकोणम् संस्करण में तंत्रीपाल नाम है।

तंतुमान-अग्नि का एक नाम। नामांतर 'उत्तराग्नि' है।

तंत्रीपाल-दे० 'तंतिपाल'।

तंवि-अंगिरस् कुलोत्पन्न एक गोत्रकार ऋषि।

तंस-भविष्य के अनुसार समुत्से के पुत्र।

तंसु-एक पुरुवंशी राजा। इनके पिता का नाम मतिनारथा था।

तक्किविद-अग्निकुलोत्पन्न एक गोत्रकार का नाम।

तक्ष-दाशरथि भरत के पुत्र। इनकी माता का नाम मांदवी था। अपने पुष्कर नामक भाई के साथ इन्होंने गांधार की यात्रा की और उस देश को जीतकर तक्षशिला नाम की नगरी बनाई।

तक्षक-अष्टकुली महासर्पों में एक प्रसिद्ध सर्पराज। इसके माता का नाम कद्रु तथा पिता का रुश्यप था। शृंगी ऋषि के शाप से इसने ही राजा परीक्षित को काटा था। अन्य सर्पों के साथ तक्षक भी वैकुण्ठ के द्वारपाल माने गये हैं। इसीलिये हरिद्वर्षन की इच्छा रखनेवालों के लिये इन्हें प्रसन्न रखना अनिवार्य है।

तक्षु-शिव के एक अवतार का नाम।

तत्त्वा-प्रसिद्ध दाक्षिणात्य ब्राह्मण भक्त जो कवीर के शिष्य थे। इनके एक भाई का नाम जीवा था। जुलाहे का शिष्यत्व ग्रहण करने के कारण लोगों ने इन्हें जाति-बहिष्कृत कर दिया। एक भाई की एक कन्या और एक की एक पुत्र था। इन दोनों का कहीं व्याह नहीं हो रहा था। कवीरदास ने आज्ञा दी कि एक का दूसरे से व्याह कर दो। इस उपक्रम से घयड़ाकर विरादरी के सब लोगों ने दोनों का अलग-अलग विवाह करा देने का वचन दिया किंतु ये लोग गुरु आज्ञा का उल्लंघन कैसे करते। अंत में कवीरदास ने कहा कि यदि सभी भगवत्-भक्ति करें, तो सबका कहा मानो। अंत में ऐसा ही हुआ।

तनु-एक महर्षि। दे० 'कृप'।

तप-१. तामस मनु के पुत्र। २. एक अग्नि का नाम।

तपती-सूर्य और छाया की कन्या। इसके सावित्री नाम की अति रूपवती एक बहन थी। एक समय ऋत्तुपुत्र संवरण मृगया खेलने निकले। उनका अरव भटकता हुआ एक पर्वत पर पहुँचा, जहाँ तपती आई थी। इसके सौंदर्य से मुग्ध होकर संवरण ने तत्काल गंधर्व-विवाह की प्रार्थना की। किन्तु पिता की सम्मति के बिना वह तैय्यार न हुई। अनंतर सूर्य की तपस्या करने पर तपती के साथ विवाह करने की आज्ञा मिली। विवाह होने पर इनके कुरु नाम का एक पुत्र हुआ जिसने कुर्व वंश की स्थापना की।

तपन-१. पांडव पक्षीय एक पांचाल वीर जिसे युद्ध में कर्ण ने मारा। २. एक देव जिन्हें अमृत-रक्षा का कार्य सौंपा गया था। ३. रावणपक्षीय एक राक्षस जिसे गज नामक वानर ने मारा था।

तपस-वाराह कल्प में शिव का एक अवतार। इनके लंबोदर लंबाक्ष, केशलंब तथा प्रलंबक नामक चार पुत्र थे। तपस्विन-मत्स्य पुराण के अनुसार नड्वला से चक्षुर्मनु के एक पुत्र।

तपोद्युति-तामस मनु के एक पुत्र।

तपोधन-तामस मनु के एक पुत्र।

तपोभागिन-तामस मनु के एक पुत्र।

तपोभूत-तामस मनु के एक पुत्र।

तपोमूर्ति-रुद्र सार्वर्षि मन्वन्तर में सप्तर्षियों में से एक।

तपोयोगिन-तामस मनु के पुत्रों में से एक।

तपोरति-तामस मनु के एक पुत्र।

तपोराशि-तामस मनु के एक पुत्र का नाम।

तम-गृत्समदवंशीय श्रव नामक एक ब्राह्मण के पुत्र का नाम। इनके पुत्र का नाम प्रकाश था। विष्णु पुराण के अनुसार ये पृथुश्रव्या के पुत्र थे।

तमस्य-तामस मनु के एक पुत्र।

तमौजस-असमंजस् राजा के पुत्र। मत्स्य के अनुसार ये देवाह के पुत्र थे।

तम्र-महिपासुर नामक प्रसिद्ध राक्षस का कोपाध्यक्ष।

तरंत-ऋग्वेद के अनुसार तरंत और पुरुमी दोनों श्यवाश्रव के आश्रयदाता थे।

तरणियक-एक प्रसिद्ध राजा जिन्होंने ३६०० वर्षों तक राज्य किया। भविष्य के अनुसार ये धर्मणि वत्सल राजा के पुत्र थे।

तरल-राम सेना के एक वानर योद्धा। यह हनुमान के साथ पच्छिम द्वार की रक्षा करते थे।

तरुक्ष-ऋग्वेद में दानस्तुति के सिलसिले में इनका उल्लेख हुआ है।

तरुण्य-एक सर्प का नाम।

तर्ज-उत्तम मनु के एक पुत्र का नाम।

तल-एक शाखा प्रवर्तक ऋषि। दे० 'पाणिनि'।

तलवकार-एक शाखा प्रवर्तक ऋषि।

तांडय-एक आचार्य का नाम। ये वैशंपायन के नव शिष्यों

में से एक थे। सामवेदांतर्गत कौथुमी शाखा का तांडय ब्राह्मण इनका रचा हुआ है।

तांडविद-एक आचार्य।

तांडिन-एक आचार्य जिन्होंने महावृहती छंद को सतो-वृहती कहा है।

ताडकायन-१. विश्वामित्र के एक पुत्र। २. वादरायण व्यास के एक शिष्य। यह अंगिरा गोत्र के प्रवर थे।

ताडका-(ताटका) यज्ञ सुकेतु की कन्या (मतांतर से सुंद नामक दैत्य की कन्या), तथा मारीच-सुबाहु की माता, एक प्रसिद्ध राक्षसी। यह अगस्त ऋषि के शाप से राक्षसी हो गई थी और सरयू के किनारे ताडक नामक वन में निवास करती थी। उस प्रदेश में इसके उत्पात से ब्राहि-ब्राहि मची थी। यह विश्वामित्र के दैनिक यज्ञ-विधान में बाधा डालती थी। अतः उसका वध करने के लिये वह दशरथ के किशोर राम और लक्ष्मण को ले गये। पहिले तो स्त्री जानकर उसका वध राम को अनुचित प्रतीत हुआ, किन्तु माया के बल से जब वह उपलब्ध वृष्टि करने लगी तब विश्वामित्र की आज्ञा से राम ने उसका वध कर डाला।

तापस-दत्त का नामांतर। यह सर्पयज्ञ में एक होता थे।

तामरसा-अत्रिसुनि की स्त्री का नाम।

तामस-१. धर्म तथा हिंसा के पुत्र। २. भविष्य के अनुसार श्रवस के पुत्र। ३. प्रियव्रत के तृतीय पुत्र तथा उत्तम के भाई। इन्होंने नर्मदा के दक्षिण तट पर शिव की पूजा की थी। यह चतुर्थ मन्वंतर में मनु थे और अपनी स्त्री के साथ स्वर्ग गये।

ताम्रतप्त-कृष्ण और रोहिणी के एक पुत्र।

ताम्रध्वज-प्रसिद्ध दानवीर राजा मोरध्वज का पुत्र। यह भी पिता ही के समान त्यागी और धार्मिक था।

ताम्रलिप्त-वंग देशीय एक क्षत्रिय।

ताम्रा-१. वसुदेव की एक स्त्री। इनके पुत्र सहदेव थे। २. प्राचेतस दत्त प्रजापति तथा आसिकी की कन्या जो करयप को व्याही थी।

ताम्रायण-यज्ञ की शिष्य-परंपरा में व्यास के एक शिष्य। वायु के अनुसार ये याज्ञवल्क्य के वाजसनेय शिष्य थे।

तार-१. मय दावन का एक साथी। २. राम सेना का प्रसिद्ध वानर वीर। सुग्रीव की स्त्री रम्या इसकी कन्या थी। ३. मधुवन निवासी शकुनी नामक एक ऋषि का पुत्र।

तारक-एक प्रसिद्ध असुर। इसने परियात्र पर्वत पर बड़ा उग्र तप किया और ऋष्या से शमरत्न का वर मांगा पर वह संभव नहीं था। अंत में उन्ने यह वर मिला कि सात दिन के बच्चे के हाथ से उसकी मृत्यु होगी। १०,००० वर्ष तप करके त्रैलोक्य में यह अज्ञेय हो गया। इसने इंद्रादि देवताओं को परास्त कर त्रैलोक्य में अपना वैभवं-विस्तार किया। देवताओं ने शिव से यह प्रार्थना की कि आपकें नय-जात शिशु के द्वारा ही राक्षस का वध होगा। देव-ताओं की रक्षा के विचार से शंकर ने पार्वती से विवाह किया जिसके फलस्वरूप देव-सेनापति स्कंद का जन्म हुआ। जन्म के सातवें दिन इन्होंने राक्षस का वध किया।

त्रिपुर के जन्मदाता तारकाक्ष (ताराक्ष) कमलाक्ष तथा विट्मन्मानी इसके पुत्र थे।

तारा-१. बृहस्पति की दो स्त्रियों में से दूसरी। दे० 'सोम' तथा 'बुध'। २. वानरराज बालि की स्त्री। यह सुपेण नामक वानर की पुत्री थी जो पंच-कन्याओं में से एक गिनी जाती है। अंगद इन्हीं के पुत्र थे। बालि की मृत्यु के बाद ये अपने देवर सुग्रीव के साथ पत्नी रूप में रहने लगी थीं। ३. सूर्यवंशी हरिश्चंद्र राजा की स्त्री। इनका नाम तारामती भी पाया जाता है। रोहित इनके पुत्र थे। दे० 'तारामती'। ४. दस महाविद्याओं में से एक का नाम। ५. एक ब्रह्म-वादिनी का नाम।

ताराक्ष-तारकासुर के एक पुत्र का नाम। दे० 'तारक'। तारापीड-१. काशी का राजा जो काट्टवरी की कथा का नायक, प्रसिद्ध राजा चन्द्रापीड का भाई और प्रतापादित्य का पुत्र था। राज्यलोभ से अपने बड़े भाई को इसने मरवा डाला था। इसके शासन-काल में काश्मीर तो समृद्ध हुआ पर प्रजा दुखी रही। राजतरंगिणी के अनुसार इसने ४ वर्ष २४ दिन राज्य किया। २. मन्स्य पुराण के अनुसार चन्द्रालोक राजा के पुत्र का नाम। इनके पुत्र चंद्रगिरि थे।

तारामती-ये शैव्य देश के राजा की कन्या थीं इसीलिये इनका एक नाम शैव्या भी है। ये राजा हरिश्चंद्र की पटरानी थीं। वरुण की कृपा से इनको रोहित नामक एक पुत्र उत्पन्न हुआ। विश्वामित्र की दक्षिणा पूरी करने के लिये राजा ने पत्नी को एक बृद्ध ब्राह्मण के हाथ बंध दिया। रोहित ब्राह्मण के यहाँ सर्प-दंश से मर गया। उसे लेकर ये श्मशान में गईं। हरिश्चंद्र को उनके गरी-दार ने श्मशान में डोम का कार्य दिया था। हरिश्चंद्र ने पत्नी से कर रूप में कफन मांगा। पत्नी देने में असमर्थ थीं। डोम-सरदार ने तारामती के वध करने की आज्ञा दी। रानी ने अग्नि-प्रवेश किया। इसी समय इंद्र ने प्रकट होकर सबको जीवित किया। विश्वामित्र के आशीर्वाद से रोहित बड़ा प्रतापी हुआ। कहा जाता है कि रोहिताच्यगढ़ का किला उसी का बनाया हुआ है। संस्कृत नाटक 'चंद्रकांतिक' और हिंदी नाटक 'हरिश्चंद्र' में यही कथा वर्णित है।

तार्क्षी-कंधर की कन्या। इनकी माता पचिरुपभारिणी मदनिका थीं। यह पूर्व जन्म में चतु थी और दुर्वांसा के शाप से पचियोनि को प्राप्त हुईं। यह द्रोण नामक पत्नी को व्याही गईं और गर्भवती हुईं। महाभारत-युद्ध में एक बार यह शाकाशमार्ग में उड़ी जा रही थी। अर्जुन ने एक ऐसा वाण मारा कि इसका उदर विदीर्ण हो गया और उसमें से चार बंद गिरे। उन बंदों को कर्माक्ष ऋषि ने ले लिया। उनसे विगाण, विगांध, नृपुण तथा मुसुण ये चार पुत्र हुए।

तार्क्ष्य-१. शशव अथवा पत्नी के रूप में मृत्यु का एक स्थांतर-रूप। ये अक्षय पराक्रमी थे। इनकी कृति अक्षय प्रपञ्च, गरुड़ और नाम के लिये भी यह शब्द प्रयुक्त। नामांतर तार्क्ष्य अथवा तारुक्ष्य। २. एक आचार्य का नाम। एक विद्वान्

लिये यह अपने गुरु के यहाँ रहते थे। इस काल में इन्होंने अपने गुरु के गाय की रक्षा की थी। ३. अरिष्ट-नेमि के पैतृक नाम के रूप में भी यह शब्द प्रसिद्ध है। ४. कश्यप प्रजापति का नामांतर। दक्ष ने अपनी वह कन्या इन्हें व्याही थी जिसका सरस्वती के साथ संभाषण हुआ था। ५. गरुड के भाई का नाम। ये कश्यप और विन्ता के पुत्र थे। ६. एक यज्ञ का नाम।

ताक्ष्यपुत्र-दे० 'सुपर्ण'।

ताक्ष्य वैपश्चित्त-एक आचार्य का नाम।

तालक-एक आचार्य। ये व्यास की शिष्य-परंपरा में थे और हिरण्यनाभ के शिष्य थे।

तालकृत-आंगिरस कुलोत्पन्न एक गोत्रकार।

तालकेतु-१. एक राक्षस जिसे कृष्ण ने मारा था। २. भीष्म का एक नाम। इनकी पताका ताल-चिह्नित थी, अतः यह नाम पड़ा। ३. एक राक्षस जिसे कुबलयारव ने मारा था।

तालजंघ-१. राजा जयध्वज के पुत्र तथा अर्जुन कार्तवीर्य के पौत्र। इनके वंशज तालजंघ नाम से प्रसिद्ध हुए। जब परशुराम ने कार्तवीर्य के सहस्रबाहुओं को काट डाला तो ये लोग छिपकर हिमालय में रहने लगे। त्रेता में जब राम उधर तप करने गये तब उनके दर्शन से अभय होकर ये फिर अपनी राजधानी मातृभूमि को लौट आये। कालांतर में राजा सागर के पुत्र ने इनको जीता और एक वीतिहोत्र को छोड़कर ये सदलवल नष्ट हो गये। वीतिहोत्र, शायान्त, तुडिकर, भोज तथा अवंती इन पाचों वंशों का सम्मिलित नाम तालजंघ है। ये हैहयवंश के हैं। महाभारत के अनुसार इनके आदि पुरुष मनु के पुत्र शर्वात थे। ये संभवतः त्रिंध्यगिरि के आस-पास रहते थे। कर्नल टाड के अनुसार हैहयों की एक शाखा बबेल-खंड की तराई में सोहागपुर में रहती है। ये अपनी प्राचीन वंशावली से भी परिचित हैं। अल्पसंख्यक होते हुए भी ये अपनी वीरता के लिये प्रसिद्ध हैं। २. महाभारत के अनुसार शर्वात के पुत्र का नाम। ३. सुरनाभ दैत्य के पिता का नाम।

तालान-१. एक कलियुगी राजा। इन्होंने अपना वनरस (वनारस ?) अपने पुत्रों को दिया था। इनकी संतति के नाम थे—अलिक, अल्लामति, काल, पत्र, पुपोदरी, दरीकरी, नरी, और सुललित। ये म्लेच्छ पद्धति के अनुसार राक्षसमय देवों की पूजा करते थे। २. तालन महोया खंड में वर्णित आल्हा और उदल की युद्धविद्या के आचार्य थे। ये घुड़सवारी में पारंगत थे और लिल्ली नामक घोड़ी पर सवार होते थे।

तिगम-मत्स्य पुराण के अनुसार उर्व के पुत्र और विष्णु के अनुसार मृदु के पुत्र का नाम। इनका नामांतर तिमि-तिगमयोति अथवा तिगमकेतु है।

तिनिज्ञा-स्वायंभुव मन्वंतर में दक्ष प्रजापति की कन्या और धर्म की स्त्री। इनके पुत्र का नाम हेम था।

तितिलु-भागवत, मत्स्य और वायु के अनुसार महामनसु राजा के पुत्र। मतांतर से इनके पिता महामणि थे। दे० 'उशीनर'।

तित्तिर-१. कपोतरोमन के पुत्र। इनके पुत्र का नाम बहु-पुत्र था। नामांतर तित्तिरि है। २. एक सर्प का नाम। ये कश्यप के पुत्र थे। इनकी माता कद्रु थीं। ३. एक ऋषि का नाम। ये आंगिरस कुलोत्पन्न एक शाखा के प्रवर थे। यजुर्वेद की एक शाखा तैत्तिरीय नाम से प्रसिद्ध है। इसके आदि आचार्य यही थे। इस शाखा का अन्य प्रवर आपिमुवा था। याज्ञवल्क्य नाम के वैशंपायन के एक शिष्य द्वारा यह शाखा निकाली गई। उसका शेष अंश मन्त्र शिष्यों ने धारण किया। धारण करते समय उन्होंने तित्तिरि पत्नी (तीतर) का रूप ग्रहण किया था इसलिए उक्त शाखा का यह नाम पड़ा।

तिथि-१. एक गोत्र का नाम। २. कश्यप तथा क्रोधा की कन्या। ये महर्षि पुलह की स्त्री थीं।

तिमिगल-एक राजा का नाम जो रामक नामक पर्वत पर रहते थे। युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में सहदेव ने इन्हें परास्त किया।

तिमि-१. दक्ष प्रजापति तथा आसक्री की कन्या। ये कश्यप की स्त्री थीं। २. भागवत के अनुसार ये हुवा के पुत्र थे। दे० 'निग्म'।

तिमिध्वज-दशरथ के समकालीन, एक वीर राजा जो प्रसिद्ध वैजयंत नामक नगरी में रहते थे। ये शंकर नाम से विशेष प्रसिद्ध हैं। एक बार देवासुर-संग्राम में इन्द्र के विरुद्ध असुरों की ओर से ये लड़ने गये। इन्द्र ने सहायता के लिए दशरथ को बुला भेजा। इनसे लड़ते समय आहत हो दशरथ मूर्च्छित हो रथ में गिर पड़े। उस समय बड़ी चतुरता से कैकेयी ने उनकी सेवा की। इसीलिये दशरथ ने कैकेयी को दो अभीष्ट वर दिये। पर इसके बाद तिमिध्वज का क्या हुआ इसका पता नहीं चलता। तिमिर्ध्व दौरेश्युत-अग्नीध्र का नामांतर। सपों के कल्याण के लिये किये गये यज्ञ में ये ऋत्विज थे।

तिरश्चि आंगिरस-एक सूक्तद्रष्टा का नाम।

तिरहुत-वर्तमान मिथिला प्रदेश का एक प्राचीन नाम।

तिरिंदर पारशव्य-एक वैदिक कालीन राजा। सायणाचार्य ने इनको पर्शु का पुत्र कहा है। तिरिंदर ने वत्स कश्यप को बहुत सा धन दिया था।

तिर्यञ्च आंगिरस-सामवेद के द्रष्टा एक ऋषि।

तिलोक (सुनार)-एक प्रसिद्ध वैष्णव भक्त। ये सदैव संत-सेवा में तत्पर रहते थे। इनके विषय में यह कथा प्रसिद्ध है कि एक राजा के यहाँ से इन्हें बहुत-सा काम मिला। संत-सेवा में व्यस्त रहने के कारण ये कार्य न कर सके। राजा ने इन्हें प्राणदण्ड दिया। इधर श्रीकृष्ण इनका भेष धारण करके सच गहने दे आये। जब इसका पता चला तब राजा इनके पैरों पड़ा और भक्त हो गया।

तिलोत्तमा-एक अप्सरा का नाम। यह आरम्भ में एक ब्राह्मणी थी पर असमय स्नान करने के अपराध में इसे अप्सरा होने का शाप मिला। इसे जन्म देने का ध्येय सुंद और उपसुंद नामक राक्षसों को विनाश करने का था। ये दोनों भाई तिलोत्तमा के लिये मर मिटे।

तिसिर (त्रिशिरस)-१. एक राक्षस का नाम। दूषण नामक राक्षस के चार मंत्रियों में से एक मंत्री। २. कश्यप

और खसा का पुत्र । इसका वध राम द्वारा हुआ था ।
३. विश्ववसु और चघा का पुत्र । इसका नाम विश्वरूप भी कहा गया है । ४. मूर्तिमान ज्वर । गर्मी, सर्दी और पसीना, इसकी तीन अवस्थाएँ थीं । ५. धनपति कुबेर का नाम ।

तिसिरा-एक राक्षसी का नाम । इसके तीन सिर थे । तीक्ष्णवेग-एक राक्षस का नाम । राम-रावण युद्ध में यह रावण की ओर से लड़ा था ।

तुंड-रावण पत्नीय एक राक्षस । राम-रावण युद्ध में इसे नल नामक वानर ने मारा था । मत्तांतर से यह नहुप द्वारा मारा गया । इसके पुत्र का नाम वितुगड था ।

तुंबरु-ब्रह्मा की सभा में, नारद के साथ इंश्वर का गुण-गान करनेवाले संगीत-विद्या-विशारद एक ऋषि । ये कश्यप तथा प्राधा के पुत्रों में से एक थे । इनकी स्त्री रंभा थी । यह रंभा पर आसक्त हुये जिससे कुबेर ने इन्हें शाप देकर विराध नामक राक्षस में परिवर्तित कर दिया था । त्रेता में राम से युद्ध करने पर इसकी मृत्यु हुई और यह अपने पूर्व रूप को प्राप्त हुए । तंत्रा नामक वाद्य यंत्र के आविष्कारक यही थे । अतएव इन्हीं के नाम पर इस वाद्य यंत्र का यह नाम पड़ा ।

तुंबरु-तुंबरु का पाठांतर । दे० 'तुंबरु' ।

तुम्-ऋग्वेद में उल्लिखित इन्द्र के एक शत्रु का नाम ।

तुजि-ऋग्वेद में उल्लिखित, इन्द्र के एक कृपापात्र का नाम ।

तुरकावपेय-जनमेजय तथा परीक्षित के पुरोहित । उनका राज्याभिषेक इन्होंने ने ही किया था । इनके शिष्य यज्ञवल्क्य राजस्तंवायन थे ।

तुरश्रवस-एक ऋषि । इन्होंने इन्द्र को प्रसन्न किया था । इनकी दी हुई हवि इंद्र ने स्वीकार की थी ।

तुरष्क-एक प्राचीन राजवंश का नाम । भागवत के अनुसार इस वंश में १४ राजे हुये । अन्यत्र ये तुवार नाम से भी पुकारे गये हैं । संभवतः आधुनिक तुर्किस्तान राज्य इन्होंने ही स्थापित किया था ।

तुरु-एक राक्षस । देवासुर-संग्राम में यह तिरश्यास की ओर से लड़ा और वायु द्वारा मारा गया ।

तुर्व-एक राजा का नाम । यह मनु के अनुयायी थे ।

तुवश-एक वैदिक राजा । यह प्राचीन राजा सुदास के विरोधी थे पर इन्द्र की कृपा से सुदास ने इन्हें पराजित किया । इन्होंने इंद्र की वधी स्तुति की । ऋग्वेद में इनकी इंद्र संबंधी स्तुति के कई मंत्र हैं । यदुत्वंश के पुरोहित कश्यप ऋषि थे ।

तुपंसु-राजा ययाति और देवयानी के पुत्र । राजा ययाति ने इनके यौवन से अपनी वृद्धय परिवर्तन करना चाहा था पर ये तैयार नहीं हुए । इस कारण उन्होंने शाप दे दिया जिससे पुत्र, चामर आदि राजचिह्न इन्हें नहीं मिले और ये मत्स्यों के अधिपति हुये । इनके वंशजों ने अनेक स्थानों में राज्य स्थापित किए । वायु के अनुसार इन्होंने पौरुष दुष्पंत को दत्तक पुत्र के रूप में ग्रहण किया । इनके वंशजों ने दक्षिण में पांड्य तथा चोल आदि राज्य स्थापित किए । क्षत्रि पुराण के अनुसार गांधार देश का

द्रुम्य वंश भी इन्हीं के वंश की शाखा थी । वायु, प्रकांड, गच्छ आदि के अनुसार इनका राज्य विस्तार तुस्क (वर्तमान तुर्किस्तान) तक था ।

तुलसीदास-१. हिंदी के सुप्रसिद्ध भक्त कवि, राम के अनन्य उपासक, और राम-काव्य के सर्वश्रेष्ठ स्रष्टा । अशुभ सुहृत्त में जन्म लेने और असाधारण शिष्ट होने के कारण पिता ने इनका परित्याग कर दिया और भोंगर गई । वचपन घोर दरिद्रता और तज्जन्य कष्टों में बीता । छोटी अवस्था में ही साधुओं की संगति मिल जाने से राम-कथा पर अनन्य आस्था हो गई । योग्य गुरु ने इन्हें प्रकांड पंडित बना दिया । फिर ये एक योग्य कथा-वाचक के रूप में प्रसिद्ध हुए । शादी हुई और पत्नी में प्युंति आशक्ति । एक बार जब वह इनसे बिना बताये हुए अपने पितृगृह चली गई तो भरी-चढ़ी जमुना को मुर्दे के सहारे तै करके साँप को रस्ती समझकर उसके सहारे ऊपर चढ़कर ये पत्नी के पास जा पहुँचे । तभी पत्नी ने ज्यंग कर दिया जिसने इन्हें इतना आहत किया कि ये उल्टे पाँव लौट पड़े । घर बार त्याग दिया । तीर्थ-यात्राएँ कीं । भगवान राम के दर्शन प्राप्त किये । धूम-धून कर रामभक्ति का प्रचार किया । हिंदू जाति और हिंदी साहित्य के अमूल्य रत्न 'रामचरित-मानस' के प्रणेता ये ही हैं । 'विनय-पात्रिका' इनकी दूसरी प्रसिद्ध पुस्तक है । इनके अतिरिक्त कवितावली, गीतावली, भक्ति-मंगल, जानकी-मंगल आदि अनेक काव्य-ग्रंथ भी इन्हीं के लिखे हुए हैं । इनके जीवन की सभी बातों के संबंध में केवल रामभक्ति को छोड़कर बहुत मत-भेद है । जनश्रुतियों और चमत्कारों ने मिलकर वास्तविकता को बहुत छिपा लिया है । २. एक प्रसिद्ध वैष्णव भक्त । ये महाकवि तुलसीदास जी से भिन्न थे । ३. एक प्रसिद्ध वैष्णव भक्त । इनका स्थान होशंगाबाद के पास था । इन्होंने अपनी कोटी हरिभक्तों को दे दी थी ।

तुलाधार-काशी के रहनेवाले एक वैश्य । ये यदु तपस्वी तथा ज्ञानी थे । जाजलि नामक एक अभिमानी वैश्य का अभिमान इनकी सत्संग से छूटा था । मत्तांतर से जाजलि एक ब्राह्मण थे जिन्हें आकाशवाणी द्वारा तुलाधार से ज्ञान प्राप्त करने की आज्ञा हुई थी ।

तुपार-कलियुग के आरम्भ में उत्पन्न होनेवाले एक राजा । दे० 'तुरष्क' ।

तुपित-एक वैदिक देवगण का सामूहिक नाम । ये स्वायंभुव तथा स्वरोचिप मन्वंतर में हुये थे ।

तुपिता-वेदशिर मुनि की पत्नी । इनके पुत्र का नाम विभु था ।

तुष्ट-हंसपुत्र के महानाथ ।

तुष्टि-दश की एक कथा । दश ने धर्म को दस कन्नाएँ दी थीं उनमें से एक यह भी थी ।

तुष्टिमान-कंस के भाई का नाम ।

तुहुंड-१. क्षत्राष्ट्र के एक पुत्र का नाम जो भीम द्वारा मारा गया । २. एक राक्षस, जो दनु का पुत्र था ।

तूतुजि-एक वैदिक राजा । इंद्र ने सोमन नामक राजा से तुम तूतुमि, यन्म तथा इंद्रादि को पराजित करवाया था ।

तूर्ययाण-ये अतिथिग्व, आयु तथा कुस के शत्रु थे ।

तृत्-कश्यप मुनि का नामांतर ।

तृत्ति-भसदस्यु के एक पुत्र का नाम ।

तृत्तक-एक राजा ।

तृत्तकृष्णि-अंगिरा-कुलोत्पन्न एक गोत्रकार ।

तृत्तविंदु-१. वंशु राजा के पुत्र का नाम । इनके विशाल, शून्यवंशु तथा धूमकेतु नामक तीन पुत्र तथा इडविदा नाम की एक कन्या थी । रामायण के अनुसार ये बुध राजा के पुत्र थे । इनकी स्त्री अलंबुषा थी । २. एक अत्यंत धर्मनिष्ठ ऋषि जो द्वैतवन में पांडवों के साथ थे । ये महीने में एक बार जल में एक तिनका डुबोते थे और उससे जो जल टपकता था उसी को पान कर जीवित रहते थे, इसी से इनका नाम तृत्तविंदु था । ३. मतांतर से व्यास का नामांतर । इन्होंने चौबीसवें द्वापर में वेदों का विभाग करके वेदव्यास नाम से प्रसिद्धि पाई ।

तृत्तसो मांगिरा-एक ऋषि । ये दक्षिण दिशा में रहते थे ।

तृत्तवर्त-एक राक्षस जो कंस का एक अनुचर था । कंस ने इसे भी कृष्ण का वध करने के लिए गोकुल भेजा था । दशम स्कंध में इसकी कथा इस प्रकार कही गई है : एक बार यशोदा कृष्ण को गोद में लेकर खिला रही थीं । उसी समय तृत्तवर्त वातचक्र का रूप धारण कर वहाँ आया । कृष्ण उसे देखते ही पहचान गये, और यह सोचकर कि यदि मैं माता की गोद में रहूँगा, तो यह उन्हें भी मेरे साथ ही उड़ा ले जायगा, जिसमें उन्हें विशेष कष्ट होगा, उन्होंने अपने शरीर का भार बढ़ा लिया । यशोदा ने उन्हें गोद से उतार दिया । तृत्तवर्त क्रोध से भरा हुआ तथा गोकुल के गोप-गोपियों की आँखों में धूल और कंकड़ भरता हुआ आया और कृष्ण को आकाश में उड़ा ले गया । यशोदा यह देखकर बहुत घबड़ा गईं । गोकुल के गोप-गोपी भी कृष्ण के लिए रोने-धोने लगे । कृष्ण ने तीनों भुवनों का भार अपने उदर में धारण कर लिया, जिससे तृत्तवर्त ने समझा कि संभवतः उसने कोई पहाड़ धोखे में उठा लिया है और ढगमगाने लगा । उसने कृष्ण को गिराने का प्रयत्न किया और कृष्ण ने उसका गला पकड़ लिया और अपनी विपुल शक्ति से उसे इतना दबाया कि हगों के मार्ग से उसके प्राण निकल गये । उसका शरीर व्रज की एक शिला पर गिर पड़ा और कृष्ण उसकी छाती पर खेलने लगे । इस प्रकार कृष्ण के द्वारा तृत्तवर्त का अंत हुआ ।

तेज-एक देवता । 'सुतव' नामक देवों में से एक थे भी थे ।
तेजस्विन-१. एक इंद्र । इन्होंने पांडु-पुत्र सहदेव होकर जन्म ग्रहण किया था । २. गोकुल का एक गोप । यह कृष्ण का परम मित्र था ।

तेजोयु-रौद्राश्व के पुत्र का नाम ।

तैत्तिक-एक ऋषि का नाम ।

तैत्तिरि-१. तित्तिरि ऋषि के पुत्र का नाम । २. वैशंपायन के बड़े भाई का नाम । यह राजा उपरिचरि के अश्वमेध के समय उपस्थित थे ।

तैत्तिरीय-यजुः शिष्य परंपरा में वैशंपायन की याज्ञवल्क्य शाखा के शिष्यों का सामान्य नाम । इन्होंने तीतर

पत्नी का रूप ग्रहण कर याज्ञवल्क्य से वेद प्राप्त किया था । दे० 'तित्तिरि' तथा 'व्यास' ।

तैत्तिक-अंगिरा-कुलोत्पन्न एक गोत्रकार ।

तैत्तप-अंगिरा-कुलोत्पन्न एक गोत्रकार ।

तैत्तिय-१. धूम पराशर-कुलोत्पन्न ऋषिगण का सामान्य नाम । २. अंगिरा-कुलोत्पन्न एक ऋषिगण का भी यही नाम था ।

तौडमान्-सुवीर राजा तथा नंदिनी के पुत्र । इनकी स्त्री का नाम पद्मा था जो पांडव राजा की महिषी थीं । ये पूर्वजन्म में रंगदास थे और चेंकटाचल की उपासना से ये मुक्त हुये थे ।

तोशलक-कृष्ण के मामा कंस का एक दरवारी मल्ल योद्धा । कंस द्वारा आमंत्रित होकर जब कृष्ण मथुरा आये तो मुष्टिक आदि अन्य पहलवानों के साथ कृष्ण से लड़कर यह भी मारा गया ।

त्यागी संत-एक प्रसिद्ध वैष्णव भक्त । इन्होंने अपना सर्वस्व त्याग कर भिच्छाटन द्वारा हरिभक्तों की सेवा का मार्ग ग्रहण किया था ।

त्याज्य-भृगु तथा पौलोमी के एक देव पुत्र ।

त्योला-एक प्रसिद्ध वैष्णव भक्त । ये जाति के लोहार थे । इन्होंने अपने वंश का मुख उज्वल किया ।

त्रयी-सविता तथा सृष्टि की एक कन्या का नाम ।

त्रय्यारुण-१. त्रिधन्वा के पुत्र तथा प्रसिद्ध राजा त्रिशंकु के पिता । २. एक व्यास का नाम । भागवत में इनका नाम केवल अरुण कहा गया है । दे० 'व्यास' । ३. दुरितक्षय के पुत्र का नाम । दे० 'त्रय्यारुण' ।

त्रय्यारुणि-१. दुरितक्षय के पुत्र का नाम । त्रिविध होकर भी तपस्या के प्रभाव से ये ब्राह्मणत्व को प्राप्त हुए । इन्होंने रोमहर्षण से वेद तथा पुराणों की शिक्षा ली । विष्णु पुराण में इनका नाम त्रय्यारुण कहा गया है । २. एक व्यास ।

त्रसद्-त्रसदस्यु का नामांतर ।

त्रसदस्यु (पौरकुत्स्यु)-एक सूक्तद्रष्टा राजर्षि । इनके पिता पुरुकुत्स जब वंदी थे तभी इनकी माता ने सन्तर्पियों की ऐसी स्तुति की कि उनकी कृपा से पिता के समान ही प्रतापी पुत्र उत्पन्न हुआ । पौरकुत्सि तथा पौरकुत्स्य के नाम से ऋग्वेद में इनका उल्लेख हुआ है । ये गिरिचित्त के वंशज थे, अतएव इनका नाम गैरिचित्त हुआ । ये पुरु के राजा थे । राजा दिवोदास और सुदास पुरुवों के शत्रु थे । दीर्घकाल तक इनमें युद्ध होता रहा पर पुरुकुत्स्य के समय तक यह युद्ध समाप्त हो गया । त्रसदस्यु इस युद्ध से अलग रहे । आगे चल कर कुरु और पुत्र एक हो गये और ये लोग 'त्रासदस्यव' नाम से प्रसिद्ध हुये ।

त्रसदस्यु-सांधाता का नामांतर ।

त्राक्षार्यणि-विश्वामित्र कुलोत्पन्न एक गोत्रकार का नाम ।

त्रिशदाश्व-भविष्य पुराण के अनुसार पुरुकुत्स के पुत्र । इनके रथ में तीस घोड़े लगते थे । इनका राज्य कृतयुग के दूसरे चरण में था ।

त्रिककुत्त-१. भागवत के अनुसार राजा शुचि के पुत्र । २. विष्णु का एक नामांतर ।

त्रिकूट-१. तीन चोटीवाले एक पर्वत का नाम। इसी के एक शिखर पर लंकेश रावण की पुरी लंका बसी हुई थी।
२. एक पर्वत माला का नाम, जो दक्षिण में मेरु पर्वत से आरम्भ होती है।

त्रिगुण-हिंदू शास्त्र के अनुसार सत्, रज और तम तीन गुण माने गये हैं। देवताओं में सत्, मनुष्यों में रज तथा राक्षसों में तम प्रधान रहता है। ये तीनों गुण चराचर सभी प्राणियों में पाये जाते हैं।

त्रिचलु-रुच के पुत्र का नाम।

त्रिजट-एक वृद्ध ब्राह्मण। ये गार्ग्य कुल में उत्पन्न हुए थे। फावड़ा और कुदाल लेकर ये विचरण करते और अपनी जीविका चलाते थे। वनवासी राम-लक्ष्मण से इनकी भेंट हुई थी। इनकी स्त्री युवती थी। राम ने इनसे कुछ विनोद भी किया था। बाद में इस विनोद के लिये उन्होंने चमा मांगी और इन्हें बहुत खी गाये दौ।

त्रिजटा-लंका की एक राक्षसी जो अशोकवाटिका में सीता की देख-भाल के लिये रक्खी गई थी। इसने स्वप्न में देखा कि रावण का नाश होगा। इसने ही व्यवस्था की थी कि सीता को कोई कष्ट न हो। इसका नामांतर धर्मज्ञा था।

त्रित-इंद्र के एक भक्त। निरुक्त के अनुसार ये मंत्रद्रष्टा भी थे। इंद्र ने इन्हीं के द्वारा अर्जुन को परास्त किया था। त्रिशिर्ष और त्वष्ट्रपुत्र भी इन्हीं के द्वारा परास्त हुये थे। त्रित और गृहसमद कुल का संबंध भी मिलता है। ऋग्वेद में त्रित को विभूवस का पुत्र कहा गया है। सायण के अनुसार एकत, द्वित और त्रित को अग्नि देव ने यज्ञ में अथशिष्ट सामग्री को जल में फेंककर उत्पन्न किया था। एक बार ये तीनों भाई कुएँ में गिर पड़े। उस कुएँ को असुरों ने पाट दिया किंतु अन्त में किसी प्रकार ये बाहर निकल आये। कुएँ में गिरने के विषय में अनेक प्रकार की कथायें मिलती हैं। अपने तीनों भाइयों में ये सबसे अधिक ज्ञानी थे। इसलिये इनके भाई इनसे ईर्ष्या करते थे। इसी कारण दोनों के द्वारा इनके कुएँ में गिराये जाने की कथा भी प्रचलित है। कुएँ से सरस्वती की धारा बहने पर ये बाहर निकल सके।

त्रिधन्वन-वायु तथा भविष्य आदि के अनुसार वसु मनस के पुत्र पर मत्स्य और पद्म के अनुसार ये संभृति के पुत्र थे। भागवत में वर्णित अररु पुत्र त्रिबंधन तथा ये एक ही व्यक्ति थे।

त्रिधामन-१. एक व्यास का नाम। ये वर्तमान मन्वंतर के दसवें व्यास माने गये हैं। २. शिव के दसवें अवतार का नाम। इन्होंने काशी में तप किया।

त्रिनाम-वसुध तथा स्वरा के पुत्र का नाम।

त्रिनेत्र-निर्गुची के पुत्र का नाम। अन्य पुराणों के अनुसार इनका नाम सुजन, सुधम क्षयवा शम है। ये एक प्रतापी राजा थे।

त्रिपाद-उरु का एक नामांतर। यह तीन पैरोंवाला था। ये तीनों पैर उरु की तीन शक्लियों गनी, सदी तथा पर्माने के चोतक हैं।

त्रिपुर-१. तारकासुर के तीन पुत्रों ने मर दानर द्वारा

तीन मायासय नगर बनवाये थे। इन्हीं तीनों को त्रिपुर कहते हैं। तारकासुर के तीनों पुत्र--तारकाण, कस-लाज तथा विशुन्मानी--ने घोर तप किया। उन्होंने ब्रह्मा द्वारा यह वर मिला कि तीनों भाई तीन स्वतंत्र नगर बसायेंगे। एक सहस्र वर्षों के बाद ये तीनों नगर एक में मिल जायेंगे। इन तीनों पुरों को जो एक ही वाण से नष्ट कर देगा वही इनका संहार कर सकेगा। तीनों भाइयों ने मिलकर सुवर्णमय, रजतमय तथा लौहमय नगर बसाये। ब्रह्मा की घोर तपस्या करके तारकाण ने हरि नामक एक पुत्र प्राप्त किया। इन वरदानों से निर्भय हो ये राक्षस मनमाने अत्याचार करने लगे। सब देवता ब्रह्मा के पास गये। इंद्रादिक के प्रार्थना करने पर शिव चले। ब्रह्मा उनके सारथी बने। तीनों पुरों के मिलने तक शिव ने प्रतीक्षा की। तीनों पुरों के मिलने पर शिव ने एक ही वाण से त्रिपुर को नष्ट कर दिया। तभी से शिव का एक नाम 'त्रिपुरारि' भी पड़ा। दे० 'मय' तथा 'शिव'। २. सहदेव द्वारा विजित एक राज्य। यह स्थान वर्तमान जवलपुर से ७ मील पश्चिम नर्मदा तट पर तेवर नाम से प्रसिद्ध है।

त्रिपुरदास-प्रसिद्ध वैष्णव भक्त तथा विट्ठलनाथ जी के प्रिय शिष्य। भक्तमाल के टीकाकार प्रियादास ने इन्हें उनका सबसे प्रिय शिष्य माना है।

त्रिपुर सुंदरी-एक देवी का नाम। इन्होंने अर्जुन को वाण-विद्या की शिक्षा दी थी।

त्रिपुरहरि-रामानंदी सम्प्रदाय के एक प्रसुर भक्त, पैतरी जी के ८४ प्रधान शिष्यों में से एक तथा नाभाजी के गुरु अग्रदास जी के गुरुभाई।

त्रिबंधन-अरुण के पुत्र का नाम। दे० 'त्रिधन्वन'।

त्रिभंगी-कृष्ण का एक पर्याय। मुरली बजाते समय कृष्ण की एक मुद्रा के आधार पर--जिसमें उनके शरीर में तीन भंग रहते हैं--श्रीवा, कटि तथा पद--उनका यह नामकरण हुआ है। दे० 'कृष्ण'।

त्रिभण्डि-एक गोत्रकार ऋषि।

त्रिभानु-भागवत के अनुसार भानुमान राजा के पुत्र। इनके पुत्र कर्धम थे। त्रेशांत, त्रिसानु, त्रिसादि तथा त्रिभानु एक ही व्यक्ति के नामांतर हैं।

त्रिभुवन-त्र्यंग, पृथ्वी तथा पाताल तीनों मिलकर 'त्रिभुवन' नाम से प्रसिद्ध हैं।

त्रिमूर्ति-१. ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव का समष्टि मूचक नाम। २. इंद्र प्रसन्नी का नामांतर।

त्रिमूर्धन-रावण के एक पुत्र का नाम।

त्रिलोचन-१. ज्ञानदेव तथा नामदेव के प्रधान शिष्य, एक प्रसिद्ध धर्मप्रचारक। इन्हीं दो परंपरा में धीवल्गभ हुये थे जिनोंने त्रिगु न्यायी सम्प्रदाय का नये सिरे से संस्कार कर 'पुष्टिमान' की माधना का प्रचार किया था। जल राजा हैं कि भक्तों की सेवा करने के लिये इनको एक भूय की स्तम्बस्था हुई। स्वयं भगवान इनके गर्तों नृत्य बनकर इन गर्तों पर नीतर ही गये कि चाहे वे जिना भी पाये इन्हें विहाय नही होगी। बहुत दिनों तक उन्होंने जीतने दौ। परी-

धीरे उनका भोजन ६७ सेर हो गया। उनकी पत्नी ने यह बात अपनी पड़ोसिन से कह दी। उसी दिन भगवान अन्तर्धान हो गये। इनको बहुत दुःख हुआ। इन्होंने अन्न-जल ही छोड़ दिया। अन्त में आकाशवाणी हुई कि 'अन्न-जल ग्रहण करो मैं ही तुम्हारे यहाँ नौकर बनकर आया था।' यह सुनकर सारा रहस्य खुल गया। इनको और भी दुःख हुआ कि भगवान के आने पर भी ये उन्हें पहिचान न सके। २. एक प्रसिद्ध वैष्णव भक्त।

त्रिवची-एक ऋषि का नाम।

त्रिवक्रा-कंस की दासी कुञ्जा का नामांतर। दे० 'कृष्ण'।
त्रिविक्रम-१. विष्णु का एक पर्याय। विष्णु के वामन अवतार के लिये यह नाम आता है, जिसमें उन्होंने तीन पग में स्वर्ग, मृत्यु और पाताल लोक नाप लिए थे। मतांतर से विष्णु के ये तीन पग उदय, मध्य और अस्त काल के प्रतीक हैं। एक अन्य मत से ये अग्नि, वायु तथा सूर्य तत्व के द्योतक हैं। दे० 'वामन', 'विष्णु' तथा 'वल'। २. एक प्रसिद्ध वैष्णव भक्त। नाभाजी इनका नाम प्रमुख मध्यकालीन भक्तों में रखते हैं।

त्रिवृश-एक व्यास।

त्रिवेणी-तीर्थराज प्रयाग में गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगमस्थल का पर्याय।

त्रिवेद कृष्ण रात लौहित्य-श्याम जयंत लौहित्य के शिष्य का नाम।

त्रिशिख-तामस मन्वंतर के इंद्र।

त्रिशिरस-१. त्रिवेणु तथा चवाका के पुत्र। मतांतर से ये त्वष्टा के पुत्र थे और इनका नामांतर विश्वरूप था। इंद्र ने इनका वध किया था। दे० 'त्वष्ट्र' तथा 'विरवरूप'। २. त्रिशीर्ष का नामांतर। दे० 'त्रिशीर्ष'। ३. कश्यप तथा खंशा के एक पुत्र। ४. द्रुपण राक्षस के चार मंत्रियों में से एक। राम द्वारा इसका वध हुआ।

त्रिशिरस त्वाष्ट्र-एक मंत्रद्रष्टा।

त्रिशीर्ष-रावण का एक पुत्र। इसको हनुमान ने मारा था।

त्रिसानु (त्रिसारि)-गोभानु के एक पुत्र का नाम।

त्रिसिर-एक राक्षस का नाम जिसके तीन सिर थे। इसे राम ने मारा था।

त्रिस्तनी-रावण के अंतपुर की दासी। अशोकवाटिका में वंदिनी सीता की यह भी एक रत्निका थी।

त्रेता-सतयुग के बाद और द्वापर के पूर्व आनेवाले एक युग का नाम। इसी युग में राम का अवतार हुआ। इनका काल १,२६६,००० वर्ष माना गया है।

त्रैतन-दीर्घतमस् के एक दास। यह संभवतः त्रित के संबंधी थे।

त्रैपुर-त्रिपुरी के एक राजा का नाम। शुद्धिष्टिर के राजसूय यज्ञ के समय सहदेव ने इन्हें मारा था।

त्रैपुरि-त्रिपुर का पुत्र। जब शिव ने इसके पिता का वध कर उसको भस्म कर डाला तब यह गणपति के पास गया किन्तु उन्होंने इसका भी वध कर डाला।

त्र्यंवर-(त्र्यम्बकेश्वर) शिव के एक अवतार का नाम।

इनका स्थान गोदावरी तट पर था। गौतम की प्रार्थना से ये पृथ्वी पर आये थे।

त्र्यची-तीन आँखवाली रावण की एक राक्षसी दासी। यह अशोक वाटिका में वंदिनी सीता की देख-भाल के लिए नियुक्त की गई थी।

त्र्यारुण-अत्रि के वंशज एक ब्रह्मर्षि का नाम।

त्वष्टा-विश्वरूप के पिता, द्वादश आदित्यों में से ग्यारहवें आदित्य तथा नेत्र के अधिष्ठाता देवता। विराट-पुरुष की दो आँखों के द्विव अलग-अलग उत्पन्न होने पर लोकपाल त्वष्टा अपने अंश से चक्षु के साथ अधिदेवता स्वरूप उसमें प्रविष्ट हो गये। इनके पुत्र विश्वरूप देवताओं के पुरोहित थे। इंद्र द्वारा इनकी हत्या होने पर अपनी जटा से उन्होंने वृत्र नामक दैत्य को इंद्र के शत्रु के रूप में उत्पन्न किया।

त्वष्टाधर-शुक्राचार्य के एक पुत्र का नाम। यह असुरों के पुरोहित तथा अत्यंत धर्मनिष्ठ और तेजस्वी थे।

त्वष्ट्रा-देवताओं के प्रधान शिल्पी। देवताओं के वज्र तथा कुलिश आदि सब प्रकार के शस्त्र-निर्माण में कुशल, ये जीवन, जीवनीशक्ति और जननशक्ति के दाता थे। मनुष्य, पशु आदि सकल प्राणियों के ये निर्माता कहे गये हैं। इनको समग्र विश्व का स्वामी गुरु, नायक और अग्नि का उत्पन्नकर्ता कहा गया है। ये अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। इसी प्रकार की विविध शब्दावली से इनकी प्रशंसा शतपथ ब्राह्मण में की गई है। वेदों में बहुधा ये इंद्र के विरोधी के रूप में वर्णित हैं। ऋभगणों से इनका घनिष्ठ संबंध था। इनके पुत्र का नाम विश्वरूप या त्रिशिर था, जिसके तीन सिर, छः आँख और तीन मुख थे। त्वष्ट्रा की कन्या सरण्यु विश्वरूप को व्याही थी इसी से अश्विनीकुमारों की उत्पत्ति हुई। पुराणों में त्वष्ट्रा और विश्वकर्मा एक ही व्यक्ति कहे गये हैं। द्वादश आदित्यों और रुद्रों में एक का नाम त्वष्ट्रा था।

त्वाष्ट्र-त्वष्ट्रा के पुत्र का नाम। विश्वरूप का पैतृक नाम भी यही था।

त्वाष्ट्री-त्वष्ट्रा की कन्या। ये आदित्य को व्याही थीं। यही अश्विनीकुमारों की माता थीं। इनका नामांतर सरण्यु है।

दंड-१. इक्ष्वाकु के अयोग्य पुत्र। यह जन्म से मूर्ख तथा उन्मत्त थे। इस कारण पिता ने इन्हें दूरस्थ विंध्य और शैवल पर्वत के बीच में एक प्रदेश दे दिया था। वहीं मधुमत्त नामक नगर बसाकर ये रहते थे। इस नगर का नामांतर मधुमंत है। उशनस् शुक्र इनके पुरोहित थे। दीर्घकाल तक ये अविवाहित और जितेंद्रिय रहे। एक बार चैत के महीने में ये भार्गव के आश्रम में गये। वहाँ अपने गुरु की कन्या अरजा को देखा और कामातुर हो गये। अरजा ने अपने को गुरु-बहन कहकर पिता की आज्ञा के लिए इनसे याचना की किंतु इन्होंने उससे बलात्कार किया। ऋषि को जब सारा वृत्तांत ज्ञात हुआ तब उन्होंने श्राप दिया कि यह राजा अपने राज्य सहित नष्ट हो जाये। समा याचना के लिए इन्होंने इंद्र के

आदेश से आश्रम के पास ही १०० वर्ष तक तपस्या की। अष्टदिग्गत हुए और इंद्र की आज्ञा से १०० योजन पर्यंत (मतांतर से ४०० योजन) व्यापी वह प्रदेश अनाद्युष्टि के कारण अरुण्य हो गया। तब से उस प्रदेश का नाम 'दंडकारण्य' हो गया। २. वृत्र के भाई क्रोध-हंता के अंशावतार, विदंड राजा के पुत्र तथा मगध के राजा। इनके भाई का नाम दंडधार था। भारतयुद्ध में दुर्योधन की ओर से लड़ते हुए ये अर्जुन द्वारा मारे गये। ये द्रौपदी के स्वयंवर में भी उपस्थित थे। ३. एक पांडव-पत्नीय राजा जिसे कर्ण ने मारा था। ४. उत्कल के तृतीय पुत्र जिन्होंने दंडकारण्य निर्माण किया। ५. आयु के चतुर्थ पुत्र। ६. सूर्य के एक पार्षद। ७. कुबलाश्व के पुत्र। दे० 'चंद्राश्व'।

दंड औपर-तैत्तरीय संहिता में एक व्रत के संबंध में इनका उल्लेख हुआ है।

दंडक-१ एक दस्यु। कोई पाप ऐसा नहीं जो इसने न किया हो। एक बार एक विष्णु-मंदिर में चोरी करने गया। वहीं सर्प के काटने से इसकी मृत्यु हो गई। २. इक्ष्वाकु के पुत्र। दे० 'दंड'।

दंडकवन-एक प्राचीन वन। विंध्य-पर्वतमाला से गोदावरी तक इसके होने का उल्लेख मिलता है। रामचंद्र ने अपने वनवास का अधिक समय यहीं बिताया था। उस समय यहाँ कितने ही ऋषियों के आश्रम थे, तथा राक्षसों का उत्पात भी समय-समय पर होता रहता था। रामचंद्र ने स्वयं ही कितने ही इस प्रकार के राक्षसों का वध किया था। यहीं शबरी नामक एक भीलनी के वेर उन्होंने खाये थे, सुपर्णखा के नाक-कान काटे गये थे तथा सीता-हरण हुआ था।

दंडकार-एक चोर। विष्णु पंचक व्रत करने से इसकी मुक्ति हुई।

दंडकेतु-एक पांडव राजा। भारत युद्ध में ये पांडवों के पक्ष में थे।

दंड गौरी-एक अप्सरा।

दंडधार-१. मगध देश के गिरिव्रज के राजा। यह क्रोध-पर्धन नामक राजा के अंशावतार थे। ये एकरथी और हस्ति युद्ध में बड़े निपुण थे। भारत-युद्ध में दुर्योधन की ओर से लड़ते हुए अर्जुन के हाथ से मारे गये। २. पांडव पत्नीय एक चंड राजा। कर्ण के हाथ से इनकी मृत्यु हुई। ३. धृतराष्ट्र के एक पुत्र जो भीम द्वारा मारे गये। ४. पांचाल देशीय एक क्षत्रिय राजा जो भारत युद्ध में कर्ण द्वारा मारे गये।

दंड नायक-सूर्य के चाम-भाग में रहनेवाले इंद्र। यह दंड नीतिकार थे, अतएव इनका नाम दंडनायक पड़ा।

दंडपाणि-१. भागवत के अनुसार बलीनर के पुत्र। पायु के अनुसार ये मेधावी के पुत्र थे। २. काशिराज पौरव वामुदेव के पुत्र। इनके पिता को जब कश्यप ने मार डाला तो इन्होंने मोरेश्वर नामक यज्ञ किया था जिससे शिव इन पर प्रसन्न हुए और इन्होंने उनसे कृष्ण के नाश का उपाय पूछा था। इससे डरकर कृष्ण द्वारा का चले गये

और वहाँ से उन्होंने सुदर्शन चक्र चढ़ाया जिससे अपने नगर और सब लोगों सहित यह नष्ट हो गया।

दंडभृत्-एक क्षत्रिय वीर। राम के अश्वमेध यज्ञ के समय जब शत्रुघ्न अश्व की रक्षा के लिए चले थे तब उनके साथ यह भी गया था।

दंडश्री-वायु के अनुसार विजया के पुत्र। दे० 'चंडश्री'।

दंडी-१. धृतराष्ट्र का एक पुत्र। २. मृग कुलोत्पन्न एक गोत्रकार। ३. संस्कृत के एक विख्यात कवि गद्य लेखक तथा रीतिग्रंथ-प्रणेता। इनका जन्म छठवीं तथा सातवीं शताब्दि के लगभग हुआ था। संभवतः ये विदर्भ देश के निवासी थे। विद्वानों का अनुमान है कि ये घर-बार छोड़कर संन्यासी हो गये थे और दंडी इनका नाम नहीं बल्कि उपाधि है। ये देश-विदेश घूमते थे और वर्षों के चार मास एक स्थान में निवास करके ग्रंथ-रचना करते थे। 'दशकुमार-चरित' और 'काव्यादर्श'चौमासे में ही बने। वर्षों समाप्त होते ही ये फिर अपने अपूर्णा ग्रंथ को छोड़कर चल देते थे। यही कारण है कि इनके बहुत से ग्रंथ आदि और अंत के स्पष्ट संदर्भ से रहित हैं। इनके मुख्य ग्रंथ हैं : (१) काव्यादर्श, (२) दशकुमार चरित, (३) छंदोविचित तथा (४) कलाप-परिच्छेद। इनकी कविता के संबंध में प्रसिद्ध है-कविर्दंडी कविर्दंडी कविर्दंडी न संशय, "जाते जगति वाल्मीकी कविरित्यविधाभवत्, कवी हृति ततो व्यासे कवयस्त्वपि दंडिनि" ॥ काव्यादर्श में इन्होंने शूद्रक के मृच्छकटिक से एक श्लोक उद्धृत किया है इससे सिद्ध होता है कि ये शूद्रक के बाद हुए थे, कवि राजशेखर ने इन्हें उद्धृत किया है अतएव सिद्ध है कि ये राजशेखर से पहले हुए। राजशेखर का समय ७६१ई०माना गया है। मम्मट ने भी अपने काव्य-प्रकाश में इनका उल्लेख किया है।

दंडी मुंडीश्वर-शिव का एक अवतार। यह अवतार गाराह कल्प के वैवस्वत मन्वंतर की सातवीं चौकड़ी में हुआ था। इनके चार शिष्य द्रुगल, कुंडकण, कुंभटि और प्रवाहक प्रसिद्ध हैं।

दंतकर-एक वीर जिसे परशुराम ने मारा था।

दंतवक्त्र-कल्प देश के राजा का अंशावतार। इनके पिता वृद्धशर्मा तथा माता ध्रुतदेवी थीं। राजसूय यज्ञ के समय सहदेव ने इन्हें हराया था। कृष्ण के हाथ से इनकी मृत्यु हुई। इनका नामांतर वक्रदंत है।

दंतिल-मतंग ऋषि के पुत्र तथा कोहल के भाई।

दंडशूक-एक सर्पराज। यह क्रोधवशा का पुत्र था।

दंभ-१. एक दानव। यह विप्रचित्ति का पुत्र था। २. मत्स्य के अनुमार आयु का पुत्र।

दंभोद्भव-एक क्षत्रिय राजा। इन्हें अपने ऐश्वर्य का इतना अभिमान था कि ये अपने समान किसी को भी नहीं मानते थे। एक बार इन्होंने प्राणियों से यह पूछा कि पृथ्वी पर मुझसे बड़कर कौन है। प्राणियों ने कहा कि यह बात नर-नारायण से पूछनी चाहिए क्योंकि पृथ्वी मनुष्य से बड़े माने जाते हैं। यह सुन अपना दम-भंग लेकर इन्होंने नर-नारायण पर चढ़ाई की, पर इन्होंने इन्हें पराजित करके इसका गर्व नष्ट कर दिया।

दंभोलि-दृढस्य के पुत्र । पहले ये अगस्त्य-कुल में उत्पन्न हुये थे; पर आगे चलकर जब पुलह ने इनके पिता दृढस्य को पुत्र मान लिया तब से ये पौलह हो गये ।

दंश-एक राक्षस । महाभारत के अनुसार इसने एक बार भृगु मुनि की स्त्री का अपहरण किया जिससे उन्होंने यह शाप दिया कि तू कीटि-योनि को प्राप्त हो । फलतः वह अलर्क नाम का कीड़ा हो गया । बहुत प्रार्थना करने पर यह आरवासन मिला कि मेरे वंश में उत्पन्न होने वाले राम के द्वारा तेरी मुक्ति होगी । एक बार कर्ण के युद्धविद्या के गुरु परशुराम जी उसकी जाँघ पर सिर रखकर सो रहे थे । उसी समय यह कीड़ा कर्ण की जाँघ का रक्त चूसने लगा लेकिन इस डर से कि कहीं गुरु जग न जायँ वह उस से मस नहीं हुये । जगने पर क्रोध पूर्ण नेत्रों से कीड़े की श्मश्रु देखा जिससे वह भस्म हो गया और अपने पूर्व रूप को प्राप्त हुआ । फिर इसने अपनी सारी गाथा कह सुनाई । दंश का कीड़े के रूप में शूकर की भाँति आकार था जिसके आठ पैर और अनेक तीक्ष्ण दाँत थे । ऋतु-ध्वज और मदालसा के पुत्र अलर्क दूसरे थे । दे० 'अलर्क' ।

दंष्ट्रा-कश्यप तथा क्रोधा की कन्या और पुलह की स्त्री ।

दत्त-१. एक प्रजापति । सती इनकी पुत्री थी । २. एक विश्वदेव । ३. अंगिरस कुलोत्पन्न एक गोत्रकार । ४. अंगिरा तथा सुरूपा के देवपुत्र । ५. भृगु तथा पौलोमी के देवपुत्र । ६. वाष्कल के पुत्र । ७. देवातिथि के पुत्र । वायु तथा विष्णु में इनको ऋत्त तथा भागवत में ऋश्च कहा गया है ।

दत्त कात्यायनि आत्रेय-शंख वाभ्रव्य के शिष्य ।

दत्त जयंत लौहित्य-कृष्णरात लौहित्य के शिष्य ।

दत्त पितर-तैत्तिरीय संहिता में दत्त प्रजापति के पुत्र इस नाम से पुकारे गये हैं ।

दत्त सावर्णि-दत्त के एक पुत्र । ये चाक्षुष मवंन्तर में प्रकट हुये । इनकी माता सप्रता थीं । यह नवम मनु थे । इनका नामांतर रोहित था ।

दक्षिणा-आकृती और रुचि की कन्या । यह यज्ञ को व्याही थी जिससे लुपित के बारह पुत्र हुये । यज्ञ दक्षिणा के भाई थे पर विष्णु के अवतार थे । इस कारण दक्षिणा ने लक्ष्मी होकर जन्म-ग्रहण किया । एक बार ये राधा के सामने कृष्ण की गोद में बैठ गईं जिससे रुष्ट हो उन्होंने इन्हें निकाल दिया । तब ये ब्रह्मा के पास चली गईं ।

दत्त-सांदीपनि के पुत्र । सांदीपनि वलराम और कृष्ण के गुरु थे । दत्त को एक बार पंचजन नामक दैत्य उठा ले गया और शंख रूप धारणकर समुद्र में रहने लगा । गुरु-दक्षिणा के रूप में सांदीपन ने इस पुत्र का उद्धार करने को कहा । श्रीकृष्ण ने समुद्र में गोता लगाकर इस राक्षस का वध किया और गुरु-पुत्र का उद्धार किया । शंख-रूप पंचजन को मारकर उसकी हड्डियों से पंचजन्य नामक शंख बनवाया । दे० 'पंचजन' और 'सांदीपन' ।

दत्त तापस-एक ऋषि । सर्वयज्ञ में यह होतृ नामक ऋषिज थे ।

दंतोत्ति-पुनस्य और प्रीति के पुत्र ।

दधि क्रावण-मरीचि गर्भ देवों में से एक । ऋग्वेद में इनका सूक्त है ।

दधिमुर-१. राम सेना के एक वीर यानर । यह सोम के पुत्र और गम्भीर प्रकृति के योद्धा थे । जिस समय ये राम-सेना में भर्ती हुये वृद्ध हो चुके थे । राम के अश्वमेध यज्ञ में शत्रुघ्न के साथ अश्वरत्ना की सेना के साथ यह भी थे । २. एक प्रसिद्ध सर्प जो कश्यप तथा कद्रू के पुत्र थे ।

दधिवाहन-१. शिव के एक अवतार । वाराह कल्प के वैवस्वत मन्वन्तर की आठवीं चौकड़ी में वशिष्ठ और व्यास की सहायतायें ये प्रकट हुये थे । इनके चार पुत्र थे—कपिल, आसुरि, पंचशिख और शास्वल पूर्वक । ये चारों महाभोगी थे । २. मत्स्य तथा वायु के अनुसार अंग के पुत्र ।

दनायु-१. दे० 'रनु' । २. दत्त प्रजापति और आरुक्मि की कन्या और कश्यप की स्त्री ।

दनु-दत्त प्रजापति तथा आरुक्मि की कन्या, कश्यप की स्त्री तथा दानवों की माता । वृत्रासुर इन्हीं का पुत्र था जिसे दधीचि की हड्डियों से निर्मित वज्र से इंद्र ने मारा था । मतांतर से विष्णु, वल, वीर और वृत्र नामक दानवों की माता दनायु थीं । एक दूसरे मत से दनु ने वातापी, नरक, वृषवर्ग, निकुंभ, प्रलंब तथा वनायु आदि ४० दानवों को जन्म दिया । वास्तव में दिति (दैत्यों की माता) दनु और दनायु ये तीनों ही कश्यप की स्त्री और यावत् दैत्य-दानवों की जन्मदात्री थीं, जिन्होंने देवताओं से वरा-वर युद्ध किया । कई हार-जीत के बाद अंत में ये मारे गये ।

दनुपुत्र-एक मंत्रद्रष्टा । दे० 'कश्यप' ।

दभीति-एक गृहस्थ । यह इंद्र के कृपापात्र थे । इनकी प्रार्थना से इंद्र ने सुसुरि तथा धुनि का वध किया और अन्य तीस सहस्र दासों का नाश किया । अश्विनीकुमारों की भी इन पर कृपा थी ।

दम-१. विदर्भ नरेश भीम के पुत्र तथा दमयंती के भाई । २. भागवत के अनुसार मरुत के और विष्णु आदि के अनुसार नरिप्यंत के पुत्र । ३. अंगिरा-कुलोत्पन्न एक ऋषि । ४. आभूत रजस् देवों में से एक ।

दमघोष-चेदिराज शिशुपाल के पिता और कृष्ण के कृपा । दमन-१. एक ऋषि । इनके आशीर्वाद से विदर्भराज भीम के दम आदि चार संतानें हुईं । २. विदर्भराज भीम के एक पुत्र तथा दमयंती के भाई । ३. पौरव के पुत्र तथा दुर्योधन-पत्नीय एक क्षत्रिय वीर । ४. अंगिरा तथा सुरूपा के पुत्र । ५. भरद्वाज के पुत्र । एक राक्षस । भृगुपत्नी पुलोम ने इसे पाला था ।

दमनक-एक दानव । मत्स्यवतार में विष्णु ने इसे चैत्र शुद्ध चतुर्दशी को पृथ्वी पर गिराया । भगवान के स्पर्श के प्रभाव से यह सुगंधित तृण रूप से पृथ्वी पर रहा ।

दमवाह्य-अंगिरा कुल के एक प्रवर । नामांतर चमदाह्य है । दया-दक्ष की एक कन्या तथा कश्यप की स्त्री । इनके अभय नामक एक पुत्र था । यह बड़ी धर्मपरायणा थीं । दरद-एक वाहीक राजा जो भारत युद्ध में दुर्योधन के पक्ष

में थे। वर्तमान काश्मीर के उत्तर दार्दिस्तान नाम का प्रदेश इन्हीं का था। यह क्षत्रिय जाति आगे चलकर म्लेच्छ हो गई थी।

दरि-जनमेजय के नागयज्ञ में जला एक साँप।

दरिथीत-भागवत के अनुसार दुंदुभी नामक राक्षस का पुत्र। विष्णु तथा वायु आदि में इनको अभिजित कहा गया है।

दरीमुख-एक वानर वीर जो राम सेना के एक सेनापति थे।

दरुभ-एक यासाण। ये गोदावरी तट पर स्थित प्रतिष्ठान नामक नगरी में रहते थे।

दर्प-धर्म के पुत्र। इनकी माता का नाम उज्जति था।

दर्पगुप्ति-एक राजा जो कारुण राजा के पुत्र थे।

दर्भक-भागवत विष्णु तथा ब्रह्मांड आदि के अनुसार अज्ञातशत्रु के पुत्र। वायु में इनको दर्शक कहा गया है।

दर्भवाह-एक ऋषि। ये अग्रस्त्य कुल में उत्पन्न हुये थे।

दर्भि-एक ऋषि। इन्होंने सातों ससुद्रों से यह प्रार्थना की कि तुम लोग एक तीर्थ उत्पन्न करो और उन्होंने इनकी प्रार्थना स्वीकार कर अर्धकील नामक पापनाशक तीर्थ उत्पन्न किया।

दर्वा-राजा उशीनर की स्त्री।

दर्विन-राजा उशीनर के पुत्र।

दर्श-१. कृष्ण और मालिनी के पुत्र। २. धाता नाम के एक आदित्य के पुत्र। इनकी माता का नाम सिनवाली था।

दर्शक-वायु के अनुसार विवस्वार के पुत्र।

दर्शनीय-मणिभद्र तथा पुण्यजनी के पुत्र।

दर्शाह-मत्स्य के अनुसार ये निवृत्ती के पौत्र थे। मत्स्य के अनुसार इनके पिता विदूस्थ थे।

दल-१. अयोध्यापति, इक्ष्वाकुवंशीय एक राजा। इनके पिता परीक्षित थे। इनकी माता का नाम शोभना था। ये राजा पारियात्र के पुत्र थे। भविष्य में इनका नाम दलपाल दिया हुआ है। भागवत के अनुसार इनका नाम बल है। पारियात्र और परीक्षित एक ही थे। २. कश्यप तथा दनु के पुत्र।

दलवाहन-ये गोपालक देश के राजा थे। देवकी और माहली नाम की इनकी दो कन्याएँ थीं।

दलेपु-दे० 'बलेपु'।

दवशावृ-गौतम नाम के शिवायतार के पुत्र।

दशाव-अंगिरा कुलोत्पन्न एक ऋषि। ऋग्वेद में नवम्ब के साथ इनका कई स्थानों पर उल्लेख हुआ। इंद्र द्वारा इनकी रक्षा की जाने का भी वर्णन है। अंगिरा-कुल के संघर्ष इन्होंने धरणा बल्लग कुल बनाया।

दशज्योति-सुभ्राज के पुत्र। एक देवता।

दशसु एक वैदिक राजा। इनका पुत्र के साथ इंद्र युद्ध हुआ। पंग में इंद्र ने दोनों की रक्षा की थी।

दशागी-मत्ता की एक मानस कन्या।

दशावन एक वैदिक राजा। अदिपनीकुमारों ने इनकी रक्षा की थी। ये इंद्र के भी कृपापात्र थे।

दशशिक्ष-ऋग्वेद के अनुसार इंद्र इनके यहाँ सोमरस पान कर प्रसन्न होते थे।

दशारि-भविष्य के अनुमार निरावृत्ती के पुत्र। शन्यत्र इनका नाम दर्शाह दिया हुआ है।

दशाणी-गंधारराज सुबल की कन्या तथा धृतराष्ट्र की पत्नी।

दशावर-एक देव। यह वरुण लोक में रहता था।

दशाश्व-इक्ष्वाकु के सौ पुत्रों में से दसवें। यह माहिष्मती नगर के राजा थे। इनके पुत्र का नाम मदिराश्व था।

दशोणि-पत्नी से इनका जब युद्ध हुआ था तब इंद्र ने इनकी सहायता की थी। ऋग्वेद के एक मंत्र के अनुसार दशोणि व्यक्ति का नाम नहीं है।

दशोण्य-इंद्र के कृपा पात्र, एक वैदिक व्यक्ति।

दस्यवेवृक-एक वैदिक व्यक्ति। यह नाम दो व्यक्तियों का सा लगने पर भी एक ही व्यक्ति का है। ऋग्वेद में इनकी उदारता का उल्लेख है। वाल्खिल्यों के सूक्त में भी इनका उल्लेख है। इनके पिता का नाम पूतवत् तथा माता का नाम पूतवता था।

दस्य-अश्विनीकुमारों में से एक। सहदेव इन्हीं के अंशावनार थे।

दहन-१. हादश रुद्रों में से एक। इनके पिता द्यागु तथा पितामह ब्रह्मा थे। २. कुमार कार्तिकेय का एक अनुचर।

दाँत-१. विदर्भ नरेश भीम के एक पुत्र तथा दमयंती के भाई। २. एक ऋषि। इन्होंने भद्रतनु नामक ब्राह्मण में काम, क्रोध, लोभ आदि का अधिकार देकर उसे इन सबको छोड़ने का उपदेश दिया था।

दाकन्य (दाकायन)-वशिष्ठ कुलोत्पन्न गोत्रकार अपिगण।

दाक्षपाय-कश्यप कुलोत्पन्न एक गोत्रकार।

दाक्षायण-एक राजमालिका का नाम। इसमें होनेवाले राजागण संस्कार-विशेष के कारण ब्राह्मण काल पर्यंत बड़े ऐश्वर्यशाली थे। दाक्षायण शब्द का अर्थ मोना किया गया है। दाक्षायणों ने शतानीक को मोना दिया था।

दाक्षायणी-सती का नामांतर।

दाक्षि-अंगिरा कुलोत्पन्न एक गोत्रकार।

दान-पारावत तथा सुगेंद्रों में से एक।

दानपति-अक्रूर का नामांतर।

दामग्रथिन्-राजा विराट के यहाँ अज्ञातवासी नकुन का नाम।

दामघोषि-शिशुपाल का नामांतर।

दारु-१. कृष्ण के सारथि का नाम। २. वैश्रवत मन्त्रंर में एक शिवायतार। ३. एक राक्षस।

दारुकि-कृष्ण सारथि दारु का पुत्र तथा प्रयुक्त का सारथि।

दारुण-कश्यप तथा सरिषा के पुत्र। २. मरुद के पुत्र।

दारुय-ऋग्वेद की एक ऋचा में इनका उल्लेख हुआ है।

दालकि-एक ऋषि। वायु के अनुसार ये स्वाम ती पृथ्वि-सिन्धु परंपरा में अश्विन के शिष्य थे।

दालिभ-दण का पैतृक नाम।

दालभ्य-१. दाल्य का पर्याय। यह पैनी, दल तथा पंचिनाम का पैतृक नाम है। २. उनम मन्त्रंर में मन्त्रार्थियों में से एक। ३. सुमामेन के मित्र।

दावसु आंगिरस्-जामवेद के एक मन्त्रार्थी ऋषि।

दाशर्म-एक आचार्य । ये आरुणि के समकालीन थे ।
दाशार्ह-मथुरा के एक पौराणिक राजा । यह शिवस्तुति
के प्रभाव से पाप-रहित हुये । दाशार्ह व्योम का पैतृक
नाम है ।

दाशूर-एक तपस्वी । यह शरलोमा के पुत्र थे । मगध देश
में एक पर्वत पर रहते थे । शरलोमा की मृत्यु होने के
बाद ये शोकमग्न हो गये । इनके पास अग्निदेव प्रकट हुये ।
यह एक कंदव के वृक्ष पर आसन जमाये बैठे रहा करते
थे । अग्नि देवता ने इनको वर दिया । कंदव वृक्ष पर
आसन जमाये रहने के कारण इनका नाम 'कंदव दाशूर'
प्रसिद्ध हुआ । वनदेवता के प्रताप से इन्हें एक पुत्र हुआ
जिसे इन्होंने ज्ञानोपदेश दिया था ।

दिडि-सूर्य के मंत्री तथा एकादश रुद्रों में से एक ।
इन्होंने एक ब्राह्मण का सिर काट डाला था और सूर्य के
सान्निध्य में आने के कारण इस पाप से मुक्त हुये ।
सूर्य के रथ के अग्रभाग में सेवक के रूप में इनका स्थान
रहता था ।

दिलीवम-भविष्य के अनुसार मनुवंशी दशरथ के पुत्र ।
इन्होंने २६७००० वर्ष राज्य किया ।

दिवंजय-उपास्थी तथा भद्रा के पुत्र ।

दिवाकर-१. गरुड़ के एक पुत्र । २. भागवत के अनुसार
भानु राजा के पुत्र और सहदेव के पिता । मतांतर से ये
प्रतिव्यूह अथवा प्रतिव्योम के पुत्र थे । लोक में यह शब्द
सूर्य के पर्याय रूप में प्रसिद्ध है ।

दिवस्पति-रौष्य मन्वंतर में होनेवाले एक इंद्र ।

दिवि-सत्यदेवों में से एक ।

दिविरथ-भागवत के अनुसार खनपान के पुत्र । इनके पुत्र
का नाम पुत्ररथ था । वायु तथा मत्स्य के अनुसार ये
दधिवाहन के पुत्र थे । विष्णु के अनुसार इनके पिता का
नाम पार और पुत्र का नाम धर्मरथ था ।

दिवीलक-विष्णु के अनुसार लंबोदर के पुत्र । नामांतर
अपीनक अथवा चिविलक ।

दिवोदास भैमसैनी-आरुणि के एक समकालीन ।

दिव्य-वायु के अनुसार सात्वत के पुत्र । अन्य पुराणों में
इनका नाम अंधक अथवा दिव्यांधक दिया हुआ है ।

दिव्यजायु-पुरुखा और उर्वशी के एक पुत्र ।

दिव्यमान-पारावत देवों में से एक ।

दिव्यांधक-दे० 'दिव्य'

दिव्या-पुलोमा की कन्या तथा भृगु की स्त्री ।

दिव्या देवी-प्लक्षद्वीप निवासी राजा दिवोदास की
कन्या । दिवोदास ने इनका विवाह रूपदेश के राजा
चित्रसेन से स्थिर किया, पर विवाह का लग्न उपस्थित
होते ही वे मर गये । तब इनका विवाह रूपसेन राजा
से निश्चय हुआ पर वह भी लग्न आते ही मर गये ।
इस प्रकार इनके २१ पति मरे तब इनके पिता ने स्वयं-
वर की विधि से इनका विवाह करने का निश्चय किया ।
पर स्वयंवर में आहुत सव राजे आपस में लड़कर मरने
लगे । तब दिव्या देवी क्रोध हो घन में चली गईं और
चार वर्ष तक निरंतर व्रत करने पर उन्हें विष्णु के दर्शन
हुये । फिर ये विष्णुलोक में ले ली गईं । पूर्व जन्म में

यह चित्रा नाम की वणिक कन्या थीं । दे०
'चित्रा' ।

दिष्ट-वैवस्वत मनु के पुत्र । इनके भाई नाभाग थे ।

दीक्षित-कश्यप मुनि के पुत्र । इनकी माता का नाम आर्यवती
था । द्विविद नाम के इनके एक भाई भी थे ।

दीर्घ अवसर (औराज)-दीर्घतमस ऋषि के एक पुत्र ।
ये एक बार राजा की सीमा के बाहर चले गये और उप-
वास के कारण मरणासन्न हुये । तब साम गायन से उन्हें
भोजन मिला । इन पर अश्विनीकुमारों की कृपा थी ।
संभवतः इनकी उत्पत्ति सुदेष्ण की दासी के गर्भ से हुई
थी । दे० 'दीर्घतमस' ।

दीर्घजिह्व-१. एक दैत्य । कश्यप तथा दनु का पुत्र । २.
एक अति विपाक सर्प । मृतसंजीवक नामक मणि के
संरक्षकों में से एक यह भी था ।

दीर्घजिह्वा-अशोक - वाटिका में वंदिनी सीता की
रक्षिकाओं में से एक ।

दीर्घ तपस-१. राष्ट्र का पुत्र । ब्रह्म पुराण में यह कश्यप का
पुत्र कहा गया है । २. जंबू द्वीप स्थित महेन्द्र पर्वत पर
रहनेवाले एक ऋषि । पुण्य और पावन नाम के इनके
दो पुत्र थे । सपत्नीक दीर्घ तपस के दिवंगत होने पर
पावन अति शोकमग्न हुये । पुण्य ने इनको ज्ञानोपदेश
देकर मोह-मुक्त किया । ३. एक न्यास । इनके पुत्र
शुक्र थे ।

दीर्घ तमस औचथ्य-ऋग्वेद के अनुसार उचथ्य के पुत्र ।
यह अंगिरा कुलोत्पन्न एक सूक्तद्रष्टा थे और बृहस्पति के
शाप से अंधे हो गये थे, पर अग्नि देव की स्तुति से फिर
उन्होंने दृष्टि प्राप्त की । अश्विन नामक दास ने कई बार इनका
हृदय विदीर्ण कर दिया किन्तु अश्विनीकुमारों ने हर बार
इनकी रक्षा की । कक्षिवत्, आदि पाँच पुत्र इनके ही थे ।
पुराणों में ये उतथ्य तथा ममता के पुत्र माने गये हैं । गर्भा-
वस्था से ही वेद-वेदांग का ज्ञान ये प्राप्त कर चुके थे । प्रदेवी
नामक एक सुंदरी से इनका विवाह हुआ जिससे गौतम
आदि कई पुत्र इनके हुये । पुत्रेच्छा से यह दिन में ही
सब लोगों के समक्ष सहवास करते थे । अंत में माता
की आज्ञा से इनके पुत्रों ने ही इन्हें गंगा में बहा दिया ।
बहते-बहते ये राजा बलि के चहाँ गये । वहाँ राजा बलि
की दासी से कक्षिवान आदि पुत्र उत्पन्न हुये । इसके
पश्चात् संतान-प्राप्ति की इच्छा से राजा बलि ने अपनी
रानी 'सुदेष्णा' को भेजा । उससे शंभु, वंग, कर्लिग आदि
पुत्र उत्पन्न हुये । कक्षिमान आदि इनके पुत्रों ने विद्या-
बल से ब्राह्मणत्व प्राप्त किया । ऋग्वेद में दीर्घ तमस का
शब्दार्थ है दीर्घ दिवसानंतर अस्त होने वाले सूर्य ।

दीघनीय-यह नाम ऋग्वेद में आया है । इंद्र ने इनको
बहुत सी संपत्ति दी थी ।

दीघनेत्र-भीम के हाथ से मृत्यु पानेवाला धृतराष्ट्र का
एक पुत्र ।

दीर्घवाहु-राजा खट्वांग के पुत्र । इनके पुत्र रघु थे ।
मत्स्य के अनुसार इनके पुत्र अज थे । 'हरिवंश' में 'दीर्घ-
वाहु' शब्द रघु के विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है ।
गरुड़ पुराण में रघु के साथ यह शब्द लगा हुआ है ।

दीर्घयज्ञ-दुर्धन-पक्षीय एक राजा ।
 दीर्घरोमन-धृतराष्ट्र के एक पुत्र जिन्हें भीम ने मारा था ।
 दीर्घलोचन-धृतराष्ट्र के एक पुत्र जिन्हें भीम ने मारा था ।
 दीर्घायु-श्रुतायु के पुत्र एक क्षत्रिय योद्धा । भारतयुद्ध में
 ये अर्जुन के हाथ से मारे गये । ये अर्द्धतायु के पुत्र थे ।
 दीर्घिका-वीर शर्मा की कन्या । नामांतर शंडिली । यह
 बहुत लंबी थी । लंबी लड़की से शादी करने वाला शीघ्र
 मर जाता है इस धारणा से कोई इससे शादी नहीं करता
 था । इसलिये जंगल में वृद्धावस्था तक तपस्या करती
 रहीं । बहुत दिन बाद एक कोढ़ी गृहस्थ इसके आश्रम में
 आया और उसने विवाह की प्रार्थना की । इसने उससे
 विवाह कर लिया । वह पुरुष वेश्यागामी था और दीर्घिका
 उसे अपने कंधे पर चढ़ाकर वेश्या के यहाँ ले जाया करती
 थी । एक बार अंधेरे में ले जाते हुये मांडव्य ऋषि का
 शरीर इससे छू गया । क्रोधित हो उन्होंने शाप दिया कि
 सूर्योदय के साथ-साथ तू मर जायगा । दीर्घिका ने अपने
 पातिव्रत से सूर्योदय रोक दिया । अन्त में अनुसूया के
 कहने से सूर्योदय किया । प्रसन्न हो देवताओं ने इन्हें
 और इनके पति को पूर्ण यौवन प्रदान किया ।
 दुंदुभि-१. एक राजस । मयासुर और होमा नाम
 अप्सरा के दो पुत्रों से एक । दुंदुभि दीर्घ काल तक तपस्या
 करके सहस्र ह्यधियों के बल का वरदान पाकर भँसे के
 रूप में स्वतंत्र विचरण करने लगा । वानरराज बालि ने
 इसे मार कर मर्तंग ऋषि के आश्रम में फेंक दिया । सृत्
 दुंदुभि के रक्त से आश्रम गंदा हो गया । इससे क्रुद्ध हो
 मर्तंग ने बालि को शाप दिया कि इस आश्रम में आते ही
 तेरी मृत्यु हो जायगी । इस कारण वह आश्रम बालि के
 लिये अगम्य और सुग्रीव, जो बालि से डरता था, के लिए
 सुगम हो गया । कालांतर में वहाँ पर वनयात्री राम से
 सुग्रीव ने मित्रता की । राम ने अपनी शक्ति का परिचय
 देने के लिये इसे अपने पैर के एक अँगूठे के धन्के से १६
 योजन दूर फेंक दिया । कहा जाता है कि इसने १६
 हजार स्त्रियों को बंदिनी बनाया था । इसने एक लाख
 स्त्रियों से विवाह करने की प्रतिज्ञा की थी । २. एक गंधर्वी ।
 माता की आज्ञा से यह दशरथ की रानी कैकेयी की दासी
 हुई । ३. एक दानव । कश्यप तथा दनु का पुत्र । ४. अंधक
 का पुत्र । इसके पिता का नाम अनु तथा पुत्र का शरि-
 घोत था । ५. सुतार नामक शिवावतार के शिष्य ।
 दुंदुभि निह्नाद-दिति का पुत्र और प्रहाद का मामा ।
 बालाणों के द्वारा राजसों की पराजय देख इसने काशी
 जाकर बालाणों का नाश करने की रानी और इस विचार
 से काशी-क्षेत्र में जाकर उनका वध करने लगा; किंतु
 शिव ने बताया कि तू बालाणों का क्रुद्ध नहीं कर सकता
 है । अन्त में काशी में ही इसका नाश हुआ । काशी के
 स्वामी शर महादेव के महाभय में इसका वर्णन है ।
 दुःशाल-धृतराष्ट्र के एक पुत्र ।
 दुःशाला-धृतराष्ट्र की कन्या तथा दुर्धन सादि १००
 भाइयों की भगिनी । यह सिंधुराज जपयथ को प्यारी
 गई थी । इसके पुत्र का नाम सुस्थ था ।
 दुःशान-ऋषेय के एक मंत्र में इनको उद्धार कहा गया है ।

दुःसह-१. धृतराष्ट्र का एक पुत्र जिसे भीम ने मारा था ।
 २. पुष्कर के पुत्र । इनकी स्त्री का नाम नर्मदा था ।
 दुःस्वभाव-दे० 'दुर्बुद्धि' ।
 दुरतिक्रम-शिवावतार सुहोत्र के शिष्य ।
 दुराचार-एक अष्टाचारी ब्राह्मण । धनुष्कोटि, जाबाल
 तथा बेंकटाचल आदि तीर्थों की यात्रा करने से ये पवित्र
 हुये ।
 दुराधन-धृतराष्ट्र का एक पुत्र ।
 दुराधर-धृतराष्ट्र का एक पुत्र ।
 दुरासद-भस्मासुर का पुत्र । इसने शिव से पंचाक्षरी
 मंत्र प्राप्त कर उसका जप किया और शक्तिशाली हो सबको
 दुःख देने लगा । अंत में शक्ति पुत्र दुर्गा ने इसका वध
 किया ।
 दुरित-महावीर्य राजा के पुत्र । इनके तीन पुत्र थे ।
 दुर्ग-१. हिरण्याक्ष के वंशज रुद्र नामक दैत्य का पुत्र ।
 २. गुर्जर देश के राजा मूलवर्म का पुत्र ।
 दुर्गम-१. एक राजस जिसका वध दुर्गा ने किया । २.
 रुद्र दैत्य का पुत्र । इसने सब वेदों को नष्ट कर दिया
 जिससे सारे वैदिक कर्म नष्ट हो गये । अंत में देवी ने
 इसका वध करके वेदों का उद्धार किया । ३. विष्णु के
 अनुसार धृत का पुत्र । नामांतर दुर्दम, दुर्मगस् और
 विद्रुप हैं ।
 दुर्गमभूत-विष्णु के अनुसार वसुदेव तथा रोहिणी के
 पुत्र ।
 दुर्गाह-सायणाचार्य के अनुसार यह पुरुकुमु के पिता थे ।
 पंतुक नाम दौर्गाह हैं ।
 दुर्जय-१. कश्यप तथा दनु का एक दानव पुत्र । २.
 दशरथ शाखा के अंतर्गत सुवीर के पुत्र । इनके पुत्र का
 नाम दुर्धन था । ३. सर (द्रुण के भाई) का मंत्री ।
 ४. धृतराष्ट्र के एक पुत्र जिसे भीम ने मारा था । ५.
 सुप्रतीक का पुत्र । इसने हेतुप्रहेतु की कन्या से विवाह
 किया । फिर चिंतामणि नामक रत्न की प्राप्ति के प्रयत्न
 में इसके प्राण गये । इसके मरणान्तर का नाम नैमिया-
 रण्य है ।
 दुर्जया मित्र कर्षण-अनंत के मित्र ।
 दुर्दम-१. विक्रमशाली राजा के पुत्र । इनकी माता का
 नाम कालिंदी था । प्रभुव मुनि की कन्या रेवती इनकी
 स्त्री थीं । २. धृत-पुत्र दुर्गम का नामांतर । ३. ऋषेय
 राजा के पुत्र । हरिवंश के अनुसार भद्रश्रेणी के पुत्र हरण्य
 और कारय चंद्रा में वैमनस्य होने के कारण दियोदास ने
 भद्रश्रेणी की कन्या को मार डाला और भूचकर एतें दौड़
 दिया । फिर इन्होंने दियोदास को हराकर बंधा दिया ।
 ४. गोदावरी तट पर प्रतिष्ठान नामक नगरी में रहने-
 वाला एक ब्राह्मण । ५. विश्वारमु नाम के एक गंधर्व का
 पुत्र । एक बार यह चरनी सेकड़ों स्त्रियों के साथ वैताल
 क्षिप्त हान्तास्य नाथों ने नगरी छोड़ कर उल्लिखित कर रहा
 था । वहाँ पर अग्नि, बलिष्ठ आदि अग्नि निर की मुनि
 कर रहे थे । क्रुद्ध हो उग्र स्त्रियों ने शाप दिया कि तू माण्डव्य
 हो जा । उनकी स्त्रियों की चढ़ी प्रार्थना से जल हीन
 बाद में उन्होंने कहा कि १६ वर्षों में तुम्हारा पति हुए

होगा। राक्षस रूप में जब इसने गालव ऋषि पर चढ़ाई की तभी चक्र से मृत्यु प्राप्त करके मुक्त हुआ।
 दुर्दमन-शतानीक के पुत्र। भविष्य तथा भागवत इस संबंध में एक मत है। नामांतर उदयन अथवा उद्यान है।
 दुधर-१. रावण का एक मंत्री। २. राम-सेना का एक वानर वीर। ३. धृतराष्ट्र का एक पुत्र जिसे भीम ने मारा था। ४. महिषासुर नामक राक्षस का एक अनुयायी।
 दुर्धर्ष-१. एक राक्षस वीर। रावण की राक्षसी सेना का एक सेनापति था। युद्ध में यह हनुमान द्वारा मारा गया।
 २. रावण-पत्नीय एक राक्षस वीर जिसे राम ने मारा।
 ३. धृतराष्ट्र का एक पुत्र। ४. हिरण्याक्ष-पत्नीय एक राक्षस वीर जिसे राम ने मारा।
 दुर्दुष्टि-धृतराष्ट्र नाग के पुत्र। युद्ध में यह अपने पिता के साथ मारा गया।
 दुर्वृद्धिजनमेजय-भल्लाट या पुत्र। इसके कारण उग्रायुध ने नीप का संहार किया और इसको भी मारा।
 दुर्मद-१. भीम द्वारा मारा जानेवाला धृतराष्ट्र का एक पुत्र। २. मय दानव का एक पुत्र। इसने बलि को युद्ध के लिए ललकारा पर युद्ध में बलि ने इसे हरा दिया और यह भाग कर एक गुफा में छिप गया। ३. अंग देशाधिपति मायावर्म राजा का एक पुत्र। ४. वसुदेव और पौरवी का एक पुत्र।
 दुर्मर्षण-१. वसुदेव के भाई जो संजय की राष्ट्रपाली नामक स्त्री से उत्पन्न हुए थे। २. धृतराष्ट्र का एक पुत्र जिसे भीम ने मारा था।
 दुर्मित्र-१. पुष्यमित्र नामक राजा के पुत्र। २. भागवत के अनुसार किलकिला नगरी के एक राजा जिनका नामांतर पहमित्र अथवा पहमित्र है।
 दुर्मित्र कौत्स-एक सूक्तद्रष्टा। यह कुत्स के पुत्र थे।
 दुर्मुख-१. पांचाल देश के एक राजा। सत्राट्ट पद के लिए बृहहृत्थ ने इनका राज्याभिषेक किया। इनके पुत्र जनमेजय ने पांडवों की धोर से युद्ध किया। २. धृतराष्ट्र का एक पुत्र तथा यशोधर का पिता। द्रौपदी के स्वयंवर में सहदेव ने इसे परास्त किया। भीम के हाथ से इसकी मृत्यु हुई। ३. कई राक्षस वीरों के नाम जो हिरण्याक्ष, महिषासुर और रावण के पत्न के थे। ४. राम-पत्नीय एक वानर। ५. सुहोत्र नामक शिवावतार के एक शिष्य। ६. अंग देशाधिपति मायावर्म और उनकी प्रमदा नामक भार्या से उत्पन्न दस पुत्रों में से एक। देवी के वरदान से यह कौरव वंश में उत्पन्न हुआ था। ७. कद्रु-पुत्र एक सर्प। ८. कश्यप तथा खशा का एक पुत्र। ९. दे० 'दुर्मद'।
 दुर्मुखी-अशोकवाटिका की एक राक्षसी।
 दुर्मुप-एक असुर। समुद्र-मंथन के अवसर पर इसने देवताओं से युद्ध किया।
 दुर्मधस-हिरण्याक्ष का अनुयायी एक राक्षस। युद्ध में यह वायु द्वारा मारा गया।
 दुर्लिहृह-धनमित्र के पुत्र। यह बड़े तत्वज्ञानी थे।
 दुर्व-नृपजय राजा के पुत्र। विष्णु के अनुसार इनका नाम मृदु तथा मत्स्य के अनुसार इनका नाम उर्व था।

दुर्वाची-वसुदेव के भाई वृक की पत्नी का नाम।
 दुर्वार-कुंडल नगर के अधिपति राजा सुरथ के पुत्र। राम के अश्वमेधीय अश्व के पकड़ने के कारण शत्रुघ्न ने युद्ध में इन्हें परास्त किया था।
 दुर्वावरण-जालंधर नामक दैत्य का दूत। समुद्र-मंथन के बाद जालंधर की आज्ञा से यह १४ रत्न मांगने गया। इंद्र ने इसे वापस कर दिया। इससे देवताओं और दैत्यों में युद्ध छिड़ गया। दुर्वावरण ने यम के साथ युद्ध किया।
 दुर्विगाह-धृतराष्ट्र का पुत्र।
 दुर्विनीत-पांडव देशीय इक्ष्वाहन के पुत्र। धनुष्कोटि तीर्थ में स्नान करके ये मुक्त हुये।
 दुर्विमोचन-धृतराष्ट्र के एक पुत्र।
 दुर्विरोचन-धृतराष्ट्र के एक पुत्र।
 दुर्विवह-धृतराष्ट्र के एक पुत्र। यह भीम के हाथ से मारे गये।
 दुषय-पशुमान के पुत्र। इन्हें एक ऋषि ने पिशाच होने का शाप दिया था, किंतु अग्नितीर्थ पर तपस्या करके ये शाप-मुक्त हुये।
 दुष्कत-रावण-कालीन एक राजा, जिन्हें रावण ने परास्त किया था।
 दुष्कर्ण-धृतराष्ट्र के एक पुत्र। इन्हें शतानीक ने परास्त किया था। भारत युद्ध में ये भीम द्वारा मारे गये।
 दुष्टरीतु पौस्त्यायन-संजय के राजा। यह शब्द ऋग्वेद में दो बार आया है। किंतु यह निश्चय नहीं है कि वहाँ यह व्यक्ति-वाचक संज्ञा के रूप में प्रयुक्त है या नहीं।
 दुष्प्रधर्ष-धृतराष्ट्र के एक पुत्र, जिन्हें भीम ने मारा था।
 दुष्प्रधर्षण-धृतराष्ट्र के एक पुत्र। द्रौपदी स्वयंवर में ये उपस्थित थे। भारतयुद्ध में भीम के हाथ से इनकी मृत्यु हुई।
 दुर्व-गौड़-देशोत्पन्न एक ब्राह्मण।
 दूपणा-ऋषभदेव के वंश में उत्पन्न भौवन राजा की स्त्री। इनके पुत्र का नाम त्वष्टा था।
 दृढ़-१. धृतराष्ट्र के १०० पुत्रों में से एक। इनको भीम ने मारा था। २. दुर्धन-पत्नीय एक राजा।
 दृढ़क्षत्र-धृतराष्ट्र के एक पुत्र।
 दृढ़द्युम्न-१. दृढ़स्यु का नामांतर। २. अगस्त्य-गोत्रीय एक मंत्रकार भिगका नामांतर 'दृढायु' है।
 दृढ़धनु-सेनजित के पुत्र। इनका नामांतर 'दृदरथ' या 'दृढ़हनु' है।
 दृढ़धन्वा-धृतराष्ट्र के एक पुत्र का नाम।
 दृढ़नोमि-भागवत, वायु तथा मत्स्य पुराणों के अनुसार सत्यधृति, तथा विष्णु पुराण के अनुसार धृतिमान के पुत्र का नाम।
 दृढ़मनि-एक शूद्र। इसे एक ब्रह्म राक्षस लगा हुआ था। चक्राचल जाने पर इसका उससे झुटकारा हुआ।
 दृढ़रथ-१. धृतराष्ट्र के एक पुत्र। २. मत्स्य पुराण के अनुसार नवरथ के पुत्र का नाम। मतांतर से ये सेनजित के पुत्र थे।
 दृढ़सचि-हिरण्यरेता के पुत्र तथा प्रियव्रत के पौत्र।
 दृढ़वर्मन-धृतराष्ट्र के एक पुत्र का नाम।

दृढसंध-धृतराष्ट्र के एक पुत्र का नाम ।
 दृढसेन-१. पांडव-पत्नीय राजा जिसे द्रोण ने मारा था ।
 २. विष्णु तथा ब्रह्मांड पुराण के अनुसार सुवत के पुत्र ।
 इनका नामांतर शुभत्वसेन है ।
 दृढस्थाश्रय-धृतराष्ट्र के एक पुत्र का नाम ।
 दृढस्यु-अगस्त्य तथा नोपामुद्रा के पुत्र । यह उग्र तपस्वी
 तथा गम्भीर विद्वान् थे । ऋतुश्रुति ने निस्संतान होने के
 कारण इन्हें गोद ले लिया था ।
 दृढदनु-भागवत के अनुसार सेनजित राजा के पुत्र ।
 दृढहरत-धृतराष्ट्र के पुत्र ।
 दृढाच्युत-अगस्त्य के पुत्र । इनका एक नाम दृढास्यु
 भी था ।
 दृढायु-१. पुरुवा और उर्वशी के पुत्र । २. अगस्त्य के
 पुत्र । दे० 'दृढस्यु' ।
 दृढायुध-धृतराष्ट्र का एक पुत्र ।
 दृढारव-कुवलाश्रय या कुवलाश्रय के पुत्र, एक राजा
 जिन्होंने ३४२०० वर्षों तक राज्य किया । पद्म पुराण के
 अनुसार यह कुवलाश्रय के पौत्र और धुंधमार के पुत्र थे ।
 दृढद्वती-१. हर्यश्व राजा की स्त्री । २. विश्वामित्र की
 पत्नी । ३. काशी के प्रथम दिवोदास की पत्नी ।
 दृष्टरथ-महाभारत कालीन एक राजा ।
 दृष्टशर्मन-विष्णु के अनुसार श्वफत्रक के पुत्र ।
 देवक-१. युधिष्ठिर के एक पुत्र । इनकी माता का नाम
 पौर्वी था । २. यदुवंश के महाराज ब्राह्मक के पुत्र और
 कंस के पिता उग्रसेन के भाई । यह पूर्व जन्म में गंधर्व-
 राज थे । इनकी कन्या देवकी वसुदेव को व्याही थीं जो
 श्रीकृष्ण की माँ थीं । अपनी अन्य कन्याओं का विवाह
 भी इन्होंने वसुदेव के साथ ही किया था । उग्रसेन इनके
 छोटे भाई थे । इनके पुत्र देववान् उपदेव, सुदेव तथा
 देवरक्षित थे ।
 देवकद-भविष्य के अनुसार प्रतिय्योम के पुत्र । इनके पुत्र
 सहदेव थे ।
 देवकमान्यमान-यह कृत्सु के शत्रु तथा शंवर के मित्र थे ।
 देवकी-१. मथुरा के महाराज उग्रसेन के छोटे भाई देवक
 की पुत्री । वसुदेव की स्त्री तथा कृष्ण की माता ।
 वसुदेव के साथ इनके विवाह के बाद नारद ने धावर
 इनके घड़े भाई कंस से कहा था कि इनके आठवें गर्भ
 से उत्पन्न होनेवाली संतान ही तुम्हारा वध करेगी । कंस
 ने यह सुनकर इनको इनके स्वामी वसुदेव के साथ ही
 कारागृह में बंद करा दिया था । इनकी छः संतानों को
 उसने एक-एक करके स्वयं अपने हाथों से मार डाला
 था । इनके सातवें गर्भ के शिशु को विष्णु की आज्ञा से
 योगमाया नंद के यहाँ रहनेवाली वसुदेव की पत्नी
 रोहिणी के गर्भ में रक्त धारि थीं । आठवें गर्भ में कृष्ण
 की उत्पत्ति हुई थी । वसुदेव द्वादशी की उस रात
 तथा सातवें में भरी रात को कृष्ण को नंद के यहाँ
 मगधा के पास छोड़ आए तथा अपने साथ यशोदा की,
 वर्गी रात में उत्पन्न हुई, कन्या को लेते आए थे । प्रातः-
 पाल जप कंस को यह ज्ञात हुआ कि देवकी के गर्भ में
 भव ही बार एक कन्या हुई है तो वह उसका भी वध

करने के लिए आया । किंतु जैसे ही उसने पत्थर पर पड़-
 कने के लिए उसे ऊपर उठाया वह आकाश में उड़ गई
 और कहती गई कि तुम्हारे वध करनेवाले का जन्म हो
 चुका है । कंस ने यह सुनकर वसुदेव तथा देवकी को
 मुक्त कर दिया था तथा सभी प्रतिभावान् दीखनेवाले
 शिशुओं के वध की आज्ञा दे दी । कंस के कारागृह से
 मुक्त होने के बाद देवकी अपने स्वामी वसुदेव के साथ
 सुख-पूर्वक रहने लगी, किंतु कृष्ण गोकुल में ही रह कर
 यशोदा के द्वारा पोषित होकर बड़े हुए । आगे भी माता
 तथा पुत्र के मिलने का कोई उल्लेख नहीं मिलता है ।
 २. शैब्य की कन्या तथा युधिष्ठिर की एक पत्नी । इसे
 यौवेय नामक एक पुत्र था । ३. ऋषभदेव के कुल में
 उपपन्न उद्गीथ ऋषि की पत्नी ।
 देवकुल्या-१. स्वाभंभुव मन्वन्तर में मरीचि ऋषि के पुत्र
 की कन्या । पूर्व जन्म में श्रीकृष्ण के पाँव धोने के कारण
 इस जन्म में यह स्वर्धुनी (स्वर्ग की नदी) हुई । २.
 भागवत के अनुसार पूणिमा की कन्या ।
 देवक्षत्र-देवरात के पुत्र । नामांतर देवक्षेत्र है ।
 देवगर्भ-ब्रह्मदेव के पुष्करक्षेत्र यज्ञ में यह ऋषिज थे ।
 देवज-संयमन राजा के पुत्र ।
 देवजाति-करयप-कुस्रोत्पन्न एक गोत्रकार । पाठांतर से
 इनका नाम भेदसाति भी मिलता है ।
 देवजित-१. करयप तथा दनु के एक पुत्र । २. छांगिरस्
 कुस्रोत्पन्न एक ब्रह्मर्षि ।
 देवताजित-सुमति तथा वृद्धसेन के पुत्र । इनकी स्त्री का
 नाम आसुरी था, जिससे देवशुभ नामक पुत्र हुआ ।
 देवदत्त-भागवत के अनुसार बरधवा राजा के पुत्र । इनके
 पुत्र शग्निवेश्य, कानीय तथा जातू करण्य थे ।
 देवदत्त शत-एक शास्ता के प्रवर्तक । दे० 'पाणिनि' ।
 देवदर्श-कबंधायन के शिष्य और एक शास्त्रा के प्रवर्तक
 ऋषि । कबंध ने इन्हें अथर्ववेद की शिक्षा दी । पिप्पलाद,
 ब्रह्मवल, मोद तथा शौन्दायनि इनके चार शिष्य थे ।
 पाणिनि और देवदर्शन इनके नामांतर हैं । दे०
 'पाणिनि' ।
 देवदर्शन-दे० 'देवदर्श' ।
 देवदास-मगध देश से निवासी एक ब्राह्मण । इनकी स्त्री
 का नाम उत्तमा था जो अत्यंत प्रतिभता थीं । इनके पुत्र
 का नाम शंगद तथा पुत्री का नाम वनया था । जब ये
 दोनों गृहस्थी संभाषण योग्य हुये तो स्वस्वीक तीर्थ-
 यात्रा को निकले । रास्ते में एक महात्मा ने यशिरायम
 धाने का उपदेश दिया । तदनुसार इन्द्रप्रथम जाकर इन्होंने
 यमुना में स्नान किया और बाद में स्वर्ग चले गये ।
 देवद्युति-एक ऋषि जो सरस्वती तट पर एक शासन में
 रहते थे । भगवान् विष्णु की आज्ञा से इनके सरस्वती नामक
 एक पुत्र हुआ था । इन्होंने शीघ्र काल में पद्मानि नामक
 स्त्री और १००० वर्ष तक विष्णु की तपस्या की, जिससे
 प्रसन्न हो विष्णु ने स्वर्ग दिया और घर नंगले को बना,
 किंतु निम्नष्ट देवद्युति ने केशव भक्ति नहीं की ।
 देवद्युम्न-भागवत के अनुसार सुमति के पुत्र ।
 देवपति-भृगु-शुक्रोत्पन्न एक गोत्रकार ।

देवप्रस्थ—एक गोप । यह कृष्ण का एक सखा था ।
देवभव—इन्होंने नारद से सृष्टि तत्व के संबंध में विचार
विनिमय किया था ।

देवभाग श्रौतर्षे—श्रुत ऋषि के पुत्र । यज्ञपशु के किस
अंग को किस देना चाहिये इसका इन्हें ज्ञान था । इन्होंने
आजीवन इस ज्ञान को गुप्त रक्खा । पर एक भ्रमानुप
व्यक्ति ने गुप्त रीति से इसे जानकर वधु के पुत्र गिरिज
को बता दिया । सृजय तथा कुरु के स्नेह दाचार्यण यज्ञ
में ये पुरोहित थे । यज्ञ में एक भूल हो जाने से सृजय
का नाश हुआ ।

देवभूति—ये भागवत के पुत्र थे । इनका नामांतर देवभूमि
या क्षेमभूमि है ।

देवभूमि—मत्स्य के अनुसार पुनर्भव तथा ब्रह्मांड के अनु-
सार भागवत के पुत्र । इन्होंने दश वर्षों तक राज्य
किया ।

देवमति—अंगिरा कुलोत्पन्न एक ब्रह्मर्षि ।

देवमानुषि—राजा शूर के पुत्र । इनकी माता का नाम
अरमकी था । नामांतर देवमीढुप है ।

देवमित्र शाकल्य एक प्रसिद्ध ऋषि और आचार्य ।
इन्होंने मुद्गल, गोखल, मत्स्य, खालोय और शैशिरेय
इन पाँच शिष्यों को पाँच संहिताओं की शिक्षा दी ।
भागवत में ये शाकल्य के समकक्ष माने गये हैं; पर वायु
तथा ब्रह्मांड आदि में ये शाकल्य के शिष्य कहे गये हैं । राजा
जनक के अरवमेध यज्ञ समाप्त होने पर उन्होंने ब्राह्मणों
को असंख्य दान देने की सोची । इससे याज्ञवल्क्य वहाँ
आये । उन्होंने कहा कि ब्राह्मणों की श्रेष्ठता विद्या तथा
ज्ञान से है । इसलिये जो मेरे प्ररनों का उत्तर दे देगा,
उसी को सब धन मिलेगा । यह सुनकर शाकल्य सामने
आये और याज्ञवल्क्य से एक हजार प्ररन किये जिनका
उत्तर याज्ञवल्क्य ने दे दिया । इसके बाद याज्ञवल्क्य ने
एक प्ररन किया जिसका उत्तर ये न दे सके । इस क्षोभ
से इनकी मृत्यु हो गई । देवमित्र की मृत्यु से इतर
ब्राह्मणों को पातक लगा पर तीर्थयात्रा तथा स्नानादि से
सब मुक्त हो गये । दे० 'वेदमित्र', 'ध्यास' तथा
'याज्ञवल्क्य' ।

देवमीढुप—१. भागवत के अनुसार कृतिरथ तथा वायु के
अनुसार कीर्तिरथ के पुत्र । २. हृदीक के पुत्र । इनकी स्त्री
का नाम ऐश्वर्याकी तथा पुत्र का शूर था । देवमीढुप, देव-
मानुषि, तथा देवमेधस इनके नामांतर हैं । ३. द्विमीढ
का नामांतर । ४. वृष्णि के पाँच पुत्रों में से एक ।

देवमीढुप—दे० 'देवमीढ' ।

देवमुनि ऐरमंद—एक सूक्तद्रष्टा ।

देवमेधस—भविष्य के अनुसार हरिदीपक के पुत्र ।

देवयान—करयप कुलोत्पन्न गोत्रकार ऋषियों का नाम ।

देवयाहु—१. भागवत के अनुसार हृदीक का पुत्र । २.
रैवत मन्वन्तर में सप्तर्षियों में से एक ।

देवरंजित—दे० 'देवरक्षित' ।

देवरक्षित—देवक के पुत्र, वसुदेव की स्त्री तथा कृष्ण-माता
देवकी के भाई । देवरंजित तथा देववर्धम इनके नामां-
तर हैं ।

देवरथ—भविष्य पुराण के अनुसार कुशुंभ के पुत्र । दे०
'देवरात' ।

देवराजन—उन देवताओं की उपाधि जिन्होंने राजसूय यज्ञ
किया था । इन देवताओं के नाम सायण के अनुसार
सिंधुक्षित् दीर्घश्रवस् पार्थ तथा कवीवत हैं । मनुष्यों में
भी जो राजसूय यज्ञ करते हैं वे मनुष्यराज कहलाते हैं ।

देवराज वसिष्ठ—इनकी सहायता से रुय्यारण ने सत्यव्रत
त्रिशंकु की सीमा पार कर अपना स्वाधीन राज्य स्थापित
किया था ।

देवरात—१. विकुक्षि का नामांतर । २. देवरात का पाठां-
तर । ३. (शिव पुराण महात्म्य) एक ब्राह्मण, जो बड़ा
भूठा और मद्यप था । एक बार यह एक तालाब में स्नान
करने गया । वहाँ शोभवती नाम की वेश्या से इसकी
मुलाकात हुई और यह उसके साथ रहने लगा । फिर
एक बार प्रतिष्ठान नामक नगरी में गया । वहाँ महीने
भर शिव की पूजा करता रहा इसके फल से यह कैलास
को गया । ४. भागवत तथा वायु आदि पुराणों के अनुसार
सुवंतु के पुत्र । इनके यहाँ शिव ने अपना धनुष रख छोड़ा
था, जिसे सीता-स्वयंवर के समय राम ने तोड़ा । ५.
मत्स्य तथा पद्म आदि के अनुसार करंभ के पुत्र । वायु
के अनुसार करंभक के पुत्र । भविष्य में इनका नाम देव-
रथ कहा गया है । ६. भागवत के अनुसार प्रसिद्ध ऋषि
तथा आचार्य याज्ञवल्क्य के पिता । वायु तथा ब्रह्मांड में
इनका नाम ब्रह्मवाह कहा गया है । ७. एक गृहस्थ । कला
नाम की इनकी कन्या को—जिसके पति शोण थे—
मारीच नाम के एक राजस ने मार डाला । इसका बदला
लेने के अग्रिमार्थ से ये विरवामित्र के पास गये फिर
वशिष्ठ को लेकर शिवलोक गये । ८. युधिष्ठिर का एक
दरवारी क्षत्रिय वीर । ९. भरत के एक पुत्र का नाम ।
इनके भाई देवश्रवस थे । इनका एक पूरा सूक्त है । इन्होंने
सरस्वती, हृष्यवती, तथा अरण्या, इन तीन नदियों के
टट पर यज्ञ किया था ।

देवरात विश्वामित्र—एक गोत्रकार । इनका एक गोत्र तथा
प्रवर भी है । शुनःशेष को विश्वामित्र ने जब अपना पुत्र
स्वीकार किया तब इनका नाम देवरात पड़ा । दे०
'शुनःशेष' ।

देवराति—अंगिरा कुलोत्पन्न एक गोत्रकार ।

देववत—१. राजा सुदास के पितामह । वधरव, द्विबोदास
तथा सुदास ऐसा वंशक्रम माना जाता है । २. अक्रर के
पुत्र । ३. विष्णु स्वामी मतानुयायी तथा 'रामज्योत्स्ना-
मय' नामक ग्रंथ के रचयिता । ४. देवक के बड़े भाई ।
इनके भाई उपदेव तथा सुदेव आदि थे । ५. रुद्रसावर्णि
मनु के पुत्र ।

देववती—प्राणी नामक गंधर्व की कन्या तथा सुवेश नामक
राक्षस की स्त्री ।

देववर—एक यजुर्वेदी ब्रह्मचारी ब्राह्मण ।

देववर्णिनी—भारद्वाज ऋषि की कन्या तथा विश्रवा ऋषि
की स्त्री । इनके पुत्र का नाम वैश्रवण था ।

देववर्धन—भागवत के अनुसार देवक के पुत्र ।

देववर्मन—वायु तथा ब्रह्मांड के अनुसार इंद्रयाजित के

पुत्र । इन्होंने सात वर्षों तक राज्य किया था । नामांतर सोमशर्मा हैं ।

देववर्ष-प्रियव्रत राजा के पुत्र ।

देववीति-मेरु की नौ कन्याओं में से एक । ये अग्नीध्र के पुत्र शत्रुमाल की स्त्री थीं ।

देवव्रत-१. भीष्म का वास्तविक नाम । दे० 'भीष्म' । २. एक कर्मनिष्ठ ब्राह्मण । एक बार एक कृष्णभक्त ने इन्हें कृष्ण नाम जपने का उपदेश दिया । इन्होंने उसकी श्रवहेलना की, जिस कारण इन्हें वाँस का जन्म मिला । फिर तीर्थ आदि के पुण्य से श्रीकृष्ण ने उसी वाँस से अपनी वंशी बनाई ।

देव शर्मन-१. एक ऋषि । इनकी स्त्री का नाम रुचि था । २. जनमेजय के नागयज्ञ का एक सदस्य । ३. व्यास की ऋक् शिष्य परंपरा में रचीतर के शिष्य । ४. एक कर्मठ ब्राह्मण । यह प्रत्येक पर्व पर पितरों का श्राद्ध करने समुद्र संगम पर जाते थे । अंत में इत्यक्ष होकर उन्होंने आशीर्वाद दिया । इस नाम के कई ब्राह्मणों के उल्लेख पुराणों में मिलते हैं ।

देवश्रवस-१. शूद्र नाम के राजा का पुत्र । इनकी स्त्री कंस की बहन कंका थी । सुवीर और द्युमान इनके दो पुत्र थे । २. विरवामित्र कुलोत्पन्न एक ऋषि तथा प्रवर । यह एक मंत्रकार थे ।

देवश्रवस भारत-एक सूक्तद्रष्टा ।

देवश्रवस यामायन-एक सूक्त द्रष्टा । अनुक्रमणी के अनुसार ये यमपुत्र थे ।

देवश्रेष्ठ-रुद्र सावर्णि मनु के पुत्र ।

देव सावर्णि-तेरहवें मनु । इनका नाम शत्रुधामा भी था ।

देवसिंह-भीम के पुत्र तथा सहदेव के अंशवतार ।

देवसेना-१. दश प्रजापति की एक कन्या । केशी नामक दैत्य इन्हें अपहरण किये भागा जा रहा था उसी समय इंद्र ने इन्हें मार डाला फिर कार्तिकेय के साथ देवसेना का विवाह हुआ । २. 'स्कंदपुराण' नाटक (जयशंकर प्रसाद कृत) की प्रधान नायिका ।

देवस्थान-एक ऋषि ।

देवहन्य-एक ऋषि ।

देवहृति-स्वयंभुव मनु की कन्या तथा कर्दम प्रजापति की स्त्री । इनके कपिल नामक पुत्र तथा नौ कन्याएँ थीं । महर्षि कपिल ने इन्हें सांख्य की शिक्षा दी थी । इसके बाद शरीर त्यागकर इन्होंने नदी का रूप धारण किया ।

देवहोत्र-एक ऋषि । यह उपरिचर वसु के यज्ञ में श्रग्विज्ञ थे ।

देवतक-१. रावण के पुत्र । इन्हें हनुमान ने मारा था । २. एक राक्षस । यह हिरण्य का मित्र था । उसकी प्रीति से लड़ता हुआ यम के हाथ से यह मारा गया । ३. कालनेमि का पुत्र । ४. रौद्रकिन् नामक राक्षस का पुत्र । शपने व्याघ्राचारों से इसने धैर्योत्सव में हाहाकार मचा दिया । अंत में गरुड ने कदवप के यहाँ जन्म लेकर इसका वध किया ।

देवतिथि काग्य-१. एक मूकद्रष्टा । इनके सूक्त में रम,

रम, रयावक तथा कृप का उल्लेख है । २. क्रोधन तथा कंडू के पुत्र । इनकी स्त्री वैदर्भी मर्यादा थीं ।

देवाधिप-कौरव-पक्षीय एक राजा ।

देवानंद-प्रियानंद राजा से पुत्र । इन्होंने २० वर्षों तक राज्य किया ।

देवानीक-चेमधन्या के पुत्र ।

देवापि आण्टिपेण-१. एक मंत्रद्रष्टा । इनके सूत्र में अर्घि-पेण तथा शंतनु का उल्लेख है । ये दोनों भाई थे । छोटे होने पर गद्दी पर बैठे और इसी कारण अनादृष्टि जनित अकाल पड़ा । ब्राह्मणों ने कहा कि बड़े भाई के होने पर भी छोटे भाई के राजगद्दी पर बैठने के कारण अकाल पड़ा । इन्होंने बड़े भाई से प्रार्थना की; किंतु कुष्ठ रोग से पीड़ित होने के कारण उन्होंने अस्वीकार किया और वन में तपस्या करने चले गये । ये राजा प्रतीप और शैव्या के पुत्र थे । इन्होंने पृथ्वक तीर्थ पर तप किया इस कारण इन्हें ब्राह्मणत्व मिला । २. चेदि देश का एक क्षत्रिय वीर । इसे कर्ण ने मारा था । ३. आण्टिपेण राजा के उपमन्यु नामक पुरोहित के पुत्र ।

देवाह-वायु के अनुसार हृदीक के पुत्र ।

देवावृध-सात्वत राजा के पुत्र । कोई पुत्र न होने के कारण ये पर्णाशा नदी के तट पर तप करने लगे । नदी ने स्त्री रूप धारण कर इन्हें पति रूप से वरण किया । इस संबंध से इन्हें वधु नामक पुत्र उत्पन्न हुआ ।

देविका-शैव्य की कन्या तथा युधिष्ठिर की धात्री ।

देवी-१. महाद के पुत्र विरोचन की स्त्री । २. वरुण की स्त्री । इनकी वल नाम का पुत्र तथा सुरा नाम की एक कन्या थी । दे० 'दुर्गा' । ३. एक अश्वरा ।

देहिन्-अमिताभ देवों में से एक ।

दैर्घतम-दीर्घतम्या के पुत्र धन्वंतरि का पैतृक नाम ।

दैर्घतमस-दे० 'कशीवत्' ।

दैव-अथर्वन् का पैतृक नाम ।

दैवत्य-उपाक्रमीण आचार्य तर्पण में इनका उल्लेख है । दे० 'जैतिनि' ।

दैवदात-सृजय का नामांतर ।

दैवोदास-भृगुकुलोत्पन्न एक ऋषि ।

दोप-१. अष्ट वसुओं में से एक । २. पुष्पाणी राजा की स्त्री । इनके तीन पुत्र थे-प्रदोप, निर्दोप तथा न्युट ।

सावा प्राथिवी विद्व के माता-पिता आकाश और पृथ्वी, वेदों के अनुसार समस्त देवों के माता-पिता होते गये हैं । शन्यत्र ये दोनों स्वयंजात बड़े गये हैं । पर इनकी उत्पत्ति कैसे हुई यह अनुभव है । एक मंत्र में यह प्रश्न आता है । 'इन दोनों में से कौन प्रथम हुआ और कौन अंत में ? वे कैसे उत्पन्न हुये, कौन जानता है ।' अतः पथ के अनुसार प्राथिवी स्वयं प्रथम उत्पन्न हुई ।

सु-अष्ट वसुओं में से एक । एक बार स्वयं वसु स्वर्गीयियों के महान् वसिष्ठ मुनि के आश्रम में गये । उन्हें उनकी गाव धामपेसु को लेना चाहा तो उन्हें ने मार-मार कर गाव लेना चले गये । इसमें वसिष्ठ ने आश्चर्य दिया कि सभी वसु ननुत्पन्न सोनि में जन्म लें । इसी के

फलस्वरूप द्यु गंगा की कोख से भीष्म के रूप में प्रकट हुए ।

द्युतान भारत-एक सूक्तद्रष्टा । अन्यत्र इनको वायु देवता का नामांतर माना गया है ।

द्युति-एक देवी ।

द्युतिमत् १. मदिराश्व राजा का पुत्र । इनके पुत्र का नाम सुवीर था । २. शान्व देश के राजा । इन्होंने अपना सारा राज्य ऋचीक ऋषि को दान कर दिया था । इसके कारण मरने पर इन्हें सद्गति मिली । ३. स्वार्थ-भुव मनु के एक पुत्र । ४. दत्त सार्वर्षिक मन्वन्तर में सप्तर्षियों में से एक । ५. मणिभद्र तथा पुण्यजनी के पुत्र । ६. भद्रावती नामक नगरी के एक राजा । यह नगरी सरस्वती तट पर स्थित थी ।

द्युमणि वत्सथ-एक राजा । भविष्य के अनुसार ये अरु-पोषण के पुत्र थे और इन्होंने ३७००० वर्ष राज्य किया था ।

द्युमत्सेन-१. शात्वदेश के सत्यवान् । २. युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ के समय अर्जुन ने इन्हें परास्त किया और ये कृष्ण के हाथ से मारे गये थे । ३. भागवत के अनुसार शुभ के पुत्र तथा मतांतर से त्रिनेत्र के पुत्र ।

द्युमन्-१. स्वार्थभुव मन्वन्तर में वसिष्ठ तथा उर्जा के पुत्र । २. स्वरोचिप मनु के पुत्र । ३. राजा प्रतर्दन का नामांतर । ४. राजा शात्व के मंत्री । कृष्ण ने इनको मारा था ।

द्युम्न-चाक्षुप मनु तथा नहुवला के पुत्र ।

द्युम्न विश्वचर्परिणि आत्रेय-एक सूक्तद्रष्टा ।

द्युम्नीक वासिष्ठ-१. एक सूक्तद्रष्टा । २. सुतय देवों में से एक ।

द्यौराजनीर-एक प्रसिद्ध वैष्णव भक्त ।

द्रवणिक-अग्नीश तथा वसोंधीरा के पुत्र ।

द्रविड-कृष्ण तथा जांबवती के पुत्र ।

द्रविडा-वायु के अनुसार तृणविदु की कन्या ।

द्रविण-१. पृथु तथा अचि के पुत्र । २. धर नामक वसु का पुत्र । ३. तुपित देवों में से एक ।

द्राह्याचरण-श्रौत तथा गृह्यसूत्रों के रचयिता, तथा शणायनीय शाखा के सूत्रकार । इनको रवादिर भी कहा जाता है । रुद्रभृती का पैतृक नाम था ।

द्रुति-नला की स्त्री ।

द्रुम-१. अघ्निरथ सूत के पुत्र तथा महारथी कर्ण के भाई । महाभारत युद्ध में भीम के हाथ से ये मारे गये । २. राजा शिवि का अंशावतार । ३. गंधर्वों के पुरोहित ।

द्रुमसेन-१. दुर्योधन पक्षीय एक राजा जो धृष्टद्युम्न के हाथ से मारे गये । २. शल्य का चक्र-रक्षक एक क्षत्रिय वीर जो युधिष्ठिर के हाथ से मारा गया ।

द्रुमिल-ऋषभदेव तथा जयंती के सौ पुत्रों में एक । ये बड़े भगवत-भक्त थे ।

द्रुष्टु-१. राजा सुदास के शत्रु । ये इंद्र तथा अश्विनीकुमारों के भक्त, आयु पुत्र नहुप के पौत्र तथा ययाति के पुत्र थे । शर्मिष्ठा इनकी माता थीं । अनु और पुरु इनके दो भाई थे । ययाति ने वारी-वारी से अपने पुत्रों को बुला

कर उनका यौवन माँगा । पुरु के अतिरिक्त सबने अस्वीकार किया । पुरु को राज्य देकर और सबको शाप दिया । ययाति के विशाल राज्य का पच्छिमी भाग द्रुष्टु को मिला । इनके वंशज भरतखंड के उत्तर भाग में राज्य करते थे । इनके राज्य में यवनों का आधिपत्य था । जल में डूबने के कारण इनकी मृत्यु हुई । २. मतिनार के पुत्र ।

द्रोण-ऋषि भरद्वाज के पुत्र । एक बार गंगा-स्नान के समय, भरद्वाज को, अप्सरा घृताची को विवक्षा देखकर वीर्य-पात हो गया था । उन्होंने उसे द्रोण नामक यज्ञ-पात्र में रख दिया था । उसी से कालांतर में एक बालक उत्पन्न हुआ । ऋषि ने उसका नामकरण उस यज्ञ-पात्र का ही नाम, द्रोण, किया । आश्रम में रहकर बालक बढ़ने लगा । चंद्रवंशीय महाराज पृषत् से ऋषि भरद्वाज की बड़ी घनिष्ठता थी । उनका पुत्र द्रुपद भी इस प्रकार ऋषिपुत्र द्रोण से परिचित हो गया और दोनों में मित्रता हो गई । द्रुपद ने उस समय कहा था कि महाराज होने पर भी दोनों में ऐसी ही मित्रता रहेगी और उसे और हृद करने के लिए वह अपने राज्य का अर्ध भाग द्रोण को दे देगा । द्रोण ने धनुर्विद्या तथा आग्नेयशास्त्र की शिक्षा सर्व-प्रथम स्वयं भरद्वाज के शिष्य अग्निवेश से पाई थी । उसके बाद अश्वविद्या में निपुण होने के लिए वे महेंद्र पर्वत पर निवास करनेवाले परशुराम जी के पास गये तथा वहाँ विशेष काल तक यह विद्या सीखते रहे । वापस आने पर पिता की आज्ञा से शरद्वाज की कन्या कृपी का इन्होंने पाणिग्रहण किया । कृपी के गर्भ से इनके एक पुत्र उत्पन्न हुआ जो अश्वत्थामा के नाम से विख्यात है । भीष्म पितामह ने कौरवों तथा पांडवों को शस्त्र-विद्या की शिक्षा देने के लिए इन्हीं को नियुक्त किया । अपने सभी शिष्यों में अर्जुन के ऊपर इनका अपार स्नेह था । द्रुपद इस समय तक पांचाल के महाराज हो चुके थे, किंतु अपने सखा द्रोण को उन्होंने पूर्णतः भुला दिया था, तथा अपनी राजसभा में जाने पर उन्हें उपेक्षा की दृष्टि से देखा था । द्रोण को इससे विशेष चोभ हुआ था । कौरव तथा पांडव को शस्त्रविद्या में निपुण करने के बाद उन्होंने द्रुपद को उनके द्वारा पराजित करने का सुंदर अवसर पाया । पांडवों के द्वारा उन्होंने द्रुपद को पराजित करा कर अपने सम्मुख वंदी-रूप में उपस्थित कराया । कहा जाता है उस समय उन्होंने उसके राज्य का अर्धांश भी ले लिया । किंतु बाद को उन्होंने द्रुपद को मुक्त कर दिया तथा उसके राज्य का अर्धांश भी उसे वापस कर दिया । उसके आहत अस्मिमान में ही उन्होंने अपनी इच्छा की पूर्णता देखी । किंतु इसके द्वारा जो विप-वृत्त उत्पन्न हुआ उसने दोनों के ही प्राण लिए । एक बार द्रोणाचार्य ने अर्जुन से कहा था—“अर्जुन जब कभी तुम्हें मुझसे युद्ध करना हो तो अपनी संपूर्ण कला के साथ युद्ध करना । किसी प्रकार का संकोच तुम्हारे मन में न रहे ।” इसी कथन के अनुसार महाभारत में अर्जुन द्रोण से निर्भय होकर लड़े थे । कौरवों के द्वारा पोषित होने के कारण महा-

भारत में उन्होंने उन्हीं का पक्ष ग्रहण किया था। भीष्म के शर-शय्या ग्रहण करने के बाद द्रोण को ही कौरवों का सेनापति बनाया गया था। अपने सेनापति होने के चौथे दिन इन्होंने द्रुपद का वध किया था। द्रुपद के पुत्र धृष्टद्युम्न ने यह देखकर उनका वध करने की प्रतिज्ञा की थी, और युधिष्ठिर के द्वारा यह सुनकर कि “अश्वत्थामा मृतो नरो...” जब वे क्रुद्ध स्त्रिय के लिए पुत्र-शोक से विचलित हो गये थे, तो उसने उनका वध कर डाला था।

द्रोणशास्त्र-१. मंदपाल ऋषि के पुत्र, एक मंत्रद्रष्टा। इनकी माता का नाम शास्त्री थी। ये पहुँचे हुए तत्ववेत्ता थे। खाखव वन दाह के समय अग्नि की उपासना करके इन्होंने अपनी रक्षा की थी। इनका विवाह कंधर की कन्या तार्क्षी से हुआ था। इनके चार पुत्र थे—चिगात्, तिर्वांध, सुपुत्र तथा सुमुख। २. एक वसु। इनकी स्त्री का नाम धारा था।

द्रौणायन-भृगु कुलोत्पन्न एक ऋषि।

द्वारक-भविष्य के अनुसार क्षेमधन्या के पुत्र।

द्वारिका-एक प्राचीन नगरी। कृष्ण ने जरासंध के उत्पातों के कारण मथुरा को छोड़कर इसे अपने राजधानी बनाया था। महाभारत के पूर्व दुर्योधन तथा अर्जुन उन्हें लेने के लिए यहाँ आये थे। कृष्ण के सखा सुदामा भी उनसे मिलने के लिए यहाँ आये थे, जब कृष्ण ने अपने प्रिय सखा की पोटली के चावल खा डाले थे। कामरूप के राजा को पराजित कर उसकी साठ सहस्र रानियों को भी उन्होंने यहाँ लाकर रखा था। पुराणों के अनुसार यह सप्त-प्रधान नगरियों में मानी जाती है। इसके तीर्थ-स्थान होने के संबंध में सर्वप्रथम महाभारत के सभापर्व में उल्लेख मिलता है—“उस प्रदेश में (सुराष्ट्र में) पुण्यजनक द्वारावती तीर्थ है, जहाँ साक्षात् पुरातन देव मधुसूदन विराजमान हैं।” कहा जाता है कृष्ण के देह-त्याग के बाद यह समुद्र में निमग्न हो गई थी।

द्विगत भार्गव-सासगायन के फल से स्वर्ग प्राप्त कर ये पुनः मृत्युलोक में आये और फिर स्वर्ग प्राप्त किया।

द्विज-वायु के अनुसार शूरसेन के पुत्र।

द्विजिह्वा-रावण की सेना का एक राक्षस वीर।

द्वित-१. ब्रह्म मानस पुत्र। २. गौतम ऋषि के पुत्र। इनका एक सूक्त है। दे० ‘त्रित’।

द्विगीढ-भागवत आदि पुराणों के अनुसार हस्ती के और विष्णु के अनुसार हस्तीनर के पुत्र। इनका एक स्वतंत्र वंश है।

द्विविद्-एक प्रसिद्ध वानर वीर। यह सुपेय का पुत्र, मयंद का भाई, सुग्रीव का मंत्री, किर्किषा का राजा और नकासुर का मित्र था। कृष्ण द्वारा नरक के मारे जाने पर यह कृष्ण और बनराम दोनों को त्रास देने लगा। अंत में बलराम के हाथ से मारा गया।

द्विमृधन-दनु का पुत्र एक दानव। पृथ्वी-दाहन के समय यह क्षेपण बना था।

द्विवेदिन्-हारदप कश्यप तथा आर्यवती के पुत्र।

द्वैवरथ-पायु के अनुसार राजा हृषीक के पुत्र।

द्वैपायन-दे० ‘व्यास’।

द्व्यक्षी-अशोक वाटिका की एक राक्षसी।

द्व्याख्येय-अंगिरस कुलोत्पन्न एक गोत्रकार।

धनंजय-१. अर्जुन का नामांतर। उत्तर कुरु जीतने के कारण इनका नाम धनंजय पड़ा था। २. कद्रु-पुत्र एक सर्प। यह पाताल में रहता था। माव के अंत में यह पून के सामने घुमता था। ३. वसिष्ठ कुलोत्पन्न एक ब्राह्मण। इनके सौ ग्नियाँ और उतनी ही कन्याएँ थीं। इन्होंने अपनी सारी संपत्ति समान रूप से बाँट दी। ४. त्रेता में उत्पन्न एक ब्राह्मण। ये बड़े विष्णु भक्त थे और बड़े कष्ट से जीवन व्यतीत करते थे। अंत में विष्णु ने इनको दर्शन दिये और वर माँगने को कहा, पर इन्होंने केवल विष्णु-भक्ति ही माँगी। ५. वर्तमान मन्वन्तर के सोलहवें व्यास। ६. विश्वामित्र कुलोत्पन्न एक मंत्रद्रष्टा ब्रह्मर्षि। दे० ‘कुशिक’। ७. कुमार! के पति। ८. एक वैश्य जो दक्षिण समुद्र तट पर रहते थे। इनकी माता पति की आज्ञा का पालन नहीं करती थीं। उनके मरने पर वह उनकी हठियों को लेकर काशी प्रयाग करने के लिए चले। पर वहाँ उस अस्थि-भाँट को हृद्य-भाँट समझकर शवर उठा ले गये। फिर ये शवर के यहाँ गये और उसको मुँह माँगा धन देने की प्रतिज्ञा कर अस्थियों को ले आये।

धनक-विष्णु तथा पन्न के अनुसार दुर्दम के, परंतु भागवत के अनुसार भद्रसेन के पुत्र।

धनद-कुबेर का नामांतर। तृषार्विदु की कन्या इक्ष्विडा इनकी माता थीं और मणिजीव या ययां कवि और नल फूवर या मथुराज इन्हीं के पुत्र थे।

धनधर्मन-वायु के अनुसार मथुरा के राजा। प्रतांड के अनुसार ये विदिशा के एक नागवंशी राजा थे।

धनपाल-अयोध्या नगरी के वैश्य। इन्होंने सूर्य का एक दिव्य मंदिर बनवाया और एक पौराणिक को वेतन देकर वर्ष भर पुराण सुनाने को नियुक्त किया। द्रुः महीने पुराण कथा होने पर नर्य स्वयं उपस्थित हुये, इनकी पूजा की और फिर इन्हें ब्रह्मलोक में जाने को कहा।

धनयाति-भविष्य के अनुसार संयाति के पुत्र।

धनवर्धन-सत्ययुग में पुष्कर क्षेत्र में रहनेवाले एक वैश्य। ये एक बार भोजन कर रहे थे कि बाहर “खल” ऐसी आवाज पाई। यह तुरंत भोजन छोड़कर बाहर चले गये; पर वहाँ उन्हें कोई नहीं दिगाई दिया। लौटकर स्वक्त खल को पुनः स्वीकार करते समय तरासा इनके सौ टुकड़े हो गये।

धनशर्मन-अथदेश में रहनेवाले एक ब्राह्मण। एक बार कुरु आदि वज्र नामग्री एकत्र करने के लिए वे वन में गये वहाँ इन्हें तीन विशाच निजे। उन तीनों में उनका उद्धार करने के लिये इन्होंने तिन आदि का दान तथा वैशाख स्नान किया। इन्होंने हम दान का पुण्य निशार्थ को ही दान किया निम्नमें उनकी मुक्ति हुई।

धनाधिप-दे० ‘कुबेर’।

धनायु-नारद के अनुसार पुराण के पुत्रों में से ९

धनिष्ठा-सोम की सत्ताइस स्त्रियों में से एक ।

धनुग्रह-धृतराष्ट्र का एक पुत्र ।

धनुर्धर-धृतराष्ट्र का एक पुत्र जो भीम के हाथ से मारा गया ।

धनुर्ध्वज-एक शूद्र । दे० 'पद्मावती' ।

धनुष-मत्स्य के अनुसार सत्यधृति का एक पुत्र । पाठांतर सुधन्वन् है ।

धनुपात्त-यह रैभ्य थे । वालधि ऋषि के पुत्र मेधावी ने इन्हें त्रास दिया जिससे उसके नाश के लिये इन्होंने शाप दिया, पर इस शाप का कोई परिणाम नहीं हुआ । इन्होंने उसे पर्वत से ढकेल कर मार डाला क्योंकि अन्य किसी प्रकार उसकी मृत्यु संभव नहीं थी । नामांतर धनुपाख्य है ।

धनेयु-विष्णु के अनुसार रौद्राश्व के पुत्र । नामांतर धर्मयु है ।

धन्या-उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव की स्त्री ।

धन्विन् तामस मुनि के एक पुत्र ।

धमति-अंगिराकुलोत्पन्न एक ऋषि । पाठांतर धूमति है ।

धमनि-हाद नामक एक राक्षस की स्त्री । इत्त्वल तथा वातापी नामक इसके दो पुत्र थे ।

धमिल्ला-अनुशाल्व राजा की स्त्री ।

धमेश्वर-अवन्तीनगरी का एक दुराचारी ब्राह्मण जो सदैव निषिद्ध पदार्थों का व्यापार करता था । एक बार व्यापार करने महिष्मती नगरी गया । वहाँ कार्तिक मास में अनेक पुण्यात्माओं के दर्शन तथा भगवद्भजन का संयोग इसे मिला । रात में साँप ने काटा । यम ने कल्प पर्यंत नरकवास की व्यवस्था की; किन्तु अग्निकुण्ड से इसे कोई त्रास नहीं हुआ । फिर नारद की कृपा से यम ने यत्न योनि में डाल दिया जहाँ यह कुबेर का सेवक हो गया ।

धर-१. धर्म तथा वसु के पुत्र । इनकी स्त्री का नाम मनोहरा था । द्रविण, हुतहव्यवह, शिशिर, प्राणरमण तथा रज इनके पुत्र थे । मतांतर से दो ही पुत्र थे -द्रविण तथा हुतहव्यवह । २. सोम का पुत्र । ३. पांडव-पत्नीय एक राजा ।

धरापाल-विदिशा नगरी का राजा । एक बार देवी के शाप के कारण एक गण ने वेतसी और वेत्रवती नदी के संगमस्थल पर प्राण छोड़े । वहीं पर राजा ने विष्णु का एक देवालय बनवा कर वहाँ पुराण सुनाने के लिये पौराणिक नियुक्त कर दिये । इनके मरने पर यम ने इन्हें लेने के लिये विमान भेजा ।

धरिणी-अग्निवतादि पितरों की एक मानस कन्या । इनके वायु नाम की एक भगिनी थी ।

धरुण-अंगिरा कुलोत्पन्न एक सूक्तद्रष्टा ।

धर्म-१. ब्रह्मा के एक मानस पुत्र । मतांतर से इनकी उत्पत्ति ब्रह्मा के दक्षिण अंग से हुई । उत्पन्न होते ही ब्रह्मा ने इनसे कडा - 'तुम चार पैर वाले बैल के आकार के हो जाओ और प्रजा का पालन करो ।' गुण, द्रव्य, क्रिया और जाति-ये ही धर्म के चार पैर हैं । कृतयुग में धर्म चारों पैरों से, त्रेता में तीन, द्वापर में दो और कलियुग में एक पैर से प्रजा को रचा करता है । एकादशी तिथि

में धर्म का वास है । धर्म एक प्रजापति थे । दक्ष प्रजापति ने अपनी तेरह स्त्रियाँ इन्हें व्याह दी थीं । इनके नाम थे—श्रद्धा मैत्री, दया, शांति, तुष्टि, पुष्टि, क्रिया, उन्नति, बुद्धि, मेधा, तितित्ता, ही तथा मूर्ति । इनमें प्रथम बारह से क्रमशः शुभ, प्रसाद, अभय, सुख, सुद, स्मय, योग, दर्प, अर्च, स्मृति, चेम तथा प्रमम नामक पुत्र और मूर्ति से नर-नारायण नामक ऋषि उत्पन्न हुये । भागवत में इनकी स्त्रियों और पुत्रों के भिन्न नाम दिये गये हैं । पहले धर्म का जय महादेव के शाप से नाश हो गया तब वैवस्वत मन्वंतर में ब्रह्मा ने धर्म को फिर उत्पन्न किया । तात्पर्य यह है कि धर्म की उत्पत्ति प्रत्येक युग में होती है । धर्म की स्त्रियाँ तथा पुत्रों के नाम वास्तविक व्यक्तियों के न होकर धर्म के सहायक सदगुणों के हैं । २. यम का नामांतर । ३. अक्रूर के पुत्र । ४. गांधार के पुत्र । इनके पुत्र धृत थे । ५. पृथुश्रव्य के पुत्र । ६. हैतव्य राजा के पुत्र । पर्याय धर्मतत्व तथा धर्मनेत्र है । ७. एक ब्रह्मर्षि । इनकी स्त्री का नाम धृति था । उत्तम मन्वंतर में सत्यसेन अवतार के पिता । ८. विष्णु के अनुसार रामचंद्र के पुत्र । ९. वायु के अनुसार दीर्घतमा के पुत्र । १०. एक व्यास । ११. एक धार्मिक वैश्य । १२. विष्णु के अनुसार सुव्रत के पुत्र । नामांतर धर्मनेत्र, सुनेत्र, तथा धर्मसूत्र मिलते हैं । १३. सुतप देवों में से एक । १४. चाण्ड्य मन्वंतर का एक अवतार । इनके पुत्र नारायण थे ।

धर्मकेतु-सुकेतु के पुत्र ।

धर्मगुप्त-सोमवंशी राजा नंद का पुत्र ।

धर्मतत्व-१. वायु के अनुसार हैहय के पुत्र ।

धर्मदत्त-१. करवीर नगर निवासी एक ब्राह्मण । एक बार पूजन सामग्री लेकर मंदिर की ओर आते समय इन्हें एक राक्षसी मिली जिसे देखकर ये भय से मूर्च्छित हो गये । कुछ होश आने पर पूजा की सामग्री उस पर फेंकर मारा । पूजा की सामग्री-तुलसी पत्रादि-के प्रभाव से उसे ज्ञान हुआ और पूर्वजन्म की पातें याद आ गईं । अपनी दशा सुधारने के लिये उसने धर्मदत्त से प्रार्थना की और इन्होंने कार्तिक व्रत का पुण्य देकर उसका उद्धार किया । २. कश्यप के एक मित्र । ये कश्यप पुत्र गजानन को एक बार भोजन कराने लिवा ले गये थे ।

धर्मद्रवा-ब्रह्मदेव की सात भार्याओं में से एक । ये ही गंगा थीं । ब्रह्मा ने इन्हें अपने कमंडल में रक्खा । वामनावतारी देवों को निर्भय करने के बाद ब्रह्म ने इन्हें विष्णु के चरणों पर गिराया । वहाँ से ये हेमकूट पर गिरीं, जहाँ शिव ने इन्हें अपनी जटा में धारण किया । भगीरथ की प्रार्थना से ऐरावत ने हेमकूट पर्वत पर तीन जगह अपने दाँत भोंक दिये । उन्हीं तीन छिद्रों से (तीन श्रोतों से) गंगा की धाराएँ चल पड़ीं ।

धर्मध्वज-१. राजा रथध्वज के पुत्र । इनके तुलसी नाम की एक कन्या थी । २. भागवत के अनुसार कुशध्वज जनक के पुत्र । इनके कृतध्वज और मित्रध्वज नाम के दो पुत्र थे ।

धर्मध्वजिन्-जनक कुलोत्पन्न एक क्षत्रिय । इन्हें अक्षित न पृथ्वीगीत सुनाया था ।

धर्मन-विष्णु के मत से यह बृहद्राज के पुत्र थे। नामांतर धर्मिन अथवा वर्हि हैं।

धर्मनारायण-एक व्यास।

धर्मनेत्र-१. विष्णु, मत्स्य आदि के अनुसार हँहय के पुत्र।

२. वायु के अनुसार सुवन के, पर ब्रह्मांड के अनुसार सुवत के पुत्र। इन्होंने पाँच वर्ष तक राज्य किया था। दे० 'धर्म'।

धर्मपाल-१. राजा दशरथ के एक मंत्री। २. भविष्य के अनुसार आनंदवर्धन के एक पुत्र। इन्होंने २७०० वर्षों तक राज्य किया था।

धर्मवृद्धि-एक चोल राजा।

धर्मराज-धर्म तथा न्याय का अधिष्ठाता होने के कारण यम को इस संज्ञा से संबोधित किया जाता है।

धेनुक-एक राक्षस। यह गर्दभ के आकार का कहा जाता है। एक बार जब कृष्ण तथा बलराम गोकुल के समीप एक वन में फल-फूल आदि तोड़ कर खा रहे थे तो इसने अपने पिछले पैरों से बलराम पर आक्रमण किया था। बलराम ने उसे वहीं उसके पिछले पैरों को पकड़कर पटककर मार डाला था। उसके बाद और भी उसके कितने साथी गर्दभों ने बलराम पर आक्रमण किया और सभी बलराम के द्वारा धराशायी हुए। 'दशम स्कंध' में लिखा है कि बलराम ने धेनुक को मारकर उसकी टटरी को ताड़-वृक्ष के ऊपर फेंक दिया था। इसी प्रकार अन्य गर्दभों को भी वृक्षों के ऊपर फेंक दिया गया था, जिससे उस स्थान के सभी वृक्षों पर गधे ही दिखाई देने लगे थे।

ध्रुव-एक नक्षत्र। विष्णु-पुराण में उन्हें स्वयंभू मनु का पौत्र तथा उत्तानपाद का पुत्र कहा गया है। उत्तानपाद की दो स्त्रियाँ थी—सुरुचि तथा सुनीति। सुनीति के गर्भ से ध्रुव तथा सुरुचि के गर्भ से उत्तम की उत्पत्ति हुई थी। महाराज उत्तानपाद सुरुचि को अधिक चाहते थे, इस कारण उसके पुत्र उत्तम से भी उन्हें अधिक स्नेह था। एक बार जब उत्तम उनकी गोद में बैठा हुआ था तो ध्रुव भी जाकर उनकी गोद के एक भाग में बैठ गया। सुरुचि ने यह देख ध्रुव को अवज्ञा के साथ वहाँ से हटा दिया। ध्रुव के लिए यह अपमान असह्य हो गया और उसी समय वे घर से बाहर निकल कर एक निर्जन वन में तपस्या करने लगे। उस समय उनकी अवस्था अधिक नहीं थी, फिर भी उन्होंने अपने घोर तप से भगवान को प्रसन्न किया और यह वर प्राप्त किया कि "तुम समस्त लोकों, भद्रों तथा नक्षत्रों के ऊपर उनके साधारण-स्वरूप होकर स्थित रहोगे, और तुम्हारे रहने से वह स्थान ध्रुव-लोक के नाम से विख्यात होगा।" उसके बाद उन्होंने घर आकर अपने पिता का राज्य प्राप्त किया तथा शिशु-नार की कन्या भ्रमि का पाणिग्रहण किया। इनकी एक पत्नी का नाम हुला भी कहा जाता है। भ्रमि के गर्भ से इनको दो संतानें हुई थीं जिनके नाम कल्प तथा वासर प्रदे जाते हैं और हुला से केवल एक पुत्र उत्तम। अपने मौतिले भाई उत्तम के वरुणों द्वारा मारे जाने के कारण, इन्हें एक बार उनसे युद्ध करना पड़ा था। अंत में सात महर्षि वर्ष राज्य करने के बाद, ध्रुव भगवान से प्राप्त हुए

वरदान के अनुसार ध्रुव-लोक (तामपर्य हैं नक्षत्र से) में जाकर रहने लगे थे। घोर तपस्या के समय इंद्र आदि देवों ने इनका ध्यान भंग करने का प्रयत्न किया था, किंतु अपने इन प्रयत्नों में सभी को प्रसफलता मिली थी। इसी कारण अकसर लोग किसी कठिन वस्तु की प्राप्ति के लिए 'ध्रुव प्रयत्न' अर्थात् ध्रुव की भाँति प्रयत्न करने को कहते हैं।

नंद-१. गोकुल के गोपराज तथा कृष्ण के पिता वसुदेव के सखा। कंस के कारागृह में कृष्ण का जन्म होने के बाद वसुदेव उन्हें इन्हीं के यहाँ छोड़ आए थे। इस प्रकार कृष्ण का बालकाल इन्हीं के यहाँ बीता था। इनकी स्त्री यशोदा ने कृष्ण का पालन-पोषण किया था। इनके पूर्व-जन्म के संबंध में कहा जाता है कि वे दश प्रजापति थे, तथा यशोदा प्रसूति नाम से इनकी स्त्री थीं। इनकी कन्या सती थीं और उनका व्याह शिव के साथ हुआ था। दश ने एक यज्ञ किया था और उसमें अपनी सभी कन्याओं को निर्मात्रित किया था, किंतु सती को निर्धन व्यक्ति की अर्दागिनी जानकर नहीं बुलाया था। सती विना बुलाए ही आई थीं और यज्ञभूमि में अपने स्वामी शिव की निंदा सुनकर भस्म हो गईं थीं। दश को उस समय अपनी कन्या की महानता का ज्ञान हुआ था तथा अपनी पत्नी सहित वे तपस्या करने चले गए थे। उन की तपस्या से प्रसन्न होकर सती ने कहा था कि "हापर में मैं तुम्हारे यहाँ फिर जन्म लूँगी, किंतु अधिक समय तक तुम्हारे यहाँ रहूँगी नहीं और न तुम लोग मुझे पहचान ही पाओगे।" कहा जाता है इसी वरदान के अनुसार सती ने कृष्ण-जन्म के ही समय यशोदा के गर्भ से जन्म लिया था, किंतु वसुदेव कृष्ण को उनके स्थान पर छोड़ कर उन्हें मथुरा ले गए थे। मथुरा में जब कंस ने उसका बध करने का प्रयत्न किया था तो वह कम का बध करने वाले का जन्म हो जाने की घोषणा करके प्रासाद में विलीन हो गई थीं। कृष्ण जब शंकर के साथ मथुरा गए थे तो नंद भी उनके साथ थे। नंद ने कम-वय के बाद कृष्ण को गोकुल वापस ले जाने का प्रयत्न किया था, किंतु कृष्ण ने कार्यपस्तता दिखा कर पना चाली थी, जिससे इन्हें विशेष कष्ट हुआ था। कृष्ण जब दंत तथा टिभक का दमन करने के लिए गोवर्धन आए थे, उस समय भी इन्होंने कृष्ण को गोकुल ले जाने का प्रयत्न किया था, किंतु असफल रहे थे। एक बार ये एकादशी के दिन, रात को वसुना में स्नान करने गए थे। कहा जाता है, उस समय परमेश्वर दूर्वास ने प्रस्तुत हो कर इन्हें बंदी करके वरुणकी सभा में उपस्थित किया था। कृष्ण ने यह समाचार सुनकर इन्हें मुक्त करवाया था। इनके पूर्व-जन्म के संबंध में यह भी कहा जाता है कि ये वसुधेय द्रोग थे, तथा इनकी स्त्री का नाम भरा था। नंदमादन पर्यंत पर तपस्या करके इन्होंने अपने जन्म में भगवान के दर्शनों का वर प्राप्त किया था। बाद में वही नंद तथा यशोदा के रूप में उपलब्ध हुए थे और भगवान कृष्ण के रूप में इनके यहाँ रहे थे। २.

नंदों में से पंचम । ये प्रसिद्ध हरिभक्त तथा गोरक्षक थे । दे० 'पर्जन्य' ।

नन्ददास-हरिभक्त । महात्मा नामदेव के समान इन्होंने एक मरी बछिया को जीवित कर दिया था । विख्यात हिंदी कवि नन्ददास के ये एक घनिष्ठ मित्र थे ।

नंदी-शिवपुरी कैलाश के द्वारपाल तथा महादेव के एक वृषभ अनुचर । एक बार शिव के दर्शनार्थ भृगु आये पर उस समय शिव पार्वती के साथ विहार कर रहे थे । नंदी के भीतर जाने से मना करके पर उन्होंने शाप दिया कि आज से लिंग और योनि के रूप में ही शिव की पूजा होगी । एक बार रावण ने कैलाश पर्वत उठा लिया, जिससे क्रुद्ध हो नंदी ने अपने एक पैर से रावण का हाथ दबा लिया । रावण सारी शक्ति लगा कर भी उस हाथ को न खींच सका । अंत में उसने शिव की प्रार्थना की और नंदी से चमा मागों ।

नकवत-वायु पुराण के अनुसार हृदीक के पुत्र ।

नकुल-युधिष्ठिर के चतुर्थ भ्राता, माद्री के एक पुत्र । दे० 'पांडु' ।

नकुलीश-एक आचार्य । ये पाशुपत दर्शन के रचयिता थे ।

नभी साप्य-एक ऋषि । ऋग्वेद में कई बार इनका उल्लेख हुआ है । इन्द्र ने अपने पराक्रम से इनकी रक्षा की थी । कालांतर में ये विदेह के राजा हो गये थे ।

नमुचि-इंद्र के शत्रु । पुराणों के अनुसार दनु का पुत्र तथा धृत्रासुर का अनुयायी । हिरण्यकशिपु के समय में देवासुर संग्राम में यह दैत्य सेना का सेनापति था । और देवताओं को इसने हराया भी था । स्वमुनि की कन्या सुप्रभा इनकी स्त्री थीं । यद्यपि एक बार की मित्रता के कारण इंद्र ने वरदान दिया कि किसी शस्त्राघात से वह नहीं मरेगा; किंतु अन्त में समुद्र के फेन से वह मारा गया । नय-१. रौच्य मनु के पुत्र । २. तुषितसाध्य देवों में से एक ।

नर-१. दे० 'नारायण' । २. तामस मनु के पुत्र । ३. सुद्युति राजा के पुत्र । ४. विष्णु के अनुसार उशानर के पुत्र । ५. ब्रह्मा के पत्नी से उत्पन्न एक उग्र पुरुष जिसे ब्रह्मा ने शंकर को दंड देने के लिये उत्पन्न किया था । इससे रक्षा पाने के लिये शिव ने विष्णु से प्रार्थना की । विष्णु ने अपने रक्त को वेदों से एक पुरुष उत्पन्न किया । इसी का नाम नर हुआ । इस नर ने उग्र का वध किया । ६. तुषितसाध्य देवों में से एक । ७. विष्णु के अनुसार गय का पुत्र । ८. भगवत के अनुसार मनु के पुत्र ।

नरक-१. कश्यप तथा दनु का एक पुत्र । २. विमंचित्ति नामक दैत्य तथा दिति-कन्या सिंहिका का पुत्र । ३. भूमि का पुत्र, प्रसिद्ध नरकासुर राक्षस । ४. वह स्थान जहाँ मृत्यु के बाद पापों मनुष्यों की आत्मा अपने पाप का दंड पाने के लिये भेजी जाती है । यह यम का स्थान कहा जाता है । वेदों में नरक का कोई उल्लेख नहीं मिलता है । मनुस्मृति में कर्मों के अनुसार नरकों की संख्या २१ वतलाई गई है: तामिस्र, अंधतामिस्र, रौरव, महारौरव, नरक, महानरक, कालसूत्र संजीवन, महावीचि, तपन,

प्रतापन, संहत, काकोल, कुडमल, प्रतिमूर्तिक, लौहशंकु, ऋत्रीय, शाल्मली, वैतरणी, असिपन्न-वन तथा लौहदारक । भागवत में नरक संबंध में यह उल्लेख है : एक बार परीक्षित ने शुकदेव से पूछा : "भागवन् ! नरक क्या कोई पृथ्वी का देश-विशेष है अथवा ब्रह्मांड के वहिर्भाग अथवा अंतराल में उपस्थित कोई स्थान है ?" शुकदेव जी ने उत्तर दिया, "इस भू-मंडल से दक्षिण, भूमि के नीचे तथा जल के ऊपर एक स्थान, जहाँ अग्निप्लातादि पितृ-गण रहते हैं । यह यम का भी निवास-स्थान है, जहाँ वे अपने गणों के साथ रहते हैं, और अपने लेखक चित्रगुप्त के लेख के आधार पर मृत आत्माओं के कर्मों के गुण दोष का विचार करते हैं तथा उन्हें अपने कर्मानुसार नरक में कष्टभोग के लिये भेजते हैं ।" भागवत में भी नरकों की संख्या २१ ही मिलती है, किंतु नाम मनुस्मृति से भिन्न है-तामिस्र, अंध-तामिस्र, रौरव, महारौरव, कुंभीपाक, कालसूत्र, असिपन्नवन, शूकरमुख, अंधकूप, कृमिभोजन, संदंश, तप्तशूर्मि, वज्रकंदक, शाल्मली, वैतरणी, प्योद, प्राणरोध, विशसन, लालाभक्ष, सारमेयादन, अवीची और अयःपान । इनके अतिरिक्त चारमर्दन, रक्षोगया-भोजन, शूलप्रोत, दंदशूक, अश्वत्थ-निरोधन, पर्यावर्तन और सूची-मुख ये सात नरक और भी माने गये हैं । कुछ स्थानों पर उपर्युक्त नरकों के साथ ही ८४ नरककुंडों के भी नाम मिलते हैं । जैसे वह्निकुंड, तप्तकुंड तथा चारकुंड आदि । नरभागवत-एक सूक्तद्रष्टा । भरद्वाज के पाँच पुत्रों में से एक ।

नरवाहन-कुबेर का नामांतर ।

नरसिंह-१. गौड़ देश के राजा । इनके सेनापति सरभ-मेरुंग गीता पाठ से मुक्त हुये थे । २. विष्णु के एक अवतार । उनकी कथा इस प्रकार है : सत्ययुग में दैत्यों के आदि पुरुष हिरण्यकशिपु ने ब्रह्मा की घोर तपस्या करके यह वरदान प्राप्त किया था कि वह देवता, गंधर्व, असुर, नाग, किन्नर तथा मनुष्य किसी के द्वारा न मारा जा सके । उसकी मृत्यु अस्त्र-शस्त्र, वृत्त, शैल, सूखी तथा भीगी किसी वस्तु से न हो सके । स्वर्ग, मृत्यु लोक तथा पाताल कहीं भी उसकी मृत्यु न हो तथा दिन अथवा रात वह किसी समय में न मारा जा सके । इस प्रकार पूर्ण-रूप से निर्भय होकर उसने अपना निरंकुश शासन आरम्भ किया और देवताओं को कष्ट देने लगा । देवतागण अपनी रक्षा के लिये विष्णु की शरणा में गये । विष्णु ने उन्हें अभय-दान दिया और अर्ध-नर तथा अर्धसिंह का रूप धारण कर वे हिरण्यकशिपु के सम्मुख आये । उसके पुत्र ब्रह्मलाद ने उस नृसिंह रूप को देखकर कहा — "यह तो कोई दिव्य मूर्ति प्रतीत होती है, जिसमें समस्त चराचर ब्रह्म दिखाई दे रहा है । ज्ञात होता है अब दैत्य-वंश का नाश निकट है ।" हिरण्यकशिपु ने यह सुनकर अपने अनुचरों से नृसिंह का वध करने के लिये कहा; किंतु जो उन्हें मारने के लिये आगे बढ़ा वह स्वयं ही उनके द्वारा धराशायी हुआ । अंत में हिरण्यकशिपु ने नृसिंह के साथ स्वयं युद्ध आरम्भ किया । नृसिंह ने तप मात्र में अपने नलों से उदर विदीर्ण करके उसका वध

कर डाला । भागवत में प्रह्लाद की भक्ति का प्रसंग और बढ़ा दिया गया है, जिसमें कथा इस प्रकार की हो गई है । ब्रह्म से वर-प्राप्ति के बाद हिरण्यकशिपु ने निर्भय होकर देवताओं पर अत्याचार आरम्भ किये । उसके पुत्र प्रह्लाद के हृदय में भगवान् के प्रति बड़ा स्नेह था, इससे उसने उसका भी वध करने का प्रयत्न किया । किंतु विष्णु की कृपा के कारण प्रह्लाद का बाल भी चाँका न कर सका । एक बार क्रोधित होकर हिरण्यकशिपु ने प्रह्लाद से पूछा—“तू किसकी शक्ति पर इतना इतराता फिरता है ?” प्रह्लाद ने कहा—“भगवान् की शक्ति पर, जिसके सहारे यह संसार चल रहा है ।” हिरण्यकशिपु ने पूछा—“कहाँ है तेरा वह भगवान् ?” प्रह्लाद ने कहा—“वह सर्वत्र है ।” दैत्यराज ने क्रोधित होकर कहा—“क्या इस खंभे में भी है ?” प्रह्लाद ने उत्तर दिया—“श्रवण है”, और हिरण्यकशिपु ने अपने खंभे से खंभे पर आघात किया । खंभा टूट गया और उसके भीतर से एक नृसिंह-मूर्ति प्रकट हुई । उसने अपने नखों से देहली के ऊपर बैठकर संध्या के समय जब न रात थी न दिन, बिना किसी अन्न के अपने नखों से हिरण्यकशिपु का वध कर डाला । उसके बाद वह मूर्ति अंतर्हित हो गई । दे० ‘प्रह्लाद’ तथा ‘हिरण्यकशिपु’ ।

नरांतक-१. रावण का एक पुत्र जिसे बालि-पुत्र श्रंगद ने मारा था । २. रावण के मंत्री प्रहस्त का पुत्र । यह द्विविद नामक वानर के हाथ से मारा गया था । ३. रौद्रकेतु नामक दैत्य का पुत्र । अपने अत्याचार से इसने त्रैलोक्य को दुखी किया । जब इसे यह ज्ञात हुआ कि विनायक के हाथ से इसकी मृत्यु होगी तो विनायक के नाश के लिये यह वर-प्राप्ति का प्रयोग करने लगा । इसी बीच में विनायक ने इसका वध कर डाला । ४. कालेनेमि का पुत्र ।

नरामित्र-त्रिधानन नामक शिवावतार के शिष्य ।
नरि-बहु-पुत्र के पुत्र । इनके पुत्र अभिजित थे ।
नरिन-वनरस नगर के तालन नामक राजा के पुत्र ।
नरिप्यंत-१. वैवस्वत मनु के पुत्र । इनके पुत्र का नाम शुक्र था । २. वायु तथा विष्णु के अनुचर गरुड के पुत्र ।
नरोत्तम-१. विष्णु के अनुसार सरत के पुत्र । २. एक प्राणायाम । ये माता-पिता का पनादर करते थे पर तीर्थ-यात्रा आदि के फल से इन्होंने बहुत ता पुण्य अर्जित किया ।

नर्मदा-१. एक नदी । इन्हें अप्सरा कुलोत्पन्न दुर्वोषण को धरण करने की आज्ञा हुई और मनुष्य रूप धारण कर उन्हें धरण किया । २. एक गंधर्वा । इन्होंने अपनी तीन कन्याओं को सुदेश नामक राजन के तीन पुत्रों को दिया । ३. पुरुष की पत्नी तथा मांभाना की कन्या । ४. सोमप नामक पितरों की कन्या ।

नलकृष्ण-रुद्र के पुत्र । एक बार अपने भाई नगिप्रीत के साथ ये कैनाग पर्वत के पास उपवन में जलधारा पर रहे थे । मछपान करने के कारण अपनी शक्तियों नष्टि ने कम हो गये और इनको अपनी कमजोरी का भी ध्यान न रहा । नारद के जाने पर इनकी शक्तियों ने तो करतें पहिन किये किन्तु ये नमन ही रहे । नारद ने सोचा कि जिते

अपने शरीर के कपड़े का भी ध्यान नहीं रहा वह कुछ योनि में ही रहने योग्य है । यह सोचकर उन्होंने उन दोनों को १०० वर्षों तक वृद्ध योनि में रहने का शाप दिया । नारद की ही कृपा से इन्हें अपनी पूर्वस्थिति का ज्ञान बना रहा । यशोदा के आगम में ये उगे और कृष्ण के साक्षिण्य प्राप्त होने के कारण ये दोनों कृष्ण भक्त हो गये । यशोदा ने जब कृष्ण का उल्लखल-बंधन किया तभी उल्लखल से टक्कर खाकर ये दोनों भाई पुनः अपनी पूर्व योनि को प्राप्त हुए ।

नव-मत्स्य के अनुसार उशीनर के पुत्र ।
नवगव-आंगिरसों में से एक वर्ग का नाम । इन्होंने इंद्र की स्तुति की थी । नव महीने का यज्ञ पूरा करने के कारण इनका नाम नवगव पड़ा ।
नवतंतु-विद्वामित्र के एक पुत्र ।
नवरंग-दिल्ली का राजा और शाहजहाँ का पुत्र और प्रजेव ।

नवरथ-भागवत, विष्णु, मत्स्य तथा पद्म के अनुसार भीमरथ के पुत्र । मत्तांतर से रथवर के पुत्र ।
नववासव-इनका उल्लेख ऋग्वेद में [हुआ है] । भरद्वाज ने इंद्र द्वारा इनका वध करवाया था ।

नहुर-न्यूहवंशीय ताहर राजा के तीन पुत्रों में से एक ।
नहुप-१. यह नाम ऋग्वेद में आया है, पर कोई विशेष परिचय नहीं मिलता है । २. एक वैदिक राजा । यह संभवतः पृथुधवा के संबंधी थे । ३. प्रसिद्ध राजा नहुप । ये आयु के पुत्र, पुरुरवा के नाती तथा ययाति के पिता थे । इंद्र को ब्रह्महत्या लगने पर ये ही इंद्र बनाये गये । मैथिलीशरण गुप्त द्वारा रचित ‘नहुप’ के नायक यही हैं । ४. कश्यप तथा कद्रू के एक पुत्र । ५. वैवस्वत मनु के एक पुत्र ।

नहुप मानव-एक सुतद्रष्टा ।
नाक-दृष्ट सावर्णि मनु के पुत्र ।
नाक मोद्गल एक शाचार्य के रूप में इनका कर्तव्य उल्लेख हुआ है । ग्नाय मैत्रेयोंसे इनका वादविवाद हुआ था ।

नाकुलि-भृगु कुलोत्पन्न एक गोत्रकार । पाठान्त विवृति है ।
नाग-करुण तथा कद्रू के पुत्र । यह मेरु कर्मिका में रहते थे और वरुण की संभा के सम्भापति थे । कश्यप के पुत्र श्राद्ध प्रसुग सर्प शष्टकुली नाग कर्तव्य हैं । इनके नाम हैं—जनेत, वासुकि, लचक, कर्कोटक, पद्म, महापद्म, शंख तथा कुलिक । इनके कारण जब त्रैलोक्य में बहुत उपद्रव होने लगे तब प्रजा ने इन्हें शाप दिया कि जन्ममरण के नागयज्ञ में तुम सम्परिवार नष्ट हो जाओ । पर इन लोगों की विनयी से श्रावित हो शाप का प्रसंहार कर दिया । वे सब एक नद्य स्थान में पड़े गये और यहाँ पर नागतीर्थ की सृष्टि की । जिस दिन ये नदी के पान प्रार्थना करते गते थे वह क्षात्रगृहस्था पत्नी भी पान पय ‘नागपत्नी’ के नाम से प्रसिद्ध है ।

नागदत्ता-धृतराष्ट्र का पुत्र । यह भीम के हाथ से मारा गया ।
नागदत्ता-एक उपनाम ।

नागवाह-अजमेर के चौहान वंशोत्पन्न श्वेतराय के पुत्र ।
 इनके पुत्र का नाम लोहघार था ।
 नागवीथी-धर्म ऋषि तथा यामी की कन्या ।
 नागेय-वसिष्ठ कुलोत्पन्न एक गोत्रकार ।
 नागेरवर-शंकर के एक अवतार । दारुक नामक राक्षस
 को मारकर इन्होंने सुप्रिय नामक वैश्यनाथ की रक्षा की ।
 इनका उपलिंग भूतेरवर है ।
 नागनजित-स्पजिन का पैतृक नाम ।
 नागनजिती-दे० 'सत्या' ।
 नाचिक (नाचिकि)-विरवामित्र के पुत्र ।
 नाचिकेत-नचिकेतस् ऋषि का नामांतर । दे० 'नचिकेत' ।
 नाडपिती-शंकुतला का विशेषण । पर यह विशेषण किस
 अर्थ में प्रयुक्त हुआ है, यह स्पष्ट नहीं ।
 नाडायन-अंगिराकुलोत्पन्न एक गोत्रकार ।
 नाडीजंघ दे० 'गौतम' ।
 नाड्यनीय-व्यास की साम शिष्य-परंपरा में ब्रह्मांड पुराण
 के अनुसार लोकाची के शिष्य ।
 नाड्वलाथन (नाड्वलेय)-नाड्वले के पुत्रों का मातृक
 नाम ।
 नाथशर्मन-मच्छिंद्र और रंभा के पुत्र । यह शंकराचार्य के
 शिष्य थे ।
 नाद-१. चाक्षुष मन्वंतर में सप्तर्षियों में से एक । २.
 अश्रिताभ देवों में से एक ।
 नादिर (नादर)-एक म्लेच्छराज जो नादिरशाह के नाम से
 भारतीय इतिहास में प्रसिद्ध है । इन्होंने मुहम्मदशाह
 रंगीले के समय में दिल्ली पर आक्रमण करके उसे लूटा
 था ।
 नान्यादृश-मरुत् गणों में के ६ गणों में से एक ।
 नाभ (नाभाग)-१. नाभाग का नामांतर । २. चाक्षुष
 मन्वंतर के एक ऋषि । ३. भविष्य के अनुसार नल के
 पुत्र । इन्होंने १०००० वर्षों तक राज्य किया ।
 नाभाक-एक सूक्तद्रष्टा । इनके सूक्त में इनका स्पष्ट उल्लेख
 है । वायु, भागवत तथा विष्णु के मत से ये श्रुत के पुत्र
 सिद्ध होते हैं । भागवत में इनको नाम ही कहा गया है पर
 अन्यत्र नाभाक कहा गया है । ये मांधाता की स्तुति
 करते हैं, इसलिए इनको मांधाता का वंशज भी माना
 गया है ।
 नाभाग-१. वैवस्वत मनु के नवें पुत्र नभग के पुत्र नाभाग
 थे । पत्र में इन्हें वैवस्वत का ही पुत्र माना गया है ।
 अंबरीष इन्हें के पुत्र थे । धन का वंद्यवारा करते समय
 इनके पिता ने कहा कि तुम धन की इच्छा न करो । हम
 तुम्हारी दूसरी व्यवस्था करेंगे । अंगिरा यज्ञ करा रहे
 थे । उन्होंने रुद्र का भाग लगा कर उन्हें समर्पण किया ।
 संतुष्ट होकर रुद्र ने सारी संपत्ति नाभाग को दे दी
 और विद्या की शिक्षा भी । २. वैवस्वत मनु के पुत्र दिष्ट
 और उनके पुत्र नाभाग थे । नाभाग के पुत्र का नाम
 मलंदन था । वायु के अनुसार ये मनु के ही पुत्र थे ।
 विष्णु के अनुसार ये नेदिष्ट और भागवत के अनुसार
 दिष्ट के पुत्र थे । ३. विष्णु, वायु तथा भागवत के अनु-
 सार श्रुत के पुत्र । मत्स्य के अनुसार ये राजा भगीरथ

के पुत्र थे । नामांतर है : नाभागरिष्ट, नाभा, नेदिष्ट तथा
 नाभागदिष्ट ।
 नाभानेदिष्ट मानव-एक सूक्तद्रष्टा ।
 नाभि-प्रियव्रत-पुत्र आग्नीध्र तथा पूर्वचित्ति अप्सरा के
 पुत्र । इनकी स्त्री का नाम मेरुदेवी था जिससे इनको
 ऋषभदेव नामक पुत्र उत्पन्न हुआ ।
 नाभिगुप्त-हिरण्यरेत के पुत्र । ये राजा प्रियव्रत के पौत्र
 थे ।
 नाय-विकुंठ देवों में से एक ।
 नायकि-अंगिराकुलोत्पन्न एक गोत्रकार ।
 नायु-दक्ष तथा असिम्री की कन्या तथा कश्यप की
 स्त्री ।
 नारद-एक देवर्षि । युग-सृष्टि के समय ब्रह्मा के मानस-
 पुत्र के रूप में इनका उल्लेख मिलता है । अपने पिता
 के द्वारा शापित होकर गंधर्व-योनि में इनकी उत्पत्ति हुई
 थी । किंतु अपनी कठिन तपस्या से यह फिर अपने पूर्व-
 रूप को प्राप्त कर सके थे । प्रायः प्रत्येक पौराणिक
 आख्यान में इनका उल्लेख मिलता है । अपनी वीणा
 लिए हुए विष्णु के प्रति अपनी भक्ति की भावना के
 गीत गाते हुए यह रावण से लेकर कंस तक की राज-
 सभा में देखने को मिलते हैं । भागवत में इनका उल्लेख
 वेदज्ञ ब्राह्मण की एक दासी के पुत्र के रूप में मिलता है ।
 बाल्यावस्था में यह अपनी माता के साथ उन्हीं ब्राह्मणों
 की सेवा करते रहे । एक दिन उन्होंने उन्हीं ब्राह्मणों
 का उच्छिष्टान्न खा लिया । उससे उनका हृदय शुद्ध हो
 गया और पाँच वर्ष की अवस्था में ही यह हरिगुण-
 कीर्तन करने लगे । उसके बाद एक दिन सर्प के काटने
 से इनकी माता की मृत्यु हो गई । अब यह पूर्ण-रूप से
 स्वाधीन हो गये और घर द्वार छोड़कर उत्तरदिशा की ओर
 चल दिये । एक वन में पहुँचकर उन्होंने एक सरोवर में
 स्नान तथा जलपान किया और एक सघन वृक्ष की छाया
 में बैठकर भगवान का स्मरण करने लगे । भगवान ने
 उन्हें हृदय में दर्शन दिये, किंतु उससे उनकी इच्छा की
 पूर्ति न हुई और वह प्रत्यक्ष दर्शन के लिये चिंता करने
 लगे । उनके कष्ट को देखकर भगवान ने आकाशवाणी
 द्वारा उन्हें समझाया कि "इस जन्म में तुम्हें हमारे
 साक्षात् दर्शन नहीं हो सकते । अपने प्रति तुम्हारे अनु-
 राग की वृद्धि करने के लिए ही हमने तुम्हें दर्शन दिये
 हैं । तुम साधु-सेवा में रत हो, उसी से तुम हमारे समीप
 आ सकोगे ।" नारद ने उनकी आज्ञा सहर्ष स्वीकार की
 तथा कालांतर में परमधाम को प्राप्त हुए । इसी प्रकार
 नारद के संबंध में अनेक कथाएँ मिलती हैं । उनमें भी
 इसी कथा की भाँति भगवान के प्रति उनके अनुराग की
 भावना प्रधान है, तथा उनकी स्पष्टवादिता तथा बुद्धि-
 कौशल का भी उल्लेख है । नारद गानविद्या में विशेष
 निपुणमाने जाते हैं । कहा जाता है कि गानविद्या की शिक्षा
 इन्होंने रुक्मिणी से पाई थी । इनके द्वारा प्रणीत दो
 अर्थों का उल्लेख मिलता है : पंचरात्र तथा भक्तिसूत्र ।
 नारदी-नारद ने एक बार वृदारण्य में कौसुम सरोवर में
 स्नान किया जिसके कारण इनका पुंसत्व नष्ट हो गया

और ये स्त्री हो गये। तभी से इनका नाम नारदी हो गया।

नारायण-१. एक सूक्तद्रष्टा। २. धर्म ऋषि के पुत्र। पुष्कर क्षेत्र में ब्रह्मा ने यज्ञ किया था। जिसमें उद्गातृ गणों में ये एक प्रतिहर्ता थे। दे० 'नरनारायण'। ३. भागवत तथा विष्णु के अनुसार भूमित्र के पुत्र। मतांतर से ये भूमिमित्र के पुत्र थे। ४. परिहार वंशीय सूरसेन राजा के पुत्र। ५. तुषितसाध्य देवों में से एक।

नारायणि-अंगिराकुलोत्पन्न एक गोत्रकार। पाठभेद से इनका नाम परस्थायणि मिलता है।

नारायणी-१. सुदगल ऋषि की स्त्री। इनको इंद्रसेना भी कहते हैं। २. दुर्गा का एक नाम।

नारी-१. मेरु की कन्या तथा अग्नीध्र पुत्र कुरु की स्त्री। २. अंगिराकुलोत्पन्न एक गोत्रकार।

नारी कवच-अश्वमेध राजा के पुत्र। नामांतर मूलक है। दे० 'मूलक'।

नारमद-इनका उल्लेख ऋग्वेद में सहस्रसू के साथ हुआ है। नारमद-एक सूक्तद्रष्टा। दे० 'शकपूत'।

नार्य-ऋग्वेद में उल्लिखित वैवास्व को दान देनेवाले एक ऋषि।

नार्यद-कश्यप का पौत्रक नाम।

नालविद्-अंगिराकुलोत्पन्न एक गोत्रकार।

नालायनी-इंद्रसेन का नामांतर।

नाविक-विदुर के पुत्र। पांडवों ने जब लाक्षागृह में प्रवेश किया था तो इन्होंने नाव से उनको गंगा पार उतारा था।

नाहुप-एक सूक्तद्रष्टा।

निवादित्य (निवारक)-चार वैष्णवाचार्यों-रामानुज, माध्व, विष्णु स्वामी तथा निम्बार्क-में से एक। ये गोविंद शर्मा के पुत्र थे। ये जंगल में रहते हुए विष्णु की उपासना करते थे। एक बार इनके यहाँ कुछ अतिथि आये। अतिथियों ने सूर्यास्त के पूर्व ही इनसे भोजन करा देने को कहा, पर भोजन काल आने से पहले सूर्यास्त हो गया। इस पर इन्होंने फिर से सूर्य का प्रार्थना किया। इनकी प्रार्थना करने से सूर्य देव ने निकटवर्ती नीम के पेड़ पर फिर से आकर दर्शन दिया और तब अतिथियों ने भोजन किया। इसी से इनका नाम निवादित्य पड़ा। इनके गुरु का नाम कृष्ण चैतन्य था। भागवत के आधार पर इन्होंने कृष्ण ग्रंथ नामक एक ग्रंथ लिखा। इनका चलाया हुआ संग्रहालय हस्ताहृत के नाम से प्रसिद्ध है। हस्ताहृतवाद के अनुयाय ईश्वर और जीव भिन्न भी हैं और अभिन्न भी। इनके एक ग्रंथ का नाम धर्माधिभयोप है। इनकी गद्दी मथुरा के पास ध्रुवतीर्थ नामक स्थान में है। इनके शिष्य हरिव्यास के वंशधर श्वभ भी यहाँ हैं। इनके परवृत्तार निषार्क वा प्रादुर्भाव काल १४२० ई० से पहले है।

निकषा-सुमाना राजस की कन्या तथा ऋषि विभवा की पत्नी। इनका के मातराज रावण तथा उसके लोटे भाई कुम्भकर्ण का जन्म इनकी के गर्भ से हुआ था।

निहने-भविष्य के अनुसार जोशास्त्र के पुत्र।

निकुंभ-१. एक राजस जिसे कृष्ण ने मारा था। २.

प्राहाद का पुत्र। सुंद और उपसुंद नामक दो प्रसिद्ध राजस वंश दुर्गा के पुत्र थे। ३. हमरव राजा के पुत्र। सहोदाश्व इनका पुत्र था। भागवत में इनके पुत्र का नाम चर्हशाश्व दिया हुआ है। दे० 'क्षेमक'। ४. कुम्भकर्ण का एक पुत्र। इसकी माता का नाम वज्रज्वाला था। इसकी मृत्यु हनुमान के हाथ से हुई। ५. रावणपत्नीय एक राजस जिसे नील नामक एक बानर वीर ने मारा था। ६. कौरव पत्नीय एक वीर। ७. चारान्सी के राजा दिवोदास का मित्र। गणेश की पूजा न करने के कारण इनकी रानी सुयशा को पुत्र नहीं हुआ। इस कारण इन्होंने गणपति का मंदिर तोड़ डाला जिसके कारण गणपति ने काशी को ध्वंस होने का शाप दिया।

निकुंभक-भविष्य के अनुसार राजा एदाश्व के पुत्र। इन्होंने ३३,२०० वर्षों तक राज्य किया।

निकुंभनाभ-धली के पुत्र।

निकुपज-ब्रह्मसावर्णि राजा के पुत्र।

निकृतज-कश्यप कुलोत्पन्न एक वज्रर्षि। पाटांतर निकृतिज है।

निकृति-१. सुयल की कन्या। यह गांधारी की भगिनी तथा धृतराष्ट्र की एक पत्नी थी। २. दंभ तथा माया की कन्या।

निकृतिज-दे० 'निकृतज'।

निकीथन भायजात्य-प्रतिधि देवरथ के एक शिष्य।

निकुंभा-एक अप्सरा। सूर्य के शाप से मिहिर गोत्रीय सदाचारी सुनिद्ध नामक धर्मपुत्र की कन्या के रूप में प्रकट हुई। एक बार अग्नि लेने जाये समय इसके ऊपर सूर्य की दृष्टि पड़ी। उन्होंने मनुष्य रूप में प्रकट होकर इसका पाणिग्रहण किया और अंततोगत्या गर्भ रा गया। इनके पिता ने शाप दिया कि लोक में इसकी संतान अपूज्य होगी। सूर्य ने इनका प्रतीकार यह किया कि अपूज्या होने पर भी संतान सदाचारी, विद्वान् और तेजपूर्ण होगी। इनके वंशज मग द्विजातीय तथा भोजक आदि नामों से प्रसिद्ध हुए। ये शाकशीय में रहते थे और जंबूद्वीप के मंदिरों की पूजा-उपासना करते थे। इनके १२ कुल चले।

निगवट-रावण-पत्नीय एक राजस। इसको तार नामक एक राजस ने मारा था।

निगड परिश्वलिक-ये गिरिजाती वंशोत्पत्ति के शिष्य थे।

निन्न-१. राजा धनगण के पुत्र। इनके पुत्र जनमित्र तथा रत्नम थे। २. विष्णु, मन्व्य तथा नासु के मग से जनमित्र के पुत्र।

निचंद्र-धनु का एक पुत्र।

निचक्र-विष्णु के अनुयाय परिमान कृष्ण के पुत्र। दे० 'निमिचक्र'।

निजानंद-गोहृज के एक वसोष्ठु गोप।

नित्य-१. नरीषि कुलोत्पन्न एक ऋषि। २. कश्यपपत्नीय एक मंत्ररार। ३. नारीषि कुलोत्पन्न एक मंत्ररार ऋषि।

नित्यानंद-शुक्रदेव के पुत्र। यह जगन्नाथ शिष्य के शिष्य थे।

निदाघ-१. कश्यप कुलोत्पन्न एक गोत्रकार । यह ऋगु ऋषि के शिष्य थे । २. पुलस्त्य के पुत्र । यह ब्रह्मा-पुत्र ऋषु के शिष्य थे ।

निदात-वायु के अनुसार शूर राजा के पुत्र ।

निदाधर-कश्यप तथा दनु के एक पुत्र ।

निदिताश्व-ये मेधातिथि के आश्रयदाता थे ।

निधि-मुखदेवों में से एक ।

निधुव काण्व-एक सूक्तद्रष्टा । यह कश्यप कुलोत्पन्न बल्लर के पुत्र थे । इनकी स्त्री सुमेधा महर्षि च्यवन की कन्या थीं । इनके पुत्र का नाम कुंडवापी था ।

निप्ताल-एक मध्यम अर्धवर्ष का नाम ।

निबंध-भविष्य के अनुसार अतिथि के पुत्र । इन्होंने १००० वर्षों तक राज्य किया ।

निबंधन-१. अरण राजा के पुत्र । इनके पुत्र का नाम सत्यव्रत था, जो त्रिशंकु के नाम से प्रसिद्ध थे । दे० 'त्रिधन्वन्' । २. एक ऋषि । इन्होंने अपनी माता भोगवती के साथ जो अध्यात्मवाद के संबंध में वाद किया था वह मनन करने योग्य है ।

निमि-१. विदेह वंश के आदि पुरुष, इषवाकु के बारहवें पुत्र । गौतम ऋषि के आश्रम के निकट, दंडक वन के दक्षिण में—जहाँ तिमिध्वज राज्य करते थे, इन्होंने वैजयंती नामक एक नगरी बनाई । डा० भंडारकर के अनुसार यह विजय दुर्ग था और श्री नन्दलाल के अनुसार एक वनवासी नगर था । २. विदर्भ देश के एक राजा । इन्होंने आगस्त्य को राज्य तथा कन्या दी थी । ३. सात्वत भजवान (अंधक के भाई) के पुत्र । ४. दत्तात्रेय के पुत्र एक तपस्वी । ५. भागवत के अनुसार दंडपाणि के पुत्र ।

निमित्र-भविष्य के अनुसार यहीनर के पुत्र ।

निमिष-एक अमृतरक्षक देवता जिन्होंने गरुड़ से युद्ध किया था ।

निमेष-गरुड़ के एक पुत्र ।

निम्न-भागवत के अनुसार अनमित्र के पुत्र । दे० 'निम्न' । नियज्ञ-राजा विश्वसह के पुत्र । यह बड़े अत्याचारी थे । इस कारण इनके राज्य में दीर्घ काल तक अनावृष्टि रही और राज्य नष्ट हो गया । रानी के आग्रह से वसिष्ठ द्वारा इन्होंने यज्ञ कराया । इसके फलस्वरूप खट्वांग की उत्पत्ति हुई और इनका राज्य फिर से धन-धान्य-पूर्ण हो गया ।

नियति-१. मेरु की कन्या तथा स्वार्थमुव मन्वंतर में विधाता की स्त्री । २. रौचमनु के पुत्र । ३. नहुष के कनिष्ठ पुत्र ।

नियम-१. मुखदेवों में से एक । २. अमृत रजस देवों में से एक ।

नियुतायु-श्रुतायु के पुत्र । भारतयुद्ध में यह दुर्योधन की ओर से लड़े और अर्जुन के हाथ से मारे गये ।

नियुत्सर्पि-शिव नाम के रुद्र की स्त्री ।

नियुत्सा-प्रस्ताव नामक राजा की स्त्री । इनके विभु नाम का एक पुत्र था ।

निरच-एक ग्लेच्छ जाति का नाम । इनकी उत्पत्ति गरुड़ के कारण हुई । ये ईशान देश में रहते थे ।

निराकृति-दक्ष सारथि मनु के पुत्र । पाठांतर से इनका नाम निरामय भी मिलता है ।

निरामित्र-१. चतुर्थ पांडव नकुल के पुत्र । इनकी माता का नाम रेखुमती था । २. त्रिगर्त देश का एक क्षत्रिय वीर जो भारत युद्ध में सहदेव के हाथ से मारा गया । इसके बाप का नाम वीरधन्वा था । ३. ब्रह्म सारथि मनु के पुत्र । ४. आयुतायु के पुत्र । मत्स्य के अनुसार ये अग्रतीपिन के पुत्र थे । ५. मत्स्य तथा वायु के अनुसार दंडपाणि के पुत्र ।

निराव-वसुदेव तथा पौरवी के पुत्र ।

निरावृत्ति-भविष्य के अनुसार वृष्णि के पुत्र ।

निरुद्ध-ब्रह्म सारथि मन्वंतर में एक देवगण ।

निऋता-कश्यप तथा खशा की कन्या ।

निऋति-१. कश्यप तथा सुरभि के पुत्र । २. एकादश रुद्रों में से एक । यह नैऋत, भूत, राक्षस तथा दिकपालों के अधिपति हैं । शत्रुनाश की इच्छा करने वाले इनकी पूजा करते हैं । ३. वरुण पुत्र अधर्म की भार्या । मधु, महामय तथा मृत्यु इनकी संतान हैं ।

निर्भय-रौच्य मनु के पुत्र ।

निर्मोकि-१. सारथि मनु के एक पुत्र । २. देवसारथि मन्वंतर में सप्तर्षियों में से एक ।

निर्मोहि-१. रैवत मनु के एक पुत्र । २. सारथि मनु के पुत्र । ३. रौच्य मन्वंतर में एक ऋषि । ३. शाकुनि ऋषि के पुत्र । ये बड़े कठोर तपस्वी और संसार से विरक्त ऋषि थे ।

निर्वक्र-वायु के अनुसार ये अधिसाम कृष्ण के पुत्र थे । दे० 'निमिचक्र' ।

निर्विति-१. मत्स्य के अनुसार सुनेत्र के पुत्र । पाठभेद से नृपति भी मिलता है । २. घृष्टि के पुत्र मतांतर से घृष्ट अथवा सृष्ट के पुत्र ।

निल-विभीषण का एक मंत्री ।

निवात कवच-१. प्रह्लाद के भाई सहाद के पुत्रों का सामूहिक नाम । ये राक्षस थे और रावण के मित्र थे । संख्या में ६० या ७० हजार थे । अर्जुन ने इनका वध किया था । २. कश्यप पुत्र पौलोम तथा कालकेय भी निवात कवच नाम से प्रसिद्ध हैं ।

निवावरी-एक सूक्तद्रष्टा ।

निशट-एक यादव ।

निशाकर-गरुड़ का पुत्र ।

निशीथ-भागवत के अनुसार राजा पुष्पणि तथा दोषा का पुत्र ।

निमिचक्र-राजा अधिसाम कृष्ण के पुत्र । इनकी राजधानी हस्तिनापुर में थी; पर यमुना में वाद आने के कारण जब यह नगर बह गया तो इन्होंने कौशांबी में अपनी नई राजधानी स्थापित की । इनके पुत्र का नाम चित्ररथ था ।

निशुंभ-प्रसिद्ध राक्षस शुंभ का भाई । इसने इंद्र को परास्त कर अमरावती जीती और जालंधर ने इसका राज्याभिषेक किया । इसको कृष्ण ने परास्त किया और चंडी ने इसका वध किया । दे० 'शुंभ' ।

निश्चक्र-भविष्य के अनुसार राजा यज्ञदत्त के पुत्र । इन्होंने १००० वर्षों तक राज्य किया ।
 निश्चर-१. धर्म सार्वर्षिक मन्वन्तर के एक सप्तर्षि । २. निश्चवन का नामांतर ।
 निश्चवन-१. बृहस्पति और तारा के पुत्र । इनके पुत्र विपाप्मन अथवा निष्कृति थे । २. स्वरोचिप मन्वन्तर के एक सप्तर्षि ।
 निषंगिन-धृतराष्ट्र का एक पुत्र जिसे भीम ने मारा था ।
 निषध-१. राजा अतिथि के पुत्र । २. जनमेजय के पुत्र ।
 निषधार्थ-भागवत से अनुसार कुरु के पुत्र ।
 निपाद-त्रेन राजा का शरीर-मंथन करने पर उसमें कृष्णवर्ण एक पुरुष उत्पन्न हुआ था । इसी का नाम निपाद पड़ा ।
 निष्कंप-शंख्य मन्वन्तर में एक सप्तर्षि ।
 निष्कृति-विश्चन पुत्र विपाप्मन का नामांतर । इनके पुत्र का नाम स्वन था ।
 निष्ठानक-एक सर्प । यह कद्रू का पुत्र था ।
 निष्ठुर-एक व्याध । कार्तिक में दीपदान करने के फल से यह मुक्त हुआ ।
 निसंद-एक राजस ।
 निह्लाद-जालंधर की सेना का एक राजस । इसे कुबेर ने मारा था ।
 नीतिन-भृगुकुलोत्पन्न एक गोत्रकार ।
 नीप-१. राजा पार के पुत्र एक प्रसिद्ध राजा । मत्स्य के अनुसार इनके पिता का नाम पौर था । इनके १०० पुत्र थे जो भीष के नाम से प्रसिद्ध हैं । स्त्री का नाम कृती अथवा कीर्तिमती था और पुत्र का ब्रह्मदत्त । २. भागवत के अनुसार कृती के पुत्र । इनके पुत्र महद्युत थे । ये निषुण शस्त्रधारी थे ।
 नीपरतिथि काण्व-एक मंत्रद्रष्टा ऋषि । इनके यहाँ इंद्र ने सोमरस-पान किया था । इन्होंने एक साम की रचना की थी ।
 नील-१. विश्वकर्मा का अंशावतार जो राम सेना का एक प्रसिद्ध योद्धा था । राम-सेना को समुद्र पार करने के लिये इसने ही सेतु की रचना की थी । मतांतर से इसकी उत्पत्ति अग्नि के अंश से हुई थी । निकुंभ, महोदर आदि राक्षसों को इसी ने मारा था । राम के अश्वमेध यज्ञ में यह राक्षस-सेना के साथ था । २. एक सर्प जो कद्रू का पुत्र था । ३. यदु पुत्रों में से तृतीय । ४. अजमीर तथा नीलनी का पुत्र । ५. द्रौपदी स्वयंवर में सम्मिलित एक राजा । दे० 'नीलध्वज' । ६. भृगुकुलोत्पन्न एक गोत्रकार । ७. कौरव पर्याय एक राजा । ८. अनूपदेश के एक राजा ।
 नीलकंठ-शिव का नामांतर । समुद्र से निकलने वाले हलाहल को शिव ने पीकर अपने कंठ में धारण कर लिया था तभी से उनका नाम नीलकंठ हो गया ।
 नीलपराशर-पराशर कुलोत्पन्न एक ऋषिगण ।
 नीलरत्न-राम के अश्वमेध के समय राम-सेना के साथ जानेवाला एक गौर ।
 नीला-तपित्र रमि केतिनी की कन्या । विरुवा नाम की इसकी एक स्त्री थी ।
 नीलिभा-सः कियाही एक स्त्री ।

नृचक्षु-विष्णु के अनुसार ऋषि के परंतु भागवत के अनुसार सुनीय के पुत्र । दे० 'त्रिचक्षु' ।
 नृपंजय-१. वायु तथा विष्णु के अनुसार सुनीय के परंतु मत्स्य के अनुसार सुनीय के पुत्र । २. भागवत के अनुसार मेधावी के पुत्र ।
 नृपति-वायु तथा ब्रह्मांड के अनुसार धर्मेन्द्र के पुत्र । इन्होंने १२ वर्षों तक राज्य किया था ।
 नृमंथ आंगिरस-अंगिरस कुलोत्पन्न एक साम के द्रष्टा । ऋग्वेद के अनेक मंत्रों के भी ये द्रष्टा थे । अग्नि ने इन्हें संतति दी थी । इनके पुत्र का नाम शकपूत था ।
 नृपद-कण्व का पैतृक नाम । इसी शब्द से 'नारपद' शब्द की उत्पत्ति हुई ।
 नृहरि-महिराज का पुत्र जो दुःशासन का अंशावतार था ।
 नेतिष्य-भृगुकुलोत्पन्न एक ऋषि । नामांतर नेतिष्य ।
 नेदिष्ट-वैवस्वत मनु के पुत्र ।
 नेमि भार्गव-एक सूक्तद्रष्टा ।
 नेमि-१. बलिपत्नीय एक दैत्य । २. वायु पुराण के अनुसार इक्ष्वाकु के एक पुत्र । अन्य पुराणों में वर्णित निमि और ये एक ही व्यक्ति हैं ।
 नेमिकृष्ण-वायु के अनुसार एक राजा जिन्होंने २५ वर्षों तक राज्य किया ।
 नेमिचक्र-असीम कृष्ण के पुत्र । जब नदी में बाढ़ आने के कारण हस्तिनापुर बह गया तो इन्होंने कौराव्यी में अपनी राजधानी बनाई । इनके पुत्र का नाम चित्ररथ था ।
 नैकजिह्व-भृगुकुलोत्पन्न एक गोत्रकार ।
 नैकदृश-विश्वामित्र के पुत्र ।
 नैकशि-भृगुकुलोत्पन्न एक गोत्रकार ।
 नैगमेय-अनल वसु के पुत्र ।
 नैद्राणि-अत्रिकुलोत्पन्न एक गोत्रकार ।
 नैधुव-कश्यपकुलोत्पन्न एक मंत्रकार । ये कश्यप के पांडु तथा अवरसर के पुत्र थे ।
 नैधुकि-कश्यप का पैतृक का नाम ।
 नैष्टत-एक सूक्तद्रष्टा । दे० 'कपोतव्रत' ।
 नैल-एक ऋग्वेदी धृतरषि ।
 नैपथ-निषध देव के एक महाभारतकालीन राजा । ये भारतयुद्ध में कौरवों के पक्ष में लड़ते हुए अष्टभुज के हाथ से मारे गये ।
 नैवादि-१. एकनद्य का नामांतर । यह एक नद्य था जोर द्राणाचार्य की प्रतिमा को मुगलनाश करने धनुषिणा नाली । दे० 'एकनद्य' । २. नन के वंश के नव राजाओं में से एक । ये कोमना नामक नदी में रहते थे ।
 नैपिथ-नड का पैतृक नाम ।
 नैधस-एक सूक्तद्रष्टा । दे० 'एकस' ।
 नैधसु गौतम-हरीजन के कुल में उत्पन्न एक सूक्तद्रष्टा ।
 नैधस-उग्रसेन के पुत्र । संस-व्य के बाद उत्तमने एने करने हल-मूलन में मारा था ।
 न्यूह-मनेश्वर वंश के ऋषिगण । इनकी स्त्री का नाम कान्ति-पत्नी था । स्वर्ण में शिशु ने इनकी प्रत्यक्षी मृगण दी । इन्होंने एक हद नीरः बनाई और अपने पतिगण के साथ उव पर जा थेंडे । इनका भव शिशु ने दूर किया

इन्होंने कलि की वृद्धि के लिये और आर्यभाषा को अपशब्द रूप में परिणत करने का उपदेश दिया ।

पंचकर्ण वात्स्यायन—एक प्रसिद्ध ऋषि । इन्होंने काम-शास्त्र के सूत्रों की रचना की थी ।

पंचचूडा—एक अप्सरा का नाम । इन्होंने देवर्षि नारद से स्त्री स्वभाव के संबंध के वाद-विवाद किया था ।

पंचजन—१. एक प्रजापति । असिक्री नाम की इनकी एक कन्या थी जो प्राचेतम दत्त की पत्नी हुई । २. संहार नामक राजस का पुत्र । यह शंख का रूपधारण करके समुद्र के गर्भ में रहता था । गुरु संदीपन के पुत्र का उद्धार करने के लिये कृष्ण जब समुद्र में गये, तब उन्होंने इसे मारकर इसकी हड्डियों से अपना शंख बनाया जो पांचजन्य शंख के नाम से प्रसिद्ध हुआ । ३. कपिल के शप से बचे हुये सगर के चार पुत्रों में से एक का नाम । ४. संजय के पुत्र । इनके पुत्र का नाम सोमदत्त था । अग्नि पुराण में पञ्चधनुष पाठ है । कहीं-कहीं 'च्यवन' नाम भी मिलता है ।

पंचजनी ऋषभदेव के पुत्र भरत की भार्या । इनके पाँच पुत्र थे—सुमति, राष्ट्रभूत, सुदर्शन, आवरण तथा धूमकेतु ।

पंचतंत्र—संस्कृत की एक प्रसिद्ध कहानी-पुस्तक । इसके रचयिता विष्णु शर्मा थे जिनका समय ११वीं शताब्दी माना गया है । आगे चलकर इसका संचित संस्करण 'हितोपदेश' के नाम से प्रसिद्ध हुआ । इसका भाषांतर अनेक प्राच्य और पाश्चात्य भाषाओं में हुआ है । आधुनिक फारसी ग्रंथ 'अनवर-ई-दानिश' का आधार पञ्चतंत्र ही है । भारतवर्ष में ये कहानियाँ अत्यंत उपादेय सिद्ध हुई हैं ।

पंचपत्तलक—ब्रह्मांड के अनुसार हाला के पुत्र । दे० 'तलक' ।

पंचम—व्यास की सामशिष्य परंपरा में हिरण्य नामक शिष्य ।

पंचमेद—पाँच इंद्रियाँ, पाँच पाँव, दस हाथ तथा आठ-मुखवाला एक भयंकर राक्षस । वानर वीर बालि को खाने के लिये इसने युद्ध किया और उसे निगल गया । सुग्रीव, दशरुचि और कश्यप आदि को भी निगल गया । अंत में वीरभद्र ने इसका पेट फाड़ कर इन सबको निकाला ।

पंचयाम—विभावसु के पुत्रों में से धातप के पुत्र । इन्होंने के योग बल से सब प्राणी अपने-अपने कर्म में प्रवृत्त हुये ।

पंचवटी—एक वन का नाम जिसमें पाँच प्राचीन वटवृक्ष के नीचे वनवासी राम ने अपना आश्रम बनाया था ।

पंचशिख—१. यह आसुरी के प्रथम शिष्य थे । इनकी माता का नाम कपिला था । सांख्य-दर्शन के अनुयायी इन्हें कपिल का अवतार मानते हैं । इन्होंने एक सहस्र वर्षों तक मानस यज्ञ किया । जनदेव नामक जनक से इन्होंने नास्तिकवाद के संबंध में तर्क किया था । सांख्य पर इनका ग्रंथ है । २. दधिवाहन नामक शिवावतार के शिष्य ।

पंचहरत—दश सार्वर्षि मनु के पुत्र ।

पंचानन—शिव का एक पर्याय । दे० 'शिव' ।

पंचाल—भद्राश्व के पाँच पुत्रों का समान नाम । इन्होंने के कारण उस देश का नाम पंचाल पड़ा ।

पंचाल चंड—एक आचार्य का नाम ।

पांडु—पांडव वंश के आदि-पुरुष, महाराज शांतनु के पुत्र, तथा विचित्रवीर्य के चैत्रज पुत्र । महर्षि व्यास के नियोग से इनका जन्म हुआ था । महाराज विचित्रवीर्य क्षय-रोग से पीड़ित होकर युवावस्था में मृत्यु को प्राप्त हुए थे और उनकी दोनों स्त्रियाँ अंबिका तथा अंबालिका विधवा हो गई थीं । उस समय उनके कोई संतान भी न हुई थी । विचित्रवीर्य की माता सत्यवती ने वंश चलाने के उद्देश्य से महाराज शांतनु की प्रथम पत्नी गंगा से उत्पन्न हुए पुत्र भीष्म से अंबिका तथा अंबालिका के साथ नियोग करके संतान उत्पन्न करने को कहा । भीष्म आजन्म ब्रह्म-चारी रहने की प्रतिज्ञा कर चुके थे, इस कारण उन्होंने स्वयं-नियोग करने से अस्वीकार करके किसी योग्य ब्राह्मण को बुलाकर गर्भाधान कराने का परामर्श दिया । सत्यवती ने अपने प्रथम पुत्र व्यास का स्मरण किया और उनसे वंशवृद्धि के लिए संतान-उत्पत्ति के लिए कहा । व्यास ने कठिन तपस्या में लीन रहकर अपनी रूप-रेखा को विवरण बना लिया था । इस कारण जब वे अंबिका के पास गये तो उसने आँखें मूँद लीं और उससे अंध धृतराष्ट्र की उत्पत्ति हुई । अंबालिका उनकी भयंकर रूप-रेखा को देखकर पांडु वर्ण हो गई थी, उसने कालांतर में एक पांडु पुत्र को जन्म दिया । पांडु होने के कारण उसका नामकरण भी पांडु ही हुआ । सत्यवती एक सुंदर संतान की सृष्टि चाहती थी, इसलिए उसने अंबिका से फिर गर्भधारण करने के लिए कहा । किंतु वह व्यास से इतना भयभीत हो गई थी कि उनके आने पर उसने अपनी एक दासी को सम्मुख कर दिया । कालांतर में दासी ने विदुर को जन्म दिया । व्यास के वीर्यज पुत्र होने के कारण धृतराष्ट्र तथा पांडु के साथ विदुर का भी नाम लिया जाता है, तथा वे उनके भाई कहे जाते हैं । बाल्यावस्था में भीष्म ने इन तीनों का पालन-पोषण किया था । योग्य वय होने पर पांडु का विवाह कुंतिभोज की कन्या कुंती के साथ हुआ । भीष्म ने वाद को मद्र-कन्या माद्री से इनका विवाह करा दिया था । धृतराष्ट्र के अंधे होने के कारण राज-सिंहासन पांडु को ही मिला । कुछ दिन राज्य संचालन करने के बाद पांडु द्विविजय के लिए निकले और उन्होंने भूमंडल के समस्त राजाओं को परास्त करके बहुत-सा धन एकत्र किया । धृतराष्ट्र ने इसी धन से पाँच महायज्ञों का आयोजन किया था । एक बार महाराज पांडु अपनी दोनों स्त्रियों को साथ लेकर वन में आखेट के लिए गये हुए थे । वहाँ उन्होंने संभोगरत हिरन-दंपति में हिरन को अपने तीर से धराशायी कर दिया । वह हिरन वास्तव में किमिदंय ऋषि थे । अपना पूर्व-रूप प्राप्त कर मरते हुए उन्होंने शपथ दिया था कि जिस प्रकार संभोग के समय तुम्हें पता चला कि मैं तुम्हारी भी मृत्यु होगी । पांडु यह सुनकर अत्यंत दुःखी हुए और अपनी स्त्रियों को साथ लेकर वन पर जाकर

तपस्या करने लगे। एक बार ऋषियों के साथ उनकी भी स्वर्ग जाने की इच्छा हुई। किंतु ऋषियों ने उन्हें यह समझाकर कि जिसके संतान नहीं होती वह स्वर्ग नहीं जा सकता, अपने साथ चलने से रोका। पांडु ने स्वर्ग जाने की अपनी आकांक्षा की पूर्ति के लिए अपनी शियों से नियोग के लिए कहा। कुंती ने ऋषि दुर्वास की बताई हुई रीत्यानुसार धर्म, वायु तथा इंद्र का आवाहन करके उनके नियोग से युधिष्ठिर भीम तथा अर्जुन को जन्म दिया। माद्री ने अश्विनीकुमारों के द्वारा नकुल तथा सहदेव दो पुत्र उत्पन्न किए। यही पाँच पांडु के क्षेत्रज पुत्र आगे चलकर पांडवों के नाम से विख्यात हुए। इस प्रकार पुत्रों की उत्पत्ति के बाद वसंत ऋतु में एक दिन पांडु को कामवासना ने पीड़ित किया। माद्री के मना करने पर भी उन्होंने उसके साथ बलपूर्वक संभोग किया। उसकी अर्ध-अवस्था में ही ऋषि किमिदय के शाप के अनुसार उनकी मृत्यु हुई। कुंती उनके साथ सती होना चाहती थी, किंतु माद्री ने उन्हें समझाया कि मेरे साथ ही उनकी मृत्यु हुई, इसलिए मुझे ही उनके साथ सती होना चाहिए और उसने प्राण त्याग दिये। कहा जाता है कि पांडु तथा माद्री का मृत शरीर हस्तिनापुर लाया गया था और धृतराष्ट्र की आज्ञा से विदुर ने उनका अंतिम संस्कार किया था।

पक्थ-अश्विनीकुमारों के कृपापात्र, एक वैदिक व्यक्ति। दशरथ युद्ध में यह सुदास के विरुद्ध थे। शिव के कहने से इंद्र ने भी इन पर कृपा की।

पक्ष-१. मणिवर तथा देवजनी के पुत्र। २. वायु पुराण के अनुसार अनु के पुत्र। दे० 'चक्षु'।

पक्षगती-ऋग्वेदी श्रुतिर्षि गणों का नाम।

पक्ष-अंगिरा तथा कक्षिवान का पैतृक नाम।

पटधर-एक राजसूय। इसको शूरतर राजा ने मारा था।

पटवर्न-एक वैदिक राजा जिस पर अश्विनीकुमारों की कृपा थी।

पटवासक-एक सर्प का नाम। यह धृतराष्ट्र के कुल का था और जनमेजय के नागयज्ञ में सम्मानित हुआ था।

पटुमत-विष्णु के अनुसार मेघस्वाती के पुत्र। भागवत में इनका नाम शटमान है। इन्होंने २४ वर्षों तक राज्य किया।

पटुमित्र-विष्णु के अनुसार एक प्राचीन राजा।

पटुश-रावण की सेना का एक राजसूय जिसे राम-रावण-युद्ध में पनस नामक वानर ने मारा था।

परादि-१. एक ब्राह्मण जिन्हें दूत बनाकर दमयंती ने नल के पास भेजा था। २. नय की सभा के एक ऋषि।

पराव-वायु के अनुसार भगवान का पुत्र।

परा-१. यह नाम ऋग्वेद में कई स्थलों पर आया है। आचार्य नागण तथा वास्तु के अनुसार इस शब्द का अर्थ पवित्र है। वास्तव में इंद्र के विरुद्ध गढ़नेवाले किसी मंत्र या मन्त्रिक विशेष के अर्थ में यह शब्द प्रयुक्त हुआ है। सरमा और मणि नामक प्रसिद्ध नैयाद में यह आचार्य व्यक्त किया गया है कि पति ने इंद्र की माप

अपहरण कर ली थी और इसे लौटा देने के लिए सरमा ने डाट बताई थी। २. पातालवासी एक असुर।

पतंग-महर्षि मरीचि के एक पुत्र।

पतंग-प्राजापत्य-प्रजापति के एक पुत्र थे।

पतंगी-प्राचेतस् दक्ष प्रजापति तथा अश्विनी की कन्या और तार्क्ष्य ऋषय की स्त्री।

पतंचलकाप्य-१ भुज्यु ताम्बायनी ने वाजपय्य द्वारा किये गये प्रश्नों का उत्तर देते समय मद्र देश में घूमते समय पतंचल के घर जाने की बात कही है, जिसमें पाणिनि के सूत्रों का पत्र लेकर काश्यायन के सूत्रों की आलोचना की। इनके महाकाव्य में पुष्यमित्रसभा, तथा चंद्रगुप्त सभा और यवनों के आक्रमण का उल्लेख है। इनका समय ई० पू० १५० माना गया है। इनकी कृतियाँ में महाभाष्य, सांख्य प्रवचन, योगसूत्र, छंदोविचिति तथा वैद्यक का एक ग्रंथ प्रसिद्ध है। २. कद्रुपुत्र एक सर्प। ३. अंगिराकुलोत्पन्न एक गोत्रकार। ४. कौमुक पाराशर्य के एक शिष्य।

पतंजलि-मुनित्रय-पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि में से एक महर्षि और व्याकरण शास्त्रकार। पहले ये विष्णुभक्त थे। फिर देवी की उपासना की और कात्यायन को परास्त किया। इन्होंने कृष्णमंत्र का घर-घर प्रचार किया। इन्होंने ही महाभाष्य की रचना की।

पतन-रावणपत्नीय एक राजसूय।

पत्तलक-विष्णु के अनुसार हाल के पुत्र। दे० 'तलक'।

पत्र-तालन के एक पुत्र। इनके दो पुत्र थे।

पत्री-श्रीकृष्ण के सोलह नेवकों में से एक।

पथिनसौभर-अथास्य अंगिरस के शिष्य और वसन्तपात आश्रव के गुरु।

पथ्य-कबंध के शिष्य।

पथ्यवत्-राज्य मन्वन्तर के एक महर्षि।

पथ्या मन्डु की कन्या तथा अंगिरस की स्त्री। धृष्टि इनके पुत्र थे।

पदाति-जनमेजय (परीक्षितपुत्र) के पुत्र।

पटुम जी (राजा)-एक प्रसिद्ध वैष्णव भक्त। इन्होंने अपनी कोठी हरिभक्तों को दे दी।

पद्म-१. कद्रुपुत्र एक प्रसिद्ध सर्प। यह बड़ा धार्मिक और वरुण की सभा का सदस्य था। २. परावत का पुत्र, पुनविल का बहन। इसका रंग पीला था। नामांतर मंद है। ३. मणिभद्र तथा पुण्यजनी के पुत्र। ४. अष्टशुक्ल महानागों में से एक। वे वैकुण्ठ के प्रारण्य हैं और हमेशा ध्यान में लीन रहते हैं। ५. पर प्रसिद्ध वैष्णव भक्त। ६. एक प्रसिद्ध वैष्णव भक्त। नामा जी ने चैतन्य की शिष्य-परंपरा में इनका उल्लेख किया है।

पद्मगंधा-इंद्र की दासी। पूर्व जन्म में यह भौवी थी। इनके बच्चे गंगा में डूबकर जब मर गये तब इंद्र की हत्या में यह उनकी दासी हो गई।

पद्मचित्र-पद्मपुत्र एक सर्प।

पद्मजा-जन्त की स्त्री। इनके विना का नाम सौरमिद था। दे० 'जन्त'।

पद्मनाभ-१. एक ब्राह्मण। इन्हें दशरथ के शिष्य ७३ थे।

आया पर विष्णु के चक्र ने इनकी रक्षा की और उसी स्थान पर चक्रतीर्थ नामक तीर्थ की स्थापना की। २. कद्रु-पुत्र एक विद्वान् तथा ज्ञानी सर्प। ३. धृतराष्ट्र का एक पुत्र। ४. मणिवर तथा देवजनी का एक पुत्र। ५. प्रसिद्ध वैष्णव भक्त। रामानंदी सम्प्रदाय के प्रमुख प्रचारक। ये पैहारी जी के शिष्य, नाभा जी के गुरु, और अत्रदास जी के गुरु भाई थे।

पद्मपुराण-अष्टादश पुराणों में से एक। इसकी श्लोक संख्या २५००० तथा प्रकृति सात्विकी कही गई है। यह पुराण ५ भागों में विभक्त है। १. सृष्टि खंड, २. सृष्टि खंड, ३. स्वर्ग खंड, ४. पाताल खंड तथा ५. उत्तर खंड। ये पाँचों भाग असम्बद्ध हैं। यह १२वीं सदी से पहिले की रचना नहीं मालूम होती है।

पद्मामित्र-विष्णु के अनुसार एक राजा।

पद्मवर्ण-मणिवर तथा देवजनी के एक पुत्र।

पद्महस्त-राजा नल के मंत्री।

पद्माकर-विदुगढ़ के राजा शारदानंद के पुत्र।

पद्माक्ष-चंद्रहास राजा के कनिष्ठ पुत्र।

पद्मावती-१. विदर्भराज सत्यकेतु की कन्या और मथुरा के राजा उग्रसेन की स्त्री। पति-पत्नी में आदर्श प्रेम था, पर दैवयोग से मोहवश इसे कुबेर के गोभिल नामक दूत से गर्भ रह गया, जिससे कंस की उत्पत्ति हुई। २. प्रणिधि नामक एक धनी वैश्य की स्त्री। ३. सत्यव्रत की कन्या तथा सूर्य के अंशावतार जयदेव की स्त्री। ४. भक्तमाल के अनुसार रामानंद की शिष्य मंडली में एक प्रमुख शिष्या।

पद्मिनी-विदुगढ़ के राजा शारदानंद की कन्या। उसने स्वयंवर में 'लक्षण' को पतिरूप से वरण किया और पृथ्वीराज आदि राजाओं में इसके लिये घोर युद्ध हुआ। पतंस-१. राम-सेना का एक वानर वीर। युद्ध में इसने पद्मश नामक राक्षस को मारा था। २. विभीषण का मंत्री।

पद्मग-एक ऋग्वेदी श्रुतिर्षि।

पद्मगारि-१. एक गरुड़राज। इन्होंने ४० वर्षों तक राज किया। २. वाष्कली भरद्वाज के शिष्य। ३. वसिष्ठ कुलोत्पन्न एक गोत्रकार।

पयोद-विरवामित्र कुलोत्पन्न एक गोत्रकार ऋषि।

परंजय-विष्णु के अनुसार विकुक्षि-पुत्र का नामांतर। भागवत में पुरंजय नाम मिलता है।

परंतप-तामस मनु के दस पुत्रों में से एक।

पर-१. विश्वामित्र के एक पुत्र। २. वायु के अनुसार समर के पुत्र। ३. नहुष के पुत्र।

परण्यस्त-अंगिराकुलोत्पन्न एक ऋषि।

परपत्त-वायु के अनुसार अनु के पुत्र। नामांतर परमेयु, पराक्ष, परमेक्ष आदि मिलते हैं।

परमहंस-एक प्रसिद्ध ग्रंथ। इसके रचयिता प्रसिद्ध वैष्णव आचार्य श्रीधर जी थे, जिनकी भागवत टीका सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है।

परमानंद-१. अष्टछाप के कवियों में से एक भक्त कवि। इन्होंने 'परमानंद सागर' लिखा है किन्तु वह अप्राप्य है। इनकी कविता भक्ति के सच्चे मनोभाव से परिपूर्ण

है। २. एक प्रसिद्ध वैष्णव भक्त। ये विख्यात भक्तलाहा जी के शिष्य थे। ये एक प्रसिद्ध सिद्धयोगी थे। ३. 'श्रौली' नामक स्थान के निवासी एक प्रसिद्ध वैष्णव भक्त। इन्होंने अपना भवन हरिभक्तों को दे दिया था।

परमेष्ठिन्-१. ब्रह्मा के शिष्य, एक सूक्तद्रष्टा। इनके शिष्य का नाम सनग था। मतांतर से ये प्रजापति के शिष्य थे। २. भागवत के अनुसार देवद्युम्न, तथा विष्णु के अनुसार इंद्रद्युम्न और धेनुमती के पुत्र। इनकी स्त्री का नाम सुवर्चला और पुत्र का प्रतीह था। ३. भविष्य के अनुसार आत्मपूजक के पुत्र। इन्होंने २७०० वर्षों तक राज्य किया। ४. अजमीट और नीली के पुत्र।

परमेयु-मत्स्य के अनुसार अनु के पुत्र। दे० 'परपत्त'।

परवीराक्ष-खर नामक राक्षस का एक मंत्री।

परशु-१. उत्तम मनु के पुत्र। २. एक राक्षस। यह शाकल्य को खाने आया था, पर विष्णु की कृपा से मुक्त हुआ।

परशुचि-उत्तम मनु के पुत्र।

परशुवाहु-शिव प्रभादन का नामांतर। इन्हें काशीधाम में धुंदिराज गणेश ने अपने हाथ से परशु प्रदान किया था। इसी से इनका यह नाम पड़ा।

परशुराम-१. जमदग्नि के पाँचवें पुत्र का नाम। शङ्कर से इन्होंने अमोघ 'परशु' प्राप्त किया था, अतएव इन्हें परशुराम कहते हैं। इनकी माता की चित्त-चंचलता के कारण इनके पिता ने अपने सब पुत्रों से माता का वध करने को कहा। किसी ने भी उनकी आज्ञा का पालन न किया। इससे पिता ने सबको संज्ञाहीन कर दिया। अंत में परशुराम ने पिता की आज्ञा से माता का सिर काट डाला। पिता ने प्रसन्न होकर वर माँगने को कहा। इन्होंने ४ वरदान माँगे—(१) माता जीवित हों, (२) भाई सचेत हों, (३) मैं दीर्घजीवी होऊँ और (४) मैं युद्ध में अपराजेय होऊँ। पिता ने कहा 'तथास्तु'। हैहय-राज कार्तवीर्य ने इनके पिता का वध कर डाला। उसी अपराध में इन्होंने २१ बार पृथ्वी को क्षत्रिय-विहीन किया और राज्य ब्राह्मणों को दे दिया। रामावतार में जनक के यहाँ धनुष टूटने पर ये जनक के यहाँ आये। राम ने इनका दिया हुआ धनुष चढ़ा दिया तब ये समझ गये कि विष्णु का अवतार हो गया। अतएव ये जंगल को चले गये। इन्हें विष्णु का अवतार माना जाता है। २. एक प्रसिद्ध भक्त कवि तथा वैष्णव मत प्रचारक। ३. एक प्रसिद्ध वैष्णव भक्त तथा नाभाजी के यजमान।

परस्यरायणि-अंगिराकुलोत्पन्न एक ऋषि।

पराक्ष-दे० 'परपत्त'।

परातंस-भविष्य के अनुसार प्रतंस के पुत्र।

परानंद-शुद्धा स्त्री से नन्दसुत प्रनन्द के पुत्र। यह मगध के राजा थे। इन्होंने दस वर्षों तक राज्य किया था। इनके पुत्र का नाम समरानंद था।

परायण-ज्यास की साम शिष्य परंपरा में कौशुम पाराशर्य के शिष्य।

परावसु-१. एक गंधर्व। २. रैम्य ऋषि के पुत्र तथा विश्वामित्र के पौत्र। इन्होंने हरिण समझ कर अपने बाप को मार डाला था। बृहद्युम्न के यज्ञ में इनके बंधु अवधिसु

नें इन्हें व्रत करने का उपदेश देते हुए कहा था—'तुम द्रुपदहत्या के दोषी हो, तुमसे यज्ञ पूरा नहीं होगा।' यह मानकर ये व्रत करने लगे। ह्यर इनको राजा के यहाँ प्रसहत्या का दोषी ठहराकर उसने बृहद्युम्न राजा का यज्ञ पूरा किया। यवक्रीत ने इनकी स्त्री के साथ बलात्कार किया। परशुराम से इन्होंने शिकायत की कि क्षत्रिय श्रव भी पृथ्वी पर श्रत्याचार कर रहे हैं। इस पर परशुराम ने पुनः पृथ्वी को क्षत्रियों से रहित करने का कार्य प्रारम्भ किया।

परावृत-पद्म तथा विष्णु के अनुसार रुक्मकवच के पुत्र।

परिकूट-विश्वामित्र कुलोत्पन्न एक गोत्रकार।

परिकूट-हिरण्यनाभ के शिष्य।

परिचित-एक राजा। इनके ऐश्वर्य का बड़ा वर्णन मिलता है। इनकी देवताओं से तुलना की गई है। यह परीक्षित से भिन्न है।

परिघ-मत्स्य तथा वायु के अनुसार रुक्मकवच के पुत्र।

परिप्लव-विष्णु के अनुसार सुखीबल और भागवत के अनुसार सुखीनल के पुत्र।

परिमंडल-दे० 'उपरिमंडल'।

परिमति-भ्यदेवों में से एक।

परिमल-प्रद्योत के पुत्र। प्रद्योत मथुरा से धुंधुकार नामक राजा के एक शक्तिशाली मंत्री थे। परिमल एक लाख सेना के अधिपति थे। इन्होंने पृथ्वीराज और जयचंद में वैर उत्पन्न कर दिया था।

परिमला-इंद्रप्रस्थ के प्रद्योत नामक राजा की कन्या। यह दुःशला के अंश से उत्पन्न हुई थी। स्वयंवर के द्वारा इसका विवाह कच्छप राज के पुत्र कमलापति से हुआ था।

परिवह-गरुड़ के पुत्र।

परिष्णव-दे० 'परिष्णव'।

परिस्वंग-मरीचि भयि तथा ऊर्णा के एक पुत्र।

परिहर-अथर्ववेद परायण एक बौद्ध-द्रोही राजा। चित्र-शृट के पास कालिंजर नामक नगर में ये रहते थे।

परीक्षित-शशुंन के पौत्र तथा अभिमन्यु के पुत्र। इनकी माता का नाम उत्तरा था। महाभारत के बाद यही चक्र-पती सम्राट् हुए। कलि इन्हीं के समय से पृथ्वी पर आया। इनकी मृत्यु शंखी ऋषि के शाप के कारण तपक के काटने से हुई।

परुष-पर राजसूय का एक मंत्री।

परोदा-भागवत के अनुसार अनुभाज के पविष्ठ पुत्र।

पञ्चन्य-१. सृष्टि के वैदिक देवता। इनकी स्तुति में ऋग्वेद में तीन मंत्र हैं। यह नाम प्रायः यात के साथ आता है। वायु और वर्षा के अनवरत संबंध के कारण ही ऐसा हुआ है। शाने चन्द्रर पञ्चन्य वर्षा और मेघों के रूपक के रूप में माने गये हैं। इनको शूभ, पता, पिता, पृथ्वी माता तथा पञ्चन्य पिता आदि नामों से सम्बोधित किया गया है। इन्द्र और एतस नामक हैं। २. एक पारिव्रज जो काल्पुन नास के सूर्य हैं। इनके साथ शत्रु नामक वज्र, वचस नामक राजसूय, भरताप ऋषि, विशा नाम की अक्षरा, मेघजित नाम

के गन्धर्व तथा ऐरावत नाम के नाग आदि का सहयोग है। ३. दैवत मन्त्रंतर में ऋषियों में से एक। ४. एक देवगन्धर्व जिनकी उत्पत्ति कश्यप तथा उनकी मुनि नाम की भार्या से हुई थी।

पर्ण-दे० 'एकपाटला'।

पर्णजंघ-विश्वामित्र के एक पुत्र।

पर्णय-एक वैदिक व्यक्ति। इन्द्र ने इनका वध किया था।

पर्णवि-अत्रि कुलोत्पन्न एक गोत्रकार।

पर्णागारि-वशिष्ठ कुलोत्पन्न एक गोत्रकार।

पशिनी-एक अक्षरा।

पशिन्-ध्यास की यजुःशिष्य परंपरा में याज्ञवल्क्य के एक शिष्य।

पर्यपित-प्रेत योनि को प्राप्त होने पर पृथु नामक घातण ने इनका उद्धार किया।

पर्वणा-रावणपत्नीय एक राक्षस।

पर्वत-१. एक प्राचीन ऋषि। अद्भुत रामायण के अनुसार इन्हीं के शाप से लक्ष्मी नारायण को त्रेता में मनुष्य योनि में अवतार लेना पड़ा। २. कश्यप के एक मानस पुत्र। जनमेजय के नागयज्ञ में एक सभासद्। नारदियों में पदे भीष्म के पास गये थे। नारद को वानरमुणी होने का शाप इन्होंने ही दिया।

पर्वत कायव-एक सूक्तद्रष्टा। नारद के साथ इनका कई बार उल्लेख हुआ है।

पर्वतायु-वालधि ऋषि के पुत्र मेधावी का नामान्तर।

पर्वतेश्वर-विध्य देश के राजा।

पशु-सायण के अनुसार पर्शु के पुत्र तिरिदिर थे। परंतु अन्यत्र तिरिदिम को पारशव्य कहा गया है। पृथु पर्शु ने तुदास की सहायता की थी। पाणिनि ने पर्शु का उल्लेख किया है।

पर्शुमानवी-सायण के अनुसार एक मृगी जिसने एक साथ २० बच्चे दिये। कान्यायन ने स्त्री वाचक पर्शु का उल्लेख किया है।

पलांडु-एक यजुर्वेदी धूर्तरि।

पलिंग-हिरण्य केरी शापा के पितृ तर्पण में एतस उल्लेख हुआ है।

पवन-१. दे० 'वायु'। २. उत्तम मनु के एक पुत्र।

पद्मान-१. प्रति तथा स्वाहा के एक पुत्र। इनके पुत्र का नाम एव्यवाह था। यह मृदर्यों के पूज्य हैं। २. राजा विजिताय के पुत्र पुत्र। यह पूर्व जन्म में प्रति थे जो वशिष्ठ के शाप से मनुष्य योनि को प्राप्त हुये। ३. मेधातिथि के एक पुत्र।

पवित्र-१. एक नायक। इनकी स्त्री का नाम पद्मा था।

२. भौव मन्त्रंतर में देवताओं का नाम। ३. इन्द्रमार्ग मन्त्रंतर में देवता।

पवित्र प्रंगिरन्-एक सूक्तद्रष्टा।

पवित्र प्राप्त-एक ऋषि।

पशु-अभिना नाम के साष्टवै पाण्डित्य और उनकी शक्ति नाम की स्त्री से उत्पन्न पुत्र।

पांचजनी-स्वामियों का नामान्तर।

पांचाल-पांचाल देश के राजा ने यों में इन मन्त्र का

प्रयोग हुआ है। दुर्मुख और शोण राजाओं के लिये यह शब्द विशेष रूप से आता है।

पांचाली-राजा रूपद की पुत्र । दे० 'द्रौपदी' ।

पांचाल्य-आरुणि नाम के एक ऋषि का नाम ।

पांचि-एक ऋषि जिन्होंने सोम यज्ञ में तीन अंगुलि प्रमाण की वेदी रचने की प्रथा चलाई है।

पांड-कश्यप के पुत्र । सरस्वती नामक कन्या से इनको सोलह पुत्र हुये थे । दे० 'पाठक' ।

पांडर-सर्प यज्ञ में भस्म होनेवाले ऐरावत कुलोत्पन्न एक सर्प ।

पांडुरोचि-भृगु कुलोत्पन्न एक गोत्रकार ।

पांडय-द्रविड देश के एक राजा । इनके चित्रांगदा नाम की कन्या थी । भारत-युद्ध में ये पांडवों के पक्ष में थे । अश्वत्थामा ने इनका वध किया ।

पाक-एक असुर, जिसे इंद्र ने मारकर 'पाकशासन' की उपाधि पाई थी ।

पाचि-मत्स्य के अनुसार नहुप के पुत्र ।

पाटल-राम-सेना का एक वानर ।

पाठक-कश्यप और आर्यवती के तृतीय पुत्र । यह एक गोत्रकार थे । इनके सरस्वती नामक स्त्री से १६ पुत्र हुए—कश्यप, भारद्वाज, विश्वामित्र, गोतम, जमदग्नि, वसिष्ठ, वत्स, गौतम, पराशर, गर्ग, अत्रि, ऋगु, अंगिरा, शृंगी, कात्यायन तथा याज्ञवल्क्य ।

पाडक-वायु के अनुसार व्यास की साम शिष्य परंपरा में हिरण्यनाभ के शिष्य । ब्रह्मांड के अनुसार इनका नाम मांडूक था ।

पाणिक-अंगिराकुलोत्पन्न एक ऋषि ।

पाणिन-१. एक ऋषि । २. कश्यप तथा कद्रू के एक पुत्र ।

पातालकेतु-१. जालंधर की सेना का एक राक्षस । २. दे० 'ऋतुध्वज' ।

पाथ्य-वृषन् का पैतृक नाम ।

पादप-वसिष्ठ कुलोत्पन्न एक गोत्रकार ।

पादपायन-दे० 'पालवाधन' ।

पापनाशन-दमन नामक शिवावतार के शिष्य ।

पायु-अंगिरा कुलोत्पन्न एक ऋषि ।

पायुभारद्वाज-राजा दिवोदास के आश्रित एक सूक्तद्रष्टा ।

पार-१. पृथुसेन अथवा पृथुपेण के पुत्र । इनके पुत्र नीप नाम से प्रसिद्ध हैं । २. विष्णु, मत्स्य तथा वायु के मत से समर के पुत्र । ३. अंग के पुत्र ।

पारद-हरिश्चंद्र कुलोत्पन्न गर राजा का राज्य जीतनेवालों में से एक ।

पारशवी-देवराज की कन्या तथा विदुर की स्त्री ।

पारस्कर-एक आचार्य । इन्होंने पारस्कर गृह्यसूत्र तथा स्मृति की रचना की थी । बहुतों के मत से कात्यायन और ये एक ही हैं ।

पारावतसुत-भविष्य के अनुसार कमलांशु का पुत्र ।

पाराशर-१. व्यास के पिता तथा सत्यवती के स्वामी । इन्होंने धीवर की कन्या से गंगातट पर विवाह करके संभोग किया, जिससे महाभारत के रचयिता व्यास उत्पन्न हुए ।

प्रसिद्ध पाराशर स्मृति के रचयिता यही माने जाते हैं । २. एक ऋषि । इन्होंने शुक्ल यजुर्वेद की १६० श्लोकों से शुक्ल पाराशरी शिक्षा प्राप्त की थी । दे० 'पराशर' ।

पाराशरी कौंडिनी पुत्र-गार्गी-पुत्र के शिष्य ।

पाराशरी पुत्र-कात्यायनी पुत्र के शिष्य थे । इनके पुत्र भारद्वाजी आदि थे ।

पाराशर्य-१. भारद्वाज तथा जातकश्य के शिष्य । २. युधिष्ठिर की सभा के एक ऋषि ।

पारिजात-१. नारद के साथ मय की सभा में जानेवाला एक ऋषि । २. ब्रह्मांड पुलह तथा श्वेता के पुत्र ।

पारिभद्र-मियन्नत पुत्र यज्ञवाहु के सात पुत्रों में से पाँचवें ।

पारियात्र-१. भागवत के अनुसार अनीह के, वायु के अनुसार अहीनगु के, विष्णु के अनुसार रुरु के तथा भविष्य के अनुसार कुरु के पुत्र । इन्होंने दस हजार वर्षों तक राज्य किया । २. सर्प यज्ञ में दग्ध होनेवाला ऐरावत कुलोत्पन्न एक यज्ञ ।

पारुवत-१. शायणाचार्य के अनुसार परवत् के निवासियों को पारावत कहते हैं । २. सर्प यज्ञ में दग्ध होनेवाला ऐरावत कुलोत्पन्न एक सर्प । ३. स्वारोचिप मन्वंतर में देवगण ।

पार्थ-दे० 'अर्जुन' ।

पार्थव-दे० 'अभ्यावर्तिन्' ।

पार्थिव-अंगिरा कुलोत्पन्न गोत्रकार गण ।

पार्थश्रवस्-धतराष्ट्र का पैतृक नाम ।

पार्वती-हिमालय तथा मैना की कन्या । नारद के कहने से हिमालय ने इनका विवाह शिव से कर दिया था । पार्वती ने इसके पूर्व अपनी घोर तपस्या से शिव को प्रसन्न किया था ।

पार्वतीय-दुर्योधन के मामा शकुनि का नामांतर ।

पाण्डु शैलन-एक आचार्य ।

पार्थिण-वेकितानू राजा के सारथि ।

पालंकायन-वसिष्ठ कुलोत्पन्न एक गोत्रकार । पाठभेद पादपायन है ।

पालक-प्रद्योत के पुत्र ।

पालिशय-वसिष्ठ कुलोत्पन्न एक गोत्रकार ऋषि ।

पावक-१. विजितारव के पुत्र । इन्होंने वसिष्ठ के शाप से मनुष्य योनि में जन्म लिया । २. एक सूक्तद्रष्टा । अग्नि और स्वाहा के पुत्र ।

पावकाक्ष-राम-सेना का एक वानर ।

पावन-१. मित्रविंदा नामक स्त्री से कृष्ण के एक पुत्र । २. दीर्घतपा ऋषि के कनिष्ठ पुत्र ।

पाशान्-धतराष्ट्र के एक पुत्र ।

पिंग-अंगिरा कुलोत्पन्न एक गोत्रकार ।

पिंगल-१. एक आचार्य, जिन्होंने वेदांग छंदशास्त्र की रचना की । छंदशास्त्र में लौकिक और वैदिक दोनों प्रकार के छंद हैं । पिंगल को कुछ लोग पाणिनि का छोटा भाई मानते हैं । किंतु छंदशास्त्र में प्राकृत का वर्णन है जिसका विकास पाणिनि काल के कई शताब्दियों के बाद हुआ । २. एक आचारहीन ब्राह्मण जो पुरुकुल नामक नगर में रहता था । ३. एक राक्षस । ४. कद्रूपुत्र एक सर्प । ५

ऋगुक्तोत्पन्न एक ऋषि जो जनमेजय के नागयज्ञ में थे ।
६. सूर्य के अनुचर तथा लेखक । ७. एकादश रुद्रों में से एक ।

पिंगलक-एक यज्ञ ।

पिंगला-१. अश्वति नगरी की एक वेद्या । एक ब्राह्मण इस पर आसक्त था । ऋषभयोग्य की सेवा के प्रसाद से यह चंद्रानंद नामक राजा की स्त्री के गर्भ से उत्पन्न हुई और कीर्तिमालिनी नाम से प्रसिद्ध हुई । इसका विवाह भद्रायु से हुआ । दे० 'भद्रायु' । २. मिथिला नगरी की एक वेद्या । राम से पत्नीत्व-संबंध के लिये इसने प्रार्थना की किंतु एकपत्नीव्रती होने के कारण राम ने इसे अस्वीकार कर दिया । दूसरे जन्म में यही कुब्जा हुई ।

पिंगलाक्ष-शिव के रुद्रगणों में से एक ।

पिंगा-दे० 'प्रेतरेय' ।

पिंगाक्ष-१. एक शवर । अत्यंत परोपकारी होने के कारण निर्ऋति लोक के अधिपति हुये । २. मणिभद्र तथा पुरयजनी के पुत्र ।

पिंजक-कश्यप तथा कद्रू का एक पुत्र ।

पिंडसेकृ-सर्पयज्ञ में दग्ध होनेवाला तक्षक कुल का एक नाग ।

पिंडारक-१. द्रौपदी-स्वयंवर में आनेवाला एक यादव । २. कश्यप तथा कद्रू का एक पुत्र । ३. वसुदेव के एक पुत्र ।

पिघलायन जी-नव योगीश्वरों में एक का नाम ।

पिजवन-निरुक्त के अनुसार ये सुदास के पिता थे । सुदास का पैतृक नाम पैजवन प्रसिद्ध है ।

पिठर-वरुण सभा का एक राजस ।

पिठरक-कश्यप तथा कद्रू का एक पुत्र ।

पिठीनस-इन्होंने इंद्र को रजि नाम की स्त्री दी थी ।

पितामह-एक स्मृतिकार ।

पितृ-दत्त-कन्या स्वधा के पति ।

पितृवती-सूर्य की पूजा के फलस्वरूप इनको सात पुत्र हुये थे और नित्य एक सेर सुवर्ण मिलने लगा था ।

पितृवतिन्-कुरुक्षेत्र के कौशिक नामक ब्राह्मण के सात पुत्रों में से कनिष्ठ ।

पितृवर्धन-भविष्य के अनुमार श्राद्धदेव के पुत्र ।

पिनाक-शिव का धनुष, जो दधीचि की हठियों से बना था और जिसे राम ने सीता स्वयंवर के समय तोड़ा था ।

पिनाकिन्-एकादश रुद्रों में से एक । पिनाक नामक धनुष धारण करने के कारण यह नाम पड़ा ।

पिप्पला-१. मित्र नामक आदिपत्य तथा रेवती के कनिष्ठ पुत्र । २. एक राजस जो सगन्त मुनि का द्वादश वर्ष व्यापी यज्ञ चलाता था । उसमें यह ब्राह्मणों को खाता था । ३. एक ब्राह्मण । यह बड़े अभिमानी थे । सुकर्मा ने इनका गर्व चूर्ण किया ।

पिप्पलायन-ऋषभदेव तथा जयंती के नव सिद्ध पुत्रों में से एक । ये बड़े भगवत् भक्त थे ।

पिप्पल्य-एक गोत्ररार ।

पिपु-एक वैदिक व्यक्ति । इनको दाम और जमुर चढ़ा

गया है । इनके कई किले थे । इंद्र ने इनको परास्त किया था ।

पिशंग-१. सर्पयज्ञ में होता थे । २. मणिचर तथा देव-जनी के पुत्र । ३. सर्पयज्ञ में दग्ध होनेवाला ष्टराष्ट्र कुलोत्पन्न एक सर्प ।

पिशाच-राक्षसों से कुछ नीची योनि और उसके व्यक्ति । पुलह ने इनकी उत्पत्ति की । रुद्र इनके अधिपति थे । ऋग्वेद में इनको पिशाचि कहा गया है ।

पिशुन-कौशिक ऋषि के सात पुत्रों में से एक ।

पीठ-नरकासुर का सेनापति, जिसे कृष्ण ने मारा था ।

पीडापर-कश्यप तथा खशा के पुत्र ।

पीवर-तामस मन्वन्तर में सप्तपियों में से एक ।

पीवटी-अग्निवन्ति पितरों की कन्या तथा व्यास पुत्र शुक्र की स्त्री ।

पीपा-१. एक प्रसिद्ध वैष्णव भक्त । ये भिष्मावृत्ति द्वारा ही जीविका प्राप्त करते थे । २. रामानंदी संप्रदाय के एक प्रमुख संत । ये कबीरपंथी थे । संतधानी संग्रह में इनके पद संकलित हैं ।

पुंजिकस्थला-एक अप्सरा । यही शाप के कारण अंजना होकर प्रकट हुई ।

पुंजिकस्थली-एक अप्सरा जो वैशाख में सूर्य के सामने आती है ।

पुंड-१. वलि के सौ पुत्रों में से एक । २. वसुदेव के सुतनु नामक स्त्री से ज्येष्ठ पुत्र । ३. व्यास की यजुः शिष्य-परंपरा में ब्रह्मांड के अनुसार याज्ञवल्क्य के शिष्य ।

पुंडरिका-एक अप्सरा । यह कश्यप तथा मुनि की कन्या थी ।

पुंडरिकाक्ष-दे० 'पुंडरीक' ।

पुंडरीक-१. राजा नभ के पुत्र । इन्होंने को पुंडरिकाक्ष भी कहते हैं । इनके पुत्र रोमधन्वा थे । भविष्य के अनुसार ये नाभ के पुत्र थे । इन्होंने १०,००० वर्षों तक राज्य किया । २. पातालवासी एक सर्प । ३. यम की मना के एक सभासद । ४. नागपुर के नाग राजा । ५. अयंगीप के मित्र । ये पहले अधार्मिक थे । फिर जब इन्हें सुबुद्धि हुई तो इन्होंने जगन्नाथ की पूजा की और इन्हें मोक्ष-लाभ हुआ । ६. एक ब्राह्मण । इन्होंने नारद से पाद-विवाद किया था । ७. विद्रुभ नगर के नागप नामक ब्राह्मण के भांजे । ये इतने बड़े विष्णु भक्त थे कि विष्णु भगवान ने प्रत्यक्ष रूप से इनके घर में एक महीने तक निवास किया था ।

पुंडरीकाक्ष-श्री संप्रदाय के प्रवर्तकों में से एक मुख्य वैष्णव । नाभादाम जी ने इन्हें यामुनाचार्य आदि श्री पंक्तियों में रखा है ।

पुरय-१. दीर्घतपस् और महेंद्रा के पुत्र । पारन नामक इनके एक सूर्य भाई था । नागा-सिंहा ही मृत्यु के दमनक पावन को इन्होंने ज्ञान की दिशा ही दिग्गम से पर मोक्ष-सुक्त हुए । २. मत्स्य के अनुमार पुरयपावन के पुत्र थे ।

पुरयजन-एक राजस । हमने कृत्तिकारणर की अनु-पस्थिति में इन्हा पर अधिपति कर दिया था । २. प्रयागरात्री एक इन्द्र वैष्णव ।

पुरयजनी-मणिभद्र की स्त्री ।

पुरयनिधि-मथुरा के चंद्रवंशी राजा ।

पुरयवत्-मत्स्य के अनुसार वृषभ के पुत्र । नामांतर पुरयवत् है ।

पुरयशील-गोदावरी तट निवासी एक ब्राह्मण ।

पुरयश्रवस्-एक ऋषि । यह कृष्ण के भक्त थे ।

पुत्र-स्वारोचिप मनु के पुत्र ।

पुत्रक-वायु के अनुसार कुरु के पुत्र । नामांतर प्रतन है ।

पुत्रव-अगिरा कुलोत्पन्न एक गोत्रकार ।

पुनर्दत्त-एक आचार्य का नाम ।

पुनर्भव सभाभाग-मत्स्य के अनुसार वज्रमित्र के पुत्र ।

पुनर्वसु-सोम की स्त्री तथा दत्त की कन्या । एक नक्षत्र ।

पुनर्वसु आत्रेय-इन्होंने ही सर्वप्रथम पृथ्वी पर आयुर्वेद की परंपरा का आरंभ किया ।

पुरंजन-पांचाल देश के एक बड़े प्रतापी राजा । भागवत में इनकी कथा बड़े विस्तार से मिलती है । वह रूपक के रूप में वर्णित है ।

पुरंजय-१. विकृति के पुत्र । नामांतर इंद्रवाह तथा कुकत्थ । २. सृंजय के पुत्र । मत्स्य पुराण के अनुसार इनका नामांतर वीर था । ३. मत्स्य के अनुसार मेधावी के पुत्र । दे० 'नृपंजय' ।

पुरंदर-वैवस्वत मन्वंतर के इंद्र । इन्होंने वास्तु शास्त्र पर एक ग्रंथ की रचना की थी । दे० 'इंद्र' ।

पुर-एक राक्षस का नाम ।

पुरदहन-दे० 'पुरंदर' ।

पुराण-१. हिंदुओं के प्राचीन धर्मग्रंथों का नाम । संख्या में ये १८ हैं । भागवत, हरिवंश, ब्रह्म आदि अति प्रसिद्ध हैं । भारतीय इतिहास को समझने के लिये इनका अध्ययन अत्यंत आवश्यक है । इनमें विभिन्न रूप, सृष्टि-तत्त्व, अवतारों की कथा तथा दार्शनिक तत्त्वों का समावेश है । कपोल-कल्पित बातें अधिक हैं, यद्यपि ऐतिहासिक तथ्य भी हैं । अमरसिंह के अनुसार पुराणों में ५ अंग मुख्य होने चाहिये-१. सृष्टितत्त्व, २. प्रलय, ३. देतवाओं की वंशावली, ४. मनुओं का राज्य काल, ५. सूर्य तथा चंद्र वंश । १८ पुराणों की तीन वृत्तियाँ हैं । विष्णु, नारदीय, गरुड, पद्म वराह, और भागवत में सात्विक, ब्रह्म, ब्रह्मांड, ब्रह्मवैवर्त, मार्कण्डेय भविष्य और वामन में राजसिक और मत्स्य, कूर्म, लिंग, शिव, स्कंद, तथा अग्नि में तामसिक वृत्ति है । किंतु यह वर्गीकरण वैज्ञानिक नहीं है । इनके अलावा १८ उपपुराण हैं । १. सनत कुमार २. नरसिंह, ३. नारदीय, ४. शिव, ५. दुर्वासा, ६. कपिल, ७. भागवत, ८. श्रोतस, ९. वरुण, १०. कालिका, ११. शांभु, १२. नंदी, १३. सौर, १४. पराशर, १५. आदित्य, १६. साहेश्वर, १७. भागवत और १८. वासिष्ठ । २. एक ऋषि का नाम । ३. कुशिक कुलोत्पन्न एक मंत्रकार । नामांतर पूरण है ।

पुरारि-दे० 'पुरंदर' ।

पुरींद्रसेन-मत्स्य के अनुसार मंडुलक के पुत्र ।

पुरीष्य-विधाता नामक अष्टवें आदित्य तथा क्रिया से उत्पन्न पंचचित्त अग्नि का नाम ।

पुरुंड-कश्यप तथा दनु के पुत्र ।

पुरु-१. ययाति के एक पुत्र । इन्होंने अपने पिता को अपना यौवन दान दिया था । दे० 'ययाति' । २. मय सभा का एक क्षत्रिय । ३. वसुदेव के एक पुत्र ।

पुरुकुत्स-१. एक प्रसिद्ध राजा । दौर्गह इनका विशेषण है । अतः ये दुर्गह के पुत्र हैं । २. भागवत आदि पुराणों के अनुसार ये मांधाता तथा विंदुमती के पुत्र थे ।

पुरुकुत्सकाप्य-यह प्रारम्भ में क्षत्रिय थे पर तप के प्रभाव से ब्राह्मण हो गये थे ।

पुरुकुत्सानी-पुरुकुत्सु की स्त्री ।

पुरुरवा-बुध के पुत्र तथा चन्द्रमा के पौत्र, एक परम प्रतापी प्राचीन राजा । उर्वशी ने जब पृथ्वी पर अवतार लिया था तो कुछ शतों के साथ इन्हें पतिरूप में वरण किया था । ६१ वर्ष के बाद इनके यहाँ से वह चली गई । उर्वशी के पुरुरवा से सात संतानें हुईं जिन्हें लेकर वह केवल एक रात के लिए फिर पुरुरवा के पास आई थी । पुरुरवा की राजधानी वर्तमान प्रयाग में थी । गंगा तट पर प्रतिष्ठित होने के कारण इसका नाम प्रतिष्ठानपुर था । दे० 'उर्वशी' और 'बुध' ।

पुरुरज-भागवत के अनुसार सुशांति के पुत्र । अन्यत्र इनको पुरुजानु अथवा पुरुजाति कहा गया है ।

पुरुरजित-१. भागवत के अनुसार अज नामक जनक राजा के पुत्र । इनके पुत्र अरिष्टनेमि थे । २. रुचक राजा के पुत्र । ३. श्रीकृष्ण तथा जांबवंतों के एक पुत्र । ४. राजा कुंतिभोज के पुत्र तथा कुंती के भाई । भारत युद्ध में पांडवों के पक्ष से लड़ते हुये ये द्रोणाचार्य के हाथ से मारे गये ।

पुरुरदम-एक वैदिक व्यक्ति ।

पुरुरद्वत्-मत्स्य के अनुसार पुरुवस तथा वायु के अनुसार महापुरुष के पुत्र ।

पुरुरद्वह-वायु के अनुसार पुरुद्वत् के पुत्र ।

पुरुरमिहल आगिरस-एक सूक्तद्रष्टा ।

पुरुरमित्र-१. एक वैदिक व्यक्ति । कमयू इनकी कन्या थी । २. धृतराष्ट्र के पुत्र । ३. एक क्षत्रिय । भारत युद्ध में ये कौरवों के पक्ष में थे ।

पुरुरमीढ-हस्ति अथवा मतांतर से हस्तिनर के तीन पुत्रों में से कनिष्ठ ।

पुरुरमेध आगिरस-एक सूक्तद्रष्टा ।

पुरुरयंत्र-एक वैदिक व्यक्ति । इन्होंने भरद्वाज को दान दिया था ।

पुरुरवस-मत्स्य के अनुसार मध्यु के पुत्र । नामांतर 'कुरुवश' अथवा 'कुरुवत्स' है ।

पुरुरपति-एक वैदिक व्यक्ति । अश्विनीकुमारों ने इन पर कृपा की थी ।

पुरुरप-१. चाक्षुष मनु के पुत्र । २. एक मरुतगण ।

पुरुरपा-रामानंदी संप्रदाय के एक प्रमुख वैष्णव भक्त । इनके गुरु प्रसिद्ध पैहारीजी थे ।

पुरुरपारुक-एक शाखा के प्रवर्तक । दे० 'पाणिनि' ।

पुरुरपोत्तमपुर नृपति-पुरुरपोत्तमपुरी नामक नगरी के प्रसिद्ध

पुष्करिन्-वायु के अनुसार उभयतया तथा विष्णु के अनुसार उरुचय के पुत्र । दे० 'पुष्कराणि' ।

पुष्कल-राम के भाई भरत और माण्डवी के दो पुत्रों में से कनिष्ठ । राम के अश्वमेध यज्ञ में अश्व-रक्षक सेना के साथ गये थे । युद्ध में सुबाहु के पुत्र दमन को परास्त किया था । चित्रांग, विद्वन्माली उग्रदंष्ट्र आदि से भी इनका युद्ध हुआ । लव ने इन्हें पराजित किया । गांधारनगर जीतकर इन्होंने पुष्कलावती नामक नगर को अपनी राजधानी बनाया । कांतिमती इनकी स्त्री का नाम था ।

पुष्टि-१. स्वायंभुव मन्वन्तर में दत्त की एक कन्या । ये धर्म की स्त्री थीं । इनके पुत्र का नाम समय था । २. हिरण्यनाम के शिष्य । ३. वसुदेव और मदिरा के पुत्र । ४. धर्म सार्वणि मन्वन्तर में एक सप्तर्षि ।

पुष्टिमुकाएव-एक सूक्तद्रष्टा ऋषि ।

पुष्प-विष्णु के अनुसार हिरण्यनाम के एक पुत्र ।

पुष्पदंत-१. एक गंधर्व । यह बड़ा शिव भक्त था । इसी ने शिव महिम्नस्तोत्र की रचना की थी । २. विष्णु के पार्षद । ३. एक रुद्रगण । ४. मणिंगण तथा देवजनी के एक पुत्र ।

पुष्पदंती-एक गंधर्वी । एक समय नृत्य करते समय इंद्र सभा में यह माल्यवान पर मुग्ध हो गई । इससे इंद्र के शाप के कारण इसे पिशाच योनि में जाना पड़ा । एकादशी के व्रत से इसकी मुक्ति हुई ।

पुष्पदंष्ट्र-एक सर्प ।

पुष्पमित्र-यज्ञांश से इनकी उत्पत्ति हुई । कहा जाता है कि जन्म से ही ये साढ़े सोलह वर्ष के नवयुवक की तरह लगते थे ।

पुष्पवती-कृष्णांश की स्त्री तथा मकरंद की भगिनी ।

पुष्पवत्-ऋषभ के पुत्र ।

पुष्पवाहन-रथंतर कल्पांत के एक राजा । इनकी स्त्री का नाम लावयवती था । इनके दस हजार पुत्र थे ।

पुष्पश्रवस्-एक ऋषि । इन्हें लवंग नाम की गोपी का जन्म मिला था ।

पुष्पसेन-भविष्य के अनुसार स्वर्णनाम के पुत्र । इन्होंने दस हजार वर्षों तक राज्य किया ।

पुष्पान्-एक यक्ष ।

पुष्पान्वीप-अंगिराकुलोत्पन्न एक गोत्रकार ।

पुष्पार्ण-भुव के पौत्र । वत्सर और स्वर्वायी के ज्येष्ठ पुत्र ।

पुष्पोदरी-धनारस नगर के राजा तालन की कन्या ।

पुष्य-भागवत तथा वायु के अनुसार हिरण्यनाम के पुत्र । इनके पुत्र ध्रुवसंधि थे ।

पुष्यमित्र-१. कलियुग के एक ब्राह्मीक राजा । इनके पुत्र का नाम हुमित्र था । २. बृहद्रथ के सेनापति ।

पूतकृती-१. पूतकृती की स्त्री । २. एक वैदिक व्यक्ति । सायणाचार्य इनको स्वतंत्र व्यक्ति नहीं मानते हैं । यह संभव है कि अटिथिव, इन्द्रोत्त, अश्वमेघ और ये एक ही व्यक्ति रहे हों । इनके पुत्र का नाम दस्यवेत्तक था ।

पूतदत्त आगिरस्-एक सूक्तद्रष्टा ।

पूतना-अत्रासुर तथा वकासुर की बहन । एक राक्षसी ।

कंस ने इसे कृष्ण का वध करने के लिए गोकुल भेजा था । यह एक सुंदर नारी का रूप धारण कर अपने स्तनों में विष का लेपन करके गई थी और यशोदा की गोद से कृष्ण को लेकर वह अपना स्तन उन्हें पान कराने लगी थी । कृष्ण ने बड़ी लगन के साथ उसके स्तनों का पान आरंभ किया था और उन्हें छोड़ने को ही नहीं उद्यत थे । अंत में झुंझलाकर वह कृष्ण को लेकर भागी । उस समय उसका आकार विराट हो गया । कृष्ण फिर भी उसके स्तनों को चूसने में लगे हुए थे और उस समय तक चूसते रहे जब तक वह मृत होकर धरती पर गिर नहीं पड़ी । कहा जाता है जितनी दूर वह गिरी थी उतनी दूर की भूमि धँस गई थी ।

पूतिमाष-अंगिराकुलोत्पन्न एक ऋषि ।

पूरु-१ ऋग्वेद में जहाँ यह एकवचनांत प्रयुक्त हुआ है वहीं यह व्यक्तिवाचक भी है । यह सुदास के शत्रु थे । गौरवर्ण के थे और जिन लोगों को इन्होंने जीता वे भी गौरवर्ण के थे । वसिष्ठ ने एक ऋचा में ऐसा कहा है कि इंद्र ने युद्ध में सुदासु पौरुकुलि, ऋदस्यु और पुरु की रक्षा की थी । २. अर्जुन का सारथि । ३. भागवत के अनुसार जह्नु के पुत्र । नामांतर अज अथवा अजमीढ है । बलकाश्व इनके पुत्र थे । ४. चन्द्रमनु और नद्वला के ज्येष्ठ पुत्र ।

पूरु आत्रेय-एक सूक्तद्रष्टा ।

पूरुयशस्-पांचाल देश में राज्य करनेवाले भूरियश के पुत्र ।

पूरु-१. कश्यप तथा प्राधा के पुत्रों में से एक । २. वासुकि कुल का एक सर्प जो नागयज्ञ में भस्म हुआ ।

पूरुभद्र-१. कश्यप तथा कद्रू के पुत्र । २. एक यक्ष के पुत्र । हरिकेश नामका इनको एक पुत्र था । स्कंदपुराण में ये हरिभक्त कहे गये हैं । ३. मणिवर तथा देवजनी के पुत्र ।

पूरुभद्र वैमांडकि-इनकी कृपा से राजा चंप को हर्यंग नामक पुत्र उत्पन्न हुआ । हर्यंग के यज्ञ में ये इंद्र का ऐरावत लाये थे ।

पूरुभल-पट्टन के राजा । इन्होंने अपनी विद्वन्माला नाम की कन्या महीराज पुत्र भीम को व्याही थी ।

पूरुभास-एक ब्रह्मर्षि । दे० 'अगस्त्य' । २. कृष्ण और कालिंदी के एक पुत्र । ३. धाता नामक आदित्य और अनुमति के पुत्र । ४. मणिवर तथा देवजनी के पुत्र ।

पूरुमुख-छतराष्ट्र कुलोत्पन्न एक सर्प जो नागयज्ञ में जला था ।

पूरुर्सा-कृष्ण की एक प्रिय सखी ।

पूरुर्शा-कश्यप तथा क्रोधा के पुत्र ।

पूरुर्चार्य-श्री संप्रदाय के प्रवर्तकों में से एक । ये यासुनाचार्य के प्रधान शिष्य और रामानुज के गुरु थे । यासुनाचार्य के पाँच शिष्य प्रसिद्ध हैं-महापूर्ण, मांचीपूर्ण, गोष्ठीपूर्ण, कौलपूर्ण और मालाधर । दे० 'रामानुज' 'यासुनाचार्य' ।

पूरुर्गु-कश्यप तथा प्रधा के पुत्र ।

पूरुर्गमत्-मरीचि ऋषि तथा कर्दम कन्या कला के दो

पुत्रों में से कनिष्ठ । विरग और विरवग नाम के इनके दो पुत्र और देवकन्या नाम की एक कन्या थी ।
 पूर्णिमागतिक-भृगुकुलोत्पन्न एक गोत्रकार ।
 पुरोहितिंग-विष्णु के अनुसार शातकर्णी के पुत्र । भागवत के अनुसार इनका नामांतर पौर्यमास था ।
 पूर्य-कश्यपकुलोत्पन्न एक गोत्रकार ।
 पूर्वचित्ति-१. स्वायंभुव मन्वंतर की एक अप्सरा । यह प्रियव्रत के पुत्र अग्नीध्र राजा की स्त्री थी । २. वैवस्वत मन्वंतर में प्राधा की अप्सरा कन्याओं में से एक ।
 पूर्वपालिन्-पांडवपत्नीय एक राजा ।
 पूर्वा-सोम की सत्ताइस स्त्रियों में एक ।
 पूर्वन्द्र-पूर्व कल्प में पांडव रूप जन्म लेनेवाले पाँच इन्द्र ।
 पूष-एक वैदिक देवता । इनके रथ में बकरे जुते हैं । दंत-हीन होने के कारण ये खीर या पिसी चीज़ें ही खाते हैं । यह एक आदित्य हैं और सारे विश्व को देखते हैं । ये अपनी बहन सूर्या के प्रेमी थे । सूर्या इनकी स्त्री हैं । यह रोगों का नाश करते हैं । आगे चल कर पुराणों में ये आदित्य से मिला दिये गये ।
 पूषमित्र गोमिल-यह अश्वमित्र गोमिल के शिष्य थे । इनके शिष्य सगर थे ।
 पूथ-रौच्य मनु के पुत्र ।
 पूथभाव-रौच्य मन्वंतर में एक देव गण ।
 पूथवान-इनका उल्लेख दुःशमी के साय ऋग्वेद में हुआ है ।
 पूथा-अरसेन यादव से राजा कुंतिभोज ने पृथा नाम की कन्या को गोद लिया था । यही पांडवों की माता कुंती थी । दे० 'कुंती' ।
 पूथु-१. ऋग्वेद में इनका उल्लेख है । पुराणों के अनुसार देवताओं ने राजा वेन की दाईं जंघा का घर्षण करके एक तेजस्वी पुत्र की उत्पत्ति की । यही आगे चलकर चक्र-पती राजा पृथु हुये । प्रजा को धन-धान्य से भरने के लिए इन्होंने गो रूप की पृथ्वी को कई बार दुहा । अन्त में पृथ्वी इनकी पुत्री रूप हो गई । तभी से इसका नाम पृथ्वी हो गया । २. दश सावर्णि मनु के पुत्र । ३. कुकुत्स के पुत्र । ४. पुरुजान के पुत्र । ५. रुचक का पुत्र । ६. अष्टयसुओं में से एक । ७. एक सदाचारी ब्राह्मण । ८. अनेनस् नामक राजा के पुत्र । ९. प्रसार के पुत्र । १०. राज्य पुत्र नामक देश के राजा ।
 पूथुक-कैतव मन्वंतर में देव गण । ये कुल खाठ थे ।
 पूथुकर्म विष्णु के अनुसार शशविदु के पुत्र ।
 पूथुकीर्ति-१. मत्स्य और वायु के अनुसार शशविदु के पुत्र । २. धृतदेव का नामांतर ।
 पूथुमीच-गर नामक राष्ट्र का एक मंत्री ।
 पूथुजय-भागवत के अनुसार महाभोज के पुत्र ।
 पूथुवेजस्-शशविदु के पौत्र ।
 पूथुदास-प्रसिद्ध वैष्णव भक्त । रामानंदी सम्प्रदाय के एक प्रमुख प्रचारक पैठारी जी के २४ प्रधान शिष्यों में से एक ।
 पूथुगाम-पृथुमीय का नामांतर ।

पृथुश्रवस् कानोत-एक वैदिक व्यक्ति । यह घोड़ों के उधार देनेवाले थे । अश्विनीकुमारों की इन पर कृपा थी ।
 पृथुपेण-राजा विभु के पुत्र । इनकी स्त्री का नाम आकृति और पुत्र का नाम नल था ।
 पृथुसेन-भागवत के अनुसार रुचिपश्व के पौत्र और पार राजा के पुत्र ।
 पृथ्वी-भू-मंडल । पुराणों में पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में अनेक कथाएँ हैं । कुछ स्थानों पर इसकी उत्पत्ति नधु-कैटभ के मेद से मानी गई है, और इसी के कहा जाता है उसे मेदिनी संज्ञा भी मिली थी । कुछ अन्य स्थानों पर उसके विराट पुरुष के रोम-रूपों में, एकत्रित होने-वाले मल से उत्पन्न होने की कथा भी मिलती है । पृथ्वी ऐपनाग के फन पर कश्यप की पीठ पर स्थित मानी जाती है । महाराज पृथु द्वारा प्रतिष्ठित होने के कारण इसे पृथ्वी संज्ञा मिली ।
 पृथ्वीराज-उत्तरी भारत का अंतिम प्रसिद्ध राजपूत राजा जो दिल्ली की गद्दी पर था । इसने मुहम्मद गोरी को ६ बार परास्त किया । अंत में राजा जयचंद के पुत्र से मुहम्मद गोरी द्वारा मारा गया । पृथ्वीराज रासो नामक महाकाव्य का नायक यही है । इसका विवाह संयोगिता से हुआ था । इसी कारण जयचंद से इसकी शत्रुता हो गई थी ।
 पृथिन-१. सविता नामक आदित्य की पत्नी । २. मरुतों की माता । इनका एक सूक्त है ।
 पृथिनगर्भ-पृथिन के पुत्र । यह विष्णु के अवतार और त्रेतायुग में उपास्य थे ।
 पृपत्-विष्णु तथा वायु के अनुसार न्योमक के पुत्र । पर भागवत के अनुसार यह जंतु के पुत्र थे । इनके पुत्र द्रुपद थे ।
 पृपदश्व-१ विरूप के पुत्र । इनके पुत्र रथीवर थे । अंगिरा ऋषि की सेवा से ये ब्राह्मण हुये और उनके गोत्र में मंत्र-कार हुये । २. यम की सुभा का एक सन्निध ।
 पृपन्न-१. वैवस्वत मनु और उनकी संज्ञा नामक स्त्री ने उत्पन्न पुत्र । इनके गुरु च्यवन थे । २. मनांतर से सारणि मनु के पुत्र । ३. पांडवपत्नीय एक राजा जो भारतवर्ष में अश्वत्थामा द्वारा मारे गये ।
 पृपन्नकाण्व-एक मंत्रद्रष्टा । इनके द्वारा वायु ने एन्द्र की प्रार्थना की थी ।
 पेरुक-भारद्वाज के आश्रयदाता । इनके द्वारा भागवान को धनप्राप्ति हुई थी ।
 पैज-ज्याम के एक शिष्य ।
 पैजवन-१. सुदास का पैतृक नाम । २. एक बृह । वेद का अधिपति न होने से इन्होंने वैशाखायान में शिल्पा दी थी ।
 पैठय-याज्ञवल्क्य के शिष्य, पर प्रसिद्ध ऋषि । भागवति इनके शिष्य थे । 'पैठयव' नाम से इनका एक शिष्य मत प्रसिद्ध है । सुधित्तिर की मन्ना में से उद्भवित थे ।
 पैठानसि-एक ऋषि और मूनिभार कावर्ष । पाण्डव स्मृति में इनका उल्लेख नहीं है । ये अश्विनी थे ।

चन्द्रिका, मिताक्षरा तथा कई अन्य स्मृतियों में पैठानसि के उद्धरण हैं।

पैल-१. अंगिरा या भृगुकुलोत्पन्न एक गोत्रकार। ये पिलि ऋषि के वंशज हैं। २. कृष्ण द्वैपायन व्यास के शिष्य, वसु ऋषि के पुत्र और पांडवों के राजसूय यज्ञ के होता।

पैलमौलि-कश्यप कुलोत्पन्न एक गोत्रकार।

पैहारी (पयहारी कृष्णदास)-स्वामी रामानंद की गद्दी के अधिकारी, मठाधीश तथा विख्यात वैष्णव आचार्य, स्वामी अनन्तानंद के सात प्रधान शिष्यों में से एक। इनका वास्तविक नाम कृष्णदास था। ये 'दुग्ध' के आधार पर रहते थे, अतएव इनका नाम 'पैहारी' पड़ गया। ये बाल ब्रह्मचारी थे। इन्होंने आजीवन अन्न ग्रहण नहीं किया। गलता (आमेर) को इन्होंने अपनी गद्दी बनाई।

पोतक-कश्यप के पुत्र।

पोष्ट-अमिताभ देवों में से एक।

पौंडरिक-चेमधृत्वन का पैतृक नाम।

पौंड्र-पौंड्रक वासुदेव का नामांतर।

पौंड्रक-एक राक्षस। यह कुंभकर्ण का पौत्र और निकुंभ का पुत्र था।

पौंड्रक मात्स्यक-एक राजा। यह भारतयुद्ध में कौरवों के पक्ष में थे।

पौंड्रक वासुदेव-करुण देश के राजा। इनके पिता का नाम वसुदेव था। चेदि वंश में ये 'पुरुषोत्तम' नाम से प्रसिद्ध थे और शरीर पर श्रीकृष्ण के सारे चिह्न धारण करते थे। कृष्ण ने काशिराज के साथ इनका वध किया था।

पौतक्रत-पूतक्रत के पुत्र। दस्यवेत्क का यह मातृक नाम है।

पौत्र आत्रेय-एक सूक्तद्रष्टा।

पौथायन-भृगुवंशीय एक गोत्रकार।

पौर-रूम तथा रुशम के साथ पौर का ऋग्वेद में उल्लेख हुआ है।

पौरव-१. विश्वामित्र ऋषि के एक पुत्र। २. पुरुकुल के एक बड़े दानवीर राजा। ३. एक महारथी। इनका वध अभिमन्यु ने किया था। ४. पांडवपक्षीय एक राजा, जिनका वध अश्वत्थामा ने किया।

पौरवी-१. युधिष्ठिर की स्त्री। इनके पुत्र देवक थे। २. वसुदेव की स्त्री। भद्रवाह, सुभद्र आदि इनके कई पुत्र थे।

पौरायायन-भृगु कुलोत्पन्न एक गोत्रकार।

पौरुकुत्स-अंगिराकुलोत्पन्न एक मंत्रकार।

पौरुकुत्सा-गाधि की माता। इनको पौरा भी कहते हैं। दे० 'रिगुका'।

पौरुपेय-१. एक राक्षस जो जेठ के महीने में सूर्य के सामने आता है। २. यातुधान का पुत्र।

पौरिमास-१. अगस्त्यकुलोत्पन्न एक गोत्रकार। २. दे० 'पूर्णात्संग'।

पौलस्त्य-दे० 'विश्रवा'।

पौलह-दक्ष सावर्णि मन्वंतर में सप्तर्षियों में से एक।

पौलोम-पुलोमा का पुत्र। अर्जुन ने इसका वध किया। दे० 'निवात कवच'।

पौलोमी-१. शक्र नामक आदित्य की स्त्री। जयंत, ऋषभ तथा मीढुव इसके पुत्र थे। इसकी माता का नाम पुलोमी था। दे० 'शची'। २. दे० 'पुलोमा'।

पौष्करसादि-एक आचार्य। ये एक वैयाकरण थे।

पौष्टी-पुरु की स्त्री।

पौष्यजि-व्यास की साम शिष्य परम्परा में कुकर्मा के शिष्य। याज्ञवल्क्य को इन्होंने योग की शिक्षा दी थी।

पौष्य-१. पूषन के पुत्र। शिव की स्तुति करने पर चंद्र-शेखर नाम का एक पुत्र उत्पन्न हुआ। इनकी राजधानी ब्रह्मावर्त में इपहती के पास करवीर नामक नगरी में थी।

२. पुष्य-पुत्र ध्रुवसंधि का नामांतर।

प्रकाम-काश्मीर के राजा कैकय के कनिष्ठ भ्राता।

प्रकालन-वासुकि कुलोत्पन्न सर्पयज्ञ में जल मरनेवाला एक सर्प।

प्रकाश-तम ऋषि के पुत्र। इनके पुत्र वागींद्र थे।

प्रकाशक-रैवत मनु के पुत्र।

प्रकृति-रैवत मन्वंतर में देवगण।

प्रगाथ काण्व-एक ऋषि और मंत्रद्रष्टा। 'प्रगाथ' नाम के मंत्रविशेष के यह द्रष्टा थे इसलिए यह नाम पड़ा। अनुक्रमणी के अनुसार ये दुर्गह के समकालीन थे।

प्रचंड-१. एक राक्षस वीर। शिव और त्रिपुर के बीच घोर युद्ध के समय यह कार्तिकेय से लड़ा था। २. एक गोप। जाबालि चित्रगंधा गोपी होकर यह प्रकट हुये थे।

प्रचिन्वत्-भागवत् तथा विष्णु के अनुसार प्रथम जनमेजय के पुत्र। नामांतर प्राचिन्वत् है।

प्रचेतस्-१. एक प्रजापति। ब्रह्मा के मानसपुत्र। यह भार्गव कुलोत्पन्न एक मंत्रकार थे। २. एक स्मृतिकार।

३. विभिन्न पुराणों के अनुसार दुर्भन, दुर्गम, अथवा दुर्दम के पुत्र। ४. वरुण का एक नामांतर।

प्रचेतस् अंगिरस्-एक सूक्तद्रष्टा।

प्रचेष्ट-राजपुत्र माधव का अनुचर।

प्रजंघ-१. रावणपक्षीय एक राक्षस जिसे अंगद ने मारा था। २. रामपक्षीय एक दानर। संपति नामक राक्षस ने इसे मारा था।

प्रजन-मत्स्य के अनुसार कुरु राजा के पाँच पुत्रों में से कनिष्ठ।

प्रजय-राष्ट्रपाल के कनिष्ठ पुत्र। गंगातट पर इन्होंने १२ वर्षों तक तप किया। शारदा ने प्रसन्न होकर इन्हें एक नगर दिया। उसी नगर से कान्यकुब्जों की उत्पत्ति हुई।

प्रजा-एक ब्राह्मण। यह पूर्व जन्म में भील थे।

प्रजापति परमेष्ठिन्-एक सूक्तद्रष्टा।

प्रजापति वाच्य-एक सूक्तद्रष्टा।

प्रजापति वैश्वामित्र-एक सूक्तद्रष्टा।

प्रजावत् प्राजापत्य-एक सूक्तद्रष्टा।

प्रज्ञ-अमिताभ देवों में से एक।

प्रज्योति-अमिताभ देवों में से एक।

प्रणित-मरीचिगर्भ देवों में से एक।

प्रतंस-भविष्य के अनुसार अवतंस के पुत्र।

प्रतपन-एक राक्षस जिसे नल नामक दानर वीर ने मारा था।

इनके नौ ग्रंथ हैं। इनके द्वारा रचित दो निघंटु भी बतये जाते हैं। इनके प्रधान ग्रंथ हैं—१. सुभद्रबोध व्याकरण, २. राम व्याकरण, ३. कवि कल्पद्रुम, ४. कवि काम-धेन्वाख्य, ५. त्रिशत्श्लोकी, ६. धातुकोप, ७. शाङ्गधर संहिता, ८. सिद्ध मंत्र प्रकाश, ९. हृदय दीप निघंटु, १०. पदार्थादर्श, ११. सुकाफला, १२. हरिलीला, १३. मुकुट, १४. परम हंस प्रिया और १५. परशुराम प्रताप टीका। नाभा जी ने इन्हें रामानुज परंपरा में रक्खा है जो उचित नहीं जान पड़ता।

ब्रह्मदास—एक प्रसिद्ध वैष्णव भक्त तथा कवि।

ब्रह्मपुराण—एक महापुराण। इसकी श्लोक संख्या दस हजार तथा प्रकृति राजसी कही गई है। इसे ब्रह्मा ने मरीचि को सुनाया था। इसमें सृष्टि रचना, मनु और मन्वंतरो का काल तथा सूर्य और चंद्रवंश का वर्णन है। उड़ीसा के बहुत से मंदिरों का भी इसमें उल्लेख है। इससे प्रतीत होता है कि इसकी रचना १३वीं वि०शती की है। ब्रह्मोत्तर पुराण नामक एक पूरक ग्रंथ की भी रचना हुई जिसमें ३ हजार श्लोक हैं।

ब्रह्मवैवत—एक महापुराण जिसे सावर्णि ने नारद को सुनाया था। इसमें अठारह हजार श्लोक कहे गये हैं। राधा का वर्णन सर्वप्रथम इसी पुराण में मिलता है।

ब्रह्म संप्रदाय—वैष्णवों के चार सम्प्रदायों में से एक मुख्य सम्प्रदाय। मध्वाचार्य जी इस सम्प्रदाय के प्रवर्तक थे। ब्रह्म सम्प्रदाय ने अद्वैत का पूर्ण विरोध किया। इसको द्वैत सम्प्रदाय भी कहते हैं। इसमें जीव और ब्रह्म की एकता के लिये कोई स्थान नहीं है। इस सम्प्रदाय में 'मध्वाचार्य' ब्रह्मा के अवतार माने गये, इसीलिये इसका नाम ब्रह्म सम्प्रदाय पड़ा।

ब्रह्मांड पुराण—एक महापुराण। अष्टादश पुराणों में इसका सातवाँ स्थान है। श्लोक संख्या बारह हजार कही जाती है। प्रसिद्ध अध्यात्म रामायण इसी का एक खंड कहा जाता है।

ब्रह्मा—हिंदू त्रिदेवों में से एक। इनकी उत्पत्ति के संबंध में मनुस्मृति में उल्लेख है कि स्वयंभू भगवान् ने जल की सृष्टि करके उसमें जो वीर्यस्खलित किया था, उससे एक ज्योतिर्मय अंड की उत्पत्ति हुई थी और उसी से ब्रह्मा का प्रादुर्भाव हुआ था। अन्य मत से एकार्णव में शेष की शैया र लक्ष्मी द्वारा सेवित होकर शयन करते हुए विष्णु की नाभि से जो कमल की उत्पत्ति हुई थी, उसी से ब्रह्मा का जन्म हुआ था, यह भी उल्लेख मिलता है। ब्रह्मा चतुर्मुख कहे जाते हैं। इस संबंध में कथा है कि एक बार ब्रह्मा के शरीर से एक सुंदरी कन्या की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा उसे देखते ही उस पर मोहित हो गये। उनकी वासनापूर्ण दृष्टि से अपनी रक्षा करने के लिए वह एक और हो गई। ब्रह्मा फिर उसकी ओर मुख करके उसे देखने लगे। इसी प्रकार वह ब्रह्मा के चारों ओर घूमी और ब्रह्मा उसे देखने को चतुर्मुख हो गये। उन्होंने उस कन्या को, जो आगे चलकर सरस्वती संज्ञा से विभूषित हुई, अपनी अर्द्धांगिनी बना लिया। ब्रह्मा सृष्टि के कर्ता माने जाते हैं। इनके दस मानस पुत्र कहे जाते हैं। मरीचि, अत्रि, अंगिरा,

पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, प्रचेता, वसिष्ठ, भृगु तथा नारद। ब्रह्मा वेदों के प्रकट करनेवाले भी माने जाते हैं। कर्मा-नुसार मनुष्य के शुभाशुभ फल तथा भाग्य का निर्माण भी उन्हीं का कार्य कहा जाता है। हिंदू त्रिदेवों में इस प्रकार इनका प्रथम स्थान है। फिर भी हिंदू समाज इनकी पूजा के प्रति सदा से उदासीन रहा है। इस संबंध में कथा है कि ब्रह्मा ने अपने मानस पुत्र नारद को उत्पन्न करने के बाद उससे सृष्टि की रचना करने के लिए कहा था। नारद ने तपश्चर्या को अधिक उपयुक्त समझ कर उसी को ग्रहण करने की बात कही थी। ब्रह्मा ने इससे क्रोधित होकर नारद को शाप दिया था। नारद भी उस शाप को सुनकर क्रोधित हो गये थे और उन्होंने कहा था कि "आपने पिता होकर मुझे शाप दिया है, यह देखकर मुझे विशेष दुःख होता है। मैं भी आपकी शाप देता हूँ कि आपकी पूजा कभी भी न हो।" ब्रह्मा प्रथम प्रजापति माने जाते हैं।

ब्रह्मानी—ब्रह्मा की स्त्री का नाम। दे० 'सरस्वती'।

ब्रह्मोत्तर पुराण—ब्रह्मपुराण का पूरक। दे० 'ब्रह्मपुराण'।

भक्तभाई—एक प्रसिद्ध कवि, भक्त तथा मत-प्रचारक।

भक्तमाल—भक्ति-रसात्मक एक प्रसिद्ध ग्रंथ। इसके रचयिता नाभादास जी हैं, जो स्वयं एक बड़े भक्त थे। इसमें १०८ छप्पय हैं। प्रत्येक छप्पय में एक भक्त का संक्षिप्त पर आलोचनात्मक वर्णन है। इस ग्रंथ की कई टीकायें भी हो गई हैं। अन्य प्रतियों में १६७ या १६६ छप्पय हैं। इसमें लगभग ८०० भक्तों की नामावली दी है। यद्यपि इसमें यदा-कदा अत्युक्ति भी है किंतु हिंदी-साहित्य में यह प्रथम आलोचनात्मक ग्रंथ है और इसी लिए बहुत महत्त्वपूर्ण है।

भक्तराज (कुल शेखर)—एक बड़े भक्त। एक बार सीताहरण की कथा सुनकर जब ये घोड़े पर चढ़कर कात्पनिक रावण का पीछा करते-करते सागर में कूद पड़े तब राम ने इन्हें बचाया था।

भगदत्त—नरकासुर का पुत्र। श्रीकृष्ण ने नरकासुर को मार कर भगदत्त को प्रागज्योतिष का राजा बनाया था। युधिष्ठिर के अश्वमेध यज्ञ के अवसर पर अर्जुन और भगदत्त से घोर संग्राम हुआ था। अंत में भगदत्त को हार माननी पड़ी। महाभारत-युद्ध में भगदत्त कौरव पक्ष से लड़ा और अर्जुन के हाथ से मारा गया।

भगवंत—एक प्रसिद्ध वैष्णव भक्त। ये विख्यात माधवदास जी के पुत्र थे।

भगवान—मथुरा मंडल के एक प्रसिद्ध भक्त।

भगवानदास—१. ठाकुर भगवानदास राजपूत एक बड़े भक्त थे। प्रतिवर्ष मथुरा जाकर बहुत बड़ा भंडारा करते थे। दान में एक बार इन्होंने सब कुछ स्वाहा कर दिया। कहा जाता है कि एक बार इन्होंने जितना चाहा उतना अन्न वांटा; किंतु वह फिर भी समाप्त न हुआ। यह सब हरि की महिमा का फल था। २. एक प्रसिद्ध वैष्णव भक्त। प्रसिद्ध वैष्णव भक्त खोजी के ये शिष्य थे। कहा जाता है कि एक बार मथुरा में वादशाह ने यह आश

निकाली कि कोई भी कंटी-माला न धारण करे। केवल यही ऐसे निकले जिन्होंने वादशाह की आज्ञा का उल्लंघन किया। वादशाह ने इससे प्रसन्न होकर आज्ञा हटा ली। ३. एक प्रसिद्ध वैष्णव भक्त। ये कौलह जी के शिष्य थे।

भगीरथ-सूर्यवंशी राजा अंशुमान के पौत्र तथा दिलीप के पुत्र। अपने साठ सहस्र पूर्वजों को तारने के विचार से अल्पायु में ही ये तपस्या करने निकल गये। १००० वर्ष तपस्या करने के बाद ब्रह्मा ने प्रसन्न हो वर माँगने को कहा। इन्होंने दो वरदान माँगे—(१) कपिल के शाप से भस्म हमारे पूर्वज गंगा की धार से तर, (२) मेरा वंश चले। ब्रह्मा ने पूछा कि तीव्र धार को कौन सहन करेगा। इस पर भगीरथ ने फिर अपनी तपस्या से शंकर को प्रसन्न किया। शंकर गंगा के गर्व को चूर्ण करने के लिए १००० वर्षों तक उन्हें अपनी जटा में बँध किये रहे, अंत में भगीरथ की प्रार्थना पर उन्हें जटा से निकाला। गंगा तीन धार होकर बहीं। राजा भगीरथ दिव्य रथ में सवार हो आगे-आगे पथ-प्रदर्शन का कार्य कर रहे थे। इसीलिए गंगा का एक नाम 'भगीरथी' भी हुआ।

भट्ट-एक प्रसिद्ध वैष्णव भक्त। भक्तमाल के अनुसार इन्होंने कई वैष्णव ग्रंथ भी लिखे थे।

भद्र-सुभद्र-जय-विजय की भाँति भद्र-सुभद्र भी हरि के चिर सेवकों में गिने जाते हैं। ये सदा मुक्त और अमर हैं।

भरत-१. राम के भाई। ये कैकेयी के पुत्र थे। २. राजा अश्वभदेव के पुत्रों में से सबसे ज्येष्ठ। उनके एक-एक पुत्र नौ-नौ खंडों के स्वामी हुए थे। 'भरतखंड' के स्वामी 'भरत' थे। यही भरतखंड आगे चलकर 'भारतवर्ष' के नाम से प्रसिद्ध हुआ। नाट्य-शास्त्र के रचयिता भरत तथा दुष्यंत के पुत्र भरत अन्य थे। ३. एक ज्ञानी जो ज्ञानी होने पर भी ये बड़े कामी थे। वानप्रस्थ की अवस्था में इन्होंने एक गृह शावक से इतना प्रेम बढ़ाया कि अगले जन्म में इन्हें सृष्टि होकर जन्म लेना पड़ा। कई योनियों में घूमने के बाद मनुष्य योनि में जाने पर उन्हें लोग जड़ भरत कहकर पुकारने लगे। ज्ञानी होने पर भी ये बड़े आलसी और मूर्ख प्रतीत होते थे। लोग इनको भोजन देकर जो चाहते काम करवा लिया करते थे। एक बार राजा सीविर ने इन्हें अपनी पालकी उठाने के लिये पकड़ा। बहुत मार मारने पर भी ये टस से मस न हुये। मारते-मारते राजा भ्रम गये; किंतु ये हिले-टुले नहीं। अंत में राजा को ज्ञान हुआ। उसने इनसे क्षमा माँगी। जड़ भरत ने उन्हें शागोपदेश दिया और स्वयं भी मोक्ष प्राप्त किया। दे० 'जड़ भरत' तथा 'अश्वभदेव'।

भरद्वाज-एक मुनि का नाम। प्रयाग में गंगा-तट पर इसका बहुत बड़ा साध्रम था जहाँ पर बहुत से विद्यार्थी पढ़ने आते थे। संभवतः भारतवर्ष में यह पहला विश्व-विद्यालय था। राम सीता और लक्ष्मण वनवास के समय इनके यहाँ रुके थे। भक्तमाल के अनुसार ये प्रसिद्ध वैदिक ऋषि और गृहस्पति के पुत्र तथा कौरवों-पांडवों के गुरु द्रोणाचार्य के पिता थे। हरिवंश आदि अनेक पुराणों के

अनुसार ये राजा भरत के दत्तक पुत्र थे। ये दो पितरों से उत्पन्न थे।

भवानी-‘भव’ शिव का एक पर्याय है। उसी में चानी प्रत्यय लगा कर यह शब्द बना है। भवानी पार्वती का एक पर्याय है। सर्वप्रथम दत्त प्रजापति के गृह में सती के रूप में इनका जन्म हुआ था। इन्होंने अपने माता-पिता की अनिच्छा से कठोर तपस्या करके शिव को अपने स्वामी के रूप में प्राप्त किया था। दत्त ने एक बार अपने बर्षा यज्ञ का आयोजन किया और इन्हें नियंत्रण स्वामी की नी जानकर निमंत्रित नहीं किया। फिर भी वह यज्ञ में उपस्थित हुईं, किंतु वहाँ अपने पिता के मुख से अपने स्वामी की निंदा सुनकर इन्होंने यज्ञ-कुंड में प्रवेश कर अपना शरीर त्याग दिया था। इसके बाद पर्वतगज हिमालय के यहाँ उसकी स्त्री मेना अथवा मेनका के गर्भ से इनकी उत्पत्ति हुई थी। पर्वतराज की कन्या होने के कारण इस जन्म में इनका नामकरण पार्वती हुआ। योग्य वय होने पर अपनी कठोर तपस्या के द्वारा इन्होंने फिर महादेव जी को अपने स्वामी के रूप में प्राप्त किया। भागवत 'दशम स्कंध', द्वितीय अध्याय, में इन्हें योग-माया कहा गया है।

भविष्य पुराण-एक महापुराण जिसमें भविष्यत काल की कथाओं का वर्णन किया गया है। इसमें ७००० श्लोक माने गये हैं। इसकी प्रकृति राजनीति है। 'पंच-लक्षणों' के अनुसार इसे पुराण नहीं कह सकते हैं। 'भविष्योत्तर पुराण' नामक ग्रंथ की रचना इसके पूरक के रूप में की गई है, जिसमें ७००० श्लोक हैं।

भविष्योत्तर पुराण-दे० 'भविष्य पुराण'।

भागवत-प्रसिद्ध वैष्णव पुराण। हिंदू वैष्णव पुराणों का सबसे अधिक लोकप्रिय और प्रासादिक ग्रंथ है। कहा जाता है कि सर्वप्रथम विष्णु ने 'चार श्लोक' (चतुःश्लोकी भागवत) ब्रह्मा को सुनाया। पश्चात् ब्रह्मा ने नारद को, नारद ने व्यास को और व्यास ने शुक्रदेव को और शुक्रदेव ने मानुष्य जन्म में राजा पराशर को सुनाया। हिंदुओं में इसीलिए 'भागवत सहाह' का बड़ा महत्व है। इन पुराण में रामायण और महाभारत में वर्णित भगवान के दश अवतारों विशेषतः राम और कृष्ण की कथा है। उसमें कृष्ण की कथा ही सर्व-प्रधान है। इस एक ही पुस्तक ने ग्यारह वैष्णव धर्म को सबसे अधिक प्रभावित किया और इसके रचयिता तथा रचना-तिथि के विषय में विद्वानों में मतभेद है। हिंदी के भक्त कवि इस पुराण में अपने अनेक प्रभावित हैं। मूरनागर इसका भावानुवाद कहा जाता है। नंदराज ने भी भागवत का अनुवाद किया था।

भावन-एक प्रसिद्ध वैष्णव भक्त। ये प्रभुभूमि के निवासी थे। भावानंद-रामानंदी संप्रदाय के एक प्रसिद्ध वैष्णव साधारण। भक्तमाल के अनुसार ये रामानंद स्वयं के श्यतार थे।

भीष्म-गंगा के गर्भ में उत्पन्न महाराज मानवु के अष्ट पुत्र। अष्ट वनुओं में पाँचवें वनु के थे महाराज थे। भीष्म की प्रार्थना से गंगा ने इन्हें पूजा पर हीन किया। इन्होंने

नाम पहिले गांगेय या देवव्रत था। भीष्म नाम एक भीष्म प्रतिज्ञा के कारण पड़ा था। इनके पिता ने सत्यवती नामक स्त्री से व्याह करने की इच्छा प्रकट की। वह शूद्रा थी। उसने इस शर्त पर विवाह करना स्वीकार किया कि उसके गर्भ से उत्पन्न पुत्र राज्याधिकारी हो। पिता को प्रसन्न करने के लिये भीष्म ने आजन्म ब्रह्मचर्य व्रत का प्रण किया और उसे सदैव निभाया। सत्यवती के दो पुत्रों, विचित्रवीर्य और चित्रांगद, के विवाह के लिये काशिराज की दो कन्याओं का इन्होंने हरण किया। सब से ज्येष्ठ अम्बा ने इन्हीं के साथ विवाह करने का आग्रह किया; किन्तु अपनी प्रतिज्ञा के कारण इन्होंने उसे अस्वीकार कर दिया। अम्बा ने इसका बदला लेने के लिये घोर तपस्या की और महाभारत काल में शिखंडी होकर जन्म लिया। शिखंडी को भीष्म जानते थे। अतएव उस पर उन्होंने वाया प्रहार नहीं किया। शिखंडी के पीछे से अर्जुन ने अपने बाणों की वर्षा करके भीष्म को धराशायी किया। महाभारत के युद्ध में प्रारम्भिक दस दिनों तक भीष्म ने कौरव सेना का सेना पतित्व किया। ब्रह्मचारी होने के कारण मृत्यु विना इच्छा के इन्हें नहीं ले जा सकती थी। धराशायी होते समय श्मषट्ठी नहीं थी, अतएव बहुत दिनों तक ये बाणों की शय्या पर सोते रहे। उस काल में पांडवों को इन्होंने उपदेश दिया जो महाभारत के शांति पर्व में उल्लिखित है। भीष्म हिंदू जाति-मात्र के पितामह माने गये हैं। दे० 'शांतनु' तथा 'गंगा'।

भीष्म भट्ट—प्रसिद्ध वैष्णव भक्त तथा कथावाचक।

भुसुंडि—एक ज्ञानी काक जो राम का बड़ा भक्त था।

भूगर्भ (गुसाई)—एक प्रसिद्ध वैष्णव भक्त। वृन्दावन निवासी वैष्णव भक्तों में ये विख्यात भक्त थे।

भूरिश्रवा—महाभारत के एक प्रसिद्ध वीर। ये राजा सोमदत्त के पुत्र थे। महाभारत-युद्ध में ये कौरवों की ओर से लड़े थे। युद्ध में अर्जुन ने इनके दोनों हाथ काट डाले और सात्यकी ने इनका वध किया। कहा जाता है कि काशी के पास भुइती नामक गाँव में इनकी राजधानी थी। वहाँ पर हनुमान जी की एक विशाल मूर्ति है। लोगों की धारणा है कि भूरिश्रवा ने ही यह मूर्ति स्थापित की थी।

भृगु—एक ऋषि। ये शिव के पुत्र माने गये हैं। इनके साथ ही ब्रह्मा के कवि और अग्नि के अंगिरा माने गये हैं। एक बार यह निर्णय करने के लिये कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों में कौन बड़ा है—इन्होंने तीनों का अपमान किया। ब्रह्मा और महेश क्रुद्ध हो गये। फिर चिरशायी विष्णु के सोते समय जाकर उनकी छाती पर इन्होंने एक लात मारी, किन्तु जागने पर क्रोध करने के बजाय विष्णु ने पूछा कि आपके पैर में चोट तो नहीं लगी। इस पर भृगु विष्णु की महानता मान गये। भृगु के कुल में ही ऋचीक, जमदग्नि तथा परशुराम हुये। दे० 'जमदग्नि' तथा 'राम'। अन्य पुराणों के अनुसार भृगु ब्रह्मा के मानसपुत्र तथा दत्त प्रजापतियों में से एक हैं दत्त कन्या द्याति इनकी स्त्री थीं। भृगु धनुर्वेद के विद्या

प्रवर्तक थे। भृगु ने एक बार शिव को भी शाप दिया था। नंदी ने इन्हें भीतर जाने से मना कर दिया था, क्योंकि शिव पार्वती के साथ संभोग में रत थे। इनके शाप से ही कलियुग में लिंग और योनि के रूप में शिव की पूजा होती है और इनका प्रसाद द्विजातियों को ब्राह्म नहीं है। **भोगावति**—१. सर्पों की एक पाताल नगरी। २. गंगा की वह धारा जो पाताल में बहती है।

भोज—१. एक प्रसिद्ध ब्रजवासी गोप, श्रीकृष्ण के वास्य-बंधु, अतः हरिभक्तों के परम पूज्य। २. इस नाम के कई राजे अत्यंत प्रसिद्ध हो गये हैं। जिनमें धार के राजा भोज अधिक प्रसिद्ध हैं। ये साहित्य और ललित कला के संरक्षक थे। ३. एक यदुवंशी राजा जिनकी राजधानी 'भूतकवती' नगरी थी जो मालवा के पास है। ४. विंध्य प्रांत में रहनेवाली एक जंगली जाति का नाम।

भौमासुर—एक असुर। यह नरकासुर नाम से भी विख्यात है। पुराणों में इसकी उत्पत्ति के संबंध में कथा मिलती है कि वराह अवतार के समय विष्णु ने एक बार पृथ्वी के साथ संभोग किया था, उसी से यह पृथ्वी के गर्भ में आ गया था। देवताओं को जब एक उग्र तथा उद्वेग असुर के पृथ्वी के गर्भ में अवस्थित होने की बात ज्ञात हुई थी तो इन्होंने इसकी उत्पत्ति को ही रुद्ध कर दिया। यह ज्ञात होने पर पृथ्वी ने विष्णु का आवाहन किया था और उनसे इसकी उत्पत्ति की प्रार्थना की थी। विष्णु ने वरदान दिया था कि त्रेता युग में रावण के निधन के बाद इसकी उत्पत्ति होगी। इस वरदान के फलस्वरूप रामचंद्र द्वारा रावण के वध के बाद पृथ्वी के उसी स्थान से जहाँ सीता का जन्म हुआ था इसकी उत्पत्ति हुई थी। सोलह वर्ष तक यह जनक के द्वारा ही पोषित हुआ था। उसके बाद पृथ्वी आकर इसे अपने साथ ले गई थी। इसको अपना संबंध बताने के लिये उसने इसके गर्भाधान तथा जन्म की कथा सुनाई तथा विष्णु का स्मरण किया था। विष्णु प्रकट हुये और उन्होंने नरक को ले जाकर प्रागज्योतिषपुर में प्रतिष्ठित किया। उसी समय त्रिदभराज की कन्या माया से इसका विवाह भी हो गया। चलते समय विष्णु ने इसे उपदेश दिया था कि तुम ब्राह्मणों तथा देवताओं के साथ किसी प्रकार का विरोध न करना। इन्होंने उसे एक दुर्भेद्य रथ भी दिया था। अपने पिता की आज्ञा का पालन करते हुये उसने कुछ समय तक उचित रीति से राज्य-संचालन किया, किन्तु वाणासुर का साथ होते ही इसमें राक्षसी भावनाओं का उदय प्रारम्भ हुआ। कामाख्या देवी के दर्शनों के लिये आये हुये ऋषि वसिष्ठ को इसने नगर के भीतर भी प्रवेश न करने दिया। उसके इस कृत्य को देखकर वसिष्ठ ने शाप दिया कि, "शीघ्र ही अपने पिता के ही हाथों से तुम्हारी मृत्यु होगी।" इसी शाप के फलस्वरूप कालांतर में कृष्ण ने प्रागज्योतिषपुर पर आक्रमण करके इसका वध किया था। इसके पुत्रों के नाम भगदत्त, मदवानु, महाशीर्ष तथा सुमाती मिलते हैं। कहा जाता है कि इसकी पराजित कर कृष्ण इसके भांडागार से जितना धन ले गये थे, उतना कुबेर के कोप में भी नहीं था।

मंगल-एक ग्रह। यह पुरुष, क्षत्रिय, भरद्वाज ऋषि का पुत्र, सामवेदी, चतुर्भुज, अपनी सभी भुजाओं में शक्ति रखने वाला, अभय, गदा का धारण करनेवाला, पित्त-प्रकृति, युवा, क्रूर, वनचारी, गेरु आदि धातुओं तथा लाल रंग के समस्त पदार्थों का स्वामी, कुट्ट अंग-हान तथा अवंति देश का अधिपति कहा गया है। कार्तिकेय इसके अधिष्ठाता देवता हैं। इसके जन्म के संबंध में विभिन्न कथाएँ मिलती हैं। ब्रह्मवैवर्तपुराण में उल्लेख है कि एक बार पृथ्वी विष्णु के ऊपर आसक्त होकर एक युवती का वेश धारण कर उनके सम्मुख आई थी। विष्णु ने स्वयं अपने हाथों से उसका शृंगार किया था। अपने प्रियतम द्वारा इस प्रकार सम्मानित हो भाव-मग्न होकर वह मूर्च्छित हो गई थी। उसी अवस्था में विष्णु ने उसके साथ संभोग किया था; जिससे कालांतर में मंगल की उत्पत्ति हुई थी। पद्मपुराण में विष्णु के श्रम-विदुओं से मंगल की उत्पत्ति कही गई है। मत्स्यपुराण के आधार पर कहा जाता है कि दत्त के नाश के लिए महादेव ने जिस घोरभद्र को उत्पन्न किया था, वही आगे चलकर मंगल हुआ। इसी प्रकार भिन्न भिन्न पुराणों में इसके जन्म के संबंध में विभिन्न कथाएँ मिलती हैं।

मथुरा-१. राजा दशरथ की रानी कैकेयी की दासी। इसी के कहने से कैकेयी ने दो वरदान माँगे थे—१. भरत को राज्य, २. राम को चौदह वर्ष का वनवास। पूर्व जन्म में यह दुंदुभि नामक एक गंधर्वी थी। २. विरोचन दैत्य की कन्या। बहुत अत्याचार करने पर इन्द्र ने इसका बध किया।

मंदाकिनी-दे० 'गंगा'।

मंदालसा-राजा रतिध्वज की स्त्री। सती तथा हरिभक्ति-परायणा। एकपत्नीमती से ही विवाह करने की इन्होंने प्रतिज्ञा की थी। रतिध्वज ऐसे ही थे। इनके ६ पुत्र ११ वर्ष में विरक्त हो गये। सप्तम पुत्र शलक (सुबाहु) को राजा ने राज्य के लिये रख लिया। अंत में राजा घोर पुत्र स्वयं विरक्त हो गये।

मंदोदरी-१. पद्म कन्याओं में से एक। इसका पिता मयानुर तथा माता शम्भरा रंभा थी। यह रावण की रानी तथा इंद्रजीत की माँ थी। २. सिंहलद्वीप के राजा चंद्रसेन तथा रानी गुणवती की कन्या का नाम।

मकरंद-श्रीकृष्ण के प्रिय सखाओं में से एक।

मया-एक नक्षत्र जो श्रावण के अंत में पड़ता है।

मच्छ-भगवान विष्णु का प्रथम अवतार। प्रलय काल उपस्थित होने पर जब प्रयत्नक जलमग्न हुआ तब महा समुद्र में सोये हुये ब्रह्मा के मुँह से चार वेदों की उत्पत्ति हुई। उन्हें हयग्रीव ने चुना लिया। इन्हीं के उद्धार के लिये विष्णु ने मत्स्य रूप में अवतार लिया। भागवत में इसकी विस्तृत कथा दी हुई है। कहा जाता है कि महाभाग्य के रूप में भगवान ने राजा मत्स्यवत को यताया था कि आज के सातवें दिन प्रलय होगा। उस समय महाभाग्य विरय जल मग्न होगा पर मुन्हारे उद्धार के लिये एक तिराट नौका बनाकेगा। उसमें नवस्त जीवियों, मात्स्यों तथा मत्स्रियों सहित गुप्त चढ़ जाना। नदा सर्व

की रज्जु बनाकर मेरी सींग से उसे बाँध देना। ब्रह्मा की रात्रि जय तक न व्यतीत होगी तब तक मैं उस नाव की रक्षा करूँगा। ऐसा ही सातवें दिन हुआ। मत्स्य ने हिमालय पर्वत की चोटी पर उस तिराट नाव को बाँधा था। आज भी हिमालय की एक चोटी नौकाबंधन चोटी के नाम से प्रसिद्ध है। सत्यव्रत ही आगे चलकर वैवस्वत मनु कहलाये। वास्तव में 'मत्स्य' की कथा से सृष्टि के आदि विकास पर प्रकाश पड़ता है। विज्ञान के अनुसार भी सृष्टि का प्रथम जीव एक प्रकार का मत्स्य ही है।

मथुरा-पुराणों में उल्लिखित सप्त पुरियों में से एक। यह वन-भूमि में यमुना के दक्षिण तट पर अवस्थित है। वाल्मीकीय रामायण के उत्तर कांड में दी हुई एक कथा के अनुसार इसे मधु नामक एक दैत्य ने बसाया था और उसके पुत्र वाणासुर को पराजित कर शत्रु ने उसे विजित किया था। महाभारत के समय यहाँ यदुवंशी राजाओं का राज्य था। इसी यदुवंश की एक शाखा में कंस तथा दूसरी शाखा में कृष्ण का जन्म हुआ था।

मदन-कामदेव का एक पर्याय। दे० 'कामदेव'।

मधु-१. श्रीकृष्ण के एक प्रिय सखा। २. कैटभ नामक दैत्य का भाई। यह श्रीकृष्ण के द्वारा मारा गया। मथुरा या मधुपुरी इसी ने बसाई थी। ३. एक दैत्य जिसका बध शत्रुघ्न ने किया था।

मधुकरशाह-एक प्रसिद्ध राजवंशीय वैष्णव भक्त। ये श्रोत्रे के अघोरवर थे।

मधुगोसाई-चैतन्य की शिष्य मंडली के एक प्रसिद्ध भक्त। कहा जाता है कि कुंदावन जाकर इन्होंने कृष्ण का साक्षात् दर्शन किया।

मधुपुरी-मथुरा का प्राचीन नाम। मधु दानव द्वारा बसाए जाने के कारण उसका यह नामकरण हुआ था। दे० 'मथुरा'।

मधुसूदन सरस्वती-एक प्रसिद्ध वैष्णव भक्त तथा संन्यासी। 'भक्ति रसायन' ग्रंथ इन्हीं का रचा हुआ है। कहा जाता है कि गोस्वामी तुलसीदास ने इनकी भेंट हुई थी।

मध्वाचार्य-चार प्रसिद्ध वैष्णव संप्रदायों में से महा संप्रदाय के प्रचारक। उनका आविर्भाव ११६६ ई० में दक्षिण प्रांत में तुमन्य नामक गाँव में हुआ था। इनके पिता का नाम मर्धाजी था। २ वर्ष की अवस्था में इन्होंने संन्यास ले लिया था। इनके गुरु स्वस्तुतप्रोष कह जाते हैं। कहा जाता है कि इन्होंने ३० जंगों की रचना की जिनमें एकभाष्य, सूत्रभाष्य, गीताभाष्य, भागवत तात्पर्य, कृष्ण नामामृत तथा श्लोपनिषदभाष्य मुख्य हैं। ये प्रसिद्ध हैतवादी थे।

मनुसृष्टि-मनु का प्रसिद्ध ग्रंथ। गंगोत्री विषया के प्रतीत होता है कि यह ग्रंथ सिंधु पूज्यपति की धर्मग्रंथ रचना न होकर विभिन्न देवताओं की कथाओं का संग्रह है। प्रायः इसमें २६२२ श्लोक हैं। इनमें भी बहुत से प्रसिद्ध हैं। कई पादशाख भागलों में इसका अनुवाद ही पुरा है।

मयंद-राम सेना के सेनापतियों में से एक।

मय-एक महाकामी दानव । शिल्पकला तथा हर्षनिर्माण में यह अत्यंत कुशल था । रावण का स्वसुर तथा मंदोदरी का पिता यही था । इसके दो पुत्र थे-मायावी तथा दुन्दुभि । दे० 'त्रिपुर' ।

मयन-दे० 'काम' ।

महरि-नंद की स्त्री यशोदा का एक उपनाम । दे० 'यशोदा' ।

महादेव-दे० 'शिव' ।

महावीर-दे० 'हनुमान' ।

महि-दे० 'पृथ्वी' ।

महिरावण-दे० 'अहिरावण' ।

मांडव्य-प्रसिद्ध भक्त मुनि । बाल्यावस्था में एक पतिंगे के शरीर में काँटा छुभो देने के कारण इन्हें यम ने सूली दे दी पर सूली टूट गई । इन्होंने यम को शाप दिया कि वह शूद्र योनि में जन्म ले । यम के ही अवतार विदुर हैं । दे० 'विदुर' ।

मांधाता-प्रसिद्ध सूर्यवंशी राजा युवनाश्व के पुत्र । कोई पुत्र न होने से युवनाश्व से ऋषियों ने यज्ञ करवाया । मंत्र का रक्खा हुआ जल धोखे से युवनाश्व ही पी गये और उन्हीं को गर्भ रह गया अन्त में उनका पेट चीर कर पुत्र निकाला गया । प्रश्न यह हुआ कि कैसे उसका पालन हो । उसी समय इंद्र उपस्थित हुये और उन्होंने कहा कि यह मेरी श्वंशुली पीवेगा । बालक एक ही दिन में बड़ा हो गया । मान्धाता का विवाह शशिविंदु की कन्या विंदुमती से हुआ जिनसे इन्हें २० कन्यायें और पुस्कूल, अंबरीष तथा मुचुकुंद नामक पुत्र हुये । मान्धाता परम ऐश्वर्यशाली चक्रवर्ती राजा हुये ।

मातंगी-दे० 'उग्रतारा' ।

मातलि-इंद्र के सारथी का नाम । इंद्र के पुष्पक विमान के ये चालक थे ।

माधवदास-एक प्रसिद्ध वैष्णव भक्त । इस नाम के ११ भक्तों का उल्लेख नामा जी ने किया है ।

मानदास-एक प्रसिद्ध वैष्णव भक्त । रामायण और हनुमत्काव्य का इन्होंने भाषांतर किया ।

मार-दे० 'काम' ।

मारीच-एक मायावी राक्षस का नाम । यह रावण का मामा था । रावण के अनुग्रह से यह स्वर्णमृग बना था । राम के हाथ से मारा जाकर मोक्ष को प्राप्त हुआ । यह ताड़का नामक राक्षसी का पुत्र और सुबाहु का भाई था ।

मार्कंडेय-प्रसिद्ध ऋषि । मार्कंडेय पुराण के प्रणेता । अपनी तपस्या और दीर्घायु के लिये ये प्रसिद्ध हैं । इनका एक नाम 'दीर्घायु' भी है ।

मार्कंडेय पुराण-एक पुराण जो कुछ मार्कंडेय द्वारा और कुछ ज्ञानी पंडितों द्वारा रचा गया है । इसकी कहानियाँ सभी कपोल कल्पित हैं; किंतु भागवत को छोड़कर अन्य पुराणों से श्रेष्ठतर हैं । इसका रचना काल १३वीं या १०वीं सदी है । इसकी श्लोक संख्या १२००० कही जाती है । प्रकृति राजसी है ।

मित्रावरुण-वेदों में मित्र और वरुण दोनों शब्द एक

साथ आये हैं । मित्र दिन और वरुण रात्रि के स्वामी हैं । मित्र अदिति के पुत्र हैं । दे० 'सूर्य' तथा 'आदित्य' । मिथिलेश (निमि)-हृषवाकु के पुत्र तथा मिथिलावंश के आदि पुरुष । वसिष्ठ के शाप से ये शरीरहीन हो गये थे । देवताओं ने इन्हें इनका शरीर देना चाहा लेकिन इन्होंने नहीं लिया । अन्त में इनका प्राण सव की दृष्टि में रख दिया गया । संभवतः पलक मारने में जो समय लगता है उसे 'निमिष' इसीलिये कहते हैं । निमि के पुत्र मिथि थे जिन्होंने मिथिला बनाई । ये निमि सीता के पिता जनक के पितामह थे । दे० 'कुशध्वज' ।

मीराबाई-हिंदी साहित्य की एक प्रधान हरिभक्ति परायण कवियत्री । इनका जन्म मेढते के चौकड़ी नामक गाँव में सं० १२०४ में माना जाता है । इनके पिता रतनसिंह राव दूदाजी के कनिष्ठ पुत्र थे । जोधपुर के संस्थापक राव जोधा जी रानरै चतुर्थ के पुत्र थे । शैशवावस्था में ही माता की मृत्यु हो जाने पर राव दूदाजी ने मीरा का पालन-पोषण किया । वे बड़े भक्त और उदारचेता थे । मीरा का ध्यान भी उधर ही गया । मीरा को संगीत की भी शिक्षा उन्होंने दी थी । पर वे मीरा को ११ वर्ष की अवस्था में ही छोड़कर चले गये । सं० १२७२ में मीरा का विवाह चित्तौड़ के राजा भोजराज से हुआ । किंतु कुछ दिन बाद ही वे वीरगति को प्राप्त हुये । विवाहित जीवन अन्ध था । राजा ने शैव होने पर भी मीरा की वैष्णवी उपासना की सभी सुविधायें एकत्र कर दी थीं पर इनके उत्तराधिकारी विक्रमाजीत ने विरोध प्रारम्भ किया । मंदिर में जाना, हरिभक्तों से मिलना आदि सब पर प्रतिबंध लगा दिया गया । जब मीरा ने एक न सुनी तो उनकी हत्या के अनेक उपाय किये गये-यथा पिटारी में सर्प भेजना तथा विष देना आदि; किंतु मीरा सबसे बचती गई । मीरा के ननिहाल में भी विपत्ति आ गई और इन्हें अपनी ससुराल भी छोड़नी पड़ी । तब उन्होंने वृन्दावन, द्वारका आदि स्थानों की तीर्थयात्रा की । कहा जात है कि रैदास इनके गुरु थे; किंतु इसमें संदेह है । मीरा से तुलसी का पत्र व्यवहार भी एक झूठी धारणा है । मीरा की भक्ति पति रूप की थी । उसे वैष्णव भक्ति ही कहेंगे यद्यपि उस पर निर्गुण संतों का भी प्रभाव है । निम्नलिखित ग्रंथ मीरा कृत बतये जाते हैं । (१) नरसीजी का मायरा, (२) गीत गोविंद की टीका और (३) राग गोविंद । मीरा की भाषा राजस्थानी मिश्रित ब्रज है । मीरा हिंदी साहित्य की अमर कवियत्री हैं ।

मुचुकुंद-अयोध्या के प्राचीन राजा । देवासुर-संग्राम में इन्होंने देवों की बड़ी सहायता की थी । फिर क्रांत हो बहुत दिनों तक पर्वत की एक कंदरा में विश्राम करते रहे । एक बार कालयवन से भागते-भागते कृष्ण ने उसी गुफा में आकर अपना पीताम्बर मुचुकुंद को श्रोत्रा दिया । कालयवन मुचुकुंद की और झपटा और इनके नेत्र खोलते ही भस्म हो गया । संभवतः कालयवन को यह वरदान था कि वह किसी यदुवंशी से न मारा जायगा । कहा जाता है कि गीतगोविंद के रचयिता जयदेव इन्हीं के अवतार हैं ।

सुर-एक राजस, जिसे मार कर भगवान ने सुरारि की उपाधि धारण की।

मुष्टिक-कंस का एक असुर मल्ल जिसे श्रीकृष्ण ने कंस के धनुष यज्ञ के अवसर पर मल्लयुद्ध में मारा था।

मूढ-महादेव का एक पर्याय। दे० 'महादेव'।

मरु-पुराणों में उल्लिखित एक पर्वत, जो स्वर्ण का माना जाता है। देवासुर ने समुद्र-मंथन के समय इसी को मयानी बनाया था। इसे अधिकतर सुमेरु कहते हैं।

मैत्रेय-दे० 'विदुर'।

मौरध्वज-एक प्रसिद्ध दानवीर राजा। इनके पुत्र का नाम ताम्रध्वज था। अर्जुन की भक्ति का गर्व हरण करने के लिये कृष्ण ने इनकी परीक्षा ली थी। ये और इनकी पत्नी ब्राह्मण वेपथारी कृष्ण को अपने लड़के का आधा अंग देने पर राजी हो गये, और दोनों ने मिलकर आरे से पुत्र की चोरी। दायीं अंग ब्राह्मण वेपथारी कृष्ण ने सिंह वेपथारी अर्जुन को दे दिया। राजा के बायें नेत्र से कुछ आंसू की बूँदें टपक पड़ीं। कृष्ण से पूछे जाने पर राजा ने कहा कि मुझे बायें अंग का दुःख है कि वह किसी भी काम नहीं आया। इस पर प्रसन्न होकर कृष्ण साक्षात् रूप से प्रकट हो गये।

मोहिनी-१. शुभ तथा निशुभ नामक दो राक्षसों के वध के लिये विष्णु ने मोहिनी रूप में अवतार लिया। दोनों स्त्री को देखकर मोहित हो गये और उसको प्राप्त करने के लिये आपस में लड़ मरे। २. विष्णु का समुद्र-मंथन के समय एक अवतार। इसी रूप से भगवान ने अमृत देवों को तथा और सुरा असुरों को पिलाई थी।

यदु-ययाति के पुत्र। पिता ने इनसे यौवन मांगा लेकिन इन्होंने देने से इनकार कर दिया। पिता ने शाप दिया कि तुम्हारे वंशजों को राज्य सुख नहीं मिलेगा। इसी यदुवंश में बाद में श्रीकृष्ण का जन्म हुआ।

यदुनन्दन-मथुरा मंडल के एक प्रसिद्ध भक्त। ये वैष्णव भक्ति के प्रसिद्ध प्रचारक थे।

यदुनाथ (गोस्वामी)-प्रसिद्ध गद्दीधारी वैष्णव आचार्य तथा पुष्टि मार्ग के प्रचारक। ये श्री बल्लभाचार्य के पौत्र तथा गोस्वामी विट्ठलनाथ जी के पुत्र थे।

यम-शुक्र के देवता। दक्षिण दिशा के दिग्पाल। इनका वाहन महिष है। ये सूर्य के पुत्र हैं।

यमदग्नि-शुक्र और सत्यवती के पुत्र। इनके पाँच पुत्र थे। सप्तमे कनिष्ठ पत्न्युरान थे। इनकी पत्नी का नाम रेवती था। दे० 'परशुराम'।

यमुनाबाई-एक प्रसिद्ध हरिभक्ति परायण महिला।

ययाति-प्रसिद्ध राजा नहुष के पुत्र। इनकी स्त्री का नाम देवयानी था। इनकी एक दूसरी पत्नी का नाम नर्मिष्ठा था। देवयानी से यदु वंश नर्मिष्ठा से पुरु का जन्म हुआ। इसी से साक्षर वंश और पुरु वंशों का वंश पड़ा। ययाति सप्ते पितृनी थे और नर्मिष्ठा से विशेष अनु-रूप थे। कुरु वंश से इन्होंने पुरु से वंश प्राप्त किया।

१००० वर्षों तक विष्णु भोग के बाद विनाश किया।

पालन इन्होंने ही किया। इनकी कथा भिन्न-भिन्न पुराणों में भिन्न रूप से दी गई है। भागवत के अनुसार ये शिव-पत्नी सती थीं। दत्त यज्ञ में प्राण त्यागकर द्वापर में यशोदा हुईं। ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार ये पूर्व जन्म में वरुध्रेष्ठ द्रोण की पत्नी धरा थे। जिस समय देवकी से कृष्ण जन्मे उसी समय यशोदा से एक कन्या। वसुदेव कन्या ले गये और कृष्ण को देवकी की गोद में सुला आए।

याज्ञवल्क्य-शुक्र यज्ञवेद, शतपथ ब्राह्मण, बृहदारण्यक उपनिषद् तथा याज्ञवल्क्य स्मृति के प्रणेता। कात्यायन के बाद मनु (मनुस्मृतिकार) के पहिले इनका समय पड़ता है। महाभारत के अनुसार ये युधिष्ठिर की समा में थे। मैत्रेयी और कात्यायन नाम की इनकी दो स्त्रियाँ थीं। इनका दूसरा नाम वाजसनेय था।

याज्ञवल्क्य स्मृति-मनुस्मृति के बाद धर्मशास्त्र ग्रंथों में इसी का स्थान है। 'मिताचरा' नाम की इसकी टीका अति प्रसिद्ध है, जिसका अनुवाद अन्य कई भाषाओं में हुआ है।

यामुनाचार्य-रामानुज के दीक्षानुरूप पूर्णाचार्य के गुरु। ये महान् विद्वान् और श्रीरंग के भक्त थे। गीता के एक-एक श्लोक का इन्होंने सारांश लिखा था।

युधिष्ठिर-पांडु के ज्येष्ठ क्षेत्रज पुत्र। माता कुंती ने धर्म से इन्हें प्राप्त किया। पांडवों में सबसे बड़े भाई यही थे। अपनी सत्यता के कारण ये धर्मराज के नाम से विदित थे। दे० 'अर्जुन', 'कुंती', 'कृष्ण' तथा 'पांडु'।

रंगाराम-एक प्रसिद्ध वैष्णव भक्त तथा पैदारी जी के शिष्य।

रंतिदेव-एक धार्मिक चन्द्रवंशी राजा। एक बार ४८ उप-वास करने पर भी इन्होंने भूतों को अपना भोजन दे दिया। इससे प्रसन्न हो भगवान् ने इन्हें दर्शन दिया। भगवान् से इन्होंने यही चरदान मांगा कि मैं जीवों का दुःख भोगूँ और सब लोग सुखी हों। प्रभु इनकी सपरिवार अपने विमान पर ले गये।

रंभा-एक छप्तरा। इनकी उत्पत्ति देवासुर के समुद्र-मंथन से मानी जाती है और सौंदर्य के एक प्रतीक के रूप में स्वीकृत है। इंद्र ने देवताओं से इनके अपनी राजमना के लिए प्राप्त किया था। एक बार उन्होंने इनके विरयामित्र की तपस्या को भंग करने के लिए भेजा था, किन्तु महर्षि ने इससे क्षमभावित होकर इसे एक महान् यज्ञ तक पाषाणों के रूप में रहने का आश दिया। कहा जाता है, एक बार जब यह कुंभ पुत्र नन्दपर के पहाँ जा रही थी तो केनाभ की और जाने हुए राक्षसों ने मार्ग में रोक कर इनके साथ बलात्कार किया था।

रघु-इक्ष्वाकुवंशी पत्नीपुत्र के प्रसिद्ध राजा और विराट के पुत्र। सूर्यवंश में यही सबसे प्रसिद्ध राजा हुए। इनके बड़े भाई के नाम से यन्त्रा। इन्होंने एक विराटिका कन्या विवाह किया था। भगवान् रामकन्द इन्हीं के वंश में हुए थे। यमुनाथ (गोस्वामी) गोस्वामी विट्ठलनाथ जी के माता कुंती में से एक। इन्होंने विष्णु धर्म का प्रचार किया। दे० 'विदुरनाथ'।

रघुनाथ गुसाई-जगन्नाथ जी के ये जैसे ही सेवक थे जैसे विष्णु के गुरु । ये सदैव जगन्नाथ जी के द्वार पर खड़े रहा करते थे । इनके विषय में कई कथायें भी प्रसिद्ध हैं । रति-कामदेव की अर्द्धांगिनी तथा दत्त प्रजापति की कन्या । कहा जाता है दत्त ने अपने शरीर के श्रम-विदुशों से इसे उत्पन्न करके कामदेव को सपत्नित किया था । यह सौंदर्य के प्रतीक-स्वरूप मानी जाती है । इसके सौंदर्य को देख कर सभी देवताओं के हृदय में इसके प्रति आकर्षण की भावना उत्पन्न हुई थी, इसी से इसका नामकरण रति हुआ । शिवजी ने जब इसके स्वामी कामदेव को अपना ध्यान भंग करने के कारण क्रोधित होकर भस्म कर दिया था तब इसी ने शिव से प्रार्थना करके अपने स्वामी के अन्तर्ग-रूप में जीवित रहने का वर प्राप्त किया था तथा मृत्युलोक में स्वयं मायावती के रूप में जन्म लेकर अनिरुद्ध के रूप में कामदेव के अवतरित होने का वरदान पाया था । कहा जाता है कि यह सदा कामदेव के साथ रहती है । दे० 'अन्तर्ग', 'अनिरुद्ध' तथा 'कामदेव' ।

रतिकला-एक गोपी । राधा की सखी ।

रतिवेलि-एक गोपी । राधा की सखी ।

रतिवंती-लीला अनुकरणी एक अनन्य श्रीकृष्ण भक्त । 'ऊखल बंधन' की कथा सुनकर एक बार ये लड़ने लगीं और लड़ते-लड़ते इनके प्राण निकल गये ।

रत्नाकर-समुद्र का एक पर्याय । दे० 'समुद्र' ।

रत्नावली-एक प्रसिद्ध अनन्य हरि-भक्ति-परायणा महिला । ये आमेर के राजा मानसिंह के छोटे भाई माधवसिंह जी की रानी थीं ।

रसिक मुरारि-एक प्रसिद्ध वैष्णव भक्त । इन्होंने एक मतवाले हाथी को भी अपना शिष्य बना लिया था । इनके विषय में कई कहानियाँ प्रसिद्ध हैं ।

रहूगण-एक प्राचीन प्रतापी राजा । पालकी पर एक बार इन्हें कपिलभुनि के आश्रम में ज्ञान के लिये जाना था । 'जड़ भरत' को पालकी में लगाया और न चलने पर उन्हें बहुत मारा । अन्त में इन्हें ज्ञान प्राप्त हो गया । संभवतः सुधीर और रहूगण एक ही नाम हैं । दे० 'जड़भरत' ।

राजानवाई-प्रसिद्ध राठौर राजा तथा अपूर्व वैष्णव भक्त रामरमन की धर्मपत्नी । ये अनन्य हरिभक्ति-परायणा थीं ।

राधा-गोकुल के समीपवर्ती बरसाने ग्राम के गोपराज वृषभान की कन्या । इनकी माता का नाम कीर्ति मिलता है । भागवत में इनका कोई उल्लेख नहीं है । किंतु देवी-भागवत तथा गर्गसंहिता आदि में कृष्ण की प्रेयसि के रूप में इनका उल्लेख मिलता है । प्रथम में परकीया तथा द्वितीय में स्वकीया नायिका अर्थात् पूर्णतः विवाहित के रूप में इनका वर्णन है । हिंदी साहित्य में वस्तुतः इनका द्वितीय रूप ही स्वीकृत हुआ है । कृष्ण गोप-बालकों के साथ यमुना तट पर खेलने जाते थे । राधा भी अपनी सखियों को लेकर आती थीं । दोनों एक दूसरे को देखते और पारस्परिक अनुराग की भावनाओं के यशोभूत हो जाते थे । एक बार राधा नंद के

घर में खेलने आईं । यशोदा उन्हें देखकर अत्यन्त प्रसन्न हुईं और उन्हें कृष्ण के योग्य ठहराया । एक 'द्विज-नारि' को बुलाकर उन्होंने राधा के पिता वृषभान के पास कृष्ण के लिए राधा को माँगने की बात कहलाया । 'द्विज-नारि' ने बरसाने ग्राम में जाकर राधा की माता कीर्ति से यशोदा की बात कही किंतु कीर्ति 'महा लंगर' तथा 'दधि-माखन चोर नंद-डोटा' के साथ अपनी 'सूधी' राधा की सगाई करने को प्रस्तुत नहीं हुईं । यशोदा ने सुना तो उन्हें जड़ा दुःख हुआ । उसी समय कृष्ण आ गए । अपनी माता की चिंता का कारण जानकर उन्हें आश्वासन दिया कि यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो मैं उसी के साथ विवाह करूँगा और उसकी माता मेरे पैरों पर गिर-गिर कर मुझे उसे देंगी । आगे का प्रसंग इस प्रकार है—कृष्ण बरसाने ग्राम की ओर चल दिए और वहाँ की एक वाटिका में जाकर बैठ गए । राधा अपनी सखियों को साथ लेकर उन्हें देखने के लिए आईं । कृष्ण ने एक दृष्टि-निक्षेप में उनका मन हर लिया और वे मूर्च्छित होकर गिर पड़ीं । सखियों ने बार बार ऊँचे स्वर से नाम लेकर उन्हें चैतन्य करने का प्रयत्न किया किंतु वे असफल रहीं । कुछ देर बाद वे स्वयं ही "श्याम ! श्याम !" कहती हुई उठ बैठीं । सखियों ने कृष्ण के प्रति उनका इतना गंभीर स्नेह देखकर कहा कि "तुम मूर्च्छित-सी होकर पड़ रही । हम तुम्हें घर ले जायँगी और माताजी से कहेंगी कि इन्हें कालीनाग ने काट खाया है और फिर किसी वहाने कृष्ण को भी बुला लेंगी । इस प्रकार तुम्हारा उनका मिलन हो जायगा ।" राधा ने उनकी बात स्वीकार कर ली । सखियाँ उन्हें उठाकर घर के भीतर ले गईं और कीर्ति से कहा कि "इन्हें नाग ने डस लिया है ।" वह यह सुनकर घबड़ा गई और "दौड़ो किसी को बुलाओ" कहने लगीं । सखियों ने अवसर पाकर कहा—"गोकुल-ग्राम में नंद का पुत्र कृष्ण एक बहुत बड़ा गारुड़ी है, कही तो उसे बुला लाऊँ ।" कीर्ति ने कहा—"जाओ और उससे जाकर यह कहो कि यदि कुँवरि फिर जीवित हो जायगी तो मैं उसे तुम्हें ही अर्पित कर दूँगी । मैं तुम्हारे पैरों पड़ती हूँ, विनती करती हूँ, तुम्हें संसार में यश प्राप्त होगा, यदि तुम आकर मेरी पुत्री को जीवन दान दोगे ।" सखियों ने गोकुल आकर यशोदा से कीर्ति का यह संदेश कहा और कृष्ण को अपने साथ कर देने की प्रार्थना की । यशोदा ने बड़ी प्रसन्नता के साथ कृष्ण को बुला कर सब समाचार सुनाया और उनसे शीघ्र राधा के यहाँ जाने को कहा । कृष्ण ने बरसाने पहुँचकर अपने दर्शन से ही राधा का विष हर लिया । कीर्ति ने पारस्परिक स्नेह देखकर दोनों की सगाई की अनुमति दे दी । राधा ने कृष्ण के साथ रासलीला में प्रमुख भाग लिया था । कृष्ण जब अक्रूर के द्वारा कंस का निमंत्रण पाकर मथुरा गये थे तो राधा को ही सबसे अधिक वियोग का भार सहन करना पड़ा था, जो संभवतः उनके जीवन-पर्यंत रहा । मथुरा छोड़कर कृष्ण द्वारिका को चले गये थे और वहाँ पर उनके साथ रविमणी के होने की कथा

हैं। फिर भी राधा का नाम ही कृष्ण के साथ अधिकतर लिया जाता है।

रामचंद्र-शयोध्या के इक्ष्वाकुवंशी महाराज दशरथ के पुत्र। यह विष्णु के मयांदापुरसुपोत्तम अवतार के रूप में स्वीकृत हैं। इनका जन्म कौशल्या के गर्भ से हुआ था और ऋषि वसिष्ठ ने इन्हें शिचा दी थी। जब यह बालक ही थे तो ऋषि विश्वामित्र इन्हें अपने आश्रम की रक्षा के लिए लक्ष्मण के साथ मांगकर ले गये थे। आश्रम की ओर जाते हुए इन्होंने ताड़का तथा सुबाहु का वध किया था तथा मारीच को अपने बाण से दक्षिणापथ की ओर धांचित कर दिया था। ऋषि विश्वामित्र के आश्रम में रहकर इन्होंने शत्रुविद्या का विशेष अध्ययन किया था। विदेहराज जनक के यहाँ सीता के विवाह के लिए जब धनुषयज्ञ का आयोजन हुआ था तो विश्वामित्र जी इन्हें यहाँ लेकर उपस्थित हुए थे। उन्हीं की आज्ञा से यह शिव-धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाने के लिए चले थे। एक बार के ही प्रयत्न में इन्होंने शिव-धनुष को उठा लिया था; किंतु जब वह उसमें प्रत्यंचा चढ़ा रहे थे तो वह टूट गया था। फिर भी प्रतिज्ञा पूर्ण हो चुकी थी। शयोध्या में महाराज दशरथ को समाचार भेजा गया और वंशु-वांधवों के साथ उनके मिथिला आने पर रामचंद्र ने सीता का पाणिग्रहण किया। शयोध्या आने पर महाराज दशरथ ने इनके राज्याभिषेक की तैयारी प्रारंभ करा दी। मंथरा नाम की एक दुष्टा दासी के कहने पर रावण वैकेयी ने महाराज दशरथ से राम को चौदह वर्ष का वनवास तथा भरत का राज्याभिषेक करने को कहा। महाराज दशरथ वचन-बद्ध थे। रामचंद्र ने सहर्ष वनवास स्वीकार किया और गौरिक वसन धारण कर वन की ओर चल दिये। उनके साथ उनकी शर्द्धांगिनी सीता तथा अनुज लक्ष्मण भी चले। भरत उस समय अपने ननिहाल में थे। शयोध्या आने पर तथा सभी बातें ज्ञात होने पर उन्होंने सिंहासन पर बैठना शस्वीकार किया और राम को वापस बुलाने के लिए वन की ओर चल दिये। राम ने उन्हें यह समझा-बुझाकर वापस कर दिया कि यह पिता की आज्ञा से वनवास के लिए आये हैं और चौदह वर्ष की अवधि पूर्ण होने पर ही शयोध्या लौटेंगे। भरत ने शयोध्या लौटकर रामचंद्र की चरण-पादुकाओं को सिंहासन पर रखकर राजकार्य प्रारंभ किया। रामचंद्र वन-पर्यटों में तथा श्रमियों के आश्रमों में गुमते रहे। एक स्थान पर सूर्यगंगा नामक एक राज्ञी ने एक मुन्दरी के रूप में उपस्थित होकर उनसे अपने साथ विवाह की याचना की। उन्होंने पहले तो उसे समझाने-बुझाने का प्रयत्न किया किंतु बाद को लक्ष्मण से कहकर उसके नाक-कान फटवा दिये। उसने जाकर दक्षिणापथ में रहनेवाले राक्षसों, पर और दुष्टों को अपनी तथा सुबाहु और उनमें राम के साथ युद्ध करने के लिए कहा। यह लोगों रामचंद्र के साथ युद्ध करने के लिए आये और उनके पापों से मुक्त की जात हुए। शरणागतों से वह सब समाचार रावण को प्राप्त हो यह आश्रम विनाश प्रारंभ सीता को इंद्रावरण से हारने लगा।

राम ने लक्ष्मण के साथ सीता को खोजना प्रारंभ किया। आश्रम से कुछ दूर जाकर उन्हें जटायु नामक एक गिद्ध-राज मिला जो पथ पर चत-विचत होकर पड़ा हुआ था। उसने बताया कि सीता को लंकाधिपति रावण हर ले गया है। उसके बाद हनुमान के प्रयत्न से रामचंद्र ने सुग्रीव से मित्रता की तथा उसके भाई बालि का वधकर उसे दक्षिणापथ का अधिपति बनाया। सुग्रीव ने सीता की खोज के लिए दूत भेजे। कुछ दिनों बाद हनुमान ने आकर समाचार दिया कि सीता लंका में रावण के यहाँ शशोक-वाटिका में बंदिनी हैं। राम ने वानर तथा भल्लुकों की सेना लेकर लंका पर आक्रमण किया। रावण का छोटा भाई विभीषण आकर रामचंद्र से मिल गया। उसकी सहायता तथा अपने युद्ध-कौशल से इन्होंने पुत्र-पौत्रों सहित रावण का वध किया और विभीषण को लंका का राज्य दिया। सीता को मुक्त कराकर वह पुष्पक विमान से शयोध्या वापस आये। वनवास की अवधि पूर्ण हो चुकी थी। उनका राज्याभिषेक हुआ और इन्होंने राज्य-संचालन प्रारंभ किया। एक बार एक साधारण-सी प्रजा ने जब सीता के चरित्र पर रावण के यहाँ रहने के कारण संदेह किया तो इन्होंने सीता को लक्ष्मण से कहकर वन में छोड़वा दिया। सीता जाकर ऋषि वाल्मीकि के आश्रम में रहने लगीं। वहाँ उनके लव तथा कुश नामक दो पुत्र हुए। रामचंद्र ने शत्रुमेघ यज्ञ का आयोजन किया। लव तथा कुश ने यज्ञ के शत्रु को रोक लिया और उसके सभी रक्षकों को युद्ध में पराजित कर दिया। रामचंद्र जी स्वयं आये और वहाँ उन्हें किसी प्रकार यह ज्ञात हो गया कि यह लव तथा कुश उनके ही पुत्र हैं। इन्होंने सीता को भी पहचाना और उनसे शयोध्या वापस चलने के लिए कहा। सीता ने एक बार परित्यक्त होकर उनके साथ जाना शस्वीकार किया और पृथ्वी में समा कर अपने प्राण दे दिये। रामचंद्र लव तथा कुश को लेकर शयोध्या आये और उन्हें राजकार्य सौंप कर स्वर्ग चल दिये।

रामदास-एक प्रसिद्ध वैष्णव भक्त। अक्षरी दरवार के २० प्रधान कलाकारों में इनका भी नाम है। ये मुरदास के पिता कहे जाते हैं; किंतु ये मुरदास बौद्ध हैं, महा नहीं जा सकता। भारतीय संगीत में इनकी गणना, तानसेन तथा धंजू आदि के साथ की जाती है।

रामानंद-रामानंदी संप्रदाय के प्रवर्तक। लोक प्रसिद्ध है कि ये रामानुज के गिण्य थे। साधारणतः १५वीं या १४वीं शताब्दी ही इनका उत्पत्तिभूत माना जाता है। रामानुज संप्रदाय के सभी कर्मों को इन्होंने नियंत्रित कर दिया। ये बीच जाति के लोगों को भी संतुष्ट करते थे। इनके ग्रंथ संग्रह में हैं केशव पूर २३ निर्दिष्ट हैं। रामानुज वैष्णव भक्ति के प्रवर्तक और साधारणों में से एक। इनका जन्म हारीत गोपीराम नामक भक्त में भद्रपुरी में हुआ था। यह स्थान मद्रास के संकलन स्थानों में है। इनकी जन्म तिथि १०१० ई० मानी जाती है। १५ वर्ष की अवस्था में ही इनका विवाह हुआ। उपरंतु हुए ही

दिनों के बाद इनके पिता का देहान्त हो गया। इसके बाद इन्होंने वैराग्य ले लिया। पूर्णाचार्य जी इनके दीक्षा गुरु थे। रामानुज ने विशिष्टाद्वैत मत का प्रचार किया। इनके मुख्य ग्रंथ हैं—१. वेदांत सूत्र पर श्री भाष्य, २. वेदांत संग्रह ३. वेदांत प्रदीप, ४. वेदांत सार तथा ५. गीता भाष्य। इनके ७४ शिष्य प्रसिद्ध हैं। दे० 'यामुनाचार्य' तथा 'पूर्णाचार्य'।

रावण-प्रसिद्ध राक्षस, पुलस्त्य का नाती, लंका का राजा तथा राम का शत्रु। इसी के वध के लिये राम ने अवतार ग्रहण किया। रावण प्रकांड पंडित, बुद्धिवादी और बड़ा भारी शिव भक्त था। राम रावण का युद्ध भारतीय इतिहास में अति प्रसिद्ध घटना है। दे० 'जय-विजय', 'राम' तथा 'सीता'।

राहु-एक अशुर। इसकी माता का नाम सिंहिका तथा पिता का नाम विप्रचित्ति मिलता है। कहा जाता है कि समुद्र-मंथन के बाद विष्णु जब मोहनी का रूप धारण कर, देवताओं के बीच अमृत का वितरण कर रहे थे तो इसने भी देवताओं में सम्मिलित होकर अमृत पान कर लिया था। सूर्य और चंद्र ने उसके इस कृत्य को देख लिया था और विष्णु को उसका समाचार दे दिया था। विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से इसका सर धड़ से अलग कर दिया था, किंतु अमृतपान से अमर हो जाने के कारण यह दो भागों में भी जीवित रहा। मस्तक 'राहु' तथा कर्ध 'केतु' के नाम से विख्यात है। इस घटना के आधार पर सूर्य तथा चंद्र के प्रति उसकी शत्रुता का जन्म भी माना जाता है कि राहु अपनी इसी शत्रुता को सूर्य तथा चंद्र के ग्रहण के रूप में व्यक्त करता है। राहु आठ अश्वों के धूमिल रथ पर आसीन माना जाता है। ग्रहण के समय वह अपने इसी रथ पर पवन-वेग के अश्वों द्वारा परिचालित होकर सूर्य अथवा चंद्र की ओर अग्रसर होता है।

रुक्म-दे० 'रुक्मी'।

रुक्मिणी-विदर्भराज भीष्मक की पुत्री। यह लक्ष्मी के अवतार के रूप में स्वीकृत है। इनके सौंदर्य की प्रशंसा सुनकर कृष्ण इनके प्रति अनुरक्त हो गए थे। कृष्ण के सुंदर स्वरूप तथा वीरता आदि का समाचार सुनकर इन्होंने भी अपने मन-मंदिर के देवता के रूप में उनको प्रतिष्ठित कर लिया था। किंतु इनके पिता ने जरासंध के कहने पर शिशुपाल के साथ इनका पाणिग्रहण करने की बात स्वीकार कर ली थी। इनका भाई रुक्मी भी इस विषय में अपने पिता के साथ सहमत था। योग्य वय होने पर कुंडिनपुर में विवाह का आयोजन होने लगा। शिशुपाल अपने मातृपक्ष से कृष्ण के साथ भाई के रूप में संबंधित था; इसलिए कृष्ण भी बलराम को लेकर कुंडिनपुर पहुंच गए। विवाह के एक दिन पूर्व संध्या समय जब रुक्मिणी इंद्राणी की पूजा के लिए मंदिर के भीतर गई तो कृष्ण भी मंदिर के द्वार पर पहुंच गए और रुक्मिणी को अपने रथ पर बिठा कर चल दिए। जब शिशुपाल तथा रुक्मी आदि को यह समाचार मिला तो उन्होंने रुष्ण का पीछा किया और समीप पहुंच कर आक्रमण

भी कर दिया। कृष्ण ने अपने पराक्रम से सभी को पराजित किया। कहा जाता है यह युद्ध नर्मदा के तट पर हुआ था और रुक्मी उसमें मूर्च्छित होकर गिर पड़ा था। किंतु रुक्मिणी के कहने पर कृष्ण ने उसका वध नहीं किया था। द्वारिका पहुंच कर कृष्ण ने रुक्मिणी के साथ शास्त्रोक्त रीति से विवाह किया और उन्हें अपनी प्रधान महिषी बनाया। रुक्मिणी के गर्भ से कृष्ण के दस पुत्र हुए थे और एक कन्या। रुक्मिणी के पुत्रों के नाम प्रद्युम्न, चारुदेवण, सुपे, आदि हैं।

रुक्मी-विदर्भराज भीष्मक का पुत्र तथा रुक्मिणी का भाई। यह कंस का घनिष्ठ मित्र था। कृष्ण ने जब रुक्मिणी की सुंदरता की प्रशंसा सुन कर महाराज भीष्मक के पास अपने साथ रुक्मिणी का विवाह कर देने की बात कहलाई थी तो इसी ने अपने पिता से कह कर कृष्ण को अस्वीकृति भिजवा दी थी। कृष्ण के साथ अपनी बहन का विवाह, अपने मित्र कंस का घाती होने के कारण, यह नहीं करना चाहता था। जब शिशुपाल के साथ रुक्मिणी के विवाह के अवसर पर कृष्ण ने उपस्थित होकर मंदिर के द्वार से रुक्मिणी का हरण कर लिया था तो इसने आवेश में आकर अपने पिता से कह डाला था कि मैं कृष्ण का वध करने के बाद ही घर आऊंगा। किंतु कृष्ण के साथ युद्ध होने पर यह स्वयं ही मूर्च्छित होकर गिर पड़ा था और इसकी बहन को कृष्ण से इसके जीवनदान करने के लिए कहना पड़ा था। चेतना प्राप्त करने पर इसने पूर्वोक्त वचन के अनुसार कुंडिनपुर की ओर कदम नहीं बढ़ाए वरन् भोजराज नामक एक दूसरा नगर प्रतिष्ठित कर उसमें रहने का निरचय किया।

रुद्र-साधारणतः रुद्र शब्द शिव का पर्याय है। रुद्र एक वैदिक देवता भी हैं। रुद्र की उत्पत्ति के विषय में भिन्न-भिन्न पुराणों में भिन्न-भिन्न कथाएँ मिलती हैं। कहा जाता है कि ब्रह्मा ने क्रुद्ध होकर अपने एक केश से एक पुरुष की सृष्टि की जो जन्म लेते ही विकराल शब्द कर के रोया। इसीलिए उसका नाम रुद्र हो गया। ब्रह्मा ने इन्हें सृष्टि रचने को कहा लेकिन इन्होंने बड़ी तामसी सृष्टि रच डाली। इसीलिए इन्हें केवल सृष्टि-संहार का कार्य दिया गया। दे० 'शिव'।

रूप गोस्वामी-चैतन्य महाप्रभु के प्रधान शिष्य। इनके भाई 'सनातन' भी चैतन्य के प्रधान शिष्य थे। वृन्दावन आदि में चैतन्य मत का इन्होंने बहुत प्रचार किया।
रेणुका-राजा प्रसेनजित की कन्या, जमदग्नि की पत्नी और परशुराम की माँ। जल-विहार करते समय चित्ररथ पर मोहित हो उन्होंने इससे व्यभिचार किया। घर लौटने पर जमदग्नि अपने योगबल से यह सब जान गये और अपने पुत्रों को इसका सिर काटने को कहा। तीन पुत्रों ने अस्वीकार किया किंतु परशुराम ने सिर काट डाला। बाद में परशुराम के कहने से जमदग्नि ने इनको जीवित कर दिया। दे० 'परशुराम'।
रेवती-राजा रेवत की पुत्री तथा श्रीकृष्ण के भाई बलदेव की पत्नी। दे० 'बलराम'।

रैदास-रामानंद की शिष्य-परंपरा के एक प्रसिद्ध संत तथा कवि । ये जाति के चमार थे । कहा जाता है कि नीरावाह ने इनका शिष्यत्व ग्रहण किया था । इनकी माता का नाम दुरविनिया और पिता का नाम रग्वृ था । ये कबीर के समकालीन थे । इन्होंने अपना एक मत भी चलाया ।

रूपलता-एक गोपी जो राधा की सखी थी ।

रोहिणी-चमुदेव की अर्द्धांगिनी तथा बलराम की माता । इन्होंने देवकी के सातवें गर्भ को देवी विधान से धारण कर लिया था और उसी से बलराम की उत्पत्ति हुई थी । यदुवंश का नाश होने पर जब चमुदेव ने द्वारिका में शरीर-त्याग किया था तो यह उनके साथ सती हुई थीं । चमुदेव जिस समय देवकी के साथ मथुरा में कारागृह में बंदी थे उस समय यह नंद के यहाँ थीं और वहीं इन्होंने बलराम को जन्म दिया था ।

रौरव-एक भीषण नरक । दे० 'नरक' ।

लंका-एक द्वीप का नाम । यह रावण की राजधानी थी ।

त्रिवृट पर्वत पर बसी यह नगरी स्वर्णनिर्मित थी ।

लंकिनी-एक राक्षसी का नाम ।

लक्ष्मण-१. दाशरथि राम के छोटे भाई । ये सुमित्रा के पुत्र और उर्मिला के पति थे । १४ वर्षों तक इन्होंने फटिन व्रत साधना कर राम-वनवास के समय राम और सीता की सेवा की । मेघनाथ की शक्ति लगने पर ये मूर्च्छित हुए, किंतु संजीवनी वृक्ष से पुनः जाँवित हो गये । इन्होंने ही मेघनाथ का वध किया । २. एक प्रसिद्ध मध्यकालीन वैष्णव भक्त ।

लक्ष्मी-विष्णु की पत्नी । समुद्र-मंथन के फलस्वरूप निकले हुए १४ रत्नों में से यह भी एक थी । यह शब्द ऋग्वेद में प्रयुक्त हुआ है । वहाँ इसका शब्दार्थ सौभाग्यवती है । अथर्ववेद में सौभाग्य और दुर्भाग्य के अर्थ में भी प्रयुक्त हुआ है । तैत्तिरीय उपनिषद् में लक्ष्मी और श्री को आदित्य की पत्नी कहा गया है । दत्तपथ ब्राह्मण के अनुसार प्रजापति ने श्री को जन्म दिया । पौराणिक साहित्य में इनकी उत्पत्ति के विषय में अनेक गाथाएँ मिलती हैं । ये धन की अधिष्ठात्री देवी हैं । इनका वाहन उल्लू है । सीता और रुक्मिणी इन्हीं की अवतार कही गई हैं ।

लक्ष्मीधर-१. एक प्रसिद्ध हरिभक्ति परायण महिला । २. लक्ष्मी की रानी जो गदर में संभ्रंजों के हाथ से मारी गई ।

लखा-एक प्रसिद्ध मध्यकालीन हरिभक्ति परायण महिला ।

लघुजन्त-मथुरा के एक प्रसिद्ध राजवंशीय वैष्णव भक्त ।

लहू एक प्रसिद्ध वैष्णव भक्त । एक बार बंगाल में कुछ कानन लोग इनकी ध्वनि घटाने जा रहे थे; किंतु देवी ने स्वयं प्रकट हो पहुँचीं का विर काट राजा । और लोग फिर वैष्णव हो गये ।

ललिता-एक गोपी जो राधा की सखी थी ।

लख-दे० 'लुक' ।

लाखाजी-मारवाड़-निवासी, जाति के लोग, एक परम भक्त । लोग इन्हें हनुमान-वंशी कहते थे । मारवाड़ ने साष्टांग दंडवत करते हुये ये जगन्नाथ पुरी गये । प्रसिद्ध वे कि जगन्नाथ जी ने इन्हें अपनी पानकी भेजी थी । वदे-वदे राजे इनका दर्शन करने आते थे ।

लालीचाय-एक प्रमुख वैष्णव भक्त । कहा जाता है कि ये स्वामी रामानुज के जामाता थे । ये मय संतों को अपना भाई मानते थे । इन्होंने एक बार माता पहिने एक शव देखा । उसे अपने घर ले आये और विधिपूर्वक उसका अंतिम संस्कार किया ।

लिंगपुराण-अष्टादश महापुराणों में से एक । श्लोक संख्या ११००० है तथा प्रकृति तामसों कही गई है । इसका अधिकांश भाग विधि-विधान और कर्मकांड में पूर्ण है । लिंग पूजा इसका मुख्य भाग है; पर मौनिक लिंग पूजा के अर्थ में नहीं है । यह सर्वोच्च से पहिने का नहीं है । लोमश-प्रसिद्ध ऋषि । इनकी दीर्घायु प्रसिद्ध है । कई कल्पों तक इन्होंने तप किया और कई अवतारों के चमत्कार देखे । इनका नाम चिरंजीवी भी है ।

वरुण एक प्रधान वैदिक देवता । ये जल के अधिपति पदे गये हैं । पुराणों में इनकी गणना दिग्पालकों में की गई है । ये पवित्रम दिशा के दिग्पालक हैं । पुराणों के अनुसार वरुण कश्यप के पुत्र हैं । वरुण वर्तमान समय में भी धार्मिक जनता के द्वारा जन के देवता माने जाते हैं । साहित्य में ये कहरात्मक देवता पदे गए हैं ।

वलि-राजा धैरोचन के पुत्र तथा महाद के पौत्र । ये प्रसिद्ध दानी और भक्त थे । इन्होंने ११ गज किये थे । १००वें गज के समय इंद्र भयभीत हुये कि नहीं उनका इंद्रासन न छिन जाय । उनके प्रार्थना करने पर विष्णु ने वाचन संगुल का रूप धर इनमें देई पर अपनी दान मांगी । दान पाकर विगट रूप धर उन्होंने अपनी, क्षारक और पानाल को नाप लिया । साथे पर के किये वलि ने कहा कि मेरा राजा शरीर नाप नै । इस पर ब्राह्मण रूप छोड़ विष्णु साराण रूप में प्रकट हुये और वलि को मुँह-साँगा बरदान दिया । दे० 'वामन' ।

वसिष्ठ-प्रसिद्ध वैदिक ऋषि । सतर्पितों तथा प्रजापतियों में से एक । विश्वामित्र ने इनकी प्रतिद्विधा प्रसिद्ध है । इनके पास नन्दिनी नामक कामधेनु भी उनकी के गन्धी होने के कारण इनका नाम वसिष्ठ (संभ्रंज के गन्धी) पड़ा । ये महाके मानस पुत्र भी पदे जाते हैं । कहा जाता है कि एक बार मित्रावरुण का उषंती को देवन्तर दीर्घायन हो गया और उसमें लमण्य और वसिष्ठ की कचधि हुई । वसिष्ठ सूर्यवंश के सुरोदित थे । इनकी रानी का नाम सारथनी था ।

चमुदेव श्रीकृष्ण के चिता का मान । ये रवर के पत्नी हैं । इनकी रानी देवरी बंस की कन्य थी । दे० 'दुष्का', 'देवरी' नाम वंस' ।

चामन पुराण १२ पुराणों में से ११वाँ पुराण । इसकी श्लोक संख्या १०००० मात्र है । मुख्यतः अपने सिद्ध के कामन प्रजापति की कथा है । इसकी श्लोक १

वीं शताब्दी में हुई है। पुराणों के 'पंच लक्षणां' में से एक भी लक्षणा इसमें नहीं मिलते हैं।

वाराह-विष्णु के अवतारों में से द्वितीय। हिरण्याक्ष जब पृथ्वी को लेकर पाताल को भागा तभी पृथ्वी का उद्धार करने के लिये विष्णु का यह अवतार हुआ था। दे० 'हिरण्याक्ष' तथा 'जय-विजय'।

वाराहपुराण-१८ पुराणों में एक पुराण। इसको स्वयं विष्णु ने कहा है। इसकी प्रकृति सात्विक है। इसमें विष्णु के वाराह अवतार की कथा मुख्य है। इसका रचना काल संभवतः १२वीं शताब्दि है। वास्तविक श्लोक संख्या १०००० है।

वासव-दे० 'इंद्र'।

वासुकी-पाताल में रहनेवाले नागराज। समुद्र-मंथन के समय देवासुरों ने रज्जु के रूप में इनका उपयोग किया था। दे० 'शेष'।

विध्यावली-प्रसिद्ध राजा बलि की पत्नी।

विजय-दे० 'जय-विजय'।

विट्टलनाथ-प्रसिद्ध वैष्णवाचार्य वल्लभाचार्य के पुत्र तथा पुष्टि मार्ग के प्रथम उत्तराधिकारी। 'दो सौ बावन वैष्णव की वाता' तथा 'चौरासी वैष्णव की वाता' के रचयिता अथवा संकलनकर्ता यही कहे जाते हैं, यद्यपि यह मत सर्वमान्य नहीं है। इनके सात पुत्र थे।

विदुर-१. व्यास के औरस पुत्र जो दासी के गर्भ से उत्पन्न थे। ये छतराष्ट्र और पांडु के भाई थे। छतराष्ट्र के शासन काल में ये सदैव न्यायपूर्ण और सत्य परामेश देते आये। महाभारत युद्ध रोकने का इन्होंने भरसक प्रयत्न किया पर इनकी न चली। दुर्योधन के यहाँ समझौता कराने के लिये आते समय कृष्ण विदुर के यहाँ ही ठहरे थे, दुर्योधन के यहाँ नहीं। दे० 'अंधिका', 'पांडु' तथा 'छतराष्ट्र'।

२. जोधपुर के एक प्रसिद्ध भक्त। भक्तमाल में इनका वर्णन है।

विदुरानी-परम नीतिज्ञ विदुर की पत्नी। यह कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम रखती थीं। घर आने पर प्रेमातुर हो इन्होंने फेले का छिलका कृष्ण को खिलाया और सार फेंकती गईं। कृष्ण भी प्रेम से खाते गये।

विदेह-मिथिला के राजा। सीता का जन्म इसी वंश में हुआ था। दे० 'निमि'।

विद्यापति-वैष्णव भक्त तथा विख्यात मैथिल कवि। इनके पिता का नाम गणपति तथा पितामह का जयदत्त था। मिथिलानरेश कीर्तिसिंह के यहाँ ये राज्यकवि थे। ये चंडीदास के समसामयिक थे तथा संस्कृत, मैथिल एवं बंगला के विद्वान् थे। इनकी भाषा पूर्वी हिंदी तथा मैथिली है। संस्कृत के १३ ग्रंथों की रचना इन्होंने की है, जिनमें पुरुष-परिभाषा, शैवसर्वस्व सार, दुर्गा तरंगिणी आदि उल्लेखनीय हैं। मैथिली में इनकी पदावली उच्चकोटि के साहित्य में गिनी जाती है। ये भक्त थे, या शृंगारी कवि थे इस पर विद्वानों में मतभेद है।

विभीषण-रावण के छोटे भाई। राक्षस कुल में जन्म होने पर भी ये हरिभक्त थे। सीता को लौटा देने के लिये जब इन्होंने कहा तो रावण ने जाव मारकर इन्हें निकाल

दिया। तब ये राम की शरण में आये। राम ने उसी समय इन्हें लंका का राज्य दे दिया। इन्होंने रावण की मृत्यु का रहस्य बतलाया था। रावण के मरने के बाद यही लंकाशु हुए।

विमला-राधा की एक सखी।

विरोचन-एक दैत्य। प्रह्लाद का पुत्र तथा बलि का पिता। कहा जाता है जब गाय-रूपी पृथ्वी का दुग्ध निकाला गया था तो इसने असुरों के बत्स (बछड़े) का कार्य किया था।

विश्वरूप-त्वष्टा के पुत्र का नाम। ये इंद्र के गुरु थे पर कालांतर में इंद्र द्वारा ही इनकी हत्या हुई। इस हत्या के चार अंश - पृथ्वी, जल, वृक्ष और नारी में पड़े जिससे ऊसर, काई, गोंद और आर्तव की उत्पत्ति हुई। इनके पिता ने इनकी मृत्यु से क्रुद्ध हो वृत्रासुर की उत्पत्ति की।

विश्वामित्र-एक ऋषि। ऋग्वेद के अनेक मंत्रों के निर्माता। ऋग्वेद में इनका उल्लेख कुश वंश के महाराज कुशिक के पुत्र के रूप में मिलता है। किंतु बाद के साहित्य में यह पुरुवंशी महाराज गाधि के पुत्र कहे गये हैं। कहा जाता है, सबसे पहले महाराज गाधि के सत्यवती नाम की एक कन्या उत्पन्न हुई थी। उसे उन्होंने ऋषि ऋचीक को समर्पित कर दी थी। इन्हीं ऋचीक ने एक बार अपनी स्त्री सत्यवती को दो चर लाकर दिए और कहा था कि इनमें से यह एक चर तुम खालो, उससे तुम्हें ब्राह्मणगुण-संपन्न एक पुत्र होगा और यह दूसरा चर अपनी माता को भिजवा दो। इससे उन्हें क्षत्रियगुण-संपन्न एक तेजस्वी पुत्र प्राप्त होगा। ऋषि के यह कह कर चले जाते ही महाराज गाधि अपनी स्त्री सहित उनके आश्रम में उपस्थित हुए। सत्यवती ने अपनी माता तथा पिता का समुचित रूप से स्वागत किया और अपनी माता के सम्मुख ऋषि के दिये हुए दोनों चर लाकर रख दिये। सत्यवती की माता ने यह सोचकर कि उन्होंने अपनी पत्नी को ही अच्छा चर दिया होगा। वह चर जो ऋचीक ने अपनी स्त्री के लिए दिया था, खा लिया। इस चर के कारण उनको ब्राह्मणगुण-संपन्न विश्वरथ नाम का एक पुत्र हुआ। यही विश्वरथ आगे चल कर अपने ब्राह्म तेज के कारण विश्वामित्र की संज्ञा से संबोधित हुए। सत्यवती को दूसरा चर खाना पड़ा था; जिससे उनके क्षत्रियगुण-संपन्नजमदग्नि नामक पुत्र हुआ था। विश्वामित्र के जीवन के संबंध में जितनी कथाएँ प्रचलित हैं उनमें सबसे प्रधान ब्रह्मर्षि वसिष्ठ के प्रति उनकी प्रति-द्वंद्विता की है। ऋग्वेद में भी इस संबंध के कुछ उल्लेख मिलते हैं। दोनों ही महर्षि थे और दोनों ने वैदिक ऋचाओं का निर्माण किया था। विश्वामित्र की ऋचाएँ ऋग्वेद के तृतीय मंडल में मिलती हैं, जिस में गायत्री-मंत्र भी है। वसिष्ठ ने सप्तम मंडल की ऋचाओं का निर्माण किया था। महाराज सुदास के यहाँ राज-पुरोहित के रूप में विश्वामित्र तथा वसिष्ठ दोनों के ही रहने का उल्लेख मिलता है। वसिष्ठ, विश्वामित्र को

एत्रिय कुल में उत्पन्न होने के कारण हीन दृष्टि से देखते थे। विश्वामित्र अपने को स्वयं वसिष्ठ के मुख में प्रहापि कहलाना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने वसिष्ठ पर बल-प्रयोग भी किया था। उनके लौ पुत्रों का वध कर डाला था। कहा जाता है कि वसिष्ठ ने भी इस पर प्रोथित होकर उनके भी पुत्र का वध कर दिया था। महाभारत में एक कथा है कि एक बार विश्वामित्र ने गंगा से भी वसिष्ठ को लाने के लिए कहा था, किन्तु जब गंगा उन्हें उनके पास नहीं लाई थीं वरन् उनकी पहुँच के बाहर एक सुरचित स्थान में पहुँचा आई थीं तो इन्होंने गंगा की धारा को रक्तमय कर दिया था। रामायण में वसिष्ठ के प्रति इनकी प्रतिद्वंद्विता की कथा दूसरी प्रकार से वर्णित है। महाराज के रूप में यह प्रायः वसिष्ठ के आश्रम में आया करते थे। एक बार इन्होंने वसिष्ठ की एक सुंदर कामधेनु को बिना पूछे ग्योनरर अपने यहाँ ले जाने का प्रयत्न किया, किन्तु कामधेनु अपनी अर्गला तुड़ाकर भाग गई। जब इन्होंने उसे यत्नपूर्वक ले जाने का प्रयत्न किया तो वसिष्ठ के पुत्रों ने इनका मार्ग रोका। युद्ध चारम्भ हुआ, जिसमें इन्होंने वसिष्ठ के पुत्रों का वध कर डाला। उसके बाद स्वयं वसिष्ठ ने उपस्थित होकर इन्हें पराजित किया। एत्रिय को ब्रह्मतेज के सम्मुख अपनी पराजय स्वीकार करनी पड़ी। इस प्रकार अपमानित होकर उन्होंने घोर तपस्या के द्वारा अपने को ब्राह्मण वर्ण में परिवर्तित करने का प्रयत्न किया। जब यह घोर तपस्या में निरत थे तो ताड़का राक्षसी तथा उसके पुत्रों ने इन्हें बहुत कष्ट देना प्रारम्भ किया। उनसे अपनी रक्षा करने के लिए यही राम तथा लक्ष्मण को दुःखरथ से कहकर अपने आश्रम लिया ले गये थे तथा मार्ग में ताड़का का वध कराया था। विश्वामित्र ही राम तथा लक्ष्मण को अपने आश्रम से धनुषयज्ञ के समय जनक के यहाँ लिया ले गये थे तथा राम के द्वारा धनुर्भंग कराकर सीता के साथ उनके विवाह में सहायक हुए थे। विश्वामित्र ने वसिष्ठ के प्रति अपनी प्रतिद्वंद्विता की भावना के घनीभूत होकर ही एक बार त्रिशंकु को वसिष्ठ के अस्वीकार करने पर भी तवेद स्वयं भेज दिया था। इनकी घोर तपस्या को देख कर एक बार इंद्र भी विचलित हो गये थे और उन भय से कि कहीं विशेष शक्ति का संस्रष्ट कर यह सुभक्तें इंद्रप न हीन ले भेजना को इनकी तपस्या भंग करने के लिए भेजा था। विश्वामित्र का ध्यान भंग हुआ था और भेजना के प्रति यह प्रार्थित हुए थे। उर्यो के फलस्वरूप शशुंजना का जन्म हुआ था। विश्वामित्र को अपने इस दृष्ट से इतनी शक्ति हुई थी कि ये अपना पूर्वस्थान छोड़कर हिमालय में तपस्या करने चले गये थे। संत में देवताओं के करने पर वसिष्ठ ने इन्हें ब्रह्मर्षि के रूप में स्वीकार कर लिया था।

विष्णु हिन्दू विद्वानों में इनका द्वितीय स्थान है। अतएव इन्हीं के उल्लेख प्रमुख देवताओं में नहीं मिलता, किन्तु ताराकण-ग्रंथों में, इन्हें विशेष महत्त्व प्रदान किया गया है। अतएव में इनका उल्लेख विशेषतः श्रीर तीनों उगों में समस्त विद्वानों का स्वीकार

करनेवाले के रूप में हुआ है। इन तीनों उगों की च्याम्पदा विद्वानों ने प्रति, विष्णु तथा सूर्य-प्रकाश की सम्बन्ध-क्तियों के रूप में की है। कुछ अन्य विद्वानों ने सूर्य के उदय, आकाश में स्थिति तथा अस्त होने को ही तीन उगों के रूप में स्वीकार किया है। संभवतः इन्हीं कथा को पुराणों में वामन के तीन उगों में विन्दित किया गया है। मनु ने अपनी सृष्टि में भी इनका उल्लेख किया है, किन्तु उसमें भी केवल एक बड़े देवता के रूप में ही। महा-भारत में इन्हें त्रिदेवों में स्वीकार किया गया है। ब्रह्मा सृष्टि के निर्माता हैं, विष्णु उसके पालनकर्ता हैं और शिव अथवा रुद्र संहार करनेवाले। कुछ स्थानों में इनका वर्णन प्रजापति के रूप में मिलता है और त्रिदेव केवल इनकी तीन अवस्थाओं के रूप में स्वीकार किये गये हैं। इस प्रकार विष्णु ही त्रिदेवों में सर्वप्रमुख स्थान पाते हैं। इनका निवास-स्थान श्रीरसागर माना जाता है, जहाँ इन्हें शेषनाग की शैया पर लक्ष्मी के साथ कनक करते हुए चित्रित किया गया है। इसी अवस्था में इनकी नाभि से एक कमल की उत्पत्ति हुई थी और उस पर पद्म का जन्म हुआ था। विष्णु में नन्द-गुण की प्रधानता मानी जाती है। अपने इसी गुण के आधार पर तथा जीननायक का पालन करनेवाला होने के कारण इनके संस्कार में २४ बार अवतरित होने की भी कल्पाएँ मिलती हैं। धनुष तथा शतपथ ब्राह्मण में इनके सम्बन्ध में कुछ ऐसी कथाएँ हैं जिन्हें आगे चलकर पुराणों में वाराह, मत्स्य, कूर्म तथा वामन आदि अवतारों के रूप में विकसित किया गया है। विष्णु के यह अवतार निम्नलिखित हैं- प्रताप, वाराह, नारद, नरनारायण, कपिल, वृक्षत्रेय यज्ञ, अरुण, प्रभु, मत्स्य, कूर्म, धन्वंतरि, मोहिनी, नृसिंह, वामन, परशुराम, वेदव्यास, राम, बलराम, कृष्ण, बुद्ध, संन्य, हनुमत् तथा कल्कि। इनमें से अन्तिम कल्कि शर्मा होने से कहा जाता है। किन्तु इन २४ अवतारों में प्रधानता १० को ही दी जाती है--मत्स्य, वृक्षत्रेय, वाराह, नृसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध, और कपिल। देवताओं के समुद्र-मंथन के समय सुरों को जब में धारण करने के लिए इन्होंने बालुका का रूप धारण किया था और उसके द्वारा जो लक्ष्मी, एक सौन्दर्यमयी रत्नमयी, प्राप्त हुई थी उसे अपनी पत्नी गिरी के रूप में स्वीकार किया था। इनकी रूपरेखा के सम्बन्ध में उल्लेख है कि ये वामन-वर्ण तथा धनुर्धर हैं और महा युवा ही रहते हैं। इनके चारों हाथों में मनु, चक्र, माला तथा पद्म बसे जाते हैं। इनके महा का नाम पौण्ड्रिक, पाद का नाम सुसुम्न और माला का नाम पौनोर्द्धी है। इनके धनुष का नाम माला तथा बाणों का नाम संद्व है। धनुष के सह इन्हीं काटन माना जाता है। गंगा भी उसी इन्हीं के चरणों से बहती गई है। इनके चरणों की संख्या अठारहों तक जाती है। विष्णु पुराण-संस्कृत में नृसिंह महापुराण। इसकी श्लोक संख्या २३००० तथा अक्षर संख्या १०००० है। पुराणों में सबसे अधिक लिखित विष्णु पुराण में लिखे हैं। महाभारत ग्रंथ में श्लोक २३००० संख्या है। पुराणों में आमतौर से पाठ इसी का प्रयोग है।

वीरभद्र-शंकर के गए। सती ने दत्त वज्र में प्राण त्याग दिया। यह सुनकर क्रोध में आ शंकर ने अपनी जटा का एक बाल पृथ्वी पर पटक दिया जिससे वीरभद्र की उत्पत्ति हुई। वीरभद्र ने दत्त का वज्र विध्वंस किया। दे० 'दत्त' तथा 'सती'।

वृत्र-त्वष्टा ने क्रुद्ध हो अपनी जटा से इसे उत्पन्न किया था। इंद्र को इसने स्वर्ग से हटा दिया था। पदच्युत इंद्र ने दधीच की हड्डी से वज्र बनाकर इसका वध किया। दे० 'विरवरूप', 'इंद्र' तथा 'त्वष्टा'।

वृंदावन-व्रज-भूमि में गोकुल के समीप स्थित एक वन। कृष्ण ने अपनी अधिकांश बाल-लीलाएँ यहीं की थीं। कंस के द्वारा भेजे गए दानवों का संहार यहीं हुआ था तथा कृष्ण ने गोपियों के साथ रास-नृत्य भी यहीं किया था। मध्य-युग में महमूद गजनवी ने अपनी संहारकारी प्रकृति से इसे संपूर्णतः नष्ट करा दिया था। आधुनिक वृंदावन इस दुर्घटना के बाद चैतन्य महाप्रभु द्वारा बसाया गया था।

वृक-एक दानव।

वृषभानु-राधा के पिता और व्रज के एक प्रसिद्ध गोप। राधा का इसी कारण वृषभानुकुमारि नाम पड़ा है।

वृषली-त्रिचित्रवीर्य की रानियों अंबिका और अंबालिका की दासी। छतराष्ट्र के अंधे और पांडु के पीले होने के कारण सत्यवती ने जब फिर अंबालिका को व्यास के पास गर्भ धारण करने के लिये भेजा, तो अंबालिका ने स्वयं न जाकर अपनी दासी को ही अपने वस्त्र पहना कर भेजा था जिससे विदुर की उत्पत्ति हुई थी।

वृहस्पति-श्रद्धावेद में इनका उल्लेख एक देवता के रूप में मिलता है। उसमें इनकी रूपरेखा सप्तमुखी तथा शृंग और पंख-युक्त वर्णित है। इनकी उत्पत्ति अंतरिक्ष के महातेज से मानी गई है; जिससे इन्होंने जन्म के समय समस्त अंधकार को ध्वस्त कर दिया था। कुछ स्थानों पर इनका वर्णन अग्नि के समान भी मिलता है। कुछ अंशों में इनके पुरोहित होने का भी उल्लेख है, जिसमें इन्हें देवताओं तथा मनुष्यों में संबंध स्थापित करनेवाला तथा मनुष्यमात्र का कल्याणकारी भी कहा गया है। एक स्थान पर देवताओं के पिता के रूप में भी इन्हें संबोधित किया गया है। कुछ ऋचाओं में इन्हें जाज्वल्यमान, स्वर्णिम तथा घन-गर्जन में अपनी घाणी व्यक्त करने वाला भी कहा गया है। किंतु बाद के साहित्य में यह एक ऋषि तथा देवताओं के गुरु के रूप में मिलते हैं। इनके पिता का नाम अंगिरा मिलता है, जिससे इन्हें आंगिरस की संज्ञा प्राप्त हुई थी। इनकी स्त्री का नाम तारा था, जिन्हें एक बार सोम हरण कर ले गया था। अपनी पत्नी को प्राप्त करने के लिए इन्हें सोम (चंद्र) से घोर युद्ध करना पड़ा था जिसमें स्वयं महादेव ने भी उपस्थित होकर इनका पक्ष लिया था। अंत में ब्रह्मा ने आकर युद्ध शांत किया था और तारा इन्हें दिलवा दी थी। तारा के गर्भ में स्थित शिशु जो चंद्रमा का था, वह उसे ही दे दिया गया था। वृहस्पति की गणना नव ग्रहों में भी की जाती है। दे० 'चंद्रमा'।

वैदेही-दे० 'सीता'

वैवस्वत-एक मनु। ये सूर्य के पुत्र थे। इनकी स्त्री श्रद्धा से इला नाम की कन्या उत्पन्न हुई। बाद को वसिष्ठ ने कन्या इला को ही पुत्र रूप में बदल दिया, जिसका नाम सुदुम्न हुआ। दे० 'सूर्य' तथा 'इला'।

व्यास-सत्यवती नामक धीवर की कन्या के गर्भ से महर्षि पराशर के औरस पुत्र। भागवत में ये विष्णु के अवतार माने गये हैं। एक द्वीप में जन्म होने से इनका नाम कृष्ण द्वैपायन पड़ा। महाभारत और वेदांत दर्शन के सूत्रों के रचयिता यही कहे जाते हैं। दे० 'सत्यवती' तथा 'पराशर'।

शंकर (आचार्य)-विख्यात तत्त्ववेत्ता। इनका जन्म सं० ७८८ में मालावार के काहाड़ी गाँव में सुप्रसिद्ध नम्बूद्री कुल में हुआ था। इनके पिता का नाम शिवगुरु तथा पितामह का विद्याधर था। ये इतने विलक्षण मेधावी थे कि आठ वर्ष में ही कठिन दार्शनिक समस्याओं की मीमांसा करने लगे और शीघ्र ही वेद-वेदांगों में पारंगत हो गये। ब्रह्मचर्य अवस्था समाप्त होते ही इन्होंने संन्यास ले लिया। माँ ने विवाह के लिये प्रयत्न किया पर सब व्यर्थ हुआ। माता की आज्ञा से संन्यास ले, गोविंदपाद नामक आचार्य से इन्होंने दीक्षा ली। विद्या में पारंगत हो शंकर ने जैन और बौद्धों के विरोध में अद्वैतवाद की संस्थापना की। देश के चारों ओर अपने मत के प्रचार करने की इन्होंने यात्रा की जिसका नाम 'शंकर दिग्विजय' है। माधव के 'शंकर दिग्विजय' में इसका विस्तृत विवरण मिलता है। इन्होंने मंडन मिश्र से प्रसिद्ध वादाविवाद किया जिसकी मध्यस्थ मंडन मिश्र की पत्नी भारती थीं। इनका अंतिम शास्त्रार्थ अभिनव गुप्त नामक प्रकांड शाक्त भाष्यकार से हुआ था। इसके बाद ही ये भगंदर रोग से पीड़ित हो हिमालय की ओर चले गये और कैदारनाथ की गुफा में प्रविष्ट हो गये। शंकराचार्य भारतवर्ष में दार्शनिकों सबसे अधिक महत्वपूर्ण हैं। ये भारतीय संस्कृति के प्रधान स्तम्भ हैं। इनके प्रसिद्ध ग्रन्थ उपनिषदों, ब्रह्मसूत्रों पर किये गये भाष्य हैं। इनका 'सहस्रनाम' भी प्रसिद्ध है।

शची-इन्द्र की पत्नी का नाम। इन्हें इंद्राणी भी कहते हैं। शनिश्चर-एक ग्रह। यह एक बुरे ग्रह माने जाते हैं। शुभ-कार्य इस ग्रह के समय निषिद्ध हैं। शनिवार इन्हीं के नाम से है।

शमीक-शृंगी ऋषि के पिता एक प्रसिद्ध ऋषि। ध्यानमग्न शमीक ने आखेट में रत परीक्षित को रास्ता न बताया जिससे उन्होंने एक मृत सर्प इनके गले में डाल दिया। ऋषि-बालकों ने शृंगी से यह बात कही। शृंगी ने क्रुद्ध हो यह शाप दिया कि आज के सातवें दिन सर्प के दसने से राजा की मृत्यु होगी। ऐसा ही हुआ। दे० 'परीक्षित'।

शरभंग-प्रसिद्ध भक्त मुनि। वनवास के समय राम इनके आश्रम में गये थे।

शांतनु-भीष्म पितामह के पिता। इनकी वीरता पर मुग्ध

हो गंगा ने इनकी पत्नी होना स्वीकार किया था। शत यह थी कि जो संतान होगी उसे जलमगधि तुरंत ही दे दी जायेगी। सात संतानें जलमग्न कर दी गईं। आठवीं संतान 'देववत' (भीष्म) बच गये। ये आगे पूर्व जन्म में वसु थे, जिन्हें शाप के कारण पृथ्वी में श्रवतार लेना पड़ा। महाराज शांतनु ने एक बार सत्यवती नामक धीवर-कन्या पर मुग्ध हो उससे विवाह करना चाहा; किंतु उसने यह शर्त रखी कि मुझसे जो संतान हो वही राज्यपद प्राप्त करे। शांतनु ने अस्वीकार किया किंतु भीष्म ने आजन्म ब्रह्मचारी रहने की प्रतिज्ञा कर पिता के मन की बात पूरी की। सत्यवती से विचित्रवीर्य और चित्रांगद दो संतानें हुईं, जिनसे कौरव तथा पांडव वंश चले। दे० 'भीष्म'।

शिखंडी-महाराज द्रुपद के एक नपुंसक पुत्र। दे० 'श्रंवा'। शिव (संप्रदाय)-विष्णु स्वामी द्वारा प्रवर्तित एक वैष्णव संप्रदाय। श्री ब्रह्मभाचार्य ने इसी मत को पुष्टिमार्ग के नाम से चलाया।

शिवपुराण-एक पुराण। श्लोक संख्या २४००० मानी गई है। प्रकृति तामसिक है। इसका अधिकांश शिव-पूजा से संबद्ध है।

शिखि-प्रसिद्ध प्राचीन दानी राजा। इंद्र (बाज) और अग्नि (कवृत्तर) ने इनकी परीक्षा ली थी। शरणागत कवृत्तर को बचाने के लिए ये अपने शरीर का मांस ही बाज को चीर-चीरकर द्यो लगे और अंत में स्वयं तुला पर बैठ गये। यह देव इंद्र और अग्नि प्रकट हो गये और इन्हें वरदान दिया।

शुकदेव-भारत के सबसे महान् पौराणिक कथाकार। श्रुत्या-वस्था में ही पूर्ण तत्त्वज्ञानी होने के कारण ऋषियों में ये सप्रणी गिने जाते हैं। ये व्यास के पुत्र हैं। शिव जब पार्यती को अमर होने के लिए सहरा विष्णु नाम का उपदेश दे रहे थे, उस समय उस कथा को एक शुक भी सुन रहा था। शिव को जब पता चला तो उन्होंने उसका पीछा किया। उसी समय व्यास-पत्नी अपने प्रांगण में गयीं हो शंभुदाई ले रही थीं। उनको देव शुक-शरीर छोड़ वे उनके पेट में चले गये और १२ वर्ष तक वहीं रहे। व्यास महाभारत तथा गीता आदि अपनी पत्नी को सुनाते थे। इस प्रकार गर्भ में ही शुक तत्त्वज्ञानी हुए। भगवान् ने इन्हें गर्भ में ही पचन दिया कि संसार की माया तुम्हें नहीं ज्ञापेगी। कालांतर में राजा परीक्षित को भागवत इन्होंने ही सुनाई।

शुक-यह देवों के साचार्य्य थे। इनके पिता का नाम नरार्थि शृगु मिलता है। एक बार जब देवराज बलि यामन को नमस्त भुंगलन का दान दे रहे थे, तब यह उन्हें इस कार्य से रोकने के विचार से जनपात्र की टोंटी में पैठ गये थे। यह नमस्कार कि वर्यो कोई वस्तु फेंक गई है, उसे गौर में मोक्षर निकालने का प्रयत्न किया गया था, जिसमें इनकी एक शक्ति प्रकट हुई थी। उनके हाथ में काले ही बने रहे। इनकी कन्या का नाम वैषणानी तथा पुत्रों का नाम शंभु और अमर मिलता है। शुद्धस्त्री के पुत्र बचने इनसे संतोषनी विद्या लीनी था।

शूरसेन-मथुरा के एक प्रसिद्ध बहुवंशी महाराज, जो कृष्ण के पितामह तथा वसुदेव के पिता थे।

शूर्पणखा-रावण की बहन। इसके मय रूप स्त्री-मूर्ति होने का उल्लेख मिलता है और कहा जाता है कि इसी से इसका नामकरण शूर्पणखा हुआ था। जिस समय रामचंद्र, सीता तथा लक्ष्मण के साथ बनवास कर रहे थे, यह राम के प्रति आकर्षित हो गई थी, और अपने उनके सम्मुख एक सुन्दरी के रूप में उपस्थित होकर विवाह का प्रस्ताव रक्खा था। राम के अस्वीकार करने पर यह लक्ष्मण के पास गई थी, किंतु उन्होंने फिर ऐसे राम के ही पास भेज दिया था। अंत में रामचंद्र ने इसकी बातों से मुकलाकर लक्ष्मण से इसके नाक-कान कटवा लिए थे। अपनी यह दुर्दशा कराकर यह पर तथा दूषण नामक दो राजसों के पास, जिन्हें रावण ने भारत भूमि के दक्षिणी भाग में अपनी लंका की रक्षा के लिए रख छोड़ा था, गई। रामचंद्र से जब यह दोनों राजस लपने के लिए आये तो उन्होंने इनका पथकर डाला। शूर्पणखा उसके बाद अपने भाई रावण के पास गई और उसने सीता के सौंदर्य का वर्णन उसके सम्मुख किया। इसी के कहने पर रावण ने सीताहरण किया था।

शृंगी-प्रसिद्ध ऋषि शमीक के पुत्र। दे० 'शमीक'।

शेष-एक सर्पराज, जिनके महान् पापों पर पृथ्वी के विधत होने का उल्लेख मिलता है। वास्तुकि तथा तक्षक के साथ इन्हें भी रुद्र का पुत्र कहा जाता है। इन्हें ज्ञान का अधि-प्राता माना जाता है और यह भी उल्लेख मिलता है कि इन्होंने ऋषि गर्ग को ज्योतिष विद्या की शिक्षा दी थी। पाताल में इनका निवास-स्थान माना जाता है। कुछ स्थानों पर इनका उल्लेख पाताल के अगिराज के रूप में भी मिलता है। लक्ष्मण तथा बन्धुरान इनके अन्तार माने जाते हैं। विष्णु भगवान् शरणागर में इन्हीं की सेवा पर शयन करते हैं।

शैलक-शुकदेव ने अपनी भागवत कथा का ज्ञान मुनि शैल शैलकों को दिया था। अठारसी महान् शैलकों में ये सबसे प्रसिद्ध थे।

श्री संप्रदाय-एक वैष्णव मत जिनके संस्थापक स्वामी रामानुज थे।

श्रीदामा-हृण्य का एक मन्त्र।

श्रीधर (स्वामी)-प्रसिद्ध वैष्णव भक्त। इन्होंने भगवान् की विराट टीका की। दे० 'भागवत'।

श्रीरंग-प्रसिद्ध वैष्णव भक्त और शैलान महाप्रभु के प्रमुख शिष्य।

पटवांग-प्रवाद के मय का नाम। ये देव-पुत्र कृष्णदादे के पुत्र थे। प्रवाद को इन्होंने ही भक्ति का पाठ बताया था। पटवांग-पुत्र प्रसिद्ध मूर्धन्य राजा। अपने समय में अद्वितीय राजा थे। देवतायुग संतान में इन्होंने ही ही वनापना की थी। इंद्र ने प्रकट ही इनसे कर लीये की वहा। इन्होंने अरि-राजनी काय्य किया है।

कि केवल दो मुहूर्त है। उन्होंने कहा कि मुझे आप मेरे घर भिजना दें। एक ही मुहूर्त में वे घर पहुँचा दिये गये और दूसरी ओर मुहूर्त हरि-भजन में लगा दिया। इससे इन्हें परमपद की प्राप्ति हुई।

संकर्षण-रोहिणी के गर्भ से उत्पन्न होनेवाले वसुदेव के ज्येष्ठ पुत्र तथा कृष्ण के बड़े भाई। मथुरा से वसुदेव के द्वारा भेजे हुए ब्राह्मण गर्ग ने अग्निहोत्र के बाद इनका यह नामकरण किया था। दे० 'गर्ग' तथा 'वलराम'।

संख-प्रसिद्ध ऋषि। ये एक धर्मशास्त्र-लेखक थे।

संजय-महर्षि व्यास के शिष्य, कौरवराज धृतराष्ट्र के मंत्री तथा पुरोहित। इनको दिव्य दृष्टि प्राप्त थी, जिससे इन्होंने महाभारत-युद्ध देखा और देखते समय ही कथा के रूप में उसे धृतराष्ट्र को सुनाते गये।

संतदास-एक प्रसिद्ध वैष्णव-भक्त कवि। इनकी कविता सूर के समान कही गई है। इनका जन्म विमलानंद जी प्रबंधक के वंश में हुआ था।

संदीपनसुत-संदीपन के पुत्र। गोकुल में इनकी एक पाठशाला थी। वहाँ बलराम और कृष्ण पढ़ते थे।

संपाती-एक गृध्र, जो जटायु का बड़ा भाई था। दोनों भाई सूर्य के पास तक उड़ना चाहते थे, किन्तु बीच में ही पंख इनके जल गये। संपाती समुद्र के किनारे रहता था। अंगद हनुमान आदि को इसने सीता का पता बताया था।

सतरूपा-स्वार्थभुव मनु की स्त्री। बहुत दिन तक स्वर्ग में रहने के उपरांत ये त्रेता में रामचन्द्रजी की जननी कौशल्या के रूप में प्रकट हुईं। दे० 'कौशल्या'।

सती-दक्ष प्रजापति की सात कन्याओं में से एक। यह शिव को व्याही गई थीं। दक्ष ने अपने यज्ञ में शिव को बलि नहीं दी। इस अपमान से सती ने अपने प्राण त्याग दिये। दूसरे जन्म में ये हिमालय की पुत्री होकर जन्मीं। और शिव के लिये घोर तप किया। अन्त में शिव से ही इनका व्याह हुआ। दे० 'पार्वती'।

सत्तम-भागवत की कथा में शुकदेव ने परीक्षित को स्थान-स्थान पर इसी संज्ञा से संवोधित किया है। अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु के यह पुत्र थे।

सत्यवती-व्यास की माता और पाराशर की प्रेयसि। यह एक धीवर की परम सुंदरी कन्या थीं। एक बार नदी पर ये अकेले ही थीं। संयोग से पाराशर ऋषि उधर से आ गये। वे इन्हें देखकर मोहित हो गये और रति की याचना की। शाप के डर से सत्यवती ने स्वीकार किया। उस गर्भ से व्यास की उत्पत्ति हुई। सत्यवती को चिर-कौमार्य का व्रत मिला था। इनका अन्य पर्याय 'मत्स्योदरि' है। दे० 'व्यास'।

सत्यव्रत-१. सातवें मनुका नाम। २. इक्ष्वाकुवंशी हरिश्चंद्र के पिता। इन्हीं का नाम वेधा और त्रिशंकु है। वसिष्ठ के पुत्रों ने इन्हें चांडाल होने का शाप दिया, किन्तु विद्वामित्र ने मुक्त कर दिया। ये सखीर स्वर्ग जाना चाहते थे। त्रिवामित्र ने भेज भी दिया किन्तु देवताओं ने विरोध किया और इन्हें विद्वामित्र निर्मित नक्षत्रलोक में आवास पातान के बीच में रहना पड़ा, जहाँ इनके

पैर ऊपर की ओर और सिर नीचे की ओर कहे गए हैं इनकी कथा महाभारत, हरिवंश तथा भागवत आदि में कुछ भिन्न करके दी गई है।

सदना-एक प्रसिद्ध वैष्णव संत कवि, जो जाति के कसाई थे। ये सदैव शालिग्राम की वटिया से मांस तौलते थे। ये परम भक्त थे। कहा जाता है कि जगन्नाथ जी ने इनके लिये पालकी भेजी थी।

सनंदन-ब्रह्मा के एक मानस पुत्र। दे० 'सनक'।

सनक-ब्रह्मा के मानस पुत्र। इनके साथ ब्रह्मा के तीन अन्य पुत्रों का नाम लिया जाया है—सनंदन, सनातन तथा सनत्कुमार। इनमें से अंतिम सबसे अधिक विख्यात हैं। इनके संबंध में उल्लेख मिलता है कि ब्रह्मा ने इन्हें प्रजापति बनाने के लिए उत्पन्न किया, किन्तु अपने जन्म के बाद ही सभी भाई भगवान् की उपासना में निरत हो गये, जिससे ब्रह्मा को अन्य पुत्रों की उत्पत्ति करनी पड़ी। इनके परम ज्ञानी तथा विष्णु के सभासद होने का भी उल्लेख मिलता है। सनत्कुमार के संबंध में यह भी कहा जाता है कि इन्होंने कुछ समय के लिए प्रजापति का आसन ग्रहण किया था और पहले प्रजापति थे।

सनकादि-ब्रह्मा के चार मानस पुत्र सनक, सनंदन, सनातन तथा सनत्कुमार। ये एक ही आयु के हैं और सदैव एक ही साथ रहते हैं।

सनकादिक (संप्रदाय)-स्वामी निम्बार्क द्वारा प्रवर्तित एक प्रसिद्ध सम्प्रदाय का नाम। निम्बार्क सनकादिक के अवतार माने जाते हैं। इसी से इसका यह नाम है। दे० 'निम्बार्क'।

समुद्र-भू-मंडल पर स्थित जल भाग के प्रतीक-स्वरूप स्वीकृत देवता। रामायण में इनके संबंध में यह उल्लेख मिलता है कि रामचंद्र ने वानर तथा भल्लुकों को लंका जाने के लिए मार्ग देने की इनसे प्रार्थना की थी। किन्तु जब यह उसे अनसुनी कर रहे थे तो उन्होंने इनके ऊपर वाण-चर्पा की थी; जिससे विचलित होकर यह राम के सम्मुख प्रकट हुए थे और इन्होंने नल तथा नील के स्पर्श से पथरों में जल के ऊपर रहने की शक्ति आ जाने का वचन दिया था तथा उनके द्वारा मार्ग बनवाने का परामर्श दिया था। उसी के अनुसार रामचंद्र ने रामेश्वरम् से लंका तक सेतु बनवाया था। प्राचीन साहित्य में समुद्रों की संख्या सात मिलती है। उनकी उत्पत्ति के संबंध में कथा है कि एक बार कृष्ण अपनी स्त्री विरजा के साथ बैठे हुए थे। उसी समय उनका एक पुत्र रोने लगा। विरजा को चुप कराने के लिए उसके पास जाना पड़ा। कृष्ण उसके जाते ही उठकर राधिका के यहाँ चले गए। विरजा को जब यह ज्ञात हुआ तो उसने अपने समस्त पुत्रों को शाप दे डाला कि अगले जन्म में तुम लवण समुद्रों के रूप में उत्पन्न हो। यही कालांतर में सात समुद्रों के रूप में अवतरित हुए।

सरस्वती-वेदों में नदी के रूप में इनका उल्लेख मिलता है, किन्तु कुछ स्थानों पर देवी के रूप में भी ये हैं। सरस्वती नदी की स्थिति आर्यों के प्राचीन स्थान ब्रह्मावर्त प्रदेश की सीमा पर थी और गंगा की



भाँति ही उनकी पूजा होती थी। नदी के रूप में यह धन-धान्य की अधिष्ठात्री देवी के रूप में स्वीकृत थी। कुछ मंत्रों में दृढा तथा भारती के साथ इनका नाम तीन प्रधान यज्ञ-देवियों में भी मिलता है। वाजसनेयी संहिता के आधार पर कहा जाता है कि वाचा देवी के द्वारा इन्होंने इंद्र को शक्ति प्रदान की थी। बाद के साहित्य, ब्राह्मण-ग्रंथों तथा पुराणों में सरस्वती स्वयं वाग्देवी हो गई है। अपने इसी रूप में उन्होंने संस्कृत भाषा तथा देवनागरी अक्षरों का निर्माण किया था। अपने अनिम रूप ज्ञान तथा विज्ञान की अधिष्ठात्री देवी के रूप में ये आज विख्यात हैं। सरस्वती ब्रह्मा की पुत्री तथा पत्नी दोनों ही मानी जाती हैं। महाभारत में एक स्थान पर इन्हें दक्ष प्रजापति की कन्या भी कहा गया है। पंग-भूमि में वैष्णवों में यह कथा प्रसिद्ध है कि पहले यह विष्णु की स्त्री थी; किंतु विष्णु ने लक्ष्मी के साथ इनका प्रतिदिन का ऋगदा देखकर इन्हें ब्रह्मा को दे दिया था और उन्होंने इन्हें अपनी स्त्री के रूप में स्वीकार कर लिया था। नदी के रूप में आज इनकी धारा का लोप हो गया है।

सवरी (शवरी)—सवरी भित्तनी की राणना भगवान् के प्रमुख भक्तों में की जाती है। बाल्यावस्था से ही यह धार्मिक प्रवृत्ति की थी। शय्यागतों का स्वागत सर्वदैव सुंदर मीठे फलों से करती थी। वनवास के समय राम-लक्ष्मण इनके यहाँ पधारे। सवरी ने मीठे-मीठे बेर खिलाये जिन्हें पहले ही वह पीस लिया करती थी। राम इससे बहुत प्रसन्न हुए और उसे परम धाम दिया। कहा जाता है कि द्वार में यही कुब्जा नामक दामी हुई थी।

सहस्रबाहु (सहस्रबाहुं)—हृदयवंशी महा प्रतापी राजा। इनके पिता का नाम कृतवीर्य था। दत्तात्रेय की उपासना से इन्हें सहस्रबाहु होने का और शपराजेय होने का वर मिला था। इन्होंने चिरयौवन प्राप्त कर ८५००० वर्षों तक राज्य किया था। लंकेश रावण को दीर्घकाल तक इन्होंने कारागार में रखा था। ये जमदग्नि की कामधेनु लेना चाहते थे, इससे परशुराम ने इनका वध किया।

सहस्रानन-दे० 'बासुकी' तथा 'शेष'।

सहस्राजिन—यह महाराज कृतवीर्य का पुत्र था। इसकी राजधानी माहिलनी थी। एक बार जब यह अपनी पत्नियों सहित नर्मदा में जलक्रीडा कर रहा था, इसने अपनी मह्य भुजाओं से नदी के प्रवाह को रोक लिया था। रावण पाम ही फलों निय की पूजा कर रहा था। नदी की धारा के रुक हो जाने से उमरता ध्यान भंग हो गया और उमरता कारण जगत होने पर यह सह-सार्जुन के साथ युद्ध करने की उपाय हो गया और सह-सार्जुन ने अपने पराक्रम से उसे पराजित किया। एक बार सहस्राजिन ने जमदग्नि के स्तम्भ में उपस्थित होकर शक्ति की अनुभवधिति में उनकी कामधेनु को (अपने कर्णों से जाने का प्रयत्न किया था। जब जमदग्नि के पुत्र परशुराम को इसकी खबर माला से यह समाचार मिला तो उन्होंने कामधेनु को लेकर जाले हुए सहस्राजिन से युद्ध

किया था और उसकी सह्य भुजाओं को काटकर उमरता वध कर टाला था।

साहसाती-शनि की एक अनिष्टकारी प्रकृष्टता जिसका व्याप्ति-काल साढ़े सात वर्षों का होता है।

सारीरामदास—एक प्रसिद्ध वैष्णव भक्त। अनंतानंद के सात शिष्यों में से एक।

सिलापिल्ले-शालिग्राम की कल्पित मूर्ति का नाम। एक बार एक राजा की कन्या और एक पटोसी की कन्या ने राज पुरोहित को शालिग्राम की पूजा करते देव उनसे शालिग्राम को माँगा। पुरोहित ने पाल में पड़े दो पत्थर के गोल-गोल टुकड़े दे दिये और कहा कि ये 'सिलपिल्ले' भगवान हैं। कन्याओं ने उन्हीं की पूजा की जिससे उन्हें भगवान के दर्शन हुए।

सीता-राम की पत्नी, राजा जनक की कन्या तथा लव-कुश की माँ। राम की उपासना के साथ सर्वदैव सीता का नाम लगा रहता है। इन्हें लक्ष्मी का अवतार माना जाता है। जनक के हल जोतने से ये पृथ्वी के निकली थीं। एसी-लिए इनका एक नाम भूमिजा भी है। जनक ने 'धनुष-यज्ञ' करके 'स्वयंवर' में शिव के धनुष तोड़नेवाले राम के साथ सीता का ब्याह कर दिया। ब्याह के कुछ दिनों के बाद सीता राम के साथ चन गईं। वहाँ रावण द्वारा उनका हरण हुआ। अन्त में वानरों की सहायता से राम ने रावण का वध किया और शक्ति-परीक्षा लेकर सीता को स्वीकार किया। किन्तु शत्रोप्याचारी नहीं चाहते थे कि राम भार्या-रूप में सीता को स्वीकार करें। लाचार होकर राज्यधर्म पावन के लिए इन्हें गर्भरथी सीता का परित्याग करना पड़ा। चाणूनी के आश्रम में सीता का निवास हुआ। वहाँ कुश लव की उत्पत्ति हुई। लव-कुश ने शत्रुसेध के समय राम-सेना का परामर्श किया। अंत में राम स्वयं सीता को प्रार्थन करने के लिए बाल्मीकि आश्रम में गये, किंतु उन्हीं समय सीता भूमि में लीन हो गईं। दे० 'राम', 'कुश' तथा 'लव'।

सुंद सुंद और उपसुंद दोनों भाई थे और निरुद नामक देव के पुत्र थे। इनका जन्म त्रिस्त्याघ के यंत्र में हुआ था। इन दोनों ने तपस्या करके ब्रह्मा से यह परधान ले लिया कि इन्हें कोई मार न करे। ये ही एक दूसरे को मार मरते थे। जब पृथ्वी पर ये बहुत शय्याधार करने लगे तब ब्रह्मा ने एक पुत्र सुन्दरी की 'निकोमता' की सृष्टि की। उसे देव दोनों ही मोहित हो गये और दोनों ही उसके लक्षिणरी करने की इच्छा से मर गये। दे० 'निकोमता' तथा 'प्रवर्धित्य'।

सुनानंद-१. रामानंद की शिष्य परम्परा में एक प्रमुख महापीठ। ये परम भक्त थे। रामानंद ने इन्हें शिव-योग का संस्कार माला है। २. एक प्रसिद्ध वैष्णव भक्त तथा कवि। ये महाद्व पदोपकारी थे।

सुग्रीव मूर्य के पुत्र, प्रसिद्ध पाण्डु शि काशिक के अनुभू, शिष्य के साथ तथा राम के मित्र ही भक्त। सीता-राम के बाद राम ने सुग्रीव से निकल कर, कर्णिक का किया और महान सुग्रीव की पत्नी हुई। राम-रा...

सुग्रीव ने राम की बड़ी सहायता की थी। दे० 'बालि', 'तारा' तथा 'अंगद'।

सुद्युम्न-मनु के पुत्र। पहले मनु की स्त्री श्रद्धा से इला नाम्नी कन्या के रूप में उत्पन्न हुए थे, किंतु बाद में वसिष्ठ की कृपा से सुद्युम्न हुए। कहा जाता है कि एक बार सब देवता शिव के दर्शन को गये। उस समय गौरी विवसना थीं। सबको देख लज्जावश वे शिव से चिपट गईं। इस परिस्थिति से बचाने के लिए शिव ने यह वर दिया कि जो भी उस क्षेत्र में जायगा, स्त्री हो जायगा। देवयोग से सुद्युम्न वहाँ पहुँचे और स्त्री हो गये। स्त्री रूप में चंद्रमा के पुत्र बुध से इनका प्रेम हुआ और दोनों के संयोग से महाप्रतापी राजा पुरुवरवा की उत्पत्ति हुई। अंत में राजा अपने स्त्री रूप से थक गये। वसिष्ठ से प्रार्थना की। बहुत प्रयत्न करने पर शिव ने कहा कि ये एक महास्त्री और महापुरुष रहेंगे। दे० 'मनु', 'पुरु-रवा' तथा 'उर्वशी'।

सुधन्वा-प्राचीन राजा हंसध्वज अथवा नीलध्वज के पुत्र और सुरथ के सगे भाई। अर्जुन के साथ युद्ध करने की इनको पिता ने आज्ञा दी; किंतु अतुलनाता स्त्री की अभिलाषा पूर्ण करने में इन्हें विलम्ब हो गया जिससे पिता ने इन्हें जलते तेल के कड़ाहे में छोड़वा दिया था। अर्जुन के साथ युद्ध करते हुए ये वीरगति को प्राप्त हुए।

सुनंद-गोकुल का एक वृद्ध गोप।

सुनीति-राजा उत्तानपाद की रानी, विख्यात बाल भक्त ध्रुव की माँ। इनकी पत्नी का नाम सुरुचि था। अपनी सौतेली माँ से अपमानित हो बालक ध्रुव ने पूछा, 'मेरे पिता कहाँ हैं?' सुनीति ने 'कहा जंगल में।' उसी समय से ध्रुव ने जंगल की राह ली। अंत में भगवान् का उन्हें दर्शन हुआ। उत्तानपाद ने अन्त में ध्रुव से, और सुनीति से क्षमा माँगी। दे० 'उत्तानपाद' तथा 'ध्रुव'।

सुबाहु-१. एक प्रसिद्ध व्रजवासी गोप। कृष्ण के प्रिय सखा। २. मथुरा के राजा शत्रुघ्न का नाम भी सुबाहु था। ३. धृतराष्ट्र के एक पुत्र का नाम।

सुमंत्र-राजा दशरथ के प्रसिद्ध मंत्री का नाम।

सुमित्रा-दशरथ की रानी तथा लक्ष्मण और शत्रुघ्न की माँ।

सुरसा-एक राक्षसी। इसने हनुमान को निगल जाने का प्रयत्न किया था।

सुरुचि-उत्तानपाद की एक स्त्री का नाम। ध्रुव को राजा की गोदी में बैठा देख डाह के कारण उसे गोदी से उन्हाँ-ने उतरवा दिया था। अपमानित ध्रुव अपनी माँ के कहने से तपस्वी बने। दे० 'ध्रुव', 'सुनीति' तथा 'उत्तानपाद'।

सुपेण-रावण के प्रसिद्ध राजवैद्य। लक्ष्मण के शक्ति लगने पर इन्होंने ही संजीवनी वृद्धि बताई थी, जिसे हनुमान लाये थे।

सूत-शाब्दिक अर्थ है पुराणवक्ता। सबसे अधिक प्रसिद्ध सूत लोमहर्षि हुए हैं। ये महाभारत के कर्ता महर्षि व्यास के शिष्य थे। इनके संबंध में उल्लेख मिलता है कि इन्होंने नैमिषारण्य में ऋषियों को समस्त पुराण सुनाये थे।

सूरश्याम-सूरदास के पर्याय के रूप में प्रयुक्त शब्द। कुछ विद्वान् इस नाम के पदों को सूरदास कृत नहीं मानते। सूर्य-दिन में आकाश में स्थित होकर अपना प्रकाश विकीर्ण करनेवाले गोलक के प्रतीक-स्वरूप स्वीकृत एक देवता। वैदिक त्रिदेवों में अग्नि और इंद्र के साथ इनका नाम आता है। यह प्रकाश तथा ताप विकीर्ण करनेवाले स्वीकृत हुए हैं और इनके उल्लेखों में यथार्थ से अधिक कल्पना को प्राधान्य दिया गया है। कुछ स्थानों पर आदित्य के साथ इनके व्यक्तित्व को एक कर दिया गया है। एक स्थान पर ऊषा का उल्लेख इनकी स्त्री के रूप में मिलता है किंतु दूसरे मंत्र में इन्हें ऊषा-पुत्र कहा गया है। ऋग्वेद में इनके सात अश्वों के रथ पर धावित होने का उल्लेख मिलता है। बाद के साहित्य में सूर्य की कई स्त्रियों के होने का उल्लेख मिलता है, किंतु उनके पुत्र अश्विनीकुमारों का जन्म अश्विनी नामक एक अक्षरा से कहा गया है। रामायण तथा पुराणों में कश्यप तथा अदिति के पुत्र के रूप में सूर्य का उल्लेख है, किंतु एक स्थान पर उन्हें ब्रह्मा का पुत्र कह कर भी संबोधित किया गया है। उनकी स्त्री का नाम संज्ञा मिलता है, जिसके गर्भ से उनके दो पुत्र तथा एक पुत्री हुई थी-मनु वैवस्वत, यम और यमुना। यही यमुना आगे चलकर नदी के रूप में अवतरित हुई। विश्वकर्मा की पुत्री संज्ञा ने तीन संतानों की उत्पत्ति के बाद भी अपने स्वामी सूर्य की भोग-लिप्सा को पूर्ण न होते हुए देखकर वन की यात्रा की थी और वहाँ एक अश्विनी का रूप धारण कर कठोर तपस्या में लीन हो गई थी। एक दिन पास से जाते हुए सूर्य ने अपनी स्त्री को उस रूप में भी पहचान लिया था और उससे संभोग में रत हो गए थे। इसी के फल स्वरूप कालांतर में अश्विनकुमारों का जन्म हुआ था। उसके बाद सूर्य अपनी स्त्री को अपने शुद्ध रूप में घर ले आए। रामायण में सुग्रीव तथा महाभारत में कर्ण के सूर्य-पुत्र होने का उल्लेख मिलता है।

सेतुबंध-रामेश्वर नामक एक तीर्थ का नाम जहाँ पर वनवासी राम ने वानरों की सहायता से सागर पार किया था।

सेन-१. रामानंदी संप्रदाय के प्रसिद्ध संत कवि। नाभा जी के अनुसार ये भीष्म के अवतार थे। इनके पद 'संत-वानी' में संकलित हैं। २. एक संत कवि जो जाति के नाई थे। बघेल वंश के राजा वीरसिंह के यहाँ ये तेल की मालिश करते थे। एक बार अतिथि सत्कार से कारण इन्हें मालिश करने में देर हो गई। भगवान् स्वयं सेन का रूप धर मालिश कर गये। सेन के छाने पर रहस्य खुला तो राजा ने इन की पगधूलि ली। इन्हें सेना भी कहा गया है।

स्कंदपुराण-अष्टादश महापुराणों में से एक। श्लोक-संख्या ८१००० और प्रकृति तामसी कही गई है। अलग-अलग संकलित रूप में न मिलकर यह अंशों में मिलता है। 'काशीखंड' इसका महत्वपूर्ण अंश है। यह मुहम्मद गजनवी के आक्रमण के पूर्व रचा गया होगा। स्मृति-हिन्दुओं के धर्मशास्त्र जिनमें कर्मकाण्ड का विशेष

वर्णन है। मनुस्मृति स्मृतियों में प्रधान है। इनके बाद पाराशर और याज्ञवल्क्य की स्मृति महत्वपूर्ण हैं। इन तीनों में यत्र-तत्र मतभेद है। स्मृतियों की संख्या १८ कही गई है।

स्वर्ग-देवलोक। इसकी स्थिति आकाश में सूर्यलोक से लेकर ध्रुवलोक तक मानी जाती है। कुछ स्थानों पर इसे सुमेरु पर्वत पर भी स्थित कहा गया है। यह प्रधान-रूप से देवताओं का निवास-स्थान माना जाता है तथा यह भी कहा जाता है कि इस संसार में जो पुण्य और सकर्म करता है, उसकी आत्मा मृत्यु के बाद इसी लोक में जाकर निवास करती है। प्राचीन काल में मनुष्य के समस्त पुण्य कार्यों का उद्देश्य स्वर्ग-प्राप्ति ही समझा जाता था। यहाँ रहने की श्रवधि प्राणी के पुण्य कर्मों पर निर्धारित होती है। उसके पूर्ण होने पर वह फिर कर्मानुसार शरीर धारण करता है। यही क्रम उस समय तक चलता रहता है जब तक वह पूर्ण रूप से मुक्त होकर स्वयं भगवान् में लीन नहीं हो जाता। स्वर्ग सुंदर वृक्षों, मनोहर वाटिकाओं तथा श्रवणराशियों का निवास-स्थान माना जाता है। श्रावणिक बुद्धिवादी व्यक्ति इसे पूर्ण-रूपेण मनुष्य की एक कल्पना के रूप में स्वीकार करते हैं।

स्वायंभुव-भागवत के अनुसार सृष्टि के चार आदि मनु माने गये हैं। प्रथम का नाम स्वायंभुव है। इनकी माता गायत्री हैं। ये ब्रह्मा के मानस पुत्र और मानव जाति के जनक हैं। प्रत्येक कल्प में चौदह मनु उत्पन्न होते हैं—स्वायंभुव, स्वारोचिष, औत्तमी, तामस, रैवत, चापुष, वैवस्वत, सार्वणि, देवसार्वणि, रौच्य, धर्म सार्वणि, रुद्र-सार्वणि, दक्षसार्वणि तथा इंद्रसार्वणि। कहा जाता है कि इस समय वैवस्वत मनु की प्रजा का युग चल रहा है जो सप्तम मनु हैं। कई मनुष्यों का हिंदू धर्म शास्त्रों में वर्णन है। सबका इतिहास कुछ ऐसा मिल गया है कि कौन मनु क्या है, यह निश्चय करना कठिन प्रतीत होता है।

हंस-विष्णु के चौबीस अवतारों में से चौदहवाँ अवतार। यह अवतार महाभारत में हुआ था।

हनुमान-संजना के गर्भ से उत्पन्न पवन के पुत्र। यह प्राचीन साहित्य में कवि रूप में स्वीकृत हुए हैं। सुग्रीव जब अपने बड़े भाई वालि से पराजित होकर तिरिकया पर्वत में अपने सैन्य सहायियों को लेकर रहते थे तो यह भी उन समय उन्हीं के साथ था। इन्होंने ही रामचंद्र तथा सुग्रीव की मित्रता कराई थी। सीता के लंका में रावण के यहाँ शूलोकानन में बंदिनी होने का समाचार इन्होंने ही रामचंद्र को दिया था। लंका में रावण के पुत्र मेघनाद ने उन्हें बंदी भी कर लिया था, किंतु रावण-भूत होने के कारण उन समय से राजनीतिक विधान से उन्हें प्राण्डंत नहीं दिया गया था। इनकी पूँट में बरना लपेटकर लाम लामा ही गई थी। यह प्रसिद्ध है कि अपनी इस लपटाई पूँट से इन्होंने बंदा-रहल किया था। रामचंद्र ने सीता की मुक्ति के लिए उनसे रा

पर श्राक्रमण किया था तब इन्होंने बड़ी वीरता के साथ राक्षसों के साथ युद्ध किया था। मेघनाद के शक्ति-प्रहार से जब लक्ष्मण मूर्च्छित हो गये थे तब इन्होंने ही एक रात में हिमालय से संजीवनी श्रावधि लाने का कार्य सोंपा गया था। राम के प्रति इनके हृदय में अनन्य भक्ति थी। भरत के संबंध में भी इन्होंने सुना था कि वह भी अपने बड़े भाई राम के अनन्य भक्त हैं। उसी के परीक्षण के लिए हिमालय से लौटते हुए यह श्रवणिया में भी गये थे। फिर भी प्रातःकाल के पूर्व ही इन्होंने संजीवनी श्रावधि लंका में लाकर उपस्थित कर दी थी। रावण-वध तथा सीता की मुक्ति के बाद रामचंद्र के साथ यह भी पुष्पक विमान पर बैठकर श्रवणिया घाये थे। रामचंद्र ने जब श्रवणमेघ यज्ञ किया था तो यह भी श्रवण के साथ देश-विदेश गये थे। लव-कुश के सम्मुख लक्ष्मण के साथ इन्होंने भी पराजित होना पड़ा था। राम तथा सीता के चित्रों में इन्होंने प्रधानतः उनके चरण धोते हुए देखा जाता है। महाभारत में अर्जुन के रथ की ध्वजा धारण करने के कार्य में इन्होंने संलग्न देखा जाता है। ये महावीर हैं और परशुराम, श्रवणवामा, विभीषण आदि के साथ आज भी जीवित माने जाते हैं।

हयग्रीव-भागवत के प्रनुसार हयग्रीव विष्णु के अवतार थे। इनका वध विष्णु भगवान् ने महाभारत के लोकर किया और वेदों का उद्धार किया। दे० 'मनु'

हरि-१. कवि आदि नव योगीश्वरों में से एक। २. विष्णु का तेरहवाँ अवतार जो त्रिभूत पर्वत पर हुआ था।

हरिश्चंद्र-प्रसिद्ध सूर्यवंशी राजा। अपनी सगता के लिए ये भारतीय साहित्य में प्रसिद्ध हैं। इन्होंने अपनी सारा राज-पाट विश्वामित्र को दान दे दिया था। उनकी दक्षिणा की ७०० मुद्रायें इनको खीर देने थीं। कुछ समय पश्चात् देने की प्रतिज्ञा पर इन्होंने राज्य छोड़ दिया। अंत में कोई उपाय न सोच पायीं तो एक घंटा के हाथ अपने को और एक घण्टा के हाथ अपनी गर्नी शैल्या तथा पुत्र रोहित को बेच दिया। घण्टा के घंटी रहते हुए रोहितनाथ को साँप ने घाट लिया। जब रो शैल्या शम्भान भूमि में ले आई। हरिश्चंद्र का घंटी पर पहरा था। शैल्या के पास कर देने के लिये कुछ नहीं था, अतएव वह अपनी साधी माटी, जो वह पहने थी, फाँफने को उतार हुई। यह हरिश्चंद्र की पत्नि पतिघात या अपहरण था, क्योंकि गर्नी ने राजा को पहचान कर प्रार्थना की कि पुत्र प्राप्त ही का है, और अपनी माटी फाँफने से ही बंगी हो जाऊँगी। सत्यवती राजा करने काच ने न दिने। शैल्या गर्नी फाँफने ला रही थी, कि विष्णु भगवान् प्रकट हुए। विश्वामित्र ने अपना माँगी। हरी के हाथों पर संस्तुत में घंटीनिगत नाटक की रचना हुई। हरी में भी भारतीयों ने 'नव हरिश्चंद्र' की रचना इसी अवतार पर की है।

हृदिदास (न्यायी)-१. विद्वान् योग्य भक्त, ब्रह्म तथा संगीतगायक। ये कश्मीर के महाभारत में थे। पाण्डव महाभारत के लिये निरत थे। कश्मीर भी कर्मी-कर्मों का लोभ में संभार सुनने के लिए लामनेन के साथ इसके बड़े कश्मीर

था। २. हरिदास नाम के अन्य कई वैष्णव भक्त हो चुके हैं, जिनका नाभादास जी ने उल्लेख किया है।
 हरिराम हठीले-प्रसिद्ध वैष्णव भक्त। एक बार इन्होंने भरी सभा में उदयपुर के महाराणा को फटकारा था।
 हलधर-श्रीकृष्ण के अग्रज। महाभारत के अनुसार विष्णु ने एक श्वेत और एक श्याम केश दिये थे। ये ही देवकी के कृष्ण और बलराम होकर अवतरित हुए। उत्पन्न होते ही ये यशोदा और रोहिणी के यहाँ पहुँचा दिये गये। ये कृष्ण के समान ही परम पराक्रमी थे। इनका अमोघ अस्त्र हल था। एक बार स्नानार्थ इन्होंने यमुना को अपने पास खींच लिया था। तभी से इनका नाम यमुनाभिद् हो गया। बलराम ने ही दुर्योधन और भीम को गदायुद्ध की शिक्षा दी थी। छल से दुर्योधन को मारने पर ये बहुत ही क्रुद्ध हुये थे। इनका विवाह रेवती से हुआ था। कृष्ण के पहिले ही एक वृक्ष के नीचे बैठे-बैठे इनका स्वर्गवास हुआ। महाभारत में इनका वर्णन अधिकतर मनुष्य रूप से ही है, पर भागवतादि पुराणों में ये अवतार मान लिए गये हैं। इनको लक्ष्मण का अवतार भी माना गया है।
 हारीत-१. हारीत स्मृति के प्रणेता। २. राजा युवनाश्व के पुत्र। हारीत अंगिरसों की इन्हीं से उत्पत्ति हुई। मतांतर से ये च्यवन के पुत्र थे।
 हित हरिवंश-प्रसिद्ध वैष्णव कवि और भक्त। सं० १४६६ में इनका जन्म हुआ था। इन्होंने अपना अलग सम्प्रदाय भी चलाया, जिसे 'हितसम्प्रदाय' कहते हैं। इनके पिता

का नाम केशवदास मिश्र तथा माता का नाम तारा मतीचा था। ये पहिले मध्वानुयायी गोपाल भट्ट के शिष्य थे। फिर स्वप्न में राधा से दीक्षित हुए।
 हिमगिरि-भारतवर्ष की उत्तर-सीमा पर स्थित एक पर्वत-माला। प्राचीन साहित्य में इसे पर्वत मेना अथवा मेनाका का स्वामी स्त्रीकार किया गया है। इस रूप में महादेव की अर्द्धांगिनी पार्वती इसकी पुत्री मानी जाती हैं। गंगा भी इसकी पुत्री के रूप में स्वीकृत हुई है। दे० 'गंगा'।
 हिरण्यकशिपु-कश्यप तथा अदिति का पुत्र, एक दैत्य-राज। ब्रह्मा की कठोर तपस्या से अभय प्राप्त कर इसने देवताओं को कष्ट देना आरंभ किया था तथा स्वर्ग पर भी अपना अधिकार स्थापित कर लिया था। विष्णु के प्रति इसके हृदय में बड़ा द्वेष था। संभवतः इसी की प्रतिक्रिया-स्वरूप इसके पुत्र प्रह्लाद में उनके प्रति भक्ति की भावना का उदय हुआ था। प्रह्लाद की इस प्रवृत्ति को देखकर इसने कितनी ही बार उसका वध किया था। पर अंत में विष्णु ने नरसिंह रूप में इसका वध कर डाला। दे० 'प्रह्लाद'।
 हिरण्याच-हिरण्यकश्यपु का भाई। कश्यप स्त्री दिति इसकी माता थीं। पूर्व जन्म में दोनों भाई विष्णु के द्वारपाल जय-विजय थे। सनतकुमारों के शाप से राक्षस हुए। यह पृथ्वी को लेकर ही पाताल की ओर भग रहा था। उसी समय वाराह अवतार लेकर विष्णु ने इसका वध किया।

moderate (not अन्- excessive अति)
 अनति, मध्यम
 m. demand अनति अभियाचन
 m. speed अनति वेग, मध्यम वेग
 modern आधुनिक
 modesty सतीत्व, शील
 outrage the m. of सतीत्व-नाशन,
 शीलाघात
 modification संपरिवर्तन
 modified form संपरिवर्तित रूप
 modify संपरिवर्तन करना
 modus operandi कार्य-प्रणाली
 momentarily क्षणमात्र
 momentary क्षणिक
 m. current क्षणिक वाह
 m. rest क्षणिक विश्राम
 momentum गमता
 monetary = pecuniary आर्थिक,
 मौद्रिक
 m. forms आर्थिक प्रपत्र
 m. standard मौद्रिक प्रमाण
 m. transaction=pecuniary tran-
 saction अर्थ-व्यवहार
 m. unit मौद्रिक एकक
 money मुद्रा, अर्थमुद्रा (in contra-
 distinction with नाममुद्रा 'seal')
 m. at call याचने राशि
 m. at short notice अल्प सूचना-राशि
 m. bill Parliament मुद्रा विधेयक
 m. column मुद्रा स्कम्भ
 m. cost मुद्रा परिव्यय
 m. credit मुद्रा-प्रत्यय, मुद्रा-ऋण
 m. making धनार्जन, धन कमाना
 m. market मुद्रा-विपणि
 m. material मुद्रा-द्रव्य, टंक-द्रव्य,
 टंक-धातु
 m. of account लेखाशोधन-मुद्रा
 m. order धन-श्रेय
 m. transaction मुद्रा व्यवहार, धन-

व्यवहार
 m. wages मुद्रा-भृति
 mono-key-operator एकमुद्र कुंची
 चालक
 mono-metallism एक-धातुता
 monopolise एकाधिकार करना, एकाधि-
 करण
 monopolist एकाधिकारी
 monopolistic एकाधिकृत
 m. organisation एकाधिकृत संघटन
 monopoly एकाधिकार
 m. price एकाधिकार मूल्य
 m. profit एकाधिकार लाभ
 m. return एकाधिकार प्रत्याय
 m. revenue एकाधिकार आगम
 m. value एकाधिकार अर्हा
 monotony 1 एकश्रुति (ancient word),
 एकतति (music), एकतानता (तान
 tone)
 2 अवैचित्र्य, अभिन्नता, नीरसता
 monotype एकमुद्र
 monsoon वर्षावायु, वर्षाऋतु
 monthly मासिक
 m. account मासिक लेखा
 m. register मासिक पंजी
 monument स्मारक
 moral शील
 m. abandonment दुराचार
 m. and material abandonment
 दुराचार तथा आर्थिक असंयम, आचा-
 रिक और आर्थिक असंयम
 m. restraint शील-संयम
 m. science शील-विज्ञान
 morality शील
 moratorium विलम्ब-काल, शोध-विलम्ब-
 काल
 morbid condition विकृत दशा, अस्वस्थ
 दशा
 more अधिक

m. briefly अधिक संक्षेप से
 m. complex जटिलतर
 m. convenient अधिक सुकर
 mortality मरण
 m. rate मरण अर्घ
 m. table मरण सारणी
 mortgage प्राधि, स्थावराधि (आधि is
 an ancient word)
 equitable m. न्याय्य प्राधि
 first m. प्रथम प्राधि
 land m. bank भू-प्राधि अधिकोप
 legal m. वैध प्राधि
 m. bank प्राधि अधिकोप
 m. debenture प्राधि ऋणपत्र
 m. deed प्राधि संलेख
 second m. द्वितीय प्राधि
 usufructuary m. फलोपभोग प्राधि
 (usufruct फलोपभोग)
 mortgagee प्राधिमान्
 mortgagor प्राधायक
 most favoured nation's clause
 परमानुगृहीत राष्ट्र कंडिका
 most general सामान्यतम
 most honourable परम माननीय
 motion 1 (in a Parliament) प्रस्ताव
 2 गति
 m. for consideration विचारार्थ
 प्रस्ताव
 m. moved प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ
 m. of adjournment स्थगन-प्रस्ताव
 m. of closure संवरण-प्रस्ताव
 m. of rotation परिभ्रमण-गति
 m. picture चलचित्र
 m. picture projector चलक्षेपित्र
 motive 1 गामक, प्रेरक
 2 Law प्रयोजन
 m. power गामक शक्ति
 motor (French *voiture* from Lat.
vectura a carrying, conveying fr.

Lat. *vehere* to carry, Sanskrit
 √चह् to carry) वहित्र
 m. bicycle वहित्र द्विचक्र
 m. car वहित्र रथ
 m. nerve प्रेरक चेता
 m. vehicle वहित्र-यान
 m. vehicles rules वहित्रयान नियम
 mould *vb.* (to form a mould of, as
 in sand) सांचे में ढालना
 mounted military police आरोही
 सैनिक आरक्षी, अश्वारोही सेना आरक्षी
 mounting आरोपण, आरोहण
 mouth मुंह, मुख
 m. parts मुख्वावयव
 m. piece मुख-भाग
 movable चल
 m. article चल वस्तु
 m. contact चल संस्पर्श
 m. property चल सम्पत्ति
 move *vb.* *Parliament* प्रस्ताव करना
 m. freely विना रोकटोक के आना जाना
 moved *Parliament* प्रस्तुत
 movement गति
 m. of air वायु-गति
 m. of prices मूल्य-गति
 moving गतिमान्, गतिशील, चल
 m. hospital चल रुग्णालय
 m. library चल पुस्तकालय
 m. stock चल स्क्न्ध
 Mr. श्री, श्रीयुत
 Mr. Speaker अध्यक्ष महोदय
 mudguard पंकरक्षी
 multiple बहु, बहुविध, गुणित, बहुगुण
 m. cost बहुविध परिव्यय
 m. cost account बहुविध परिव्यय
 लेखा
 m. legal tender बहु विधि-ग्राह्य
 m. nature बहु-स्वरूप
 m. shop system बहु विक्रयशाला-

पद्धति

- m. tax system बहु-कर-पद्धति
multiplicity वाहुल्य
multiplier गुणक
multiply गुणन
multipurpose बहु-प्रयोजन, बहुमुख
m. co-operative society बहुप्रयोजन
सहकारी समिति
m. plan बहुप्रयोजन उपक्रमा
m. project बहुप्रयोजन परियोजना,
बहुमुखी परियोजना
m. scheme बहुप्रयोजन योजना, बहु-
मुखी योजना
m. society बहुप्रयोजन समिति, बहु-
प्रयोजन मण्डली
mummy चिरशव
municipal नगर-
m. account code नगर-समिति-लेखा-
संहिता
m. board नगर-समिति
m. committee नगर-समिति
m. corporation नगर-निगम
m. limits नगर-समिति सीमा
m. office नगर-समिति कार्यालय
m. rates नगर-समिति कर
municipality नगर-समिति
murder वध
murderer वधकारी

- muscular activity पेशी क्रिया
museum कौतुकालय (कौतुक a thing
of curiosity, an interest)
musical संगीत-
m. studio संगीत-शाला
m. tune ताल
musician संगीतज्ञ
muster roll संनामावलि
mutation (sudden उत् change) उत्परि-
वर्तन
mutilated विकृत
m. bill विकृत विपत्र
m. cheque विकृत धनादेश
mutiny सैन्यद्रोह
revolution परिद्रोह, क्रान्ति
rebellion विद्रोह
revolt विप्लव
sedition राजद्रोह
treason अभिद्रोह
mutual परस्पर
m. annihilation परस्पर परिशून्यन
m. force पारस्परिक बल
m. help society परस्पर साहाय्य
समाज
m. life assurance परस्पर जीवन
प्रगोप
mycology (deals with fungi कवक)
कवक-विद्या

N

- nadir *Astron.* अधोविन्दु, पाद-विन्दु
naked debenture = simple debenture
अनाचृत ऋणपत्र, अप्रतिभूत ऋणपत्र
(without security)
namely (viz.) अर्थात्
narration (reason for or explana-
tion of an entry) व्याख्या
national राष्ट्रीय

- n. bank राष्ट्रीय अधिकोष
n. debt राष्ट्र-ऋण, राष्ट्रीय ऋण
n. demand राष्ट्रीय अभियाचन
n. dividend राष्ट्र-लाभांश, राष्ट्रीय
उदय, राष्ट्रीय आय (national in-
come)
n. economy राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था
n. expenses राष्ट्रीय व्यय

n. income राष्ट्र-आय, राष्ट्रीय आय
(national dividend)
n. labour राष्ट्रीय श्रम
n. market राष्ट्रीय विपणि
n. prosperity राष्ट्रीय वैभव
n. waterways राष्ट्रीय जलमार्ग
n. wealth राष्ट्रीय धन, राष्ट्र-धन
nationalism राष्ट्रीयता, राष्ट्रवाद
nationalist राष्ट्रीय, राष्ट्रवादी
nationalization राष्ट्रीयकरण
n. of banks अधिकोषों का राष्ट्रीय-
करण
n. of industries उद्योगों का राष्ट्रीय-
करण
n. of land भूमि का राष्ट्रीय-करण
nationalize राष्ट्रीयकरण
nationalized राष्ट्रीयकृत
native देशज, प्राकृत (natural)
natural प्राकृत, नैसर्गिक
n. agent प्राकृत अभिकर्ता, प्राकृतिक
अभिकर्ता
n. capital प्राकृत पुंजी
n. gas प्राकृत वाति
n. gift प्राकृत दान
n. goods प्राकृत वस्तुएं, प्राकृतिक
वस्तुएं
n. historian प्रकृति-वृत्तज्ञ
n. history प्रकृति-वृत्त
n. price स्वाभाविक मूल्य
n. rate of profit स्वाभाविक लाभअर्ध
n. resources प्राकृत संसाधन
n. science प्रकृति विज्ञान
n. system प्राकृतिक पद्धति
n. water प्राकृत जल
naturalism प्रकृतिवाद
naturalist प्राणिविज्ञ
naturalization जानपद बनाना, जान-
पद होना
naturalized जानपदभूत, जानपदकृत

nature प्रकृति, स्वभाव, स्वरूप
naval नाविक
n. attache नाविक सहचारी
n. base नाविक आस्थान
n. engineering नाविक अभियन्त्रणा
n. forces नाविक-सेना, नाविक-बल
navigable नौतार्य
n. canal नौतार्य कुल्या, नौगम्य नहर
navigation नौवहन, नौतरण
n. facilities नौतरण सुविधाएं
nazir परिसेवी, नाज़िर
N. B. अवधेय
nearest समीपतम
neat copy स्वच्छ प्रतिलिपि, स्वच्छ प्रति
neatness स्वच्छता, निर्मलता
necessaries आवश्यकताएं
n. for efficiency दक्षता के लिये
आवश्यकताएं
n. for existence निर्वाह के लिये
आवश्यकताएं
n. for life जीवन के लिये आवश्यकताएं
necessary आवश्यक
needle-shaped सूची-आकार, सूच्याकार
negative विलोम, ऋण, नास्ति-, नकारात्मक
n. attribute विलोम गुण, नास्ति-गुण
n. character नास्ति-लक्षण
n. number ऋण संख्या
n. print प्रतिच्छाया
n. probability न-संभाविता
n. quantity ऋण राशि
n. utility नास्ति उपयोगिता
n. vote नकारात्मक मत
n. work ऋण कर्म
neglect 1 n. उपेक्षा
2 vb. उपेक्षा करना
negligible उपेक्ष्य, नगण्य, उपेक्षणीय
n. weight उपेक्ष्य भार, नगण्य भार
negotiable परक्राम्य
n. instrument परक्राम्य विलेख

negotiate परक्रामण
 n. a bill विपत्र-परक्रामण
 negotiation परक्रामण
 n. of a bill विपत्र-परक्रामण
 nerve चेता
 n. centre चेता-केन्द्र
 n. impulse चेता-प्रेरणा
 nervous चेता-
 n. matter चेता-द्रव्य
 n. organ चेतांग
 net 1 n. = network = mesh = mesh-
 work जाल
 2 adj. शुद्ध, वास्तविक
 n. assets शुद्ध सम्पत्ति, वास्तविक
 सम्पत्ति
 n. circulation शुद्ध परिचलन
 n. earning शुद्ध अर्जन
 n. income शुद्ध आय
 n. interest वास्तविक वृद्धि
 n. loss शुद्ध हानि, वास्तविक हानि
 n. price शुद्ध मूल्य
 n. proceeds शुद्ध उदय
 n. produce शुद्ध उत्पाद
 n. product शुद्ध उत्पत्ति
 n. profit शुद्ध लाभ
 n. rent शुद्ध भाटक
 n. revenue शुद्ध आगम
 n. value शुद्ध अर्हा
 n. weight शुद्ध भार
 n. yield शुद्ध प्राप्ति, शुद्ध उदय
 neutral मध्यम, तटस्थ, उदासीन
 n. market मध्यम विपणि
 n. money मध्यम मुद्रा
 neutralize क्लीव बनाना, नपुंसक बनाना
 neutralized error समतुलित विभ्रम
 new नया, नवीन, नव
 n. expenditure नवीन व्यय
 n. ledger नव प्रपञ्जी
 n. partner नव भागी

nickel रूपक
 n.-plated रूपक-पट्टित
 n. silver ताम्र रूपक
 night-blindness निशान्धता, रात्रि-
 अन्धता, रतौंधी
 nihilism नाशवाद
 nihilist नाशवादी
 no admission अप्रवेश्य
 noble अभिजात
 no confidence अविश्रम्भ, अविश्वास
 no confidence motion अविश्रम्भ
 प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव
 no effects = effects not cleared द्रव्यं
 नास्ति
 noes " ना " पक्ष
 nomad यायावर
 nomadic stage यायावर-अवस्था
 nominal नाममात्र, अभिहित
 n. account, fictitious account,
 proprietary account अभिहित
 लेखा, अवास्तविक-लेखा
 n. capital अभिहित पुंजी
 n. cost अभिहित परिव्यय
 n. ledger अभिहित प्रपञ्जी
 n. partner नाममात्र का भागी
 n. price नाममात्र का मूल्य
 n. rent अभिहित भाटक
 n. value = face value अभिहित अर्हा,
 अंकित मूल्य
 n. wages रोक भृति
 nominated मनोनीत, नामनिर्दिष्ट
 nomination नामनिर्देशन
 n. paper नामनिर्देश पत्र
 nominee मनोनीत व्यक्ति, निर्दिष्ट-नामा
 non-acceptance अस्वीकृति
 non-agricultural purposes कृषिभिन्न
 प्रयोजन
 non-bailable अलगक-देय, अलगक-मोच्य
 n. offence अलगकदेय अपराध,

अलग्गक-मोच्य अपराध
 non-business days अन्व्यापार दिन
 non-cognizable असंक्षेय, अहस्तकक्षेप्य
 non-corresponding अतत्सम्बद्ध
 non-cumulative असंचयी
 n. dividend असंचयी लाभांश
 n. preference shares असंचयी
 पूर्वाधिकार अंश
 non-divisible expenditure अभाज्य
 व्यय
 non-eatable product अभोज्य उत्पाद
 non-elastic demand अप्रत्यास्थ अभि-
 याचन
 non-essential असारभूत, असारवत्
 n. services असारभूत सेवाएं
 non-fulfilment अपालन
 non-gazetted अराजपत्रित
 non-glandular अग्रन्थीय
 non-integral अपूर्णांक
 non-living निर्जीव
 n. matter निर्जीव पदार्थ
 non-magnetic अचुम्ब
 non-material अभौतिक
 non-metal अधातु
 non-metallic अधातवीय
 non-nervous अचेत
 non-occupancy right अवंशागत अधि-
 कार, अनाभोगाधिकार
 non-official विराजकीय, अशासकीय
 n. bill विराजकीय विधेयक (used in
 Bihar)
 non-payment अशोधन
 non-personal goods अवैयक्तिक वस्तुएं
 non-productive अनुत्पादी
 n. consumption अनुत्पादी उपभोग
 non-recurring अनावर्ती
 n. expenditure अनावर्ती व्यय
 non-residence अनिवास
 non-votable अमतदेय

n. item अमतदेय पद
 no-rent land अभाटक भूमि
 normal प्रसामान्य
 n. balance प्रसामान्य अन्तर
 n. demand प्रसामान्य अभियाचन
 n. distribution प्रसामान्य वण्टन
 n. equilibrium प्रसामान्य साम्य
 n. interest प्रसामान्य वृद्धि, प्रसामान्य
 व्याज
 n. price प्रसामान्य मूल्य
 n. profit प्रसामान्य लाभ
 n. trend प्रसामान्य प्रवृत्ति
 n. value प्रसामान्य अर्ही
 n. wages प्रसामान्य भृति
 normally सामान्यतः, प्रसामान्यतः
 normative currency धातु-प्रमाण
 चलार्थ
 north उत्तर
 N. Pole उत्तर ध्रुव
 notary public विपत्रालोकी
 notation संकेत
 not crossed cheque = open cheque
 अेरखित धनादेश
 note 1 टिप्पणी, टिप्पण, आलोक
 2 Music स्वर
 3 अर्थपत्र (पत्र मुद्रा paper money)
 bank n. अधिकोप पत्र (पत्र =
 अर्थपत्र)
 n. book आलोक पुस्तिका
 n. of dissent विमति टिप्पण
 n. paper आलोक पत्र
 promissory n. प्रतिज्ञा पत्र (पत्र =
 अर्थपत्र)
 noted आलोकित
 not existing अविद्यमान, अभाव
 notice n. सूचना
 n. of dishonour अनादरण-सूचना
 n. office सूचनालय
 n. of motion प्रस्ताव की सूचना

notification अधिसूचना (notification published in an official gazette) अधिसूचित क्षेत्र
 notified area अधिसूचित क्षेत्र
 n. a. committee अधिसूचित क्षेत्र समिति
 noting and protesting आलोकन तथा प्रमाणन
 noting of a bill विपत्र-आलोकन, निकराई
 notion भाव, विचार
 not less अन्यून
 not necessarily अनावश्यक, अनावश्यक-तया
 not negotiable अ-परक्राम्य
 n. n. cheque अ-परक्राम्य धनदेश
 n. n. crossing अ-परक्राम्य रेखण
 not present अवर्तमान, अनुपस्थित
 not relative निरेपेक्ष
 not subject to अनधीन
 not subject to jurisdiction अधिकार-क्षेत्र के अधीन न हो
 not transferable असंक्राम्य
 not-withstanding anything किसी बात के होते हुए भी
 n. anything to the contrary किसी बात के अन्यथा होते हुए भी

nourishment पोषाहार
 N/S (not sufficient) रा. अ. (राशिर-अपर्याप्तः)
 null and void (of no force) प्रवृत्तिहीन
 nullify 1 शून्य करना
 2 (to make or render of no value, consequence, efficacy) मोधीकरण, व्यर्थ करना, निष्फल करना, निष्प्रभावित करना
 3 (to destroy) नाशन
 null method आंभिशून्यन रीति, शून्य रीति
 null point शून्य बिन्दु
 number क्रमांक
 numbered संख्यांकित
 n. paragraph संख्यांकित कण्डिका
 numeral (a word expressing a number) संख्यापद
 numeration table संख्या-सारणी
 numerical संख्यात्मक, अंक-
 n. strength संख्यात्मक शक्ति
 numerically संख्यया, संख्यानुसार
 nurse उपचारिका
 nutrition आहारपोषण, पोषाहार, पोषण
 nutritious पोषी

○

oath शपथ
 o. of allegiance भक्ति-शपथ, अनु-पाकि-शपथ
 o. of allegiance to the Constitu- tion संविधान के प्रति अनुपाकि की शपथ
 o. of office पद की शपथ
 o. of secrecy गूढता की शपथ
 obey आज्ञा पालन करना, अनुवर्तन, पालन
 o. the condition प्रतिबन्ध पालन
 object 1 चस्तु, पदार्थ

2 उद्देश्य, प्रयोजन
 o. clause प्रयोजन-वाक्य
 objection statement आपत्ति-लेख, आपत्ति-विवरण
 objective उद्देश्य
 obligation दायित्व, भार, कर्त्व (ancient word), ऋण, कर्तव्य
 obliged to answer उत्तर देने के लिये वाध्य
 oblique तिर्यक्, तिरछा
 obliquely तिर्यकरूपेण, तिरछा

obliterate मिटाना, अभिलोपन करना
 observation अवलोक, अवलोकन
 observer अवलोकक
 obsolescence अप्रचलन, अप्रचलनोन्मुख
 obsolescent अप्रचलनोन्मुख
 obsolete अप्रचलित, गतप्रयोग
 obstacle बाधा
 obtain प्राप्त करना, पाना
 obtainable प्राप्य, सुलभ
 o. by suit at law विधि-प्राप्य
 obtuse angle अधिक कोण
 occasional आकस्मिक, कादाचनिक,
 कादाचित्क
 o. market कादाचनिक विपणि, हाट
 occupancy आभोग
 o. right वंशागत अधिकार, आभोग
 अधिकार
 occupation वृत्ति, व्यवसाय
 occupational mobility व्यावहारिक
 चलिष्णुता
 octroi द्वारादेय ('a tax levied at the
 gate of a city,' ancient word
 from राजतरंगिणी)
 o. duty द्वारादेय कर
 o. forms द्वारादेय प्रपत्र
 o. inspector द्वारादेय निरीक्षक
 o. office branch द्वारादेय कार्यालय
 शाखा
 o. superintendent द्वारादेय अधीक्षक
 odd विपम, अयुग्म
 o. number विपम क्रमांक, अयुग्म
 संख्या
 of a legal character विधिरूप
 of a public character सार्वजनिक रूप-
 चाला
 offence अपराध, दोष
 o. punishable in accordance with
 law विध्यनुकूल (यथाविधि, विध्यनु)
 दंडनीय अपराध

offensive आक्षेप
 o. expressions आक्षेप-वचन
 o. language आक्षेप-भाषा
 o. remarks आक्षेप अभ्युक्ति
 o. words आक्षेप-शब्द
 offer 1 *vb.* (propose) प्रस्ताव करना
 2 (proposal) प्रस्ताव (cf. resolution
 संकल्प)
 firm o. निश्चित प्रस्ताव
 offered = proposed प्रस्तुत
 offerer = proposer प्रस्तावक
 office 1 कार्यालय
 2 पद
 o. column कार्यालय-स्कम्भ
 o. cost कार्यालय का परिव्यय
 o. expenses कार्यालय-व्यय
 o. furniture कार्यालय-उपस्कर
 o. manual कार्यालय-पुस्तिका
 o. of profit लाभ-पद
 o. of trust विदवास-पद
 o. order book कार्यालय की आदेश
 पुस्तक
 o. under state राज्याधीन पद
 officer पदधारी, अधिकारी
 o. addressed सम्बोधित अधिकारी
 o. concerned सम्बद्ध अधिकारी
 o. in-charge प्रभारिक, प्रभारी अधि-
 कारी
 official 1 अधिकारी 2 राजकीय, शासकीय
 o. benches = treasury benches
 मन्त्रि-वर्ग
 o. business राजकीय कार्य
 o. capacity अधिकारी के रूप में
 o. designation अधिकारीय अभिधान
 o. gazette शासकीय राजपत्र
 o. list अधिकारी सूची
 o. member राजकीय सदस्य
 o. party राजकीय पक्ष
 o. receiver राजकीय प्रापक

o. residence पदावास
o. value अधिकारी मूल्य
officially connected अधिकारिरूपेण
सम्बद्ध
officiating स्थानापन्न
o. director स्थानापन्न संचालक
offspring अपत्य, सन्तान
often प्रायः
of tender age सुकुमार वयस्क
of ten years' standing दश वर्ष की
स्थिति वाला
of their choice अपनी इच्छा की
of unsound mind विक्षिप्त
O.H.M.S. सम्राट् सेवार्थ
oil तैल, तेल
o.-box तैल-घान
o. dealer तेली, तैलिक, तैल-विक्रेता
o. fields तैल-क्षेत्र, तेल क्षेत्र
o. godown तैल भाण्डागार
o. mill तैल निस्सारणी
o.- seed तैलबीज
oiled तैलित
oiler तैलद
old पूर्वतन
o. age pension वार्धक्य-उत्तरवेतन,
वृद्धावस्था का उत्तर-वेतन
omission लोप, लोपन, अकृत (I.P.C.)
error of o. लोप-विभ्रम
omit लोप करना
omitted लोपित
omnibus credit सार्वत्रिक प्रत्यय
on account of कारण से, के कारण
on approval अनुमोदनार्थ
oncost (additional cost; see Pit-
man's Business Encyclopaedia
pp. 1299, 1300) अधिव्यय
factory o. निर्माणी अधिव्यय
office o. कार्यालय अधिव्यय
selling o. विक्रयण अधिव्यय

works o. = factory o.
on demand अधियाचना पर
on duty, officer कर्तव्यस्थ अधिकारी
one man company एक जन प्रमण्डल
one per cent एक प्रतिशत
onerous tax दुर्वह कर
one who absents himself अनुपस्थायी
on ground of के आधार पर, के हेतु से
only केवल
on probation परिवीक्षाधीन
opaque अपारदर्श, पारान्ध, प्रकाशाभेद्य
open विवृत, अगुप्त
o. account विवृत लेखा
o. an account लेखा खोलना, खाता
खोलना
o. cheque = not crossed cheque
अरेखित धनादेश, विवृत धनादेश
o. circuit विवृत परिपथ
o. credit = blank credit निरंक
प्रत्यय, विवृत प्रत्यय
o. door policy विवृत द्वार-नीति
o. policy विवृत नीति
o. sea विवृत समुद्र
opening उद्घाटन, प्रारम्भण
o. balance प्रारम्भण-शेष, प्रारम्भिक
अन्तर
o. entry प्रारम्भिक प्रविष्टि
o. stock प्रारम्भण-स्कन्ध
open to the influence of प्रभाव्य,
विवृतमनस्क
opera संगीत-नाटक, संगीत-नाट्य
o. glass नाट्य दूरेक्षिका, दूरेक्षिका
operate करना, क्रिया करना
operating चालन
o. costs चालन-व्यय, चालन-परिव्यय
o. voltage क्रियाशील द्युशक्ति
operation 1 (dealing) पणन
2 (surgical) शल्यकर्म
3 *Lavo* प्रवर्तन

o. of law विधि का प्रवर्तन
o. theatre शल्यकर्म प्रकोष्ठ
operative प्रवर्ती
operator चालक, कर्ता, प्रवर्तक
opinion विचार, मत
in the o. of the state राज्य के विचार
में, राज्य के मत में
opium अहिफेन, अफीम
o. poppy अहिफेन पुष्प
opposite अभिमुख, सम्मुख, विरुद्ध,
विपरीत
o. direction विरुद्ध दिशा
o. effect विरुद्ध प्रभाव
opposition प्रतिपक्ष
optical illusion दृष्टि-भ्रम
optimism श्रेष्ठतावाद (from Lat.
optimus the best), आशावत्त्व
optimist श्रेष्ठतावादी, आशावान्
optimum अनुकूलतम
o. population अनुकूलतम जनसंख्या
o. temperature अनुकूलतम ताप
option विकल्प
call o. (option to buy) क्रय विकल्प
double o. क्रयविक्रय विकल्प, उभय
विकल्प
put o. (option to sell) विक्रय
विकल्प
single o. एकल विकल्प
oral मौखिक
order 1 आदेश
2 शान्ति-व्यवस्था
3 क्रम
o. book आदेश पुस्तक
o. cheque आदिष्ट धनादेश
o. of adjudication अभिनिर्णयआदेश
o. supplier आदेश-पूरक
orderly 1 n. आदेशवाहक, अदली
2 क्रमवद्ध
o. imagination क्रमवद्ध कल्पना

ordinance (any public enactment
promulgated by governmental
authority) अध्यादेश
ordinarily साधारणतः
ordinary साधारण
o. debt साधारण ऋण
o. force साधारण बल
o. general meeting साधारण सामा-
न्याधिवेशन
o. meeting साधारण अधिवेशन
o. partner साधारण भागी
o. resolution साधारण संकल्प
o. scale साधारण मापश्रेणी
o. share साधारण अंश
o. stock साधारण स्क्व
organ (the largest and most power-
ful musical instrument) वाद्यराज
organic evolution जैवोद्विकास
organisation संघटन, संगठन
o. of industries उद्योग-संघटन
organise आयोजन करना, संघटन करना,
संगठन करना
organised संघटित, संगठित
o. society संघटित समाज
o. structure संघटित संरचना
organiser संघटनकर्ता, आयोजक
origin मूल, उद्भव
o. of capital पूंजी का उद्भव
o. of species जाति का उद्भव
original मौलिक, मूल
o. entry मूल प्रविष्टि
o. figure मूल अंक
o. inquiry मौलिक अनुसन्धान
o. jurisdiction (as against appe-
llate) प्राथमिक अधिकार-क्षेत्र,
प्रारम्भिक क्षेत्राधिकार (of a court)
o. substantive motion मूल सार-
भूत प्रस्ताव
o. vote मूल मत

originate आरम्भण, उद्भवन, निर्माण,
 उपक्रमण
 originated उद्भूत
 ornament आभूषण
 orthodox परम्परानिष्ठ
 oscillation प्रदोल
 oscillatory प्रदोली
 ostensible partner दर्शनीय भागी
 otherwise अन्यथा
 outdoor patient बहिर्वासी रोगी, बाह्य
 रोगी
 outer बाह्य
 o. border बाह्य सीमा
 o. covering बाह्य आवरण
 o. end (of a scale) बाह्य अन्त
 o. foils बाह्य पर्ण
 outgrow उद्बर्धन
 outgrowth उद्बर्ध, उद्बर्धन (उद् out)
 outlay उद्ब्यय
 outline map वहीरेख मानचित्र
 out of date गत-काल
 out of stock स्कन्ध-निर्गत
 out of tune विसंस्वर
 output प्रदा
 o. cost account प्रदा-परिव्यय-लेखा
 outside (paper) महापरिमाण
 outstanding अदत्त, अप्राप्त, देय, प्राप्य
 o. balance अदत्त शेष
 o. claims देय अध्यर्थन, प्राप्य अध्यर्थन
 o. debt अप्राप्त ऋण
 o. expenditure अदत्त व्यय
 o. expenses अदत्त व्यय
 o. income अप्राप्त आय
 o. liability अदत्त देय
 outstandings अदत्त राशि, अप्राप्त राशि
 outward निर्गामी
 o. consignment निर्गामी परेषण
 o. freight बहिर्भाटक
 o. invoice निर्गामी वीजक

over अधि-, अति-
 over-capitalisation अधिपुंजीयन
 over-capitalised अधिपुंजीयित
 overdose अतिमात्रा
 overdraft अधिविकर्ष
 overdraw a bill विपत्र अधिविकर्षण
 overdrawn अधिकृष्ट
 overdue कालातीत, वीतकाल
 o. bill कालातीत विपत्र, वीतकाल
 विपत्र
 overestimation अध्यागणन
 overgrowth अतिवृद्धि
 overhead expenses = overhead
 charges उपरि व्यय
 overlapping अतिछादी
 overnight money निशार्थ राशि
 overpopulation अति जनसंख्या
 overproduction अध्युत्पादन (अधि +
 उत्पादन)
 overseas समुद्र-पार
 o. command समुद्रपार संवल (a
 body सं of troops बल)
 overstock अधिस्कन्ध
 overstocked market अधिस्कन्धित
 विपणि (हाट)
 oversubscribed capital अधिप्रार्थित
 पुंजी
 oversupply अधिदाय, अधिपूर्ति
 overt विवृत
 o. market विवृत विपणि (हाट)
 overtaxation अधि-कररोपण, अधिक कर-
 लगाना
 overtime अधिसमय
 overtrading अधिपणन
 overvaluation अधिमूल्यन
 overwhelm अभिप्लवन
 overwhelmed अभिप्लुत
 overwork अधिकर्म
 owe धारण करना, ऋणी होना, ऋणबद्ध

होना
own स्वामी होना
owner स्वामी

ownership स्वामित्व
oxygen जारक (from जारण oxidisation)

P

pace गति
pack, packing संवेष्टन
packages संवेष्ट
packer संवेष्टक
packet संवेष्टिका
packing संवेष्टन
p. charges संवेष्टन व्यय
p. material संवेष्टन सामग्री
pact 1 (according to Webster connected with Sanskrit पाश) पाशक
2 (to enter into a pact) पाशक करना
pad 1 (writing pad) चय, लेखन-चय
2 (ink-pad) मसी-चय
paid परिदत्त
p. in full पूर्णदत्त, परिदत्त
p. up capital प्राप्त पुंजी, परिदत्त पुंजी
p. up shares परिदत्त अंश
paint 1 n. रंगलेप
2 vb. रंगलेपन करना
pair युग्म, द्वय
palatable आस्वाद्य
palm ताल
panel तालिका
p. of chairmen सभापति-तालिका
panes = glass panes काचफलक
panic (sudden widespread fear) समुद्रग, विद्रव (running in different directions), भगदड़
paper पत्र
p. credit पत्र-प्रत्यय
p. currency पत्र-चलार्थ
p. currency reserve पत्र-चलार्थ-

संचिति
p. industry पत्रोद्योग
p. money = soft money पत्र-मुद्रा
p. rupee पत्र का रुपया
p. weight पत्र-भार
par सम
above p. अधिमूल्य पर
at p. सममूल्य पर
below p. अधिमूल्य पर
p. of exchange विनिमय समाघ
p. value सममूल्य
paradox विरोधाभास
paragraph कण्डिका
parallel समान्तर, समदिश (lying evenly everywhere in the same सम direction दिशा)
p. transverse line समान्तर तिर्यग् रेखा
parallelism समान्तरता
parallelogram समान्तर चतुर्भुज
paralysis स्तम्भ, संस्तम्भ, स्तम्भरोग
parasite परजीवी
parasitism 1 परजीविता (state of being a parasite)
2 परजीवि-संचार (infestation with parasites)
parcel पोटली, पोटलिका
p. office पोटली-कार्यालय
railway p. office संयान-पोटली-कार्यालय
parchment paper चर्मपत्र
pardon क्षमा
parent माता अथवा पिता, जनक

p. company पितृ-प्रमण्डल
 parents माता पिता
 p. tree पितृ वृक्ष
 par exchange सम विनिमय
 parity समार्हता
 p. of exchange विनिमय-समार्हता
 p. of price मूल्य-समार्हता
 parliament संसद्
 parliamentary सांसद्
 p. secretary संसत्-सचिव
 partial आंशिक
 p. endorsement आंशिक पृष्ठांकना
 partially bad debts अंशतः अप्राप्य ऋण
 particular विशेष, विशिष्ट
 p. agent विशेष अभिकर्ता
 p. case विशिष्ट दशा
 p. lien विशिष्ट ग्रहणाधिकार
 p. religion विशेष धर्म
 parties पक्ष
 partly अंशतः
 p. finished goods अर्धकृत वस्तुएं
 p. paid shares अंशतोदत्त अंश
 p. renewed अंशतो नवकृत
 partner भागी, साझेदार
 active p. सक्रिय भागी
 admission of p. भागी-प्रवेश
 death of p. भागी-मृत्यु
 dormant p. निष्क्रिय भागी
 financing p. अर्थदायी भागी
 limited p. सीमित भागी
 nominal p. नाममात्र भागी
 quasi p. नाममात्र भागी, भागिकल्प
 partnership भागिता, साझेदारी
 conversion of p. भागिता का रूपा-
 न्तरण
 dissolution of p. भागिता का
 प्रविलयन
 p. account भागिता-लेखा

p. at will यथेच्छ भागिता
 p. deed भागिता संलेख
 p. firm भागिता-सार्थ
 p. fund भागिता-प्रणीवि
 part payment अंशतः शोधन, अंश-
 शोधन
 part-time अंश-काल, अंश-कालिक
 p. courses अंशकाल पाठचर्या
 p. worker अंशकाल कर्मी
 party पक्ष, पक्षवान्, पक्षकार
 p. in power अधिकारारूढ पक्ष
 pass (as, a bill) पारण, पार होना, पार
 करना
 p. an order आदेश देना
 p. book ग्राहक-पुस्तिका
 passage 1 यात्रा, मार्ग, पथ
 2 (as, of a bill) पारण
 p. allowance यात्राधिदेय
 p. of the bill विधेयक का पार होना
 passed उत्तीर्ण, पारित
 passenger यात्री, पाथिक
 passive निष्क्रिय, अकर्मण्य, निश्चेष्ट
 (active सचेष्ट)
 p. bond (not carrying interest)
 वृद्धिहीन बन्ध
 p. existence निष्क्रिय अस्तित्व
 p. force अकर्मण्य बल
 passport पारपत्र
 pasture गोचर, चर
 p. land चर भूमि, चरी
 patent (a writing securing to an
 inventor the exclusive right to
 make use and vend his inven-
 tion) एकस्व
 p. medicine एकस्व भेषज
 patented एकस्वकृत
 p. medicine एकस्वकृत भेषज-
 paternal पैतृक
 pathological changes व्याधिकृत परि-

वर्तन
 pathology व्याधि-विद्या, व्याधिकी
 p. laboratory व्याधिकी प्रयोगशाला
 p. museum व्याधिकी कौतुकालय
 patient रोगी
 patron (protector) संरक्षक
 pattern प्रतिकृति
 p. and models प्रतिकृति तथा आदर्श
 pauper अकिंचन
 pawn आधि (ancient word)
 pawnee आधिमान्
 pawner आधायक
 pay l n. (salary) वेतन
 2 vb. शोधन करना, पटाना, चुकाना
 p. day वेतन दिवस
 p. for honour आदरार्थ शोधन
 p. in advance अग्रिम शोधन, अग्रे-
 शोधन
 p. in gross (instead of part by
 part) एकराशि-दान, संराशि-दान
 p. of establishment कर्मचारि-वर्ग
 का वेतन
 p. roll वेतन-नामावलि
 payable देय
 p. at sight दर्शने देय
 p. to bearer वाहक देय
 p. to order आदेश देय
 payee आदाता, राख्यावाला
 payee's receipt आदाता की प्राप्ति
 paying शोधन
 p. bank शोधन-अधिकोप
 p. banker शोधन-आधिकौषिक
 p.-in-slip निक्षेप-पर्णी
 p. off शोध-परिपूरण
 payment शोधन
 p. by instalments प्रभागशः शोधन
 p. for honour आदरार्थ शोधन
 p. in advance अग्रिम शोधन
 p. in kind वस्तु-शोधन

p. of compensation हानिपूर्ति का
 शोधन
 p.-side शोधन-पार्श्व
 p. voucher शोधन प्रमाणक
 peace शान्ति
 peaceably शान्तिपूर्वक
 peace and tranquility शान्ति और
 अक्षोभ
 peasant proprietorship कृषक
 स्वामित्व
 peculiar विशेष, विशिष्ट (प्रविशेष when
 necessary to be distinguished
 from 'special')
 p. modification विशेष संपरिवर्तन
 p. property विशिष्ट गुण
 peculiarity विशेषता
 pecuniary = monetary आर्थिक
 p. interest आर्थिक स्वार्थ
 p. penalty आर्थिक दण्ड, शास्ति
 p. transactions = monetary tran-
 sactions अर्थ-व्यवहार
 pedagogic method सांशैक्षिक रीति
 pedagogics = pedagogy संशिक्षा,
 सांशैक्षिकी (science of teaching)
 pedagogist संशिक्षाविद्, संशिक्षाविशेषज्ञ
 pedagogue संशिक्षक
 pedagogy = pedagogics सांशैक्षिकी
 (science of teaching), संशिक्षा
 pedigree (improved strain) अभिजाति
 p. seeds अभिजात बीज
 pedlar पादचारिक, फेरीवाला
 pegging उद्बन्धन
 p. of exchange विनिमय का उद्बन्धन
 pen लेखनी
 p. carbon लेखनी प्रांगारपत्र
 p. down strike लेखन-कर्मचिराम
 penal code दण्ड-संहिता
 penalty दण्ड, शास्ति
 pencil अंकनी

pending विचारार्थान्, निलम्बित, लम्बमान
 penetrate अन्तःप्रवेश
 penetrating power वेधि-शक्ति
 penetration वेधन, प्रवेश, घुसना
 pension उत्तरवेतन, पूर्वसेवावेतन
 p. fund उत्तरवेतन-प्रणीवि, पूर्वसेवा-
 वेतन-प्रणीवि
 penultimate उपान्त, उपान्तिम
 people's Commissar लोक प्राध्यक्ष
 per प्रति
 p. annum प्रति वर्ष
 p. capita प्रति व्यक्ति, प्रति पुरुष
 p. cent प्रति शत
 p.-centage प्रतिशतता
 p.-centage distribution प्रतिशतता
 वंटन
 p. contra अन्य पार्श्वे (on the other
 side)
 p. diem प्रति दिन
 p. head प्रति पुरुष
 p. mensem प्रति मास
 p. milli प्रति सहस्र
 p. procurationem (p. p., per pro.)
 अधिकारम् अनु (अ. अ., अधि. अनु)
 p. unit प्रति एकक
 perambulator शिशुयान
 perception of sound ध्वनि-ग्रहण
 perennial 1 (labourers) वर्ष भर काम
 करने वाले
 2 वर्षानुवर्षजीवी
 p. canal सांवत्सर कुल्या, अचिरामी
 कुल्या, अचिरामी नहर
 p. flow सदा प्रवाह
 p. industries सांवत्सर उद्योग
 perfect = complete सम्पूर्ण, परिपूर्ण
 p. correlation परिपूर्ण सहसम्बन्ध
 perfectly पूर्णतः, पूर्णतया
 perforated नालिद्रित
 performance निष्पादन

perfumer गान्धिक
 perfumery परिमल-गृह, परिमल-कला
 period युग, अवधि, घण्टा (a class
 hour), काल
 transition p. अन्तरवर्ती काल, अन्तः
 काल
 periodic 1 नियतकालिक
 2 (recurring) आवर्तिक, आवर्तीय
 periodical 1 n. पत्रिका
 2 adj. नियतकालिक
 p. settlement नियतकालिक व्यवस्था
 p. settling नियतकालिक परिशोधन
 p. statement नियतकालिक विवरण
 periodically नियतकालिक रूप से
 perishable नाश्य, नाशी
 p. goods नाशी वस्तुएं
 permanent स्थायी, अक्षय, अक्षयी
 p. advance स्थायी अग्रिम
 p. advance register स्थायी अग्रिम
 पंजी
 p. debt अक्षय ऋण
 p. endowment अक्षय नीवि (from
 कौटल्य अर्थशास्त्र)
 p. equilibrium स्थायी साम्य
 p. fund अक्षय प्रणीवि, स्थायी प्रणीवि
 p. settlement स्थायी व्यवस्था
 permission अनुमति
 permit 1 n. अनुमति-पत्र, अनुमतिक
 2 vb. अनुमति देना
 permitted अनुमत
 perpendicular लम्ब
 p. distance लम्बान्तर
 perpetual शाश्वत
 p. annuity शाश्वत वार्षिकी
 p. bond शाश्वत बन्ध
 p. debenture शाश्वत ऋणपत्र
 p. ledger शाश्वत प्रपंजी
 p. loan शाश्वत ऋण
 perquisite 1 (casual income or pro-

fit) अनुलभ
 2 (acquired otherwise than by inheritance, self-acquired) स्वर्जित
 person व्यक्ति
 p. presiding अध्यासी व्यक्ति, प्रधान-भूत पुरुष
 personal वैयक्तिक
 p. account वैयक्तिक लेखा
 p. assistant निज सहायक
 p. bond वैयक्तिक बन्ध
 p. credit वैयक्तिक उधार, वैयक्तिक प्रत्यय
 p. effects वैयक्तिक सम्पत्ति
 p. expenses वैयक्तिक व्यय
 p. explanation वैयक्तिक स्पष्टीकरण
 p. goods वैयक्तिक वस्तुएं
 p. ledger = private ledger वैयक्तिक प्रपंजी
 p. ledger account वैयक्तिक प्रपंजी लेखा
 p. pay वैयक्तिक वेतन, निजी वेतन
 p. security वैयक्तिक प्रतिभूति
 p. wealth वैयक्तिक धन
 personality व्यक्तित्व
 perspiration पसीना, स्वेद
 pertinent संगत
 perusal वाचन, परिशीलन
 pessimism (from Lat. *pessimus* worst) 1 (the doctrine that reality is essentially evil, completely evil, or as evil as it conceivably could be) पापिष्ठतावाद
 2 (a gloomy or despairing temperament) निराशावृत्ति, निराशावच
 pessimist 1 पापिष्ठतावादी
 2 निराशावृत्तिक, निराशावान्
 pessimistic निराशा-, निराशावृत्तिक
 pest विनाशी कीट
 petition 1 *rb.* याचना करना

2 *n.* याचिका (ancient word), याचना-पत्र
 petroleum मिट्टी का तेल
 petty क्षुद्र, लघु
 p. cash क्षुद्र रोक, लघु रोक
 p. cash account क्षुद्र रोक लेखा, लघु रोक लेखा
 p. cash book क्षुद्र रोक पुस्त, लघु रोक पुस्त
 p. cashier लघु रौकिक
 p. expenses क्षुद्र व्यय
 pharmaceutical भैपजीय
 pharmacist भैपजिक
 pharmacognosist भैपजज्ञानी
 pharmacognostical भैपजज्ञानीय
 pharmacognosy भैपजज्ञान
 pharmacological भैपजिकीय
 pharmacologist भैपजिकीविद्
 pharmacology भैपजिकी, भैपज-विद्या
 pharmacy भैपजालय
 phenomenon घटना
 philology 1 ("love of literature"—study of literature in a wide sense) साहित्य-विज्ञान
 2 (the science of language) भाषा-विज्ञान
 phonetics शिक्षा-शास्त्र
 phonograph ध्वनिलिख
 photo-activity भाक्रिया
 photograph भाचित्र
 photographic plate भाचित्र पट्ट
 photography भाचित्रण
 photo-printing भामुद्रण
 photo-radiogram=radio-photograph चितन्तुभाचित्र
 photo-receptive भा-ग्राही
 photo-receptor भा-ग्राही
 physical भौतिक, प्राकृतिक
 p. chemistry भौतिक रसायन

- p. drought प्राकृतिक शोष
 p. function भौतिक क्रिया
 p. geography प्राकृतिक भू-वृत्त
 p. mineralogy भौतिक खानिजी,
 भौतिक खनिज-विद्या
 p. science भौतिक विज्ञान
 physicality भौतिकीयता
 physician भिषक्, चिकित्सक
 physicist भौतिकीविद्
 physics भौतिकी
 physiocrats (they emphasize the
 necessity for governing so as
 not to interfere निर्वाधा with the
 natural laws....) निर्वाधावादी
 physiological 1 (of or pertaining
 to physiology) दैहिकीय
 2 व्यापारीय, दैहिक
 p. activity दैहिक क्रियाशीलता
 p. basis of life जीवन का देह-
 व्यापारीय आधार
 p. condition of the body शरीर की
 व्यापार-दशा
 p. nature व्यापारीय स्वरूप
 p. process दैहिकीय विधा, दैहिक विधा
 physiologist दैहिकीविद्
 physiology 1 (a science) दैहिकी
 2 (the organic processes and phe-
 nomena) देह-व्यापार, व्यापार, अंग-
 व्यापार
 piano महावाद्य, मृदुवाद्य
 picket 1 *vb.* प्रवेशरोध करना
 2 *n.* (a person) प्रवेशरोधी
 pictogram चित्र-लेख
 pictorial representation सचित्र नि-
 रूपण
 picture 1 *n.* चित्र
 2 *vb.* चित्रण करना
 piece खण्ड
 p. goods वस्त्र, खण्डवान (fabric or
 goods usually woven वान in
 and sold by pieces खण्ड)
 p. wages अनुकर्म भृति, यथाकर्म भृति
 p. work खण्ड-कर्म
 pig iron अपिधम लोहा (direct product
 of blast अपिधम furnace)
 pigment (a colouring matter) रंगा
 pilferage लघु चौर्य, छोटी चोरी
 pillar स्तम्भ, स्थूण
 pilot headings Irrigation पूर्व
 संछिद्र
 pin सूची, सुई
 p. hole सूची-छिद्र
 pioneer पथिकृत् (from ऋग्वेद)
 piracy समुद्रचौर्य, सामुद्रिक डकैती
 pirate समुद्र-दस्यु, समुद्र-चोर
 pit गर्त, गढ़ा
 pivot (that upon which something
 turns वृत्) विवर्तनी
 place स्थान
 p. and date स्थान और तिथि
 p. of birth जन्म-स्थान
 p. of public amusement लोक-
 विनोद-स्थान (विनोदस्थान ancient
 word)
 p. of public entertainment लोक-
 आमोद-स्थान, लोक-प्रेक्षा-स्थान
 p. of public resort लोक-समागम-
 स्थान
 p. utility स्थान-उपयोगिता
 p. value स्थान मूल्य
 plain समतल, सहज
 p. paper अनंकित पत्र, कोरा पत्र
 plan 1 *Engineering* अनुविशेष
 2 योजना, उपक्रमा
 plane प्रस्थ, समतल, तल
 p. angle समतल कोण
 p. of floatation प्लवन-तल
 p. of symmetry सम्मिति-तल

p. section सम छेद
 f. surface समतल, समपृष्ठ
 planet ग्रह
 planetary ग्रहीय
 planned economy योजनावद्ध अर्थ-
 व्यवस्था
 planning उपक्रमण
 p. agency उपक्रमाकारी वर्ग
 plant 1 *Mach.* संयन्त्र, स्थिरसंयन्त्र
 (fixed machinery)
 2 *Bot.* पौदा, पादप
 p. and machinery सर्वांग संयन्त्र
 plantation (a place or estate plan-
 ted) रोपस्थली
 p. industry रोपणोद्योग
 p. labour रोपण श्रमिक
 plastic (capable of being moulded,
 modelled) अभिव्यक्त्य
 p. substance अभिव्यक्त्य पदार्थ
 plasticity अभिव्यक्त्यता
 plate (sheet of paper) स्तार
 p. glass पट्ट काच
 platform मंच
 platinum महातु (महाधातु)
 platoon commander गुल्म-पति (गुल्म
 ancient word)
 plausible सत्याभ (-आम apparently)
 play of colours वर्ण लीला
 plead अभिवचन करना, समर्थन करना
 (to allege in support)
 pleader अभिवक्ता
 pleasure प्रसाद
 during the p. प्रसाद काल में
 pledge बन्धक (ancient word)
 pledgee बन्धकी
 pledger बन्धकदाता
 plentiful प्रचुर, संबहुल
 plot 1 *vb.* (i) (to mark the position
 of) प्रांकन करना

(ii) *Law* कपट प्रबन्ध करना
 2 *n.* (i) खण्ड
 (ii) *Law* कपट-प्रबन्ध
 p. of land भूमि-खण्ड
 plough हल चलाना
 plunder लूटना
 plural taxation अनेक कर
 plus युत, धन
 point अंक, बिन्दु, प्रश्न, पद
 p. of order औचित्य-प्रश्न
 pointsman = switchman संवियुत्-पुरुष
 (संवियुत्—a device for making सं-
 or breaking वि-connections युत्)
 poison 1 *n.* विष
 2 *vb.* विष देना
 poisoned विपाक्त
 p. food विपाक्त
 police department आरक्षी विभाग
 policeman = constable आरक्षी
 policy *n.* 1 *Insurance* गोपलेख (गोप
 stands both for आगोप and प्रगोप)
 2 (course adopted) नीति
 p. accident दुर्घटना-गोपलेख
 endowment p. प्राभूत गोपलेख
 fire p. अग्नि-गोपलेख
 life p. जीवन-गोपलेख
 p.-holder गोपलेख-धारी
 p. loan गोपलेख-ऋण
 p. year गोपलेख-वर्ष
 running p. चल गोपलेख
 unvalued p. अनर्हित गोपलेख
 valued p. अर्हित गोपलेख
 whole life p. आजीवन गोपलेख
 political राजनैतिक
 p. economy राज्य-अर्थव्यवस्था
 p. life राजनैतिक जीवन
 p. party राजनैतिक पक्ष
 politician नीतिज्ञ, राजनीतिज्ञ
 politics राजनीति

poll 1 (casting votes) मतदान
 2 (recording of votes) मतलेखन
 3 (number of votes cast) दत्तमत-
 संख्या, मतसंख्या
 4 (place where votes are cast)
 मतदान-स्थान, मतस्थान
 poll tax (a tax of so much per head
 or person) प्रतिपुरुष कर
 polygon बहुभुज
 poor house अर्किचन गृह
 poor law अर्किचन विधि
 population जन-संख्या, समस्त जन
 porch द्वार-मण्डप
 port पत्तन
 p. authorities पत्तन-प्राधिकारी
 p. quarantine पत्तन-निरोध
 p. trust पत्तन-प्रन्यास
 portability वहनीयता
 portrait जीवालेख्य (from life जीव)
 position स्थिति
 positive प्राकृतिक, अनुलोम, धन
 p. angle धन कोण
 p. association सह सम्बन्ध
 p. attributes अस्ति-गुण
 p. check *Econ.* प्राकृतिक अवरोध
 p. correlation=direct correlation
 अनुलोम सहसम्बन्ध
 p. number धन संख्या
 p. print (in photography) अनु-
 च्छाया
 p. utility अस्ति-उपयोगता
 possession utility धारण-उपयोगिता
 possessory lien धारक ग्रहणाधिकार
 possibility शक्यता
 possible शक्य
 possibly शक्यतया
 post 1 n. दण्ड, स्थूण
 2 n. पद
 3 n. डाक, प्रेष

4 vb. भेजना, प्रेषण
 5 (as a prefix) उत्तर-
 p. and telegraph services प्रेष तथा
 दूरलिख सेवाएं, डाक और तार सेवाएं
 p.-bag पत्र-स्यून, डाक का थैला
 p.-box = letter-box पत्र-पेटिका, डाक
 का डब्बा
 p.-card प्रेष-पत्रक
 p.-dated उत्तर-तिथीय
 p.-dated cheque उत्तर-तिथीय धना-
 देश
 p.-free प्रेष-शुल्कमुक्त, शुल्क-मुक्त
 p.-man पत्र-वाहक, डाकिया
 p.-master प्रेषपति
 p.-office प्रेषालय, डाकघर
 p.-office box प्रेषालय मंजूषा, डाक
 का डब्बा
 p.-office savings bank प्रेषालय
 संचय-अधिकोष
 postage डाकव्यय, प्रेषशुल्क
 p. stamp प्रेषमुद्रा, टिकट
 postal प्रेष-, प्रेष, प्रेषालय
 p. order प्रेष आदेश
 p. voting डाकद्वारा मतदान
 poster विज्ञापन-पत्र, चिह्नित
 posterior पश्च-
 post-graduate स्नातकोत्तर
 posting 1 प्रेषण, भेजना
 2 *Accounts* रोपण, प्रवेशन, प्रपंजी-
 प्रवेशन
 p. a letter पत्र-प्रेषण, चिट्ठी भेजना
 p. entries प्रविष्टि-रोपण, प्रपंजीयन
 post office see post
 postpone = delay विलम्ब करना
 postulate vb. उपधारण करना, उपग्रहण
 करना
 postulation उपधारणा, उपग्राह
 post-war development युद्धोत्तर
 विकास

p. development scheme युद्धोत्तर विकास योजना
 potency शक्ति
 potent शक्तिशाली
 potential गुप्त, संभाव्य, संभावी, शक्य
 p. wealth संभाव्य धन
 potentials संभाव्य संसाधन
 pottery मृद्भांड, मिट्टी के वर्तन
 poultry कुक्कुटादि
 p. farming, p. husbandry कुक्कुट-पालन
 pound पशु-अवरोध, कांजीहौस
 p. register पशु-अवरोध पंजी
 powdery क्षोदरूप, क्षोदमय
 power 1 शक्ति
 2 विद्युत्, विजली
 p. house विद्युद्-गृह, विजलीघर
 p. of attorney प्राभिकर्तापत्र, प्राभिकर्ता अधिकार, मुस्तारनामा
 p. of person presiding सभापतित्व करने वाले व्यक्ति की शक्ति, अध्यासी की शक्ति
 p. plant विद्युत् संयन्त्र
 p. potential संभाव्य विद्युत्
 p. supply विद्युत्-प्रदाय
 p. to save संचयन-शक्ति, बचाने की शक्ति
 p. p. (per procuracy) अ. अ. अधि. अनु (अधिकारम् अनु)
 practicable व्यवहारगम्य, व्यवहार्य
 as far as p. जहां तक व्यवहार्य हो
 practical व्यावहारिक
 p. advantage व्यावहारिक लाभ
 p. application व्यावहारिक प्रयोग
 p. examination व्यावहारिक परीक्षा
 p. record व्यावहारिक अभिलेख
 p. shape व्यावहारिक रूप
 p. work व्यावहारिक कर्म, अनुष्ठान कर्म
 practice n. 1 व्यवहार, अभ्यास, सम-

भ्यास (ancient word), आचार
 2 वृत्ति, उपाजन
 prairie (a meadow or tract of grass-land) प्रशाद्वल
 pram=perambulator दिशुयान
 pre-basic school पूर्वाधार पाठशाला
 precaution पूर्वाधान
 precautionous पूर्वाधायी
 precedence पूर्वगामिता, पूर्ववर्तिता, पूर्वापरता, पूर्वता
 p. of business कार्य की पूर्वता, कार्य की पूर्वापरता
 precedent पूर्वभावी (see antecedent)
 preceding पूर्ववर्ती (see antecedent)
 precious stone रत्नाश्म, रत्न
 precise सुतथ्य, यथार्थतम
 precisely expressed सुतथ्यतः अभिव्यक्त
 preciseness = precision सुतथ्यता
 precocious अकाल-पक्व, कालपूर्व
 predecessor पूर्वाधिकारी
 predicate (in grammar) विधेय (as against subject उद्देश्य)
 predict पूर्वसूचना देना, भविष्यवाणी करना
 predominant प्रबल, अभिभावी
 predominate अधिभावी होना, प्रबल होना
 preexisting पूर्ववर्ती
 prefer vb. 1 (bring forward) पुरो-भरण, दायर करना (prefer an appeal)
 2 (lay before) पुरोधान करना
 3 (estimate higher) अधिमान देना
 preferable अधिमान्य
 preference (higher अधि estimation मान) अधिमान, पूर्वाधिकार
 p. bonds पूर्वाधिकार बन्ध
 p. creditors पूर्वाधिकार उत्तमर्ण
 p. dividend पूर्वाधिकार लाभांश
 p. shares पूर्वाधिकार अंश

p. stock पूर्वाधिकार स्कन्ध
 p. system अधिमान-पद्धति
 preferential अधिमान्य
 p. claim अधिमान्य अध्यर्थना
 p. creditor अधिमान्य उत्तमर्ण (धनी)
 p. tariff अधिमान्य प्रशुल्क
 preferred अधिमत्
 prefix 1 *vb.* पूर्वस्थापन करना
 2 *n.* पूर्वस्थिति
 pregnancy गर्भावास्था, गर्भधारण,
 गर्भिणीभाव
 prejudice प्रतिकूलता
 prejudicially प्रतिकूलतः
 affect p. प्रतिकूल प्रभाव डालना
 preliminary प्रारम्भिक
 p. expenses प्रारम्भिक व्यय
 p. investigation प्रारम्भिक अनु-
 संधान
 p. operation प्रारम्भिक कृत्य
 p. survey प्रारम्भिक आपरीक्षण
 pre-meditation पूर्व-विमर्श
 with p. पूर्व-विमर्श से
 premises भू-गृहादि
 premium प्रव्याजि
 apprenticeship p. शिशिक्षा प्रव्याजि
 (apprentice शिशिक्षु)
 at p. अधिमूल्य पर
 insurance p. गोप प्रव्याजि
 p. on debentures ऋण-लेखों पर
 प्रव्याजि
 p. on lease पट्टे पर प्रव्याजि
 p. on shares अंशों पर प्रव्याजि
 prenatal जन्मपूर्व
 preoccupied अन्यमनस्क
 prepaid पूर्वदत्त
 p. calls पूर्वदत्त याचना, पूर्वदत्त राशि
 p. expenses पूर्वदत्त व्यय
 p. premium पूर्वदत्त प्रव्याजि
 preparation सज्जा, तैयारी

prepared by निर्माता
 prepayment पूर्वशोधन
 preponderance आधिक्य, भाराधिक्य,
 प्रचुरता
 prerogative परमाधिकार
 prescribe 1 (lay down authorita-
 tively) विनिधान
 2 (medicine) अगदनिर्देश
 3 निर्धारण
 prescribed विनिहित
 p. form विनिहित प्रपत्र
 p. rate विनिहित अर्घ, विनिहित दर
 p. therein उसमें विनिहित, उसमें दी
 हुई
 prescriber (of a medicine) अगद-
 निर्देशक
 prescription 1 विनिधान
 2 *Med.* योग
 presence उपस्थिति
 present 1 *adj.* वर्तमान, उपस्थित
 2 *vb.* उपस्थित होना, उपस्थापन करना
 3 *n.* उपहार
 introduce पुरःस्थापन करना
 move प्रस्तुत करना
 propose प्रस्थापन करना
 resolve संकल्प करना
 p. a bill विधेयक का उपस्थापन करना
 p. worth वर्तमान अर्हा, वर्तमान मूल्य
 presentation उपस्थापन, उपस्थापना
 p. of a bill विपत्र का उपस्थापन
 p. of a cheque घनादेश का उपस्थापन
 p. of data सामग्री का उपस्थापन
 presented उपस्थापित
 preservation परिरक्षण
 p. of forests वन-परिरक्षण
 p. of fruits फल-परिरक्षण
 p. of order शान्ति-परिरक्षण
 preservator परिरक्षक
 preside सभापतीयन, अध्यासन, अधिष्ठान,

सभापतित्व करना
 presidency महाप्रान्त
 p. bank महाप्रान्तीय अधिकोप
 president प्रधान
 chairman सभापति
 speaker अध्यक्ष
 p. of council परिपत्पति, परिपद् का
 प्रधान
 p. of the court of appeal महान्यायेश
 p.'s vote सभापति का मत
 presiding officer अध्यासी अधिकारी
 press-adviser वृत्तोपदेष्टा
 press man मुद्रण-पुरुष
 press representative पत्र-प्रतिनिधि
 pressure निपीड, दबाव
 p. gauge निपीडामान
 p. of population on land भूमि पर
 जनसंख्या का भार
 p. on money market मुद्रा विपणि
 पर भार
 p. transmission निपीड-पारेपण
 presumptive संभावी
 prevail प्रबल होना, अभिभावी होना
 Prevention of Cruelty to Animals
 Act पशु-निर्दयता-निवारण अधिनियम
 preventive निवारक
 p. action निवारक क्रिया
 p. check (on population) निवारक
 अवरोध, कृत्रिम अवरोध, कृत्रिम रोध
 p. detention निवारक अवरोध
 previous पूर्वतन, गत
 p. sanction पूर्व अनुमोदन
 p. year गत वर्ष
 prey आखेट, वलि
 price मूल्य
 actual p. वास्तविक मूल्य
 average p. माध्य मूल्य, औसत मूल्य
 current p. वर्तमान मूल्य
 market p. विपणि मूल्य

net p. शुद्ध मूल्य
 p. control मूल्य-नियन्त्रण
 p. fluctuation मूल्य-उच्चावचन
 p.-list मूल्य-सूची
 p. movement मूल्य-गति
 p relatives मूल्यानुपात
 purchase p. क्रय-मूल्य
 selling p. विक्रय-मूल्य
 prices current वर्तमान विपणि मूल्य
 (वर्तमान विपणि-मूल्य-सूची)
 primary प्राथमिक
 p. capital प्रधान पुंजी
 p. cooperative society प्राथमिक
 सहकारी समिति
 p. data प्राथमिक सामग्री
 p. education प्राथमिक शिक्षा (शिक्षण)
 p. factor प्राथमिक कारक
 p. school प्राथमिक पाठशाला
 p. units of appropriation नियोजन
 के प्राथमिक एकक
 prime प्रधान
 p. cost प्रधान परिव्यय
 p. minister प्रधान मन्त्री
 p. number (divisible by no
 number except itself or unity)
 अभाज्य संख्या
 primitive असभ्य, आद्य, पूर्वज
 p. charactor आद्य गुण
 p. type आद्य प्रकार
 principal 1 n. मूलधन
 2 adj. प्रधान, मुख्य
 p. book प्रधान पुस्त
 p. heads of revenues आगम के मुख्य
 शीर्षक
 p. security मुख्य प्रतिभूति
 principle, principles प्रनियम, सिद्धान्त
 p. of bookkeeping पुस्तपालन के
 प्रनियम
 p. of cooperation सहकारिता के

प्रनियम
 p. of economics अर्थशास्त्र के प्रनियम
 p. of policy नीति के सिद्धान्त
 p. of projection विक्षेप के नियम
 p. of proportional representation
 by means of the single transfer-
 able vote एकल संक्राम्य मत द्वारा
 अनुपाती प्रतिनिधान का सिद्धान्त
 p. of substitution प्रतिस्थापन
 प्रनियम
 p. of taxation करारोपण के प्रनियम
 print छापना, मुद्रण
 printed मुद्रित, यन्त्रमुद्रित (cf. litho-
 graphed शिलामुद्रित)
 p. form मुद्रित पत्र
 printing मुद्रण
 p. and publication मुद्रण और
 प्रकाशन
 p. and stationery मुद्रण और लेखन-
 सामग्री
 p. frame मुद्रण आधार
 p. paper मुद्रण पत्र
 p.-press मुद्रणालय
 prior प्राग्वर्ती, पूर्व
 priority पूर्वता, प्राथम्य
 p. list पूर्वता सूची
 prism संक्षेत्र
 p. glass संक्षेत्र काच
 prisoner बन्दी, कारावासी
 p. of war रण-बन्दी
 private अराजकीय, वैयक्तिक, अलोक,
 निजी, आत्मीय
 p. account वैयक्तिक लेखा, निजी लेखा
 p. arbitration वैयक्तिक मध्यस्थता
 p. attorney = attorney-in-fact
 वैयक्तिक प्राधिकर्ता
 p. bank वैयक्तिक अधिकोप
 p. company अलोक प्रमंडल
 p. concern अलोक व्यापार-संस्था

p. enterprise वैयक्तिक उपक्रम
 p. expense निज-व्यय
 p. gain निज-लाभ
 p. individual अराजकीय व्यक्ति
 p. ledger=personal ledger वैयक्तिक
 प्रपंजी
 p. loan वैयक्तिक ऋण
 p. property वैयक्तिक सम्पत्ति, निजी
 सम्पत्ति
 p. secretary आत्मीय सचिव, निजी
 सचिव
 p. tuition वैयक्तिक अध्यापन
 privilege विशेषाधिकार
 p. motions विशेषाधिकार प्रस्ताव
 prize पारितोषिक
 probability संभावितता
 probable संभावी, संभाव्य
 p. error संभाव्य विभ्रम
 probably संभावितया, संभवतः
 probate (proof of will) रिक्थपत्र-
 प्रमाण
 p. duty रिक्थपत्र-प्रमाण-कर
 probation परिवीक्षा
 probationary period परिवीक्षावधि
 probationer परिवीक्षाधीन
 problem समस्या, प्रश्न
 procedure प्रक्रिया, कार्यरिति, कार्य-
 प्रणाली
 proceedings कार्यवाही
 proceeds आय, उदय
 net p. शुद्ध उदय
 process 1 *n.* Law (order) आदेशक
 2 *n.* (course of procedure)
 विधा
 3 *vb.* (to subject to some special
 process) विधायन
 p. cost विधा-परिव्यय
 proclamation उद्घोषणा (cf. declara-
 tion घोषणा)

pro-consul प्रति-चाण्ड्य-दूत
 produce 1 *vb.* उत्पादन करना
 2 *n.* उत्पाद
 p. exchange उत्पाद विनिमय
 produced उत्पादित
 p. goods उत्पादित वस्तुएं
 producer उत्पादक
 producer's
 p. goods उत्पादक की वस्तुएं
 p. monopoly उत्पादक-एकाधिकार
 p. rent उत्पादक-भाटक
 p. surplus उत्पादकाधिक्य
 product 1 उत्पाद, सृष्ट, उत्पादन
 2 गुणनफल
 production उत्पादन
 p. of wealth धन का उत्पादन
 productive उत्पादक, उत्पादी
 p. capacity उत्पादी सामर्थ्य
 p. consumption उत्पादी उपभोग
 p. duty उत्पादी कर
 p. efficiency उत्पादी कर्म-कौशल
 p. expenses उत्पादी व्यय
 p. goods उत्पादक वस्तुएं
 p. labour उत्पादी श्रम
 p. wages उत्पादी भृति
 p. work उत्पादी कर्म, उत्पादि कार्य
 productiveness, productivity उत्पा-
 दिता
 productivity theory of interest
 वृद्धि का उत्पादिता-सिद्धान्त
 pro-embryo भ्रूणपूर्व
 professing a particular religion
 विशेष धर्मानुयायी
 profession व्यवसाय
 business व्यापार
 commerce चाण्ड्य
 occupation वृत्ति
 trade पणन
 professional व्यावसायिक

p. college व्यावसायिक विद्यालय
 p. qualifications व्यावसायिक योग्य-
 ताएं
 p. training व्यावसायिक प्रशिक्षण
 professor प्राध्यापक
 profit लाभ
 capital p. पुंजी-लाभ
 gross p. सकल लाभ
 net p. शुद्ध लाभ
 p. and loss account लाभालाभ-लेखा,
 लाभ-हानि का लेखा
 p. and loss adjustment account
 लाभालाभ-समायोजन-लेखा
 p. and loss appropriation account
 लाभालाभ-नियोजन-लेखा
 p. or loss on realisation रोकीकरण
 पर लाभ अथवा हानि
 p.-sharing लाभ-विभाजन
 p.-sharing scheme लाभ-विभाजन-
 योजना
 revenue p. आगम लाभ
 profitable लाभदायक, लाभप्रद
 proforma दर्शनार्थ
 p. account दर्शनार्थ लेखा
 p. invoice दर्शनार्थ वीजक
 progenitor प्रजनयिता
 programme कार्यक्रम
 progress प्रगति
 p. statement प्रगति-विवरण
 progressive प्रगामी
 p. principle प्रगामी सिद्धान्त
 p. reduction उत्तरोत्तर प्रहसन
 p. statement प्रगति-विवरण
 p. tax प्रगामी कर
 p. total प्रगामी योग
 p. wage प्रगामी भृति
 prohibited प्रतिषिद्ध
 p. goods प्रतिषिद्ध वस्तुएं
 prohibition प्रतिषेध

- p. of discrimination भेद करने का प्रतिषेध
- p. of discussion पर्यालोचन का प्रतिषेध
- prohibitionism प्रतिषेधवाद
- prohibitionist प्रतिषेधवादी
- project योजना, परियोजना
- projectile प्रक्षिप्त, प्रक्षिप्तक
- projecting lens प्रक्षेप वीक्ष
- proletariat श्रमजीवी, श्रमजीविवर्ग
- prolific बहुप्रज
- prolonged illness दीर्घकालीन रोग
- promise प्रतिज्ञा
- promissory note प्रतिज्ञा-पत्र, प्रतिज्ञा-अर्थपत्र
- promote 1 (to exalt in station, rank or honour) पदोन्नति, पद-वृद्धि, वर्धन, प्रवर्तन
2 *Education* संपारण
- promoted (to another class) संपारित
- promoter प्रवर्तक
- p.'s share प्रवर्तक का अंश
- promotion पद-वृद्धि, प्रवर्तन
- p. examination संपारण-परीक्षा
- p. expenses प्रवर्तन व्यय
- p. or maintenance प्रवर्तन अथवा संधारण
- prompt सत्वर
- p. delivery सत्वर प्रदान
- p. payment सत्वर शोधन
- p. sale सत्वर विक्रय
- promulgate प्रवर्तन करना
- pronounce उच्चारण
- p. free मुक्त निर्णय करना, मुक्त उच्चारण, मुक्त उदीरण
- proof प्रमाण, उपपत्ति
- p. of accuracy परिशुद्धता का प्रमाण
- propaganda प्रचार, संप्रचार
- propagate 1 संप्रचार करना, प्रचार करना, प्रसार करना
2 *Zool.* प्रजनन करना
- propagation 1 प्रचार, संप्रचार
2 *Zool.* प्रजनन
- proper सम्यक्, ठीक
- property 1 सम्पत्ति
2 गुण
- immovable p. अचल सम्पत्ति
- movable p. चल सम्पत्ति
- private p. वैयक्तिक सम्पत्ति, निजी सम्पत्ति
- p. account 1 सम्पत्ति-लेखा
2 = real account वास्तविक लेखा
- p. qualification सम्पत्तिक-योग्यता
- p. tax सम्पत्ति-कर
- public p. सार्वजनिक सम्पत्ति, लोक सम्पत्ति
- proportion अनुपात
- proportional अनुपाती
- p. changes अनुपाती परिवर्तन
- p. representation अनुपाती प्रति-निधान
- p. reserve अनुपाती संचिति
- p. tax अनुपातिक कर
- proportionate 1 *adj.* अनुपाती
2 *vb.* अनुपातन
- p. tax अनुपाती कर
- proposal प्रस्थापना
- motion प्रस्ताव
- resolution संकल्प
- p. register प्रस्ताव-पंजी
- propose = offer प्रस्थापन, प्रस्ताव करना
- proposed = offered (to have it proposed by some one) प्रस्थापित, प्रस्तुत, प्रस्तावित
- p. law प्रस्थापित विधि
- proposer = offerer प्रस्तावक

proposition प्रस्थाप्य, प्रस्थापना
 p. statement प्रस्थापना-विवरण
 proprietor स्वामी
 proprietorship स्वामित्व
 proprietary account = fictitious
 account = nominal account
 अवास्तविक लेखा = अभिहित लेखा
 proprietary right स्वामित्व, स्वत्व,
 स्वत्वाधिकार
 pro rata (in proportion) अनुपाततः
 prorogue समावसान करना
 prosecution प्राभियोजन
 p. of war युद्ध-चालन, युद्ध चलाना
 prosecutor प्राभियोक्ता
 prospect प्रत्याशंसा, पूर्वक्षेण (as of
 mines)
 prospecting for minerals खनिजों के
 लिये पूर्वक्षेण
 prospective भावी
 p. demand भावी अभियाचन
 prospectus प्रविवरण
 prosperity वैभव
 prostitution वेश्याकर्म, वेश्यावृत्ति
 protected रक्षित
 p. forest रक्षित वन
 p. trade रक्षित व्यापार
 protection रक्षण
 p. of industry उद्योग-रक्षण
 p. of life and liberty प्राण और
 स्वातंत्र्य की रक्षा
 p. of rights अधिकारों की रक्षा
 protectionism रक्षणवाद
 protectionist रक्षणवादी
 protective रक्षित, रक्षण-
 p. duty रक्षण-कर
 p. trade रक्षित व्यापार
 protesting a bill विपत्र का अनादर-
 प्रमाणन
 prototype आद्यरूप

prove प्रमाणन, प्रमाण देना, सिद्ध करना
 proved प्रमाणित
 provide *vb.* (Lat. *pro + videre* to
 see before) 1 (foresee) पूर्वदर्शन,
 प्रावधान करना
 2 (to look out for in advance)
 पूर्वावधान
 3 (to procure before-hand) पूर्व-
 संग्रहण
 4 (to prepare) सज्जीकरण, सज्जी-
 भवन
 5 (to supply) दान, प्रदान, खाद्यप्रदान
 6 (to take precautionary mea-
 sures, to make provision) पूर्वोपाय
 करना, पूर्वसज्जा करना, पूर्व-प्रवन्धन
 7 (to supply what is needed for
 sustenance or supply) भरण-
 पोषण
 provided 1 *conj.* यदि, अथ यदि, पर
 2 *adj.* सज्ज, प्रदत्त
 3 प्रावहित (provision प्रावधान)
 provided also तथा च, पर और
 provided further पर और भी, अपरं च
 provided that यदि, अथ यदि
 provident fund प्रावधायी प्रणीवि,
 नीविका
 p. f. ledger नीविका प्रपंजी
 provider भरणपोषणकर्ता
 province प्रान्त
 provincial प्रान्तीय
 p. constitution प्रान्तीय संविधान
 p. excise प्रान्तीय उत्पाद-कर, प्रान्तीय
 उत्पाद-कर विभाग
 p. form प्रान्तीय प्रपत्र
 p. revenue प्रान्तीय आगम
 p. subject प्रान्तीय विषय
 provision 1 (arrangement) प्रवन्ध
 2 प्रावधान
 to make p. 1 प्रवन्ध करना

2 प्रावधान करना
 provisional अस्थायी
 p. expenditure अस्थायी व्यय
 p. formula कार्यनिर्वाहक सूत्र
 provisions खाद्यपदार्थ
 p. stores खाद्यागार
 proviso 1 परादिक (that which begins आदि with the word पर)
 2 = provision प्रावधान
 provocater प्रकोपक
 provocation प्रकोपना
 provocative प्रकोपी, प्रकोपकारी
 provoke प्रकुपित करना
 prox. (proximo) आ. मा. (आगामी मास)
 proximo (prox.) आगामी, आगामी मास (आ. मा.) ,आगामी.....को
 proxy 1 n. (a person authorised to act for another) प्रतिपुरुष
 2 n. (authority or power to act for another प्रति) प्रतिताधिकार, प्रतिता-शक्ति
 3 n. प्रतिपुरुष-पत्र
 4 vb. प्रतिपुरुषायण
 p. form प्रतिपुरुष प्रपत्र
 vote by p. प्रतिपुरुष मतदान
 pruning कृन्तन, काट छांट
 psychic मानसिक
 p. income Econ. मानसिक आय
 psychologic = psychological मानसिक, मानसिकीय
 psychological = psychologic 1 मानसिक
 2 मानसिकीय, मनोवैज्ञानिक
 psychologist मानसिकीविद्, मनो-वैज्ञानिक
 psychology 1 (science) मनोविज्ञान
 2 (traits, feelings, actions, etc. of the mind) मनोवृत्ति
 puberty तारुण्य

public 1 n. लोक, जनता
 2 adj. सार्वजनिक, लोक-
 p. accountant लोक आंकिक
 b. accounts लोक-लेखा
 p. act 1 राज्य अधिनियम
 2 लोक-कृत्य, राज्य-कर्म
 3 प्रकाश कृत्य
 p. administration लोक-प्रशासन
 p. affairs लोक-कार्य
 p. assistance लोक-साहाय्य
 p. attorney=attorney-at-law विधि-प्राभिकर्ता
 p. bill लोक-विधेयक
 p. capacity जनसाधारण के रूप में
 p. company लोक-प्रमण्डल
 p. concern लोक-सम्बन्ध, लोक-विषय
 p. credit राष्ट्र-प्रत्यय, लोक-उधार, राज्य-उधार
 p. debt राज्य ऋण, लोक-ऋण
 p. debts act लोक-ऋण अधिनियम
 p. deposit लोक-निक्षेप
 p. employment = employment under state राज्याधीन नियुक्ति
 p. entertainment लोकामोद
 p. finance राज्य अर्थप्रबन्धन
 p. health लोक स्वास्थ्य
 p. health department लोक-स्वास्थ्य-विभाग
 p. health engineer लोक-स्वास्थ्य-अभियन्ता
 p. improvement लोक-सुधार
 p. interest लोक-हित
 p. loan लोक-ऋण, राज्य-ऋण
 p. meeting सार्वजनिक सभा
 p. money राज्य धन, लोक-मुद्रा
 p. monopoly लोक-पकाधिकार
 p. morality लोक-सदाचार
 p. opinion लोक-मत, जन-मत
 p. order लोक-शान्ति, लोक-व्यवस्था

p. property सार्वजनिक सम्पत्ति, लोक सम्पत्ति
 p. restaurant सार्वजनिक विश्रान्ति-गृह, सार्वजनिक आहारगृह
 p. safety bill लोक अभय विधेयक, लोक-क्षेम विधेयक
 p. sale लोक विक्रय, कोश-विक्रय
 p. servant लोक सेवक
 p. service commission लोक-सेवा-आयोग
 p. services लोक सेवाएं
 p. utility services लोकोपयोगी सेवाएं
 p. works लोक कर्म
 p. works establishments and tools and plants लोक कर्म स्थापना तथा उपकरण और संयन्त्र
 publication प्रकाशन
 publicity प्रकाशना
 p. bureau प्रकाशना विभाग
 published मुद्रित
 p. statistics मुद्रित समंक
 puisne judge (a justice of the High Court) अवर न्यायाधीश
 pulsating स्पन्दन
 pulse-rate नाडी-गति
 pulses दाल
 pump 1 n. उदंच
 2 vb. उदंचन करना
 pumping उदंचन
 p. action उदंचन क्रिया
 punishable दण्डनीय, दंड्य
 purchase (buy) क्रय, क्रयण
 p. and sale क्रय-विक्रय

p. money क्रय-राशि
 p. price क्रय-मूल्य
 purchased (bought) क्रीत
 purchaser = buyer क्रेता
 purchases क्रय
 p. account क्रय-लेखा
 p. book क्रय पुस्त
 p. day book क्रय दिन पुस्त
 p. journal क्रय पंजी, खरीद वही
 p. ledger क्रय प्रपंजी
 p. ledger adjustment account क्रय प्रपंजी समायोजन लेखा
 p. power of money मुद्रा की क्रयण-शक्ति
 p. power parity क्रय शक्ति समार्हता
 p. power parity theory क्रय शक्ति समार्हता सिद्धान्त
 p. requisition क्रय अधियाचन
 p. returns क्रय प्रत्याय
 p. returns journal क्रय प्रत्याय पंजी, वापसी वही
 pure शुद्ध
 p. economics शुद्ध अर्थशास्त्र
 purgative रेचक
 purpose प्रयोजन, उद्देश्य
 p. of motion प्रस्ताव का उद्देश्य
 purview क्षेत्र, गोचर
 put and call option उभय-विकल्प
 put an end to अन्त करना
 putative कल्पित
 put option विक्रय विकल्प
 putrefactive पूयकारी
 putting the question प्रश्न रखना
 putting to a wrong use दुरुपयोग करना

Q

qualification विशेषण, योग्यता
 qualified विशेषित, योग्य

q. acceptance विशेषित स्वीकृति
 q. endorsement विशेषित पृष्ठांकना

qualify विशेषता वताना
 qualifying विशेषण, विशेषक
 qualitative गुणात्मक
 q. distribution गुणात्मक वण्टन
 quality लक्षण
 quantitative परिमाणात्मक, इयत्तात्मक,
 मात्रिक
 q. data इयत्ता-सामग्री
 q. distribution मात्रिक वंटन, मात्रा-
 त्मक वंटन
 quantitatively मात्रया, इयत्तया
 quantity इयत्ता, मात्रा, राशि
 q. theory of money मुद्रा का मात्रा-
 सिद्धान्त
 quantum 1 (a large प्र quantity or
 amount) प्रमात्रा
 2 [a certain (specified) quantity
 or amount] विशेष मात्रा
 quarried उत्खात
 quarry पापाणखनि, आकर
 quarrying उत्खनन
 quarter चतुर्थांश
 quarterly त्रैमासिक
 q. payment त्रैमासिक शोधन
 quarto post octavo (a kind of
 paper) चतुःपृष्ठ प्रेष अष्टमिक
 quasi- आभास-
 q. contract आभास-प्रसंविदा
 q. monopoly आभास-एकाधिकार
 q. partner आभास-भागी, भागी-कल्प
 q. rent आभास-भाटक
 q. revenue आभास-आगम

quench बुझाना, निर्वापण
 question प्रश्न
 in q. प्रश्नास्पद, विवादास्पद
 q. be now put अब प्रश्न रखा जाए
 q. of law विधि प्रश्न
 questionnaire प्रश्नावली
 questions and answers प्रश्नोत्तर
 quid pro quo (benefit theory) तत्-
 प्रति-तत्
 q. pro quo theory of taxation कर
 का तत्-प्रति-तत् सिद्धान्त
 quiet market शान्त विपणि
 quinquennial पंचवर्षीय
 quire हस्तक, दस्ता
 quit 1 (to set free) उन्मोचन
 2 (to meet and satisfy a debt)
 निस्तारण
 q. rent उन्मोचन शुल्क (it is not a
 भाटक)
 quittance उन्मोचन, निस्तारण
 quorum गणपूरक, कार्यवाह-संख्या, पूरक-
 संख्या
 quota अभ्यंश
 quotation 1 उद्धरण
 2 मूल्यकथन, भाव, कथित मूल्य,
 मूल्य
 3 (price and terms upon which
 a person is willing to supply
 goods) उत्कथन
 quote उत्कथन, मूल्यकथन
 quotient लब्धि, भागफल
 quo warranto अधिकार-पृच्छा

R

race प्रजाति, जाति
 race-course घुड़दौड़-भूमि
 races of mankind मानव-जातियां

racing season घुड़दौड़ का समय, धावन
 ऋतु
 rack rent अत्यधिक भाटक

radical उन्मूलक, उन्मूलनवादी, आमूल
 r. change आमूल परिवर्तन
 r. reform आमूल सुधार
 radicalism उन्मूलनवाद
 radio = wireless 1 (set) नभोवाणी,
 वितन्तुक
 2 (a radio message) वितन्तु-संदेश
 3 *vb.* वितन्तु द्वारा संदेश भेजना,
 वितन्तु-प्रेषण
 r.-active mineral तेजोद्वर खनिज
 r. broadcast वितन्तु परिसार, वितन्तु-
 परिसारित
 r. broadcasting वितन्तु-परिसारण
 r. engineer वितन्तु-अभियन्ता
 r. engineering वितन्तु-अभियन्त्रणा
 r. frequency वितन्तु-वारंवारता
 radiogram वितन्तु-लेख, वितन्तु-सन्देश
 radiographer क्षरश्मि-चित्रक (X-ray
 क्ष-रश्मि)
 radiography क्ष-रश्मि-चित्रणा
 radiological क्ष-रश्मिक, क्ष-रश्मिकीय
 radiologist क्ष-रश्मिक, क्ष-रश्मिकीविद्
 radiology क्ष-रश्मि-विद्या
 radioman वितन्तु-पुरुष
 radiophone वितन्तु-भाष
 radiophony वितन्तुभाषिकी
 radiophotograph = photoradiogram
 वितन्तु-भाचित्र
 radiophotography वितन्तुभाचित्रणा
 radio-receiver (apparatus) वितन्तु-
 आदात्र
 radioscope (for detecting the pre-
 sence of a radio-active sub-
 stance) तेजोद्वरेक्ष
 radioscopy क्ष-रश्मीक्षणा
 radio set नभोवाणी (used in Marathi)
 radio-technology वितन्तु-प्रौद्योगिकी
 radio telegraph = wireless telegraph
 = wireless telegraphy वितन्तु-

दूरलिखा
 radio-telegraph *vb.* वितन्तु द्वारा सन्देश
 भेजना
 radio-telephone वितन्तु-दूरभाष
 radio-telephony वितन्तु-दूरभाषण
 radio-therapy क्ष-रश्मि-चिकित्सा
 radio transmitter वितन्तु-पारेपित्र
 (transmitting set)
 radio tube विद्युदणु नाल
 radio vision वितन्तु दर्शन
 radio wave वितन्तु तरंग
 radius त्रिज्या, अर्धव्यास
 r. of curvature वक्रता-त्रिज्या
 raft वेडा
 railway अयोमार्ग (iron way), संयान
 (train, a series of carriages), रेल
 r. authority संयान-प्राधिकारी
 r. company संयान-प्रमण्डल
 r. engine संयान-गन्त्र
 r. engineering संयान अभियन्त्रणा
 r. fare संयान-भाटक
 r. freight संयान वस्तुभाटक, संयान
 भाटक
 r. in cutting कृत्त अयोमार्ग
 r. parcel office संयान पोस्टली कार्या-
 लय
 r. receipt संयान-प्राप्ति
 r. saloon संयान-विलासकोष्ठ
 r. station संयान-स्थान
 r. ticket संयान पत्रक
 raise an army सेना भरती करना
 random method *Statistics* समसम्भा-
 विक रीति
 r. number *Statistics* समसम्भाविक
 संख्या
 r. sample *Statistics* समसम्भाविक
 न्यादर्श (when each member has
 an equal सम chance संभावना of
 being chosen)

r. selection *Statistics* समसम्भाविक
 भ्रवण
 range विस्तार, गोचर (e.g. in forest
 department)
 rape धर्षण, बलात्कार
 rarity value दुर्लभता-अर्हा
 raspberry रसबदरी
 rate अर्घ, दर, स्थानीय कर (local tax),
 प्रत्यंक (प्रति शत, प्रति सहस्र etc.)
 r. of change परिवर्तन-अर्घ
 r. of depreciation अवमूल्यन-अर्घ
 r. of discount अपहार-अर्घ
 r. of exchange विनिमय-अर्घ
 r. of profit लाभ-अर्घ
 r. of respiration श्वसन-अर्घ
 r. of wages भृति-अर्घ
 rateable आनुपातिक, यथानुपात, करयोग्य
 r. distribution आनुपातिक वण्टन
 r. value करयोग्य अर्हा
 rates and taxes स्थानीय तथा अन्य कर
 ratification 1 उपोद्बलन (ancient
 word), पुष्टिकरण
 2 संशोधन
 ratification of boundaries सीमा-संशो-
 धन
 ratified उपोद्बलित, पुष्टिकृत
 ratify उपोद्बलन, पुष्टिकरण (confirm),
 स्वमान्यन
 ratio निष्पत्ति, अनुपात
 r. chart निष्पत्ति चित्र, अनुपात चित्र
 r. exchange विनिमय अनुपात
 r. of regression प्रतीपगमन अनुपात
 ration समभक्त, समभाजन, अन्न मात्रा,
 अन्न, खाद्य, सीधा
 rational (easy to evaluate) सुमेय,
 परिमेय
 rationalization of industries उद्योगों
 का वैज्ञानिकन
 rationalized वैज्ञानिकित

ratios = price relatives मूल्यानुपात
 ravish धर्षण करना, बलात्कार करना
 ravished बलात्कृत, धर्षित
 ravishment धर्षण, बलात्कार
 raw materials अनिर्मित द्रव्य, कच्चा
 माल, अपक्व द्रव्य, आम सामग्री
 r. produce अनिर्मित उत्पाद, कच्ची
 पैदावार
 r. product आम उत्पाद, अनिर्मित
 उत्पाद
 ray रश्मि
 reactivity प्रतिक्रियाशीलता
 reading वाचन, पढ़ना, वांचना
 r. of motion प्रस्ताव-वाचन
 readjusted पुनर्व्यवस्थापित
 ready made निष्पन्न, पूर्व-निष्पन्न
 r. money = hard cash सघो-रोक,
 नकद
 r. reckoner सघो-गणक
 real वास्तविक
 r. account, property account
 वास्तविक लेखा, सम्पत्ति लेखा
 r. and different वास्तविक तथा भिन्न
 r. asset वास्तविक सम्पत्ति
 r. cost वास्तविक परिव्यय
 r. economics याथार्थिक अर्थशास्त्र
 r. estate = real property स्थावर
 सम्पत्ति
 r. estate duty स्थावर भूसम्पत्ति-कर
 r. exchange वास्तविक विनिमय
 r. income वास्तविक आय
 r. price वास्तविक मूल्य
 r. value वास्तविक अर्हा
 r. wages वास्तविक भृति
 realisable रोककरणीय, प्राप्य
 realisation रोककरण (to convert into
 money), प्राप्ति
 r. account रोककरण लेखा
 r. of property सम्पत्ति का रोककरण

r. statement रोककरण विवरण
 realise, realising रोककरण, प्रापण
 realised रोककृत, प्राप्त
 realistic याथार्थिक
 r. economics याथार्थिक अर्थशास्त्र
 r. method याथार्थिक रीति
 ream (20 quires) विंशी, रीम
 rearrange पुनर्विन्यास करना
 rearranged पुनर्विन्यस्त
 rearrangement पुनर्विन्यास
 reasonable युक्तियुक्त
 reasoning = argument तर्क
 reassurance पुनरागोप
 rebate अवहार
 r. on a bill विपत्र-अवहार
 rebellion विद्रोह (see mutiny)
 rebroadcast = relay broadcast पुनः-
 परिसारण
 recall प्रत्याह्वान, प्रत्यावर्तन, प्रत्यानयन
 recede प्रतिसरण
 receipt प्राप्ति
 r. and disbursement प्राप्ति और व्यय
 r. and payment sides प्राप्ति और
 शोधन पार्श्व
 r. memoranda प्राप्ति स्मारपत्र
 r. side प्राप्ति पार्श्व
 receipts and issues प्राप्ति तथा निर्गम
 r. and payment प्राप्ति तथा शोधन
 receive प्रापण, आदान
 r. a thing offered प्रतिग्रहण, आदान,
 उपादान
 receiver आदाता, प्रापक
 receiving प्रापण
 r. apparatus आदान-साधित्र
 r. note प्रापण-आलोक
 r. order प्रापण-आदेश
 r. set = radio receiver चितन्तु आदात्र
 r. station आदाता-स्थात्र
 recent occurrence अभी की घटना

reception आदान
 receptive आदायी
 receptor आदाता
 recess विश्रान्ति, विश्रामकाल (as, of
 legislature)
 reciprocal परस्पर, अन्योन्य
 r. demand परस्पर अभियाचन
 r. treatment प्रति-व्यवहार
 reciprocity पारस्पर्य
 re-circulation पुनः-परिवहन
 reckon *vb.* संगणना करना
 reclamation (to bring waste land
 under cultivation) कृष्यकरण, कृषि-
 योग्य बनाना
 r. of land भूमि को कृषियोग्य बनाना
 r. of water-logged areas जलरुद्ध
 प्रदेशों का कृष्यकरण
 recognize 1 प्रस्वीकरण
 2 अभिज्ञान, पहिचानना
 recognized 1 (to acknowledge for-
 mally) प्रस्वीकृत
 2 (to recall knowledge of) अभिज्ञात
 r. by law विधि द्वारा प्रस्वीकृत
 r. language प्रस्वीकृत भाषा
 recommend अनुरोध करना, अभिस्ताव
 करना
 recommendation अभिस्ताव, अनुरोध
 reconcile समाधान करना
 reconciled समाहित
 reconciliation समाधान
 bank r. statement अधिकोप समा-
 धान विवरण
 r. board समाधान-समिति
 r. of debt ऋण-समाधान
 reconsideration पुनर्विचार
 reconstituted पुनःसंघटित, पुनःसंस्था-
 पित
 reconstruction पुनर्निर्माण, पुनःसंस्था-
 पन, पुनःसंघटन

r. of a company प्रमण्डल-पुनर्निर्माण
recontrol *n.* पुनर्नियन्त्रण
reconversion पुनारूपान्तरण
record अभिलेख (ancient word)
r. book अभिलेख-पुस्त
r. room अभिलेख-कोष्ठ, अभिलेखागार
recorded अभिलिखित
recorder 1 (one who records)
अभिलेखक
2 (record-keeper) अभिलेख-पाल
recourse उपाश्रयण, उपाश्रय
recover प्रत्यादान
recoverable प्रत्यादेय
recovered 1 (to get or obtain again)
प्रत्यादत्त
2 रोगमुक्त, लब्धारोग्य, समुत्थित
(ancient word)
recovery 1 प्रत्यादान
2 रोगमुक्ति, आरोग्यलाभ, समुत्थान
recreation विनोद
recruitment भरती
rectangle आयत
rectangular आयताकार, आयत-
r. block आयताकार इष्टका
r. diagram आयत-चित्र, आयताकार
चित्र
rectification, rectify संशोधन
r. of errors विभ्रम-संशोधन
rectified संशोधित
rectifier शोधित्र
rectifying संशोधन
r. entry संशोधन-प्रविष्टि
rectilinear figure ऋजुरेखा-आकृति
recurring आवर्तक, आवर्ती
r. charges आवर्ती व्यय
r. decimal आवर्त दशमिक
r. expenditure आवर्ती व्यय
r. income आवर्ती आय
r. period आवर्त-काल

r. sum आवर्ती राशि
red रक्त
r. ink-interest रक्तमसी वृद्धि
r. letter day मंगल दिवस
r. tape रक्त पट्टी
r.-tapism दीर्घ-सूत्रता
redeem, redeeming (to buy क्रयण off
निस्) निष्क्रयण (from अथर्ववेद)
redeemable शोध्य
r. debentures शोध्य ऋण-पत्र
redeemed निष्क्रीत
redemption निष्क्रयण
r. charges निष्क्रयण व्यय
r. fund निष्क्रयण प्रणीधि
r. of debenture ऋणपत्र का निष्क्रयण
r. of mortgage प्राधि का निष्क्रयण
rediscount पुनःपूर्वप्रापण, दुवारा भुनाना
redistribution पुनर्वण्टन
r. of holding क्षेत्र-पुनर्वण्टन
redraft विकर्ष-द्वितीयक
reduce प्रहासन, घटाना
r. to nothing शून्य करना
reduced प्रहासित
r. annuity प्रहासित वार्षिकवृत्ति
r. price प्रहासित मूल्य
reducible प्रहास्य
reduction प्रहासन, प्रहसन, घटाव
r. of capital पुंजी-प्रहास
r. of share capital अंशपुंजी का
प्रहासन
re-exchange पुनर्विनिमय
re-export पुनर्निष्कासन
refer *vb.* (send back) निर्देश करना, प्रति-
प्रेषण करना, भेजना, अभ्युद्देश करना
referee निर्णायक, निर्देश्यपुरुष
reference निर्देश, प्रेषण, प्रेषि, भेजना
r. marks अभ्युद्देश चिह्न
referred निर्दिष्ट, अभ्युद्दिष्ट
r. to above उपरि-निर्दिष्ट

- referring अभ्युद्देशन
refine परिष्करण, परिष्कार करना
refined परिष्कृत
refinement परिष्कार
refinery परिष्करणी
reflated संस्फीत
reflation संस्फायन, संस्फीति
r. of currency चलार्थे की संस्फीति
reflationary संस्फायी, संस्फीतिकारी
reflationist संस्फीतिवादी
reflecting telescope परावर्ती दूरेश
reflex action प्रतिक्षेप क्रिया
reform सुधार
reformatory चरित्रशोधगृह
refresher's course प्रत्यास्मरण पाठ्यक्रम
refrigerate प्रशीतन करना
refrigeration प्रशीतन
refugee शरणार्थी
r. rehabilitation शरणार्थी-पुनःप्रति-
स्थापन
refund प्रत्यर्पण
r. of capital पूंजी-प्रत्यर्पण
r. voucher प्रत्यर्पण प्रमाणक
region प्रदेश
r. about a boundary सीमा-प्रदेश
regional प्रादेशिक
r. council प्रादेशिक परिषद्
r. fund प्रादेशिक प्रणीवि
r. occupation प्रादेशिक व्यवसाय
register 1 *vb.* पंजी-लेखन, पंजीयन
2 *n.* पंजी
r. of calls याचना-पंजी
r. of directors and managers
संचालक तथा प्रबन्धक पंजी
r. of immovable property अचल
सम्पत्ति की पंजी
r. of investments विनियोग-पंजी
r. of livestock पशुधन-पंजी
r. of members सदस्य-पंजी
r. mortgages and charges प्राधि
तथा प्रभार पंजी
r. of movable articles चल वस्तुओं
की पंजी
r. of stationery लेखन-सामग्री की
पंजी
r. of suits अभियोग-पंजी
registered पंजीयित, पंजीलिखित, निबद्ध
r. bond पंजीयित बन्ध
r. capital पंजीयित पूंजी
r. number पंजीयित क्रमांक
r. office पंजीयित कार्यालय
r. security पंजीयित प्रतिभूति
r. stock पंजीयित स्कन्ध
registrar 1 (of a university) कुल-
सचिव (cf. कुलपति chancellor)
2 पंजीयक, निबन्धक (from कौटल्य
अर्थशास्त्र)
registration पंजीयन, निबन्धन
regression प्रतीपगमन, प्रतिगामी
regressive प्रतिगामी
r. tax आहासी कर, प्रतिगामी कर
r. taxation प्रतिगामी कर
regular नियमित, नियमी, सम
r. distribution नियमित वण्टन
r. fluctuations नियमी उच्चावचन
regulate *vb.* यमन करना, आनियमन
करना
regulating नियामक
r. intake अन्तर्ग्रहण नियमन (irri-
gation)
r. machine नियामक यन्त्र
regulation = rule नियम, आनियम,
आनियमन
r. of buildings गृह-नियन्त्रण
regulator नियामक
rehabilitation प्रतिष्ठापन, प्रतिस्थापन
reimburse *vb.* प्रतिशोधन करना
re-insurance पुनः-प्रगोप

re-issue पुनर्निर्गमन
 r. of shares अंशों का पुनर्निर्गमन
 reject अस्वीकार करना
 rejected अस्वीकृत
 rejection अस्वीकृति
 rejuvenation, rejuvenescence पुनर्-
 यौवनप्राप्ति
 relapsing fever प्रत्यावर्ती ज्वर
 related सम्बद्ध
 relating to विषयक, -सम्बन्धी
 relation, relationship सम्बन्ध
 relative आपेक्षिक, सापेक्ष, मूल्यानुपात
 r. change सापेक्ष परिवर्तन
 r. deviation सापेक्ष विचलन
 r. economics सापेक्ष अर्थशास्त्र
 r. error सापेक्ष विभ्रम
 r. value सापेक्ष अर्ह
 relatively अपेक्षया
 r. inactive अपेक्षया अकर्मण्य
 relatives = price relative मूल्यानुपात
 relativity सापेक्षता
 relay 1 *n.* (an electromagnetic de-
 vice) अभिचालित्र
 2 *vb.* अभिचालन करना
 r. broadcast = re-broadcast पुनः-
 परिसारण
 release मोचन, मुक्ति
 r. of debtors अधमर्ण-ऋणमुक्ति, ऋणी
 की मुक्ति
 r. of trustee प्रत्यासी का मोचन
 r. passes उन्मुक्ति पत्र
 relevant संगत
 reliability of data सामग्री की विश्वस-
 नीयता
 relief 1 निवारण, सहायता, साहाय्य
 2 *Art* (projection of figures)
 उद्भूत, उभरती, उकेरी
 r. image *Art* उद्भूत मूर्ति
 religion धर्म

religious धार्मिक
 r. denomination धार्मिक सम्प्रदाय
 r. institutions धार्मिक संस्थाएं
 r. instruction धार्मिक शिक्षा
 r. or charitable purposes धर्मार्थ
 अथवा परोपकारार्थ
 r. worship पूजा, उपासना
 relinquish अवत्यजन, छोड़ना
 remainder शेष
 remaining अवशेषी
 remains अवशेष
 remarkable अद्भुत, असाधारण, विलक्षण,
 विचित्र
 remarks अभ्युक्ति, आलोचना
 remedy प्रतिकार, उपचार
 reminder अनुस्मारक
 remission परिहार (कौटिल्य अर्थशास्त्र),
 मोक
 r. proposals register परिहार-प्रस्ताव-
 पंजी
 revenue r. आगम-परिहार
 remit परिहरण, विप्रेषण, भेजना
 remittance विप्रेषण
 r. in transit मार्गस्थ विप्रेषण
 r. register विप्रेषण-पंजी
 remittancer विप्रेषण
 remitted विप्रेषित
 remittee विप्रेषिणी
 remitter विप्रेषक
 remonetisation पुनर्मुद्राकरण
 removal अपनयन, हटाना, निवारण, अप-
 सारण
 r. expenses हटाने का व्यय
 r. of disqualification निर्योग्यता का
 हटाना
 r. of speaker अध्यक्ष का हटाना
 remove अपनयन, निष्कासन, निकालना,
 हटाना
 remunerate परितोषण देना

remunerated पारितोषित
 remunerative पारितोषद्, लाभकारी
 r. capital पारितोषद् पुंजी
 render an account लेखा-प्रेषण
 renew नवकरण
 r. a bill विपत्र-नवकरण
 renewal नवकरण, नवकार
 r. of a bill विपत्र-नवकरण
 r. of soil भू-नवकरण, उन्मृदा का नव-
 करण
 renewals and repairs नवकार तथा
 जीर्णोद्धार
 r. and replacement नवकार तथा
 प्रतिस्थापन
 renewed नवकृत
 r. bill नवकृत विपत्र
 renounce स्वत्व-त्याग की घोषणा
 renovate नवीकरण
 rent भाटक (कौटल्य अर्थशास्त्र), भूभाटक,
 लगान, भाड़ा, किराया
 certain r. निश्चित भाटक
 chief r. मुख्य भाटक
 contract r. प्रसंविदा-भाटक
 dead r. मृत भाटक
 economic r. आर्थिक भाटक
 fair r. उचित भाटक
 fixed r. स्थिर भाटक
 ground r. भू-भाटक
 head r. मुख्य भाटक
 minimum r. निम्न्यून भाटक
 quit r. उन्मोचन शुल्क
 rack r. अत्यधिक भाटक
 r.-free holding भाटक-मुक्त क्षेत्र
 r.-free land भाटक-मुक्त भूमि
 r. ledger भाटक-प्रपंजी
 r. roll भाटक-सूची
 sleeping r. सुप्त भाटक
 surface r. भूतल भाटक
 rental (sum total of rents) भाटक-राशि

r. register भाटक-पंजी
 r. value भाटक अर्हा, वार्षिक भाटक-
 राशि
 renunciation परित्यजन, स्वत्व-त्याग
 r. of a bill विपत्र का स्वत्व-त्याग
 repaid प्रतिदत्त, प्रतिशोधित
 repair 1 *vb.* प्रतिसंस्करण, जीर्णोद्धार
 करना
 2 *n.* जीर्णोद्धार
 repairs जीर्णोद्धार
 r. and renewals जीर्णोद्धार तथा
 नवकार
 r. and renewals fund जीर्णोद्धार तथा
 नवकार प्रणीधि
 repay प्रतिदान, प्रतिशोधन करना
 repayment प्रतिशोधन
 repeal 1 *vb.* विखंडन करना
 (i) (to recall) प्रत्याह्वान, प्रत्यावर्तन,
 प्रत्यानयन
 (ii) (to rescind) अपखंडन करना
 (iii) (to abrogate) निराकरण करना
 2 *n.* विखंडन, अपखंडन, निराकरण
 repeat पुनरावर्तन, आवर्तन
 repeated पुनरावृत्त
 replace प्रतिस्थापन
 replaced प्रतिस्थापित
 replacement प्रतिस्थापन
 report वृत्तलेख, वृत्त, विवरण, प्रतिवेदन
 repose शयन, अभिशयन
 represent *vb.* निरूपण करना, प्रतिनिधान
 करना
 representation अभ्यावेदन, प्रतिनिधान,
 निरूपण
 r. in writing लिखित अभ्यावेदन
 representative प्रतिनिधि
 r. paper money प्रतिनिधि पत्र-मुद्रा
 represented in the services under
 the state राज्याधीन सेवाओं में प्रति-
 निहित

reprieve प्रविलम्ब करना
 reproduction पुनरुत्पादन, प्रजनन
 r. of sound ध्वनि पुनरुत्पादन
 republic गणराज्य
 repudiate प्रत्याख्यान करना, अस्वीकार करना, त्यागना
 repugnant प्रतिकूल, विरुद्ध (cf. reciprocally opposed प्रतिविरुद्ध)
 request प्रार्थना करना
 required अपेक्षित
 requirement अपेक्षा
 requiring no proof प्रमाण अनपेक्ष
 requisition अधियाचन (demanding as of right अधिकार)
 r. authority अधियाची प्राधिकारी
 r. of land भूमि का अधियाचन
 rescind अपखण्डन करना
 1 (to cut off) अपकर्तन
 2 (to remove) अपनयन, निष्कासन, निकालना
 3 (to abrogate) निराकरण करना
 4 (to annul) अभिशून्यन करना
 5 (to cancel) विलोपन करना
 6 (to make void) शून्य करना
 7 (to repeal) विखण्डन करना
 research अन्वेषण
 r. institute अन्वेषणालय
 r. section अन्वेषण-उपविभाग
 r. station अन्वेषण स्थान अथवा स्थान
 r. work अन्वेषण कार्य
 reseeding पुनर्वीजन
 reservation 1 पश्चाद्-धृति, पश्चाद्-धारण (war)
 2 संचयन, संचय
 3 आरक्षण
 r. of appointments नियुक्तियों का आरक्षण
 r. of posts पदों का आरक्षण (post =

position)
 reserve 1 पश्चाद्-धृत, पश्चाद्-धृतक
 2 संचिति
 r. account संचिति लेखा
 r. bank संचिति अधिकोप, कोषाधिकोप
 r. capital संचिति पुंजी
 r. command पश्चाद्-धृत संबल
 r. corps पश्चाद्-धृत निकाय
 r. for bad debts अशोध्य ऋणों के लिए संचिति
 r. for discount अपहार के लिए संचिति
 r. for discount on creditors उत्तमर्ण अपहार के लिए संचिति
 r. for discount on debtors अधमर्ण अपहार के लिए संचिति
 r. for doubtful debts संदिग्ध ऋणों के लिए संचिति
 r. forest आरक्षित वन
 r. fund संचिति प्रणीवि
 r. liability आरक्षित देय
 r. officer *Mil.* पश्चाद्-धृत अधिकारी
 r. price आरक्षित मूल्य
 r. treasury संचिति-कोषागार
 reserved संचित
 r. capital संचित पुंजी
 r. forest आरक्षित वन
 r. list *Mil.* पश्चाद्-धृत सूची
 r. militia *Mil.* पश्चाद्-धृत सैन्यक
 r. subject आरक्षित विषय
 reservoir जलाशय
 r. capacity जलाशय की धारिता
 reshipment पुनर्निष्कामण, पुनर्निवा-परेपण
 residence आवास, निवास, निवास-स्थान
 r. of an ambassador राजदूतावास
 residents in a representative district प्रतिनिहित मण्डल के निवासी
 residual अवशिष्ट

r. claimant theory of wages भृति
 का अवशिष्ट अध्यर्थक सिद्धान्त
 r. product अवशिष्ट उत्पाद
 r. share अवशिष्ट अंश
 r. value अवशिष्ट अर्हा, अवशिष्ट मूल्य
 residuary अवशिष्ट
 r. account अवशिष्ट लेखा
 r. powers अवशिष्ट अधिकार, अवशिष्ट
 शक्ति
 residue, remains अवशेष
 resign त्यागना
 resignation 1 त्याग, पदत्याग
 2 त्यागपत्र
 resistability = resistibility रोध्यता
 resistable = resistible रोध्य
 resistance रोध
 resistive रोधी
 resistivity रोधित्व
 resolution संकल्प (cf. proposal =
 offer प्रस्ताव)
 extraordinary r. असाधारण संकल्प
 ordinary r. साधारण संकल्प
 special r. विशेष संकल्प
 resolve संकल्प करना
 resolved संकल्पित
 resources संसाधन
 respect आदर
 respectively क्रमशः
 respiratory organ श्वसनांग
 r. passage श्वास-मार्ग
 respite प्रास्थगन
 response प्रतिचार
 responsible उत्तरदायी
 r. officer उत्तरदायी अधिकारी
 to be r. for उत्तरदायी होना
 rest-house विश्राम गृह
 restitution = restoration प्रत्यास्थापन
 restrain नियन्त्रण करना
 restraint नियन्त्रण

restrict संकुचित करना, आयन्वित करना
 restricted आयन्वित, संकुचित
 restriction आयन्वण, बाधा, संकोचन
 restrictive duty आयन्वण कर
 r. endorsement आयन्वण पृष्ठांकना
 result परिणाम, फल
 resultant force परिणामी बल
 r. reaction परिणामी प्रतिक्रिया
 resume 1 (to take again) पुनर्ग्रहण
 2 (to begin again) पुनरारम्भण
 3 (to take back to oneself) प्रत्यादान
 r. duty कर्तव्य का पुनर्ग्रहण
 r. seat पुनः आसन ग्रहण करना
 retail अल्पशः, फुटकर
 r. dealer अल्पशो विक्रेता, फुटकर
 व्यापारी
 r. merchant अल्पशो वणिक्, फुटकर
 व्यापारी
 r. price अल्पशो मूल्य, फुटकर मूल्य
 r. price index numbers अल्पशो
 मूल्य देशानांक
 r. sale अल्पशो-विक्रय, फुटकर विक्री
 r. trader अल्पशो-व्यापारी, फुटकर
 व्यापारी
 retain प्रतिधारण करना (ancient word)
 retention प्रतिधारण
 retention money प्रत्यारक्षण राशि
 retentive power प्रतिधारण शक्ति
 retentivity प्रतिधारिता
 retire निवर्तन, सेवा-निवर्तन
 retired निवृत्त, सेवा-निवृत्त
 retiring a bill विपत्र-निवर्तन
 retract 1 *vb.* (to draw back in)
 प्रत्याकर्षण
 2 (to withdraw) प्रत्याहार करना
 retrench 1 (cut down) अवच्छेदन
 2 (remove) अपवर्तन
 retrenched अवच्छिन्न, अपवृत्त
 r. personnel अपवृत्त सेविवर्ग

retrogression प्रतीपगमन
retrogressive प्रतीपगामी (cf. regressive प्रतीगामी)
return 1 *vb.* प्रत्यावर्तन करना, लौटना
2 *n.* (i) प्रत्याय
(ii) विचरण
r. book प्रत्यावृत्त पुस्त
r. daybook प्रत्यावृत्त दिन पुस्त
r. inward विक्रय प्रत्याय
r. inward book पुंजी प्रत्याय पुस्त
r. of capital पुंजी प्रत्याय
r. outward book क्रय प्रत्याय पुस्त
returns inward book विक्रय प्रत्याय पुस्त, विक्री वापसी वही
r. outward book क्रय प्रत्याय पुस्त, खरीद वापसी वही
reevaluation पुनर्मूल्यन
r. of assets सम्पत्ति का पुनर्मूल्यन
revenue आगम
land r. भू-आगम
r. account आगम लेखा
r. court आगम-न्यायालय
r. duty आगम-कर
r. expenditure=revenue expenses आगम-व्यय
r. import duty आगम-प्रवेश्य कर
r. of state राज्य-आगम
r. profit आगम-लाभ
r. receipts आगम प्राप्ति
r. tax आगम-कर
reverberate प्रतिनिनदन
reverberation प्रतिनिनाद
reversal उत्क्रमण, उत्क्रामण, विपर्यय
reverse 1 *adj.* उत्क्रम, प्रति-,विपरीत
2 *n.* (back surface) पश्चात् तल, पश्चात् पृष्ठ, पृष्ठ के दूसरी ओर
reverse विपर्ययण, उल्टा करना
1 (to turn upside down, to invert) अधोवर्तन करना

2 (to turn completely about) विपर्ययण
3 (to change to the opposite) प्रति-परिवर्तन करना
4 (to transpose) पक्षान्तरण करना, स्थानान्तरण करना
5 (to revoke) निरसन करना
6 (to annul) अभिशून्य करना, रद्द करना
7 (to change to the contrary) विपर्यसन करना
8 (to cause to go or move in opposite direction) प्रतिक्रामण करना
9 (to do in the opposite way) प्रतिकरण, प्रतिलोमकरण
r. council bills प्रतिपरिषद् विपत्र
r. order उत्क्रम, विलोम क्रम
reversibility उत्क्राम्यता, विपर्ययता
reversible उत्क्राम्य, विपर्यय
reversion उत्क्रमण, उत्क्रामण, विपर्यय
reversionary प्रतिवर्ती, उत्तरभोग्य
r. bonus प्रतिवर्ती अधिलाभांश
revert प्रतिवर्तन
reverted प्रतिवर्तित
review 1 *vb.* पुनरीक्षा करना
2 *n.* पुनरीक्षा
revise पुनरावर्तन, पुनरावृत्ति करना
revised पुनरावृत्त, पुनरीक्षित
r. budget पुनरीक्षित आयव्ययक, संशोधित आयव्ययक
r. estimate पुनरीक्षित आगणन, संशोधित आगणन
r. list of business पुनरावृत्त कार्य-सूची, संशोधित कार्य-सूची
revision पुनरावृत्ति
revive पुनर्जीवित करना
revocable प्रत्यादेश्य, खण्डनीय, निरसनीय

r. credit प्रत्यादेश्य प्रत्यय
 revocation खण्डन, निरसन
 revoke निरसन, खण्डन
 1 (to bring back) प्रत्यानयन
 2 (to recall) प्रत्याह्वान, प्रत्यावर्तन
 3 (to call back to mind or memory) प्रत्यास्मरण
 4 (to restore to use) प्रत्युपयोग करना, पुनरुपयोजन
 5 (to revive) पुनर्जीवन
 6 (to annul by recalling or taking back) अभिशून्य करना
 7 (to repeal) विखण्डन करना
 8 (to rescind) अपखण्डन करना
 9 (to cancel) विलोपन करना
 10 (to reverse) विपर्यस्त करना
 revolt *n.* विप्लव (*see* mutiny)
 revolution 1 क्रान्ति, परिद्रोह (*see* mutiny)
 2 परिभ्रमण
 revolutionary क्रान्तिकारी, क्रान्तिमत्
 r. changes क्रान्तिकारी परिवर्तन
 r. socialism क्रान्तिमत् समाजवाद, क्रान्तिकारी समाजवाद
 r. socialist क्रान्तिमत् समाजवादी
 revolutionism क्रान्तिवाद
 revolutionist क्रान्तिकारी, क्रान्तिवादी
 revolve परिक्रमण करना
 revolving credit आवर्ती प्रत्यय
 r. dates परिभ्राम तिथि
 reward पारितोषिक, प्रतिफल
 rhythm लय
 rhythmic तालबद्ध, लयबद्ध
 r. movement ताल-गति
 rice चावल, तण्डुल
 r. mill तण्डुल निर्माणी, धनकुट्टी
 r. polish तण्डुल प्रमार्ज
 rich समृद्ध
 riches समृद्धि

rickshaw नर-यान
 ridicule 1 *vb.* अवहास करना
 2 *n.* अवहास
 ridiculous अवहास्य
 rigging the market (forcing up the price without regard to its real value) मूल्योन्नयन, कूटमूल्योन्नयन
 right अधिकार
 r. of audience श्रवणाधिकार
 r. of freedom स्वातन्त्र्य अधिकार
 r. of reply उत्तर-अधिकार, उत्तर देने का अधिकार
 r. relating to religion धर्म-सम्बन्धी अधिकार
 r. to constitutional remedies सांविधानिक उपचाराधिकार
 right hand side दक्षिण पादर्व
 Right Honourable संमाननीय
 right lobby दक्षिण सभा-कक्ष
 rights and liabilities अधिकार और उत्तरदायित्व, स्वत्व तथा देय
 r. of citizenship जानपद अधिकार
 r. of equality समताधिकार
 rigid परिदृढ, अनानम्य
 r. constitution अनानम्य संविधान
 rigidity अनानम्यता, परिदृढता
 rind disease (of sugarcane) इन्धु-चल्क-रोग
 rinderpest = cattle plague पशु-महामारी
 ring चलय, गुट्ट
 r. leader चलय नेता, गुट्ट नेता
 riot उपद्रव, दंगा
 rise *n.* उद्रोह
 r. and fall उच्चावचन, घट वढ़, चढ़ाव उतार
 r. in demand अभियाचन-उद्रोह, अभियाचन उत्कर्ष
 r. in price मूल्य-उद्रोह, मूल्य का चढ़ना

r. in supply प्रदाय-उद्गोह
 risk भय, संशय, उत्तरदायित्व, हानिभय, जोखिम
 r. bearing हानिभय उठाना
 river नदी
 r. basin (entire tract of a country drained by a river and its tributaries) नदी-क्षेत्र
 r. channel (in irrigation) नदी-पात्र
 r. craft नदी-वाहन
 r. weed नदी-घास
 road रथ्या, सड़क
 r. cess रथ्या-कर
 r. in cutting कूत रथ्या
 r. metal रथ्याश्म, सड़क का पत्थर
 r. patrol रथ्या-प्रहरी
 rob डाका डालना, लूटना, लुण्ठन
 robber डाकू, लुटेरा, लुण्ठक
 robbery डाका, लूटना, लुण्ठन
 rock crystal शैलस्फट
 rocket bomb प्रोलका प्रस्फोट
 rocky शिलेय
 roll नामावलि
 r. number नामावलि क्रमांक, अवलि संख्या
 roller वेल्लन
 rolling barrage *Mil.* व्यावली अवष्टम्भ
 r. motion वेल्लन गति
 r. stock घूर्ण स्कन्ध (moving stock चल स्कन्ध)
 ropeways रज्जुमार्ग
 rotation आवर्तन
 r. of crops सस्यावर्तन, फसल की हेरफेर
 rough स्थूल, रूक्ष
 r. account स्थूल लेखा
 r. calculation स्थूल गणना
 r. estimate स्थूल आगणन
 r. ledger क्षेप्य प्रपंजी

r. measurement स्थूल माप
 r. method स्थूल रीति
 roughly स्थूलरूप से
 round गोल
 r. brackets गोलाभिवार
 r. corner गोल कोण
 r. pointed pencil गोलाग्र अंकनी
 r. ruler गोल रेखक
 route पथ
 routine नैत्यक
 royal राजन्य (a kind of paper)
 r. white cartridge (a kind of paper) राजन्य श्वेत वेष्ट
 royalties अधिकार-शुल्क
 r. paid in advance अग्रेदत्त अधिकार-शुल्क
 r. suspense account निलम्बित अधिकार-शुल्क लेखा
 R/R (railway receipt) सं. प्रा. (संयान प्राप्ति)
 rudimentary अल्पविकसित, अवशेषक
 rudiments अल्पविकास
 rule नियम
 r. of conduct आचार-नियम
 r. of court न्यायालय-नियम
 r. of the road मार्ग-नियम
 r. of three त्रैराशिक
 ruled रेखित
 r. book रेखित पुस्त
 r. paper रेखित पत्र
 ruler राजा, नरेश
 r. of a State or Indian State देशी राज्य का नरेश
 ruling व्यवस्था, निर्णय
 run धावन, दौड़, दौड़ना
 r. off अपधावन
 r. on bank अधिकोष पर टूट पड़ना
 r. way धावन मार्ग
 running 1 धावन, दौड़

2 चल
 r. path धावन मार्ग
 r. policy चल गोपलेख
 rupture 1 *n.* विदार
 2 *vb.* विदीर्ण करना
 ruptured विदीर्ण
 rural ग्राम्य, ग्राम-
 r. bank ग्राम-अधिकोप
 r. credit ग्राम-प्रत्यय, ग्राम-उधार
 r. credit society ग्राम-उधार-समिति
 r. development ग्राम-विकास

r. development society ग्राम-विकास
 समिति
 r. economics ग्राम्य अर्थशास्त्र
 r. exodus ग्राम-त्याग
 r. life ग्राम-जीवन
 r. reconstruction ग्राम-पुनर्निर्माण
 r. site ग्राम-स्थान, ग्रामास्पद
 r. society ग्राम-समाज
 r. uplift ग्रामोद्धार
 rye grass नीवारिका घास

S

sacrifice स्वार्थत्याग
 safe 1 क्षेम
 2 सुरक्ष, तिजोरी
 safeguard 1 *n.* अभिरक्षा, अभिरक्षण
 2 *vb.* अभिरक्षा करना
 safety क्षेम, अभय
 sagging the market (as against
 rigging the market) मूल्य अपनयन
 sailor नाविक
 salaries and wages वेतन तथा भृति
 salary = pay वेतन
 saleable stock विक्रय स्कन्ध
 sale विक्रय
 s.-deed विक्रय-लेख
 s. disposition विक्रय हस्तान्तरण
 s. papers विक्रय-पत्र
 s. proceeds विक्रय-उदय, विक्रय-आय
 s. tax विक्रय-कर, विक्री-कर
 s. transaction विक्रय व्यवहार
 sales विक्रय
 cash s. रोक विक्रय, नकद विक्री
 credit s. उधार विक्रय, उधार विक्री
 s. account विक्रय-लेखा
 s. book विक्रय-पुस्त, विक्री वही
 s. by auction क्रोश-विक्रय, नीलाम से

विक्री
 s. commission विक्रय-वर्तन
 s. depot विक्रयागार
 s. journal विक्रय-पंजी, विक्री वही
 s. ledger विक्रय-प्रपंजी
 s. on commission वर्तन-विक्रय
 s. return विक्रय-प्रत्याय
 s. return journal विक्रय प्रत्याय पंजी
 s. warrant विक्रय अधिपत्र
 salesman विक्रेता
 salesmanship विक्रय-कला
 salutation अभिवादन
 salvage नाशरक्षण, नाशरक्षित, नाश-
 रक्षण-शुल्क
 sample न्यादर्श, नमूना
 s. inquiry *Statistics* निदर्शन अनु-
 सन्धान
 s. survey *Statistics* निदर्शन अधीक्षण
 sampling निदर्शन, न्यादर्श-चरण
 sanction सम्मोदन, स्वीकृति
 sanctioned सम्मोदित
 s. estimate सम्मोदित आगणन
 s. proposition statement सम्मोदित
 प्रस्तावना विवरण
 s. scale सम्मोदित श्रेणी

r. in supply प्रदाय-उद्रोह
risk भय, संशय, उत्तरदायित्व, हानिभय,
जोखिम

r. bearing हानिभय उठाना

river नदी

r. basin (entire tract of a coun-
try drained by a river and its
tributaries) नदी-क्षेत्र

r. channel (in irrigation) नदी-पात्र

r. craft नदी-वाहन

r. weed नदी-घास

road रथ्या, सड़क

r. cess रथ्या-कर

r. in cutting कूत्त रथ्या

r. metal रथ्याइम, सड़क का पत्थर

r. patrol रथ्या-प्रहरी

rob डाका डालना, लूटना, लुण्ठन

robber डाकू, लुटेरा, लुण्ठक

robbery डाका, लूटना, लुण्ठन

rock crystal शैलस्फट

rocket bomb प्रोल्का प्रस्फोट

rocky शिलेय

roll नामावलि

r. number नामावलि क्रमांक, अवलि
संख्या

roller वेल्लन

rolling barrage *Mil.* व्यावल्गी अवष्टम्भ

r. motion वेल्लन गति

r. stock घूर्ण स्कन्ध (moving stock
चल स्कन्ध)

ropeways रज्जुमार्ग

rotation आवर्तन

r. of crops सस्यावर्तन, फसल की
हेरफेर

rough स्थूल, रूक्ष

r. account स्थूल लेखा

r. calculation स्थूल गणना

r. estimate स्थूल आगणन

r. ledger क्षेप्य प्रपंजी

r. measurement स्थूल माप

r. method स्थूल रीति

roughly स्थूलरूप से

round गोल

r. brackets गोलाभिवार

r. corner गोल कोण

r. pointed pencil गोलाग्र अंकनी

r. ruler गोल रेखक

route पथ

routine नैत्यक

royal राजन्य (a kind of paper)

r. white cartridge (a kind of
paper) राजन्य श्वेत वेष्ट

royalties अधिकार-शुल्क

r. paid in advance अग्रेदत्त
अधिकार-शुल्क

r. suspense account निलम्बित
अधिकार-शुल्क लेखा

R/R (railway receipt) सं. प्रा. (संयान
प्राप्ति)

rudimentary अल्पविकसित, अवशेषक

rudiments अल्पविकास

rule नियम

r. of conduct आचार-नियम

r. of court न्यायालय-नियम

r. of the road मार्ग-नियम

r. of three त्रैराशिक

ruled रेखित

r. book रेखित पुस्त

r. paper रेखित पत्र

ruler राजा, नरेश

r. of a State or Indian State देशी
राज्य का नरेश

ruling व्यवस्था, निर्णय

run धावन, दौड़, दौड़ना

r. off अपधावन

r. on bank अधिकोष पर टूट पड़ना

r. way धावन मार्ग

running 1 धावन, दौड़

2 चल
 r. path धावन मार्ग
 r. policy चल गोपलेख
 rupture 1 n. विदार
 2 vb. विदीर्ण करना
 ruptured विदीर्ण
 rural ग्राम्य, ग्राम-
 r. bank ग्राम-अधिकोष
 r. credit ग्राम-प्रत्यय, ग्राम-उधार
 r. credit society ग्राम-उधार-समिति
 r. development ग्राम-विकास

r. development society ग्राम-विकास
 समिति
 r. economics ग्राम्य अर्थशास्त्र
 r. exodus ग्राम-त्याग
 r. life ग्राम-जीवन
 r. reconstruction ग्राम-पुनर्निर्माण
 r. site ग्राम-स्थान, ग्रामास्पद
 r. society ग्राम-समाज
 r. uplift ग्रामोद्धार
 rye grass नीवारिका घास

S

sacrifice स्वार्थत्याग
 safe 1 क्षेम
 2 सुरक्ष, तिजोरी
 safeguard 1 n. अभिरक्षा, अभिरक्षण
 2 vb. अभिरक्षा करना
 safety क्षेम, अभय
 sagging the market (as against
 rigging the market) मूल्य अपनयन
 sailor नाविक
 salaries and wages वेतन तथा भृति
 salary = pay वेतन
 saleable stock विक्रय स्कन्ध
 sale विक्रय
 s.-deed विक्रय-लेख
 s. disposition विक्रय हस्तान्तरण
 s. papers विक्रय-पत्र
 s. proceeds विक्रय-उदय, विक्रय-आय
 s. tax विक्रय-कर, विक्री-कर
 s. transaction विक्रय व्यवहार
 sales विक्रय
 cash s. रोक विक्रय, नक़द विक्री
 credit s. उधार विक्रय, उधार विक्री
 s. account विक्रय-लेखा
 s. book विक्रय-पुस्त, विक्री यही
 s. by auction क्रोश-विक्रय, नीलाम से

विक्री
 s. commission विक्रय-वर्तन
 s. depot विक्रयगार
 s. journal विक्रय-पंजी, विक्री यही
 s. ledger विक्रय-प्रपंजी
 s. on commission वर्तन-विक्रय
 s. return विक्रय-प्रत्याय
 s. return journal विक्रय प्रत्याय पंजी
 s. warrant विक्रय अधिपत्र
 salesman विक्रेता
 salesmanship विक्रय-कला
 salutation अभिवादन
 salvage नाशरक्षण, नाशरक्षित, नाश-
 रक्षण-शुल्क
 sample न्यादर्श, नमूना
 s. inquiry *Statistics* निदर्शन अनु-
 सन्धान
 s. survey *Statistics* निदर्शन अधीक्षण
 sampling निदर्शन, न्यादर्श-चरण
 sanction सम्मोदन, स्वीकृत
 sanctioned संमोदित
 s. estimate सम्मोदित आगणन
 s. proposition statement सम्मोदित
 प्रस्तावना चिचरण
 s. scale सम्मोदित ध्रेणी

sandstone वालुकाश्म, बलुआ पत्थर
sane स्वस्थ, प्रकृतिस्थ
sanitary आरोग्यकारी
s. charges आरोग्य व्यय
s. engineering स्वास्थ्य अभियन्त्रणा
sans recours दायित्व रहित
s. recours endorsement दायित्व-
रहित पृष्ठांकना
santonin कुमिद्रावि
sarai पथिकशाला, सराय
satiability तृप्यता
satiabile तृप्य
s. wants तृप्य अभीच्छाएं
satiation of wants अभीच्छा-तृप्ति
satisfaction तृप्ति, सन्तोष
satisfactory सन्तोषजनक, सन्तोषप्रद
satisfied सन्तुष्ट
satisfy, satisfying सन्तोष देना, समा-
धान करना
save संचय करना, वचाना
savings 1 संचय
2 Law परित्राण, अपवाद
s. bank संचय अधिकोष
s. bank pass book संचयाधिकोष
ग्राहक पुस्तिका
s. clause Law परित्राण वाक्यखण्ड,
अपवाद-वाक्यखण्ड
s. deposit संचय निक्षेप
scale 1 श्रेणी, अनुमाप, मापश्रेणी
2 मापनी
3 (balance) तुला
s. of diet आहार-श्रेणी
s. of doses मात्रा-श्रेणी
s. of drawing उद्रेख-श्रेणी, उद्रेख-
मापनी
s. of representation प्रतिनिधान की
श्रेणी
s. pan तुला पात्र
scarcity स्वरूपता, दुष्प्राप्यता

s. rent दुष्प्राप्यता भाटक
s. value दुष्प्राप्यता अर्हा
schedule 1 n. अनुसूची, सूची
2 vb. अनुसूचित करना
3 n. योजना-लेख (a written plan
of future procedure in the carry-
ing out of some project)
s. of authorized expenditure प्राधि-
कृत व्यय की अनुसूची
s. of demands अभियाचन-सूची
scheduled अनुसूचीबद्ध, अनुसूचित
s. areas अनुसूचित क्षेत्र
s. bank अनुसूचित अधिकोष, अनुसूची-
बद्ध अधिकोष
s. castes अनुसूचित जातियां
s. list अनुसूचित सूची
s. time (of a train) सूचित समय
(cf. train schedule संयान समया-
चलि)
s. tribes अनुसूचित वन-जातियां
scheme योजना
s. of development विकास-योजना
scholarship छात्रवृत्ति
s.-holder छात्रवृत्तिधारी, वृत्तिछात्र
school 1 पाठशाला
2 सम्प्रदाय
s. account पाठशाला का लेखा
s. of political economy राज्यार्थ-
व्यवस्था का सम्प्रदाय
science विज्ञान
s. museum विज्ञान कौतुकालय
scientific वैज्ञानिक
s. and industries department
विज्ञान और उद्योग विभाग
s. management वैज्ञानिक प्रबन्ध
s. marketing वैज्ञानिक विपणन
s. storage वैज्ञानिक संग्रहण
scope विस्तार, क्षेत्र, अवकाश (scope for
production)

s. of economics अर्थशास्त्र का क्षेत्र
 scrap क्षेप्य
 s. book क्षेप्य पुस्त
 s. iron क्षेप्य लोहा, छंटा लोहा
 s. value क्षेप्य अर्ह
 scribbling pad विरेखन चय
 scrip (provisional certificate) अपक्व-
 प्रमाणपत्र
 script लिपि
 scrutinize परिनिरीक्षण करना
 scrutiny परिनिरीक्षा
 scuffle हाथापाई, विमर्द
 sculpture मूर्तिकला, मूर्तिकर्म
 seal नाममुद्रा
 common s. साधारण नाममुद्रा
 s. register नाममुद्रा-पंजी
 sealed मुद्रांकित, संमुद्रित
 s. tender संमुद्रित निविदा
 seamen's and marine hospital सामु-
 द्रिक तथा पौतिक चिकित्सालय
 s. hospital सामुद्रिक चिकित्सालय
 sea-route जल-मार्ग, समुद्र-मार्ग
 season काल, ऋतु
 seasonal आर्तव, कालिक
 s. fluctuations आर्तव उच्चावचन
 s. occupation आर्तव व्यवसाय
 s. power ऋतु भर के लिये विजली
 s. trend आर्तव प्रवृत्ति
 s. variation आर्तव विचरण
 s. ward सामयिक विभाग
 seat = seating आसन
 second 1 *adj.* द्वितीय
 2 *vb.* अनुमोदन, समर्थन
 s. amendment द्वितीय संशोधन
 s. call द्वितीय प्रभाग-याचना
 s. class paper द्वितीय वर्ग पत्र
 s. mortgage द्वितीय प्राधि
 s. of exchange विपत्र द्वितीयक
 s. security द्वितीय प्रतिभूति

secondarily गौण रूप से
 secondary गौण, द्वितीयक
 s. capital गौण पुंजी
 s. data द्वितीयक सामग्री
 s. education bill माध्यमिक शिक्षा
 विधेयक
 s. growth उत्तर वृद्धि
 s. power *Irrigation* गौण विजली,
 गौण विद्युत्
 secrecy गूढता, गुह्यता
 secret गूढ, गुह्य
 s. ballot गूढ शलाका, गूढमत
 s. caucus गूढ सम्मिलन
 s. reserves गुह्य संचिति
 s. writing गूढ लेख
 secretariat सचिवालय
 secretary सचिव
 additional s. अपर सचिव
 assistant s. सहायक सचिव
 chief s. मुख्य सचिव
 deputy s. प्रति-सचिव
 extra s. अतिरिक्त सचिव
 joint s. संयुक्त सचिव
 under s. उप-सचिव
 S. of State for India भारत का राज्य-
 सचिव, भारत सचिव
 section 1 अनुविभाग, उपविभाग (divi-
 sion of a department विभाग)
 2 (of an act) धारा
 s.-holder (as in a press) अनुविभाग-
 पाल
 sectional 1 अनुविभागीय
 2 *Math.* छेदीय
 s. elevation छेदीय उद्विक्षेप
 s. ledger अनुविभाग-प्रपंजी
 s. plan छेदीय अनुविक्षेप
 s. view छेदीय दृशा
 secular लौकिक, असांम्प्रदायिक
 secure = obtain *vb.* प्राप्त करना, पाना

secured प्रतिभूत
 s. creditors प्रतिभूत उत्तमर्ण
 s. debtors प्रतिभूत अधमर्ण
 security 1 प्रतिभूति
 2 (safety) क्षेम
 bearer s. वाहक प्रतिभूति
 collateral s. सामपार्श्विक प्रतिभूति
 first class s. प्रथम वर्ग प्रतिभूति
 gilt-edged s. परम प्रतिभूति
 government s. राज्य-प्रतिभूति
 inscribed s. अन्तर्लिखित प्रतिभूति
 marketable s. विपण्य प्रतिभूति
 personal s. वैयक्तिक प्रतिभूति
 public s. = public safety लोक-क्षेम
 registered s. पंजीयित प्रतिभूति
 second s. द्वितीय प्रतिभूति
 s. bond प्रतिभूति बन्ध
 s. deposit प्रतिभूति निक्षेप
 s. of the unit अंग की निश्चकता
 third s. तृतीय प्रतिभूति
 sedition राजद्रोह (see mutiny)
 seduce (se aside + ducere to lead)
 शीलापवहन
 seducible शीलापवाह्य
 seductor शीलापवाहक
 seductress शीलापवाहिका
 seed बीज
 s. germination बीजोद्भेदन
 s. nursery बीज-रोपणी
 s. store-house बीज-संग्रहागार
 seeding बीज बोना
 seedling बीजांकुर
 1 (a plant grown for seed) बीज-जात
 2 (a small seed) क्षुद्रबीज
 seeming = apparent आभासी, आभास-मान
 see-saw आन्दोलक (ancient word)
 segment खण्ड

segmental खण्डयुत, खण्डशः
 segmentation खण्ड-विन्यास
 seigniorage टंकण-प्रलाभ (प्रलाभ = प्रभार + लाभ)
 select committee प्रवर समिति
 selection प्रवरण
 selective (having selected, after selection) प्रवृत्त्य
 self-adjusting स्वयं-व्यवस्थापी
 self-balancing ledger स्वयं-संतोली प्रपंजी
 self-contained (draft) अनन्यापेक्ष, स्ववंपूर्ण
 self-determination आत्म-निर्णय
 self-explanatory स्वयं-व्याख्यात, निगद-व्याख्यात (from निरुक्त)
 self-restraint आत्म-संयम
 self-sterility आत्म-बन्ध्यता
 self-sufficient आत्म-निर्भर, स्वावलम्बी
 sell विक्रयण, वेचना
 seller = dealer विक्रेता
 sellers over (more sellers than buyers) विक्रेतु-आधिक्य
 selling विक्रय, विक्रयण, विक्री
 s. agent विक्रय-अभिकर्ता
 s. cost विक्रय-परिव्यय
 s. expenses विक्रयण-व्यय
 s. oncost विक्रयण-अधिव्यय
 s. out उद्विक्रयण
 s. price विक्रय-मूल्य, विक्रयण मूल्य
 semi- अर्ध-
 s.-autonomous अर्ध-स्वायत्त
 s.-circle अर्ध-वृत्त
 s.-circular अर्ध-वर्तुल
 s.-fluid अर्ध-द्रव
 s.-permeable अर्धतिवध्य
 s.-rigid अर्धानाम्य
 s.-vertical अर्धोद्वय
 s.-weekly = biweekly अर्धसाप्ताहिक

seminal fluid रेतस्त्राव
senility जरा, बुढ़ापा
senior उपरि, ज्येष्ठ, ज्यायान्
s. auditor ज्येष्ठ अंकैक्षक
s. basic school उपरि आधार पाठ-
शाला
s. most ज्येष्ठतम
s. school उपरि पाठशाला
s. technical school उपरि प्रौद्योगिक
पाठशाला
seniority ज्येष्ठता
sense अभिप्राय
s. of the assembly सभा का अभिप्राय
sensibility इन्द्रिय-ग्राह्यता, संवेधता
sensible 1 (perceptible by senses)
संवेध, इन्द्रिय-ग्राह्य
2 (intelligent) बुद्धिमान्
sensitive to touch स्पर्श-हर्षी
sensory संवेदी
s. nerve संवेदी चेता
sentence दण्ड, दण्डादेश, वाक्य
s. of death मृत्यु-दण्ड, प्राण-दण्ड
separate पृथक्
s. account पृथक् लेखा
s. effects पृथक् सम्पत्ति
s. electorate पृथक् निर्वाचक-वर्ग
s. sum पृथक् राशि
sequence अनुक्रम
sergeant (attendant) परिचारक
sergeant-at-arms (an officer of a
legislative assembly who attends
upon it to execute its commands
in preserving order, arresting
offenders or the like) सशस्त्र परि-
चारक
serially numbered क्रमांकित
sericulture कौशकृमि-पालन
series श्रेढी, माला
serious error गम्भीर विभ्रम, गम्भीर

भूल
service सेवा
s. book सेवा-पुस्त
s. postage=service stamps राजकीय
मुद्रांक, राजकीय प्रेष-मुद्रांक
s. telegram राजकीय दूरलेख, राज-
कीय तार
s. utility सेवा-उपयोगिता
sessional committee सात्त्विक समिति
sessions सत्र
s. and district judge सत्र तथा
मण्डल न्यायाधीश
s. court सत्र न्यायालय
s. judge सत्र न्यायाधीश
set n. (collection) कुलक
s. aside उत्सादित करना, रह करना
s. forth दिये गए
s. off प्रति-सादन (set against), प्रति-
अध्यर्थन (counterclaim)
settle वसना
s. down संनिवेशन, वसना
settlement व्यवस्था, बन्दोबस्त
settling परिशोधन
s. days परिशोधन दिवस
s. of accounts लेखा-परिशोधन
sewage मल
s. disposal मल-अपवहन
sex स्त्री-पुरुष-भेद, लिङ्ग, स्त्रीपुरुष
s. character लैंगिक लक्षण
s. function लिंग-कार्य
s. instinct नैसर्गिक काम-प्रवृत्ति
s. ratio स्त्री-पुरुष-अनुपात
s. stimulating कामोद्दीपक
sexual (having sex) लिंगवान्, लिंगी
s. instinct नैसर्गिक काम-प्रवृत्ति
s. intercourse मैथुन
s. literature काम-साहित्य
s. production मैथुन-प्रजनन
s. union मैथुन

shall be free अनियन्त्रित होगा
 shall be void लागू न होगा, प्रवृत्तिहीन होगा
 shall have effect लागू होगा, प्रवृत्त होगा
 share अंश, भाग
 cumulative s. संचयी अंश
 deferred s. आस्थगित अंश
 ordinary s. साधारण अंश
 preference s. पूर्वाधिकार अंश
 promoter's s. प्रवर्तक अंश
 s. capital अंश-पुंजी
 s. certificate अंश प्रमाणपत्र
 s. holder अंश-धारी
 s. ledger अंश प्रपंजी
 s. market अंश विपणि
 s. register अंश पंजी
 s. transfer अंश-संक्रामण
 s. warrant अंश-अधिपत्र
 sharp 1 तीव्र, उग्र
 2 (as, an image) विविक्त
 s. line विविक्त रेखा
 sheet स्तार
 s. iron स्तारायस, स्तार लोहा
 shelf निघाय
 sheriff श्राद्धविवाक (ancient word)
 shifting of taxes कर-विवर्तन
 ship नौ, जलयान, पोत
 s. captain=s. master पोताध्यक्ष
 s. wreck नौभंग
 s. yard नौ-प्रांगण
 shipment 1 (goods sent and received by ship) नौभाण्ड
 2 (loading a ship) नौभरण
 3 (consignment through a ship) नावापरेषण
 shipowner पोत-स्वामी
 shipper 1 (one who sends goods by ship) पौतिक, पोतवणिक
 2 (one who loads on a ship) नौ-

भारिक
 shipping 1 (transportation by ship) नौपरिवहन
 2 (loading and unloading a ship) नौभरण-रेचन
 s. bill नौ-विपत्र
 s. freight नौ-भाटक
 shop आपण, विक्रयशाला, विक्रयगृह, दुकान
 s.-keeper आपणिक, दुकानदार
 short अल्प, ह्रस्व, क्षुद्र, लघु, अल्पकाल-
 s. bills अल्पकाल-विपत्र, स्वल्पकालीन विपत्र
 s. circuit लघु परिपथ
 s. circuiter लघु परिपथित्र
 s. circuiting Irrigation लघु परिपथन
 s.-cut method लघु रीति
 s. dash लघु प्रास
 s. dated bills अल्पकाल-विपत्र
 s. delivery अल्प-प्रदान
 s. distance अल्पान्तर
 s. exchange अल्पकालीन विनिमय, अल्पकाल विनिमय
 s. loan fund अल्पकाल-ऋण-प्रणीवि
 s. loans अल्पकाल ऋण
 s. money अल्पकाल-राशि
 s. notice loan अल्पकाल सूचना का उधार
 s. notice money अल्पकाल सूचना-राशि
 s. period अल्पावधि, अल्पकाल
 s. period equilibrium अल्पावधि साम्य
 s. period market अल्पावधि विपणि
 s. period price अल्पकाल मूल्य
 s. period trend अल्पकाल प्रवृत्ति
 s. price अल्पकालीन मूल्य
 s. stock अल्प स्कन्ध

s. term credit अल्पावधि प्रत्यय,
अल्पावधि उधार, अल्पकालीन प्रत्यय
s. term fluctuations अल्पावधि उच्चा-
वचन, अल्पकालीन उच्चावचन
s. term oscillations अल्पकालीन
प्रदोल
s. term variations अल्पकालीन
विचरण
s. time अल्प-काल
s. time changes अल्पकालीन परिवर्तन
s. time fluctuations अल्पकालीन
उच्चावचन
s. title संक्षिप्त नाम
s. workings 1 न्यून खनन-राशि
2 (redeemable dead rent) शोध्य
मृतभाटक
shorthand आशुलिपि
shrinkage आसंकोचन
shunting पाश्चात्य
side पक्ष, पार्श्व
s. by s. पार्श्वानुपार्श्व, साथ साथ
s. edge पार्श्व धारा
s. elevation पार्श्व उद्विक्षेप
s. industry पार्श्व उद्योग
s. light पार्श्व प्रकाश
s. observations गौण विचार, गौण
उक्ति
s. of a question प्रश्न का पक्ष
sight दर्शन
after s. दर्शनान्तर
s. bills दर्शने-विपत्र
s. draft दर्शने-विकर्ष
s. entry = bills of sight दर्शन-
प्रविष्टि-पत्र
s. exchange दर्शने-विनिमय
s. rate दर्शनार्थ
sighted दृष्ट
sighting a bill विपत्र-दर्शन
sign हस्ताक्षर करना

signatory हस्ताक्षरी
s. to the memorandum स्मारक-
हस्ताक्षरी
signature हस्ताक्षर
signed हस्ताक्षरित
significance सार्थकता, अर्थ
silent मूक
s. electric discharge मूक विद्युन्मोच
s. partner मूक भागी
silica सैकजा
silt साद
s. control साद नियन्त्रण
silver रजत, चांदी
s. coin रजत टंक, चांदी का सिक्का
s. standard रजत प्रमाण
similar सदृश, समरूप, समान
similarity सादृश्य, समरूपता
similarly तथैव
simple सरल, साधारण, असंयुक्त, अ-
मिश्रित
s. arbitrage एकान्तर पणन
s. calculation सरल गणन
s. chart सरल चित्र
s. classification सरल वर्गीकरण
s. debenture = naked debenture
अनावृत ऋणपत्र, अप्रतिभूत ऋणपत्र
s. derivatives सरल व्युत्पन्न
s. equation सरल समीकार
s. formula सरल सूत्र
s. geometric average सरल गुणोत्तर
माध्य
s. hurt साधारण चोट, साधारण उप-
घात
s. index number सरल देशनांक
s. interest साधारण वृद्धि, सरल वृद्धि
s. quantity सरल राशि, अमिश्र राशि
s. reserve सरल संचिति
s. scale सरल मापश्रेणी
s. tabulation सरल सारणीयन

s. unit सरल एकक
simplicity सरलता
simplification सरलीकरण
simplify सरल करना
sincerely yours = yours sincerely
भवदीय सद्भार्वी
sine die अनियत दिन पर्यन्त, अनियत
तिथि पर्यन्त
single एक, एकी, एकल, अकेला
s. account एकी लेखा
s. account system एकी लेखा पद्धति
s. bond एक-बन्ध
s. cost account एकी परिव्यय लेखा
s. drop *Irrigation* एक पात
s. endowment एक प्राभृत
s. entry system एक-प्रविष्टि-पद्धति
s. lens एकी वीक्ष
s. option एकल विकल्प
s. row एकल पंक्ति
s. standard एकी प्रमाण
s. tabulation एक-सारणीयन
s. tax system एकी कर-पद्धति
s. transferable vote एकल संक्राम्य
मत
singly एकशः, एकल
sinking fund शोधन प्रणीवि, प्रतिस्थापन
प्रणीवि (when it is = replacement
fund)
s. f. insurance policy शोधन प्रणीवि
गोपलेख
s. f. investment account शोधन
प्रणीवि विनियोग लेखा
s. f. table शोधन प्रणीवि सारणी
s. f. to repay liability देय शोधन
प्रणीवि
s. f. to replace assets सम्पत्ति प्रति-
स्थापन प्रणीवि
sir आर्य, श्रीमन्, महोदय
sister (a head-nurse) महोपचारिका,

भगिनी, वहिन
sit-down strike निषेदन कर्मविराम
site स्थान, आस्पद (ancient word)
sitting बैठक, निषेदन
situated स्थित
situation स्थिति
size of bore संछिद्र का परिमाण
skill नैपुण्य, कौशल, प्रावीण्य, दक्षता
skilled प्रवीण, दक्ष
s. labour प्रवीण श्रम, दक्ष श्रम
s. worker दक्ष कर्मी
skins and hides चर्म और खालें
slack season शिथिल काल
slander अपमान-वचन
slaughter पशुवध
s.-house पशुवध-गृह, सूना-गृह (anci-
ent word)
slave labour दास-श्रम
sleeping निष्क्रिय, सुप्त
s. partner निष्क्रिय भागी
s. rent सुप्त भाटक
slide 1 *vb.* सर्पण, सरकना
2 *n.* स्तूप
s. bars स्तूप शलाका
slider सर्पक
sliding स्तूप, विसृप
s. key स्तूप कुंची
s. scale विसृप अनुमाप
s. scale wages विसृप अनुमाप-भृति
slip 1 (as of a belt) सर्पण
2 (a piece of paper) पर्णी
s. system पर्णी-पद्धति
sluggish मन्द, मन्दर, मन्दग
sluggishness मन्दरता
sluice gate जल-द्वार
slump अवपात (cf. depression अव-
साद), मन्दता, मन्दी
small क्षुद्र, लघु
s. holding लघु-क्षेत्र

- s. post octavo (a kind of paper) लघु प्रेष अष्ट-पृष्ठ
- s. pox मसूरी, चेचक, शीतला
- s. scale लघ्वनुमाप, छोटा पैमाना
- s. scale industry लघ्वनुमाप उद्योग
- s. scale production लघ्वनुमाप उत्पादन
- smithy लोहशाला
- smooth मसृण, चिकना (cf. rough खर)
- s. surface मसृण तल, चिकना तल
- smother वायुरोध करना, वायु रोक कर मारना
- smoulder प्रधूमन (ancient word)
- smuggling 1 (importing foreign goods secretly) चौर्यानयन
2 (clandestine trade in prohibited goods) चौर्यपणन
- snap-shot क्षण-चित्र
- snow-fall हिम-पात, शीन-पात
- so and so अमुक
- soap स्वफेन, साबुन
- s. stone शैलखटी, सेलखड़ी
- social सामाजिक
- s. and cultural opportunity सामाजिक तथा सांस्कृतिक अवसर
- s. custom सामाजिक आचार, लोकाचार
- s. economics सामाजिक अर्थशास्त्र, सामाजिक अर्थव्यवस्था
- s. economy सामाजिक अर्थव्यवस्था
- s. evolution सामाजिक उद्विकास
- s. injustice सामाजिक अन्याय
- s. insurance सामाजिक आगोप्य
- s. monopoly सामाजिक एकाधिकार
- s. order सामाजिक व्यवस्था
- s. reconstruction पुनर्निर्माण
- s. relation सामाजिक सम्बन्ध
- s. science समाज-विज्ञान
- s. service सामाजिक सेवा
- s. status सामाजिक प्रास्थिति
- s. welfare सामाजिक हित
- socialism समाजवाद
- socialist समाजवादी
- s. theory of crisis समाजवाद का संकट-सिद्धान्त
- society 1 समाज
2 समिति, मण्डली
- sociologist = sociologian सामाजिकी-विद्
- sociology सामाजिकी, समाज-शास्त्र
- socket उलूखल
- soda विश्कार
- s. ash विश्कार भस्म
- s. bleach विश्कार श्वेतक
- soft money = paper money पत्र-मुद्रा
- soil उन्मृदा, भूमि
- s. conservation उन्मृदा संरक्षण
- s. exhaustion भूमि श्रान्ति, उन्मृदा श्रान्ति
- s. root मृदा मूल
- s. science उन्मृदा-विज्ञान
- solar system सौर संहति
- sold विक्रीत
- s. book विक्रीत पुस्त
- s. ledger विक्रीत प्रपंजी
- s. ledger adjustment account विक्रीत प्रपंजी समायोजन लेखा
- s. note विक्रीत पत्र
- sole एक, एकल
- s. agent एकाभिकर्ता
- s. trader एकल व्यापारी
- solemn declaration (made under the penalties of perjury by a person who conscientiously declines taking an oath) सत्योक्ति
- solemnly गम्भीरतापूर्वक
- solicitor (one who takes care of suits pending in courts) अभियोग-

जीवी
 solidarity समैक्य, एकता
 soluble in water जल-विलेय
 solution 1 साधन, समाधान, हल
 2 विलयन, घोल
 solved example साधित उदाहरण
 solvent शोध-क्षम (abbr. from ऋण-
 शोध-क्षम)
 sound ध्वनि
 s. photography ध्वनि भाचित्रणा
 s. proof ध्वनि-रुध्
 s. pulse ध्वनि स्पन्द
 s. waves ध्वनि-तरंग
 sounder ध्वनित्र
 sour अम्ल, खट्टा
 source of power शक्ति-प्रभव, विद्युत्-प्रभव
 south दक्षिण
 s. east आग्नेय
 s. gallery दक्षिण दीर्घा
 s. pole दक्षिण ध्रुव
 s. west नैऋत्य
 sovereign सम्पूर्ण सत्ताधारी
 s. democratic republic सम्पूर्ण
 सत्ताधारी प्रजातन्त्रात्मक गणराज्य
 spare अतिरिक्त
 s. parts (extra parts of a machine)
 अतिरिक्त भाग
 s. time अतिरिक्त समय, रिक्त समय
 spark discharge स्फुलिंग-मोच
 spasm *Med.* अंगग्रह (from सुश्रुत)
 speaker अध्यक्ष (cf. president प्रधान,
 chairman सभापति)
 s. of the House of the People
 लोकसभा का अध्यक्ष
 special विशेष
 s. act विशेष अधिनियम (private act
 वैयक्तिक अधिनियम)
 s. bill विशेष विधेयक
 s. business विशेष कार्य

s. care विशेष अवधान
 s. constituency विशेष प्रतिमण्डल
 s. cost विशेष परिव्यय
 s. crossing विशेष रेलखण
 s. endorsement विशेष पृष्ठांकना
 s. goods account विशेष वस्तु लेखा
 s. license विशेष अनुज्ञापत्र
 s. meeting विशेष अधिवेशन
 s. provisions विशेष प्रावधान
 s. rates विशेष अर्घ, खास दर
 s. resolution विशेष संकल्प
 s. ward विशेष विभाग
 specialization विशेषीकरण, विशेषोप-
 योजन
 specialize *vb.* विशेषोपयोजन
 specialized (fitted for some special
 thing) विशेषोपयुक्त
 s. capital विशेषोपयुक्त पुंजी, विशेषित
 पुंजी
 s. organ विशेषितांग
 s. skill विशेषोपयुक्त नैपुण्य
 specie 1 टंक
 2 (bullion = gold or silver) अकुप्य
 (not a base metal)
 s. point टंकांक, स्वर्णांक
 specific 1 विशिष्ट, निश्चित
 2 (pertaining to species जाति)
 जातीय, जाति-
 s. characteristics जाति-लक्षण
 s. duty परिमाण-कर
 s. expenditure विशिष्ट व्यय
 s. inductive capacity आपेक्षिक
 प्ररोची धारिता
 s. legacy विशिष्ट पत्ररिक्त
 s. name जाति नाम
 s. recommendation विशिष्ट अभि-
 स्ताव, निश्चित अभिस्ताव
 specifically appropriated विशेष रूप
 से नियोजित

specifications विस्तृत विवरण
 specify निर्देशन
 specimen signature निदर्शन हस्ताक्षर
 spectacle अधिदृश्य
 scene दृश्य
 view दृशा
 spectacular अधिदर्शनीय
 spectrum (a series of images) 1 मूर्ति-
 माला
 2 रंगावलि
 speculate परिकल्पना करना, सट्टा लगाना
 speculated परिकल्पित
 speculation परिकल्पना, सट्टा
 speculative परिकल्पी
 s. demand परिकल्पी आभियाचन
 speculator परिकल्पक
 speech भाषण
 speed वेग (velocity प्रवेग)
 spend-thrift अतिव्ययी, अपव्ययी
 spent वीत
 spiral कुन्तल
 splenic fever ग्रीह-ज्वर
 split *n.* विपाट
 splits *n.* (shares split up into stocks
 of two denominations) खाण्डितक
 spoiled paper (in election) विरुत पत्र
 spoliation लूट, आलुण्ठन
 sponge gold (purest gold) परिशुद्ध
 सुवर्ण
 spontaneous यदृच्छ, स्वतःस्फूर्त, स्वामा-
 विक
 s. movement स्वतो-गति
 spool (used to wind बल् thread, etc.)
 बलनी
 spot price तत्स्थान मूल्य, तन्क्षण मूल्य
 spring वसन्त
 square समायत (सम + आवृत square
 tangle), वर्ग
 s. bracket कोणामिदार []

s. diagram वर्ग चित्र
 s. root वर्ग मूल
 squeeze निष्पीडन, निचोड़ना
 squeezer निष्पीडक
 stability स्थायित्व
 s. of data सामग्री-स्थायित्व
 s. of value अर्हा-स्थायित्व
 s. of wants अभीच्छा-स्थायित्व
 stabilization स्थायीकरण
 stable स्थायी
 s. account स्थायी लेखा
 staff 1 कर्मचारिवर्ग
 2 (nurse) चारिका (see matron)
 s. car अधिकारि-चरित्र
 stage 1 अवस्था, प्रक्रम
 2 मंच
 s. of the bill विधेयक-प्रक्रम
 stagnant water निष्प्रवाह जल. खड़ा
 पानी
 stale वासी, पर्युषित. खजदिरौहिद. चौद-
 काल
 s. cheque खजदिरौहिद खतरेखा
 stalk वृन्त, डंडा
 s. like वृन्तवदक
 stamp 1 *n.* छापक कला
 2 *n.* छापक
 s. and other marks and lines
 छापक खेप्य कर और चिह्न
 s. and postage revenue छापक और
 पोस्टल रेवेनी
 s. duty छापक कर
 s. revenue छापक रेवेनी
 s. duty
 s. duty
 s. duty
 s. duty
 s. duty
 s. duty

s. of life जीवन-प्रमाण
s. of living निर्वाह-प्रमाण, जीवन-स्तर
s. position प्रमाण स्थिति
s. rates प्रमाण अर्घ
s. substances प्रमाण पदार्थ
s. value प्रमाण अर्ह
standardization प्रमाणण, प्रमापीकरण
standardized प्रमापीकृत
s. death rate प्रमाणित मृत्यु-अर्घ
s. fruit product प्रमाणित फल निर्मित
standing 1 n. (length of service)
सेवाकाल, (position) स्थिति
2 adj. स्थायी
s. committee स्थायी समिति
s. credit स्थायी प्रत्यय
s. expenses स्थायी व्यय
staple (principal products or manu-
factures of a country) प्रमुख्य
s. commodities प्रमुख्य पण्य
s. trade प्रमुख्य व्यापार
starch मंड, मांड
starchy food मंडान्न
start from से आरम्भ करना
to s. with आरम्भ में
starting आरम्भण
s. entry आरम्भण प्रविष्टि
s. point प्रस्थान-विन्दु
s. switch आरम्भण-संविद्युत्
starvation wages श्रुधामार भृति, श्रुधा-
भृति
state 1 vb. आवेदन करना
2 n. (i) अवस्थिति, स्थिति, अवस्था
(ii) राज्य
s. aid राजकीय सहायता
s. bank राज्य अधिकोप
s. interference राज्य-हस्तक्षेप
s. monopoly राज्य-एकाधिकार
s. of rest विश्रामावस्था
s. policy राज्य-नीति

s. provident fund राज्य-नीविका
s. revenue राज्य-आगम
s. size (paper) राज्य परिमाण
s. socialism राज्य समाजवाद
s. trading राज्य-व्यापार
statement विवरण, कथन, वक्तव्य, आवेदन
s. in lieu of prospectus प्रविवरण-
स्थानी
s. of accounts लेखा-विवरण
s. of affairs अवस्था-विवरण
s. of facts तथ्य कथन
static स्थैतिक, स्थायी
s. economics स्थैतिक अर्थशास्त्र
stationary स्थिर, स्थावर
stationery लेखन-सामग्री
s. and printing लेखनसामग्री और
मुद्रण
s. clerk लेखनसामग्री लिपिक
station stamp स्थान-मुद्रा
statistical सांख्यिकीय
s. abstract सांख्यिकीय संक्षेप
s. book सांख्यिकीय पुस्त
s. bureau सांख्यिकीय विभाग
s. data सांख्यिकीय सामग्री
s. law सांख्यिकीय नियम
s. mechanics सांख्यिकीय यान्त्रिकी
s. memoirs सांख्यिकीय विवरण
s. method सांख्यिकीय रीति
s. regularity सांख्यिकीय नियमिता
s. sampling सांख्यिकीय निदर्शन
s. series सांख्यिकीय माला
s. sign सांख्यिकीय चिह्न
s. unit सांख्यिकीय एकक
statistician सांख्यिक
statistics समंक, आंकड़े
status प्रास्थिति, स्थिति (position)
status quo (the state existing before)
यथापूर्व, (the state existing) यथास्ति
statute परिनियम

s. barred debt परिनियम-तिरोहित ऋण
s. of limitations परिस्तीमा परिनियम
statutory परिनियत
s. book परिनियत पुस्त
s. company परिनियत प्रमण्डल
s. meeting परिनियत अधिवेशन
s. report परिनियत वृत्त
s. tenant परिनियत भाटकी
steady स्थिर, धीर
s. current स्थिर वाह
s. market धीर विपणि
steam प्रवाप्य, वाप्य (when there is no possibility of confusion with vapour वाप्य)
s. railway engine वाप्य संयान गंत्र
s. tight अवाप्यच्यावी (not अ permitting the leaking through च्यावी of steam वाप्य)
steel वज्रायस
s. bar वज्रायस दण्ड
s. pen nibs वज्रायस लेखनी चंचु
s. rule वज्रायस रेखक
steep प्रपाती
s. portion प्रपाती भाग
steering committee कर्णधार समिति
stem स्तम्भ
stenographer आशुलिपिक
stereotyped (Gk. *stereos* solid सान्द्र)
सान्द्रमुद्रित
stereotypy सान्द्रमुद्रण
sterile soil ऊसर भूमि
sterility 1 अर्जीवाणुता (free from living microorganisms)
2 (barren) वन्ध्यता
sterilization वन्ध्य बनाना, ऋषिय बनाना, निष्फल करना
sterling आंगल-मुद्रा
s. balances आंगलमुद्रा आधिक्य

s. bill आंगलमुद्रा विपत्र
s. block आंगलमुद्रा-देशसमूह
s. debt आंगलमुद्रा-ऋण
s. exchange आंगलमुद्रा-विनिमय
s. exchange standard आंगलमुद्रा विनिमय प्रमाप
s. security आंगलमुद्रा प्रतिभूति
stipend वृत्तिका
stipendiary वृत्तिकाग्राही
stipulations अभिसंविदा
stirrup पदाधान
stock 1 (general) स्कन्ध [In the English language it has 37 senses (*see* Webster), all connected at the base with 'trunk of tree'. In the commercial world it is the share (or help). स्कन्ध (Hindi कन्धा) is usable literally as 'trunk of a tree', or, figuratively as 'help, assistance', (कन्धा लगाना)]
2 (national debt, public debt) राष्ट्र ऋण
3 (capital raised in shares by a public company) अंशपुंजी (short for प्रमण्डल अंशपुंजी)
4 (goods unsold) अविक्रीतक
5 सामग्री
closing s. संवरण स्कन्ध
dead s. अविक्रीय स्कन्ध, मृत स्कन्ध
deferred s. आस्थगित स्कन्ध
inscribed s. अन्तर्लिखित स्कन्ध
opening s. प्रारम्भण स्कन्ध
s. account स्कन्ध लेखा
s. and shares स्कन्ध तथा अंश
s. and shares broker स्कन्ध तथा अंश मध्यग
s. book सामग्री पुस्त, स्कन्ध पुस्त
s. breeding farms पशु-अभि जनन

प्रक्षेत्र
 s. broker स्कन्ध मध्यग
 s. certificate स्कन्ध प्रमाणपत्र
 s. exchange = stock market स्कन्ध
 विपणि, स्कन्ध विनिमय-विपणि
 s. exchange clearing house स्कन्ध-
 समाशोधन-गृह
 s. exchange settlement स्कन्ध परि-
 शोधन
 s.-holder स्कन्ध-धारी
 s.-in-trade पण्य स्कन्ध
 s. jobber स्कन्ध वणिक्
 s. list स्कन्ध सूची
 s. market = stock exchange स्कन्ध
 विपणि
 s. receipt स्कन्ध प्राप्ति
 s. register सामग्री पंजी, स्कन्ध पंजी
 s. taking सामग्री-अन्वीक्षण, सामग्री-
 परीक्षण, स्कन्ध-मूल्यन, स्कन्ध-गणन
 s. warrant स्कन्ध अधिपत्र
 stock-man पशुधन-पाल, पशुधनिक
 stock-owner पशुधनी, पशुधन स्वामी,
 पशु-स्वामी
 stony पाषाणवत्, पथरीला
 stop रोधन, विराम, रोकना
 stoppage रोध
 s. at source उद्गमे-रोध
 s. in transit मार्गे-रोध
 stopping रोधन
 s. payment शोधन रोध
 storage संग्रह, भाण्डागार-भाटक
 s. capacity संग्रह-धारिता
 s. of food अन्न-संग्रह
 s. organ संग्राही अंग
 s. products संग्रहार्थ स्रष्ट
 s. reservoir संग्रह जलाशय
 s. roots संग्रह मूल
 store 1 n. भण्डार
 2 vb. संग्रह करना :

s. house भाण्डागार, कोष्ठागार, भण्डार,
 कोठार
 s.-keeper भाण्डागारिक, कोष्ठागारिक,
 भण्डारी, कोठारी
 s. of value अर्हा-संग्रह
 s. register भण्डार-पंजी, भाण्डागार-
 पंजी
 s. room भाण्ड-कोष्ठ
 stored up संग्रहीत
 stores 1 कोष्ठागार (from मनुस्मृति)
 2 (goods in stores) आगार-भाण्ड,
 भण्डार-वस्तु
 departmental s. बहुविभागी भाण्डा-
 गार
 s. account कोष्ठागार लेखा
 s. issued निर्गमित वस्तु
 s. ledger कोष्ठागार प्रपंजी
 s. received book प्राप्तवस्तु पुस्त
 s. sheet भाण्डागार स्तार
 stout स्थूल, दृढ
 straddle उभय-विकल्प (American
 term for 'put and call')
 straight current ऋजु वाह
 straight line सरल रेखा
 strain 1 (progeny) सन्तति
 2 (hereditary character) पित्र्य गुण
 3 (a trace, a streak) रेखा
 4 (tendency) प्रवृत्ति
 5 (sort, kind) प्रकार
 6 (having a common lineage but
 not constituting a breed) प्रसा-
 चक
 strained विकृत
 s. condition विकृत दशा
 s. relations मनोमालिन्य
 stranger 1 बाहर का व्यक्ति
 2 अपरिचित
 3 वैदेशिक
 strap उपपट्ट

strap belt पट्टक
stratification स्तर-करण, स्तर-भवन,
स्तर-निर्माण, स्तर-विन्यास
stratified स्तुतमय
stratify स्तरकरण, स्तर-निर्माण, स्तर-
विन्यसन
stratum स्तर, स्तुत
straw बुस, भूसा
stray आगन्तुक
s. field आगन्तुक क्षेत्र
stream सरिता, स्रोत
street-fighting वीथि-योधन, गली में
लड़ना
strictly relevant सर्वथा सुसंगत
s. speaking, precisely speaking
यथार्थ रूप से
strife अभियत्न, संप्रयास
1 (act of striving) अभियत्न
2 (earnest endeavour) संप्रयत्न
3 (fight) युद्ध
strike कर्मविराम, हड़ताल (originally
हड़ताल shops closed)
strike out उच्छेदन, काट देना
striking of balance अन्तर निकालना
string डोर
strip पट्टी, अपखण्ड
s. off अपवेष्टित करना (to deprive of
अप a covering वेष्ट)
strive संप्रयसन, संप्रयास, अभियत्न
1 (to make efforts, to use exer-
tions) प्रयास करना
2 (to endeavour earnestly) संप्रयत्न
करना, प्रयत्न करना
3 (to labour hard) परिश्रम करना
4 (to struggle in opposition) प्रति-
संघर्ष करना
5 (to struggle) संघर्ष करना
6 (to battle) संग्राम करना
strong प्रबल

s. demand प्रबल अभियाचन
s. market प्रबल विपणि
struck आहत
structural संरचनात्मक
s. damage संरचना-उपघात
s. engineering संरचना-अभियन्त्रणा
structure संरचना, रचिति, रचना
structureless रचनाहीन
struggle संघर्ष
s. for existence जीवन-संघर्ष
stud farm पशुजनन प्रक्षेत्र
studio = art studio कला-शाला
stunt बुद्धिरोधन, विकास रोकना
stunted रुद्धविकास, रुद्धवृद्धि, वामन;
वामनित
style शैली
sub- अनु, उप-
subagent अन्वभिकर्ता
sub-caste अनु-जाति
sub-clause अनु-खण्ड
sub-committee उप-समिति
sub-contractor उप-प्रसंवेदक
sub-deputy inspector उप-प्रति-निरीक्षक
subdivide अन्तर्भाजन
subdivided अन्तर्विभक्त
subdivision उपविषय, अन्तर्भाजन
s. and fragmentation अन्तर्भाजन
तथा अपखण्डन
s. of holdings क्षेत्र-अन्तर्भाजन
sub-divisional officer (S. D. O.)
उप-विषय अधिकारी (उ. वि. अ.)
sub-group अनु-समूह
sub-head अनु-शीर्षक
sub-inspector उप-निरीक्षक
subject n. 1 विषय
2 उद्देश्य (as against predicate
विधेय)
subject-matter विषय
s. of a motion प्रस्ताव का विषय

subject to अधीन रहते हुए
 sub-lease अनुपट्ट
 sub-let 1 *vb.* अनु-भाटक पर देना, आगे
 भाड़े पर देना
 2 *adj.* अनुभाटकीत (गृह)
 submit 1 आगे रखना, अग्रेस्थापन
 2 अनुवर्तन (*see comply*)
 submitted अग्रेस्थापित, उपस्थापित
 sub-normal equilibrium अघः-सामान्य
 साम्य
 subordinate अधीन, अधीनस्थ, अधरिक
 s. officer अधीन अधिकारी
 s. staff अधीन कर्मचारिवर्ग
 subordination अधीनता
 s. of want अभीच्छा की अधीनता
 sub-parcel अनु-पोटली, छोटी पोटली
 sub-proprietor अनु-स्वामी, उप-स्वामी
 sub-regional branches अनु-प्रादेशिक
 शाखाएं
 sub-registrar उप-पंजीयक, उप-निवन्धक
 subscribe 1 (to write अंकन, under-
 neath अघः) अधोंकन करना, (to sign)
 हस्ताक्षर करना, अनुहस्ताक्षरण
 2 (to pay दान for something अभि)
 अभिदान
 subscribed capital प्रार्थित पुंजी
 subscriber अभिदाता
 subscription अभिदान
 s. book अभिदान-पुस्त
 sub-section अनु-धारा
 subsequent (*see antecedent*) अनुवर्ती
 subserve 1 (to serve under) अनुसेवन
 2 (to promote) वर्धन
 subside प्रशमन, अधोगमन
 subsidiary सहाय, गौण
 s. angle उप-कोण
 s. book सहाय पुस्त
 s. coin सहाय टंक
 s. company सहाय प्रमण्डल

s. dam उपरोधन, उप-वांध
 s. industry सहाय-उद्योग
 s. register उप-पंजी
 subsidy (aid in money, pecuniary
 assistance by state) अर्थसाहाय्य,
 सहायता, साहाय्य (राजकीय)
 subsistence निर्वाह
 s. theory of wages भृति का जीवन-
 निर्वाह सिद्धान्त
 subsoils अधोमृदा, अधोभूमि
 substance द्रव्य, पदार्थ
 substantial सारवत्, सारभूत
 s. question सारवत् प्रश्न
 s. security सारभूत प्रतिभूति
 substantially identical सारतः एकसम
 substantive मौलिक
 s. appointment मौलिक नियुक्ति
 s. post मौलिक पद
 sub-station उप-स्थात्र, अनु-स्थात्र (स्थात्र
 from ऋग्वेद)
 substitute 1 *vb.* आदेशन, स्थान में रखना
 2 *n.* स्थानापन्न
 s. of money मुद्रा स्थानापन्न
 substituted आदिष्ट
 substitution प्रतिस्थापन, आदेशन
 s. cipher आदेश गूढलेख
 subsurface exploration अघस्तल
 समन्वेषण
 sub-tenant अनु-भाटकी, उप-भाटकी
 sub-title अनु-शीर्षक, उप-शीर्षक
 subtract घटाना
 subtraction वियोग, व्यवकलन, घटाना
 s. formula वियोग-सूत्र
 sub-treasury उप-कोषागार
 subvention अर्थसाहाय्य
 sub-voucher उप-प्रमाणक
 succeeding उत्तरवर्ती
 success सफलता
 succession उत्तराधिकार

s. duty उत्तराधिकार कर
 successive उत्तरोत्तर
 s. average उत्तरोत्तर माध्य
 s. doses उत्तरोत्तर मात्रा
 s. stage उत्तरोत्तर प्रक्रम
 successively उत्तरोत्तर, पूर्वानुसार
 successor उत्तराधिकारी
 s. in office पद का उत्तराधिकारी
 such and such अमुक
 such as यथा, जैसे
 such that यथा, जैसे
 suckling period स्तन्यपान काल, स्तन्य-
 दान काल
 suction pump चूषोदंच
 sufficient पर्याप्त
 suffocate सांस रोकना, श्वासरोधन (श्वास
 respiration + रोधन stopping)
 suffrage मताधिकार
 sugar refiner शर्करा-परिष्कारक
 suggestion सुझाव, उपक्षेप
 suicide आत्महत्या
 attempt to commit s. आत्महत्या
 का यत्न
 suitability of data सामग्री की अनु-
 कूलता
 suitable उपयुक्त, अनुकूल
 sum (amount) राशि, (total) योग
 summarily dealt with संक्षेपतः
 संव्यवहृत, संक्षेपतः निर्णीत
 summary संक्षेप
 s. determination संक्षेपतो निश्चयन
 s. trial संक्षेपतो वैधिक विचार
 summation आकलन
 summed आकलित
 summon आह्वान
 summoned आहूत
 sumptuary allowance भोज अधिदेय
 sundries प्रकीर्णक
 sundry अनेक, विविध

s. assets विविध सम्पत्ति
 s. creditors विविध उत्तमर्ण
 s. debtors विविध अधमर्ण
 s. expenses विविध व्यय
 s. liabilities विविध देयधन
 s. outstanding liabilities विविध
 अदत्त देयधन, विविध अदत्त ऋण
 sunk capital निमग्न पुंजी
 super- अधि-
 superannuation अधिवार्षिकी
 s. allowance अधिवार्षिकी अधिदेय
 s. fund अधिवार्षिकी प्रणीवि
 super-cargo (short for 'superinten-
 dent of cargo') नौपण्यकाधीक्ष
 (cargo नौपण्यक)
 superficial तलोपरिक
 s. area उपरितल क्षेत्रफल
 superfine अधिचार
 superimpose अध्यारोपण
 superintendent अधीक्षक (inspec-
 tor निरीक्षक)
 s. of accounts लेखा अधीक्षक, अक्ष-
 पटलिक (ancient word)
 superintending engineer अधीक्षण
 अभियन्ता
 superior (service) उत्कृष्ट
 inferior (service) अवकृष्ट
 lower (service) निम्न
 upper (service) उच्च
 superpose अधिरोपण करना, आच्छादित
 करना
 superposed अधिरोपित, आच्छादित
 super-royal (paper) अधि-राजन्य
 super-tare अधि-भारमोक
 super-tax अधि-कर
 supervising establishment पर्यवेक्षी
 कर्मचारिवर्ग
 supervision पर्यवेक्षण
 s. charges पर्यवेक्षण व्यय

supplement 1 आपूरण, अनुपूरण
 2 *n.* आपूर, अनुपूर
 supplemental आपूरक, न्यूनतापूरक,
 अनुपूरक
 supplementary अनुपूरक
 s. bill अनुपूरक विपत्र
 s. budget अनुपूरक आयध्ययक
 s. cost अनुपूरक परिव्यय, न्यूनतापूरक
 परिव्यय
 s. crops अनुपूरक सस्य
 s. demand अनुपूरक मांग, अनुपूरक
 अभियाचन
 s. earning अनुपूरक अर्जन, न्यूनता-
 पूरक कमाई
 s. estimates अनुपूरक आगणन,
 न्यूनतापूरक आगणन
 s. grant अनुपूरक अनुदान, न्यूनता-
 पूरक अनुदान
 s. industry न्यूनतापूरक उद्योग, अनु-
 पूरक उद्योग
 s. invoice न्यूनतापूरक वीजक
 s. order अनुपूरक आदेश
 s. question अनुपूरक प्रश्न
 supplier प्रदायक
 supply प्रदाय
 s. base प्रदाय-आस्थान (आस्थान *anci-*
ent word)
 s. bill प्रदाय-विपत्र
 s. department प्रदाय-विभाग, रसद
 विभाग
 s. price प्रदाय-मूल्य
 s. schedule प्रदाय-अनुसूची
 support *vb.* समर्थन करना
 supported 1 आधृत
 2 समर्थित
 suppose अथ यदि, मान लो
 suppress दमन करना, निग्रहण करना
 (नि *down* ग्रहण *holding*)
 suppression दमन, निग्रहण

suppressive दमनकारी
 supra-protest (after Italian 'sop-
 ra protesto' upon protest) अनादर
 प्रमाणने
 s. acceptance अनादर-प्रमाणने स्वी-
 करण
 s. payment अनादर-प्रमाणने शोधन
 supremacy सर्वोच्चता
 supreme सर्वोच्च
 S. Court सर्वोच्च न्यायालय (*cf.* High
 Court उच्च न्यायालय)
 s. government सर्वोच्च शासन
 surcharge अधिभार
 surcharged अधिभृत
 surety प्रतिभू (*ancient word*)
 surface तल, भूतल, पृष्ठ
 s. density तल-घनता
 s. drain भूम्युपरि प्रणाल, भूतल-नाली
 s. rent भूतल-भाटक, भू-भाटक
 s. view तल-दृशा
 surgery शल्य-चिकित्सा
 surgical शल्य-
 s. means शल्य-साधन
 s. registrar शल्य-पंजीयक, शल्य-
 निवन्धक
 s. section शल्य-अनुविभाग
 surname कुलनाम
 surplus आधिक्य, अतिरेक, शेष
 s. labour अतिरेक श्रम
 s. produce अतिरेक उत्पाद
 s. value अतिरेक अर्हा
 s. votes अतिरेक मत
 surrender *n.* अर्ध्यर्पणा
 s. value अर्ध्यर्पण अर्हा
 surrendered अर्ध्यर्पित
 surrenderee अर्ध्यर्पिती
 surrenderer अर्ध्यर्पक
 sur-tax उपरि-कर
 surveillance (*close watch*) संनिरीक्षण

survey 1 भूमिति, भूमापन, मापन, भूमी-
क्षण
2 आपरीक्षण
S. of India भारत भूमिति-विभाग,
भारत भूमापन-विभाग
surveyor भूमापक, आपरीक्षक, भूमीक्षक
survival उत्तरजीवन (to live जीवन
beyond उत्तर), अतिजीविता (अति
beyond)
s. of the fittest बलिष्ठार्तिजीविता
survive उत्तरजीवन, अतिजीवन
survived उत्तरजीवित
surviving उत्तरजीवी
survivor उत्तरजीवक
suspend निलम्बित करना, स्थगित करना,
रोकना
suspense निलम्बन, स्थगन
s. account अवर्गित लेखा (non-cla-
ssified a/c), निलम्बित लेखा, उदरत
खाता, उच्यत खाता
s. ledger निलम्बित प्रपञ्जी
sustained (proved) प्रमाणित, (esta-
blished by evidence) प्रमाण-
स्थापित
sweating of coin (to remove parti-
cles of a coin by shaking धूनन
it with others) टंक-धूनन

sweating system (a system of tak-
ing advantage of the necessities
of employees to drive them to
the limit of their powers of
labour) प्रस्वेदन-पद्धति
swing प्रवृत्त
swinging of a ship पौन-प्रवृत्त
switch (a device for making सं or
breaking वि connections युक्त in
an electric circuit) संवियुक्त
(संयोजित विद्युति च)
switch in Irrigation संयुक्त करना
switchman = pointsman संवियुक्त पुरुष
switch off Irrigation वियुक्त करना
silviculture वनपालन
symmetrical संमित
symmetry संमिति
sympathy 1 सहानुभूति
2 (pity) अनुकम्पा
syndicalism श्रमिकसंनवाद
syndicate अभिवद्
synonym पर्याय
synopsis रूपरेखा, संक्षेप
synthesis संश्लेषण
synthetical नादृश्यिक
system पद्धति, संतति
systematic क्रमबद्ध

T

table 1 (a tabulated statement)
सारणी
2 (a piece of furniture) पटल
t. land गिरि-प्रस्थ, उच्च समभूमि
t. of contents विषय-सूची
tabular सारणी-, सारणीय
t. book-keeping सारणी पुस्तकपालन
t. journal सारणी दैनिकपञ्जी
t. ledger सारणी-प्रपञ्जी

t. method सारणी-रीति
t. petty-cash book सारणी शुद्धमेक
पुस्तक
t. purchase book सारणी कर पुस्तक
t. sales book सारणी विक्रय पुस्तक
t. standard (of value) = i. metric
standard देशनांश प्रमाण
tabulate, tabulation सारणीयन,
सारणीकरण

tabulator सारणीयक

tacit मौन

t. acceptance मौन स्वीकरण, मौन स्वीकृति

t. assent मौन सम्मति

tail race = after bay *Irrigation* (a channel conducting water away from a water wheel) अन्त-कुल्या

tail water *Irrigation* अन्त-जल

take action against के विरुद्ध कार्य-वाही करना

take away अपहरण करना

take effect प्रभावी होना

take off (purchases) क्रय, क्रीत-वस्तु

take up a bill (to pay money to the holder of the bill. The term is synonymous with retiring a bill) विपत्र ग्रहण करना

taking division मत-भाजन

tale (reckoning goods by number, not by weight) गणना

talking भाषी

t. machine भाषि-यन्त्र, भाषित्र

t. picture भाषि-चित्र

talky वाक्पट, वोलपट

tallied अनुमिलित, अनुमेलित

tally, tallying अनुमिलन, अनुमेलन

talon (a certificate attached अनुषक्त to certain bonds) अनुषक्तक

tangible मूर्त

t. assets मूर्त सम्पत्ति

t. goods मूर्त वस्तुएं

tannery चर्म-संस्करणी

tanning expert चर्मसंस्कार विशारद

tare भारमोक (short for धारक-भार-मोक, धारक is the container, मोक deduction)

actual t. वास्तविक भारमोक

average t. माध्य भारमोक

customary t. रूढ भारमोक

estimated t. आगणित भारमोक

super t. अधि-भारमोक

tariff 1 प्रशुल्क, निराक्राम्य-शुल्क

2 (a schedule of duties) प्रशुल्क-सूची

3 (a system of duties) प्रशुल्क-पद्धति

t. board प्रशुल्क-मण्डल, निराक्राम्य-शुल्क मण्डल, निराक्राम्य-गण

t. wall प्रशुल्क-भित्ति

task कार्य, कार्यभार

t. checker कार्य-परीक्षक

t. wage कार्य-भृति

tax कर

direct t. प्रत्यक्ष कर

income t. आय-कर

indirect t. परोक्ष कर

t.-free कर-मुक्त

t. payer कर-दाता

t. revenue कर-आगम

t. superintendent कर-अधीक्षक

t.-system कर-पद्धति

taxable कर-देय

t. capacity करदेय क्षमता

t. income करदेय आय

taxation 1 (covers every conceivable exaction by a government) कर-वर्ग

2 करारोपण, कर लगाना

t. policy करारोपण-नीति

team work सामूहिक कर्म

technical 1 प्रावैधिक (प्राविधि technique)

2 (word, expression or a meaning confined to a special field of thought) पारिभाषिक

3 (professional) व्यावसायिक

4 (of or pertaining to the useful

or mechanic arts, business, etc.)

प्रौद्योगिक

t. application प्रावैधिक प्रयोग

t. development प्रावैधिक विकास

t. education (industrial education) प्रौद्योगिक शिक्षण, प्रावैधिक शिक्षा

t. high school प्रौद्योगिक उच्च पाठशाला

t. qualification प्रावैधिक योग्यता

t. school प्रौद्योगिक पाठशाला

t. terms पारिभाषिक पद

t. words पारिभाषिक शब्द

technically प्रविध्यनुसार, प्रविधिना

technique (expert प्र method) प्रविधि

technological प्रौद्योगिकीय

technology प्रौद्योगिकी

teething दन्तोद्भेद, दन्तोद्भेदन

tehsil तहसील, भुक्ति

tehsildar तहसीलदार, भुक्तिपाल

telegram दूरसन्देश, दूरलेख

telegraph (the apparatus) दूरलेख

t. office दूरलेख-कार्यालय, तारघर

t. poles दूरलेख-चलक, तार के खम्भे

telegraphic दूरलेख-, दूरलेख-, तार-

t. draft दूरलेख-विकर्ष

t. expenses दूरलेख-व्यय, तार-व्यय

t. moneyorder दूरलेख-धनप्रेष

t. transfers (T. T's) (a daily rate quoted in the money market for transmitting money by cable from one country to another) दूरलेख-अर्घ

telegraphist दूरसन्देशक

telephone दूरभाष

t. exchange दूरभाष विनिमय

t. receiver = bell receiver दूरभाष-आदाता

t. transmitter दूरभाष-पारेषक

telescope दूरक्ष

televise (transmit or receive by television) दूरदर्शन

television दूरदर्श

televisor (an apparatus) दूरदर्शित्र

teller (one who counts) गणक

temperate region मन्दताप-प्रदेश

temperature ताप

temporary अस्थायी, अल्पकालीन

t. advance अस्थायी अग्रिम

t. annuity अस्थायी वार्षिकवृत्ति

t. bond अस्थायी बन्ध

t. debt अस्थायी ऋण

t. equilibrium अस्थायी साम्य

t. settlement अस्थायी व्यवस्था

tenancy भूधारण, भाटकित

t. act भाटकित अधिनियम

t. rights भूधारण-अधिकार

t. system भूधारण पद्धति

tenant 1 (one who pays rent for any holding) भाटकी

2 (a farmer tenant) कृषक, कृषक-भाटकी, आसामी, किसान, काश्तकार

t.-at-will यथेच्छ भाटकी

t. farmer कृषक भाटकी

tendency प्रवृत्ति

tender 1 n. (offer of a bid for a contract) निविदा

2 adj. सुकुमार

t. age सुकुमार वयस्

t. money=earnest money सत्यंकार राशि (सत्यंकार is from याज्ञवल्क्य स्मृति), वयाना, साई

tending to abrogate निराकरणोन्मुख

tenement भाटकित (भाटक-भू, भाटक-गृह, भाटक-क्षेत्र)

tenor=term अवाधि

t. of a bill=term of a bill विपत्रा-

वधि
 tenure धारण, धारणाधिकार, धारणप्रकार,
 धारणावधि, धारणत्व
 t. of land भूधारण, भूधारणाधिकार
 t. of office पदधारण-काल
 t. of property सम्पत्ति का धारणाधि-
 कार
 ten year programme दस वर्ष का कार्य-
 क्रम, दशवर्षीय कार्यक्रम
 term=tenure अवधि
 t. of a bill विपत्रावधि
 terminable अवसेय, सावधि
 t. annuities सावधि वार्षिकवृत्ति
 t. debenture सावधि ऋणपत्र
 terminal सावधि, सीमा-
 t. accounts सावधि लेखा
 t. loan सावधि उधार
 t. tax सीमा-कर
 t. toll सीमा-मार्गशुल्क
 termination of citizenship जानपदत्व
 का अन्तान, नागरिकता का अन्तान
 terms 1 अभिसमय
 2 पद
 t. of a motion प्रस्ताव के पद
 terrestrial भौम, पार्थिव
 t. magnetism पार्थिव चुम्बकत्व
 t. method भौम रीति
 territorial प्रादेशिक
 t. constituency प्रादेशिक निर्वाचन-
 क्षेत्र
 t. division of labour प्रादेशिक श्रम-
 भाजन
 t. waters राज्यक्षेत्रीय जलधि, राज्य-
 क्षेत्रीय समुद्र-जल
 territories of the Federation संघान-
 राज्य के प्रदेश
 territory प्रदेश, राज्यक्षेत्र
 test परीक्षा, परीक्षण
 t. audit परीक्षण-अंकक्षा

t. examination उप-परीक्षा
 testament मृत्युत्तरपत्र, रिक्थपत्र (रिक्थ
 'property left after death' is from
 मनुस्मृति)
 testamentary रिक्थपत्रीय, रिक्थपत्रदत्त,
 रिक्थपत्रोक्त
 testator रिक्थपत्रकर्ता
 text-book committee पाठ्यपुस्तक
 समिति
 textile वान, वस्त्र
 t. business वान-व्यापार, वस्त्र-व्यापार
 t. control board वान-उद्योग नियन्त्रक
 गण
 t. expert वान विशारद, वस्त्र-विशारद
 t. industry वान-उद्योग, वानोद्योग,
 वस्त्रोद्योग
 t. mill वस्त्र निर्माणी, वानी
 texture वयन
 that is (i. e.) अर्थात्
 theatre रंगमण्डप
 the bill be circulated for eliciting
 public opinion thereon सर्वसाधारण
 की सम्मति जानने के लिये इस विधेयक
 को घुमाया जाये
 the bill be passed into law विधेयक
 विधि बनाया जाए, विधेयक विधि बने
 the bill be referred to a select
 committee विधेयक प्रवर समिति को
 भेजा जाए
 the bill was passed विधेयक पार
 किया गया
 theft चोरी, चौर्य
 the house is aware सभा को विदित है
 the motion is adopted प्रस्ताव स्वीकृत
 हुआ
 theoretical सैद्धान्तिक
 t. economics सैद्धान्तिक अर्थशास्त्र
 t. value अव्यावहारिक अर्थात्
 theoretically सिद्धान्तरूप से, सिद्धान्ततः

theory=doctrine वाद, सिद्धान्त
 t. and practice of banking अधि-
 कोषण के सिद्धान्त और व्यवहार
 t. of interest वृद्धि का सिद्धान्त
 t. of marginal productivity
 सीमान्त-उत्पादिता-सिद्धान्त
 t. of population जनसंख्या-वाद
 t. of profit लाभ का सिद्धान्त
 t. of relativity सापेक्षता-वाद
 t. of rent भाटक-सिद्धान्त
 t. of sampling निदर्शन-सिद्धान्त
 t. of surplus value अतिरिक्त अर्ह
 का सिद्धान्त
 t. of wages भृति-सिद्धान्त
 therefore इसलिये, अतः
 thereof तद्-
 thereupon तो, तिस पर
 thermal तापीय, ताप-
 t. capacity तापीय धारिता
 t. effect ताप-प्रभाव
 t. power station तापीय शक्ति-स्थान
 t. region ताप-परिवर्त. प्रदेश
 thermo- ताप-
 t.-current ताप-वाह
 t.-galvanometer ताप-द्युवाहमान (द्यु-
 वाह electric current + मान
 -meter)
 t.-plastic तापाभिघटन
 thief चोर
 third तृतीय
 t. bill of exchange विपत्र तृतीयक
 t. class paper तृतीयवर्ग पत्र
 t. of exchange विपत्र तृतीयक
 t. security तृतीय प्रतिभूति
 those against, will please say "no"
 जो विपक्ष में हों, वे कृपया 'ना' कहें
 those for, will please say "aye" जो
 पक्ष में हों, वे कृपया 'हां' कहें
 threat धमकी, संतर्जना

threaten संतर्जन करना, धमकाना
 three column cash-book त्रिस्कम्भ रोक-
 पुस्त
 three dimensions त्रि-विमा, विमा-त्रय
 threshold देहली
 thrift मितव्यय
 thrifty मितव्ययी
 throbbing प्रस्पन्दन
 throughout साद्यन्त
 through the agency द्वारा
 thunder गर्जन
 thus एवं, इस प्रकार
 tick *vb.* प्रांकण करना
 t. mark प्रांक
 ticked प्रांकित
 ticket पत्रक
 t. day पत्रक दिवस
 tidal वेला-
 t. river वेला-नदी
 t. waters वेला-वारि
 t. wave वेला-तरंग
 tide वेला
 tiffin room मध्याह्न-भोजन-कोष्ठ
 tight market महार्घ्य विपणि (महार्घ्य
 dear)
 till money = tender money = earnest
 money 1 सत्यंकार राशि, साई, वयाना
 2 (money in a drawer with a
 bank or shop-keeper) उदाकर्ष-राशि
 (उदाकर्ष drawer—that which is
 drawn आकर्ष out उद्)
 timber निर्माण-काष्ठ
 time समय, काल
 for the t. being तत्कालार्थ, उस
 समय के लिए, चालू समय के लिए
 t. bargain (bargains for future
 delivery, i. e., time must elapse
 between the day they are made
 to the day they are closed) काल-

विषय
 t. barred काल-तिरोहित (कौटल्य अर्थशास्त्र)
 t. bill सावधि विपत्र
 t. deposit सावधि निक्षेप
 t. earnings समय-अर्जन
 t. exposure *Photog.* काल विगोप
 t. interval कालान्तर
 t.-keeper समयपाल, समयलेखक
 t. policy सावधि गोपलेख
 t. records समय-अभिलेख
 t.-saver समय-रक्षक
 t. series काल-माला
 t. sheets समय-स्तार
 t. utility समय उपयोगिता
 t. wages समय-भृति
 t. works checker समय कर्म परीक्षक
 tin त्रपु
 t. slabs त्रपु-फलक (त्रपु ancient word)
 t. stone त्रपु-श्म (त्रपु-अश्म)
 title 1 उपाधि
 2 *Law* स्वत्व
 3 शीर्षक
 long t. दीर्घ शीर्षक
 t. deeds स्वत्व-संलेख
 t. of a book पुस्तक का नाम
 t. page मुख-पृष्ठ, नाम-पृष्ठ
 to 1 प्रपिती (cf. from प्रेपक; "From" and "To" in letters)
 2 *Accounts* द्वारा
 together एकत्र, इकट्ठे
 together with सह, साथ
 toilet प्रसाधन, श्रृंगार
 token प्रतीक
 t. cut प्रतीक न्यूनन, प्रतीक कटौती
 t. money प्रतीक मुद्रा
 tolerate सहन
 toll (a charge upon traffic) मार्ग-शुल्क

tone 1 *Music* तान
 2 (tendency) प्रवृत्ति (e. g. tone of the market)
 tools उपकरण
 loose t. अवद्ध उपकरण
 t. and plants उपकरण तथा संयन्त्र
 top शिखर, शीर्ष
 topaz पुष्पराग
 topography स्थानवृत्त
 torture यातना
 total समस्त, योग
 t. cost समस्त परिव्यय
 t. eclipse पूर्ण-ग्रहण
 t. installed capacity समस्त अधि-
 ष्टापित धारिता
 t. loss समस्त हानि
 t. produce समस्त उत्पादन
 t. utility सकल-उपयोगिता
 t. weight समस्त भार
 to the contrary एतद्विरुद्ध, इसके विपरीत
 to the extent of contravention प्रति-
 कूलता की मात्रा तक
 toxic विषालु, विषाक्त, वैषिक (विष poison)
 t. inoculation वैषिक अन्तःक्रामण, वैषिक टीका
 toxicity विषालुता
 toxicology विष-विद्या
 trace 1 *vb.* (to draw or delineate) रेखानुरेखण, अनुरेखण
 2 (to track out) अनुमार्गण, पता लगाना
 traced अनुमार्गित, पता लगाया, अनुरेखित
 tracing paper अनुरेखण पत्र
 tract 1 (a short treatise) पुस्तिका
 2 (a region) भूखण्ड, खण्ड, क्षेत्र
 t. of water जल-भाग, जल-विस्तार
 tractive संकर्षण

t. force संकरीं बल
tractor हल-यन्त्र, कर्षित्र
trade शिल्प, व्यापार (business), पणन
(buying and selling), वाणिज्य
(commerce)
business व्यापार
calling वृत्ति
commerce वाणिज्य
profession व्यवसाय
coastal t. समुद्रतटीय व्यापार
entrepot t. (a foreign intermedi-
ate port or warehouse मध्यपत्तन,
मध्यागार) मध्यपत्तन व्यापार
foreign t. वैदेशिक व्यापार
home t. स्वदेशी व्यापार
protective t. रक्षित व्यापार
seaborne t. सामुद्रिक व्यापार
t. allowance व्यापार-मोक
t. balance = balance of trade पण्य
अन्तर, निराक्राम्य अन्तर
t. bill व्यापार-विपत्र
t. capital व्यापार-पुंजी
t. centre व्यापार-केन्द्र
t. charges व्यापार-प्रभार
t. commissioner व्यापार-आयुक्त
t. corporation व्यापार-निगम
t. cycle = business cycle व्यापार-
चक्र
t. debtors पण्यधमर्ण
t. discount पण्य अपहार, व्यापारी
वट्टा
t. dispute (between labour and
capital) श्रमिक विवाद, व्यापार संघर्ष
t. expenses पण्य व्यय, व्यापार व्यय
t. goods व्यापार वस्तुपं
t. guide व्यापार पथप्रदर्शक
t. mark पण्य-चिह्न, पण्य-लक्ष्म,
व्यापार-चिह्न
t. name पण्य नाम

t. office व्यापार कार्यालय
t. preference व्यापार अधिमान
t. price व्यापार मूल्य
t.-rights पण्य-अधिकार
t. risk व्यापार-हानिभय
t. route पण्य-पथ, वाणिक्-पथ (ancient
word)
t. sale पण्य विक्रय
t. secret पण्य गुह्य
t. treaty पण्य-सन्धि, व्यापारिक सन्धि
t. union श्रमिक संघ, मज़दूर-संघ
t. unionism श्रमिक-संघता
t. unionist श्रमिक-संघी
t. wind व्यापार-वायु
trader = businessman व्यापारी
retail t. अल्पशो व्यापारी, फुटकर
व्यापारी
sole t. एकल व्यापारी
wholesale t. बहुशो व्यापारी, थोक
व्यापारी
trading व्यापार, पणन
t. account व्यापार लेखा
t. and profit and loss account
व्यापार तथा लाभालाभ लेखा
t. association पणन पार्षद्, व्यापार
पार्षद्
t. capital व्यापार पुंजी
t. centre पणन-केन्द्र, व्यापार-केन्द्र
t. certificate व्यापार-प्रमाणपत्र
t. company व्यापार-प्रमण्डल
t. result व्यापार-परिणाम
tradition परम्परा
traffic यातायात
t. in human beings मानव-पणन,
मनुष्यों का क्रय-विक्रय
train n. 1 (a series) पंक्ति
2 (a continuous line of railway
carriages with the engine) संयान
t. schedule संयान समयावलि

train *vb.* प्रशिक्षित करना
 trained प्रशिक्षित
 trainer प्रशिक्षक
 training प्रशिक्षण
 t. college प्रशिक्षण विद्यालय
 t. command प्रशिक्षण-संबल
 tramway = street car रथयायान
 tranquility अक्षोभ (absence of agitation)
 transaction 1 व्यवहार
 2 सम्पादन
 cash t. रोक व्यवहार
 credit t. उधार व्यवहार
 purchase t. क्रय व्यवहार
 sale t. विक्रय व्यवहार
 t. of business कार्य का सम्पादन
 transfer संक्रामण, हस्तान्तरण, स्थानान्तरण
 t. days हस्तान्तरण दिवस
 t. deed हस्तान्तरण संलेख
 t. entry स्थानान्तर प्रविष्टि
 t. fees हस्तान्तरण शुल्क
 t. journal स्थानान्तरण दैनिकपंजी
 transferable संक्राम्य, स्थानान्तरणीय, हस्तान्तरणीय
 t. goods संक्राम्य वस्तुपं
 transferee संक्रामिती, हस्तान्तरिती
 transference संक्रामण, हस्तान्तरण, स्थानान्तरण
 transferor संक्रामक, हस्तान्तरक
 transferred संक्रामित, संक्रान्त, हस्तान्तरित, स्थानान्तरित
 t. subjects हस्तान्तरित विषय
 t. vote संक्रान्त मत
 transferring संक्रामण, हस्तान्तरण, स्थानान्तरण
 t. entry स्थानान्तरण प्रविष्टि
 transform = convert रूपान्तरण करना, परिवर्तन करना

transformation रूपान्तर, परिवर्तन
 transfrontier trade सीमापार व्यापार
 transient goods अचिरस्थायी वस्तुपं
 transit पारनयन
 goods in t. मार्गस्थ वस्तुपं
 remittance in t. मार्गस्थ रोक
 t. pass पारनयन अनुमतिपत्र
 transitional अन्तर्वर्ती
 t. period अन्तर्वर्ती काल
 t. provisions अन्तर्वर्ती प्रावधान
 transitory stage परीवर्तवस्था
 transmission पारेषण
 t. lines तन्तु-पथ
 transmissive पारेषी
 transmit पारेषण
 transmitted पारेषित
 transmitter पारेषक
 transmitting set पारेषण कुलक, पारेषित्र
 transmutation of elements रूपान्तरण, तत्त्व-रूपान्तरण, तत्त्वान्तरण
 transnational पारराष्ट्रीय
 transplantation प्रतिरोपण
 transport 1 (to convey from one place to another) परिवहन
 2 (to banish) निर्वासन
 t. animals भारवाही पशु, परिवहन पशु
 transportation 1 परिवहन
 2 निर्वासन (as in, transportation for life)
 t. for life आजीवन निर्वासन
 transpose पक्षान्तरण, स्थानान्तर करना
 transposition cipher व्यत्यय-गूढलेख
 transshipment नावन्तरण
 transverse अनुप्रस्थ
 trap door कूट द्वार
 traveller यात्री, यात्री
 commercial t. अभियात्री (short for अभिकर्ता यात्री)

traveller's cheque यात्रि-धनादेश
traveller's commission अभियात्री वर्तन
traveller's expenses अभियात्री व्यय
travelling 1 n. यात्रा

2 adj. यायी, यातृ-, चल

t. agent यायी अभिकर्ता, यातृ-अभिकर्ता

t. allowance यात्राधिदेय

t. allowance bill यात्राधिदेय-देयक

t. charges यात्रा-प्रभार

t. dispensary चल औषधालय

t. expenses यात्रा-व्यय

treason अभिद्रोह

mutiny सैन्यद्रोह

rebellion विद्रोह

revolt विप्लव

revolution क्रान्ति

sedition राजद्रोह

treasonable अभिद्रोहात्मक

t. words अभिद्रोहात्मक शब्द

treasure trove भूनिधि

treasury कोषागार

t. benches=official benches मंत्रि-वर्ग

t. bill राजकोष विपत्र, कोषागार-विपत्र, कोषागार-पत्र

t. note कोषागार-पत्र (पत्र=अर्थपत्र)

t. pass book कोषागार-ग्राहक-पुस्तिका

treatment 1 प्रतिपादन

2 चिकित्सा, उपचार

t. of a subject विषय का प्रतिपादन

t. of disease रोग-चिकित्सा, रोगोपचार

treaty सन्धि

t. obligations सन्धि-भार, सन्धि-बन्धन

trench fever खाति ज्वर

trend उपनति, प्रवृत्ति

trespass अनधिकार-प्रवेश

trial 1 परीक्षा, अन्वीक्षा

2 वैधिक विचार, अन्वीक्षा

t. method अन्वीक्षा राति

triangle त्रिभुज, त्रिकोण

triangular त्रिकोणाकार

tribe वनजाति

tribune (one who defends common people) जनरक्षक

tributary उपनदी

tribute उपहार

tricycle त्रिचक्र

triennial त्रैवार्षिक

trimetallism त्रिधातुता

triplicate तृतीयक

t. of a bill विपत्र-तृतीयक

triweekly 1 (once in three weeks)

त्रैसाप्ताहिक

2 (three times a week) त्रिसप्ताहिक

tropical उष्णप्रदेशीय

t. region उष्ण-प्रदेश

tropics उष्ण-प्रदेश, उष्ण-कटिबन्ध

T. Rs. (in thousands of rupees, as a

heading in a balance sheet) स. रु.

(सहस्रांकों में रुपये, सहस्रांकों में)

truck system (wages paid in kind)

वस्तुशोधन पद्धति

truo सत्य

t. copy सत्य प्रतिलिपि, सच्ची प्रतिलिपि

t. discount सत्यापहार

t. weight सत्य-भार, सच्चा भार

truly yours = yours truly भवदीय

सत्यैपी

trust प्रन्यास

improvement t. सुधार-प्रन्यास,

सुधार-मण्डल

t. account प्रन्यास-लेखा

t. fund प्रन्यास-प्रणीवि

t. security प्रन्यास-प्रतिभृति

trustee प्रन्यासी

trustworthy विश्वास्य

tuberculosis यक्ष्मा

t. sanatorium यक्ष्म-स्वास्थ्यालय
t. ward यक्ष्म-विभाग
tube well नाल-रूप, विजली का कुआ
tuition fee शिक्षण-शुल्क
tunic चोल
tunnel सुरंग
turbine वरीवर्त
turbo-generator वरीवर्त-जनित्र
turn of the market विपणि-गति
turn-out 1 (out-put) प्रदा
2 (product) उत्पत्ति
turn-over आपणन-राशि, विक्रय-राशि,
समस्त क्रय-विक्रय
twofold द्विगुण
type 1 प्रकार
2 (that which or one who
possesses or exemplifies charac-

teristic qualities) प्ररूप (German
Urbild)
3 (image, pattern) प्रतिरूप
4 *Printing* मुद्र
t. metal मुद्र धातु
typed मुद्रालिखित
t. copy मुद्रालिखित प्रति
type-casting operator मुद्र-संचत्ता
typewriter मुद्रलिख
typewriting paper मुद्रालिख-पत्र
typical प्रारूपिक
t. average प्रारूपिक माध्य
t. market प्रारूपिक विपणि
typing मुद्रलेखन
typist मुद्रलेखक
typographical error मुद्रण-विभ्रम, मुद्रण
की भूल

U

ullage 1 (actual quantity in a cask)
धारित
2 (difference between the full
capacity and the actual con-
tents of a cask) हीनता
ultimate अन्त्य, चरम, अन्तिम, परम
u. capacity अन्त्य धारिता
ultimately अन्ततः, अन्ते
ultimo (ult.) गत, गतमास (ग. मा.),
गतमास्य, अन्तिम
ultra- पार-
ultra-violet पार-जम्बु, पार-नीललोहित
ultra vires शक्ति-परस्तात्, शक्ति के परे
intra vires शक्ति-गत
umpire प्रमाण-पुरूप (from महाभारत)
unadjusted balance असमायोजित शेष
unaffected अप्रभावित
unagitated अशुब्ध
unanimous एकमत, सर्वसम्मत

unattached असंलग्न
unauthorized अप्राधिकृत
unavoidable अनिवार्य
unbounded असीमाबद्ध, असीम
unbroken column अखण्ड स्कम्भ
uncalled अनाहूत
u. capital अनाहूत पुंजी
unceasing अविरामी
unchanged अपरिवर्तित
unchanging अपरिवर्ती
unclaimed अनध्यर्थित
u. and escheated property अनध्य-
र्थित तथा प्रत्यावृत्त सम्पत्ति
u. balances अनध्यर्थित राशि
u. dividend अनध्यर्थित लाभांश
u. interest अनध्यर्थित वृद्धि
unconditional अप्रातिबन्ध, प्रतिबन्ध-
रहित
unconfirmed credit अपुष्टीकृत प्रत्यय

uncontrolled अनियन्त्रित
 uncovenanted असंश्रावित (संश्राव covenant)
 uncultivated land अकृष्य भूमि
 undated विनातिथि, अतिथि
 u. bill विनातिथि विपत्र
 u. cheque विनातिथि धनदेश
 under- ऊन-,अव-, न्यून-, अधः-, अधीन,
 अन्तर्गत, उप-
 under-capitalisation ऊन-पुंजीयन
 under-charge न्यून-प्रभार
 under-charged न्यून-गृहीत
 under-consumption न्यून-उपभोग
 under-cooked अपूर्ण पक, अर्ध-पक
 under-developed अपूर्ण-विकसित, अर्ध-
 विकसित
 under discussion पर्यालोचन-अधीन
 under-dose न्यून-मात्रा
 under-graduate 1 *adj.* स्नातक-पूर्व
 2 *n.* पूर्व-स्नातक
 underground भूमिगत
 to go *u.* अधोगमन
 under head of account लेखा-शीर्षक के
 अन्तर्गत
 under his hand स्वहस्ताक्षरित, अपने
 हस्ताक्षर से
 under-population न्यून-जनसंख्या
 under-production न्यून-उत्पादन
 underrate अधोमूल्यन
 under-secretary उप-सचिव
 undersell अधोविक्रयण
 undersigned अधोहस्ताक्षरी
 understanding उपबोध
 undersupply ऊनप्रदाय
 undertaker उपक्रामी
 undertaking उपक्रमण, उपक्रम
 undertenant अधोभाटकी (subtenant
 उपभाटकी)
 under the proper heads of account

उपयुक्त लेखा-शीर्षकों के अन्तर्गत
 undervaluation अधोर्हण
 underwrite अभिगोपन
 underwriter अभिगोपक
 underwriting capital पुंजी अभिगोपन
 undeserved want अनुचित अभाव
 undetermined अनिर्धारित
 undigestible अपाच्य
 undischarged अनुन्मुक्त
 u. bankrupt अनुन्मुक्त नश्रुनीधि
 u. liability अनुन्मुक्त देय
 unearned अनर्जित
 u. income अनर्जित आय
 u. increment अनर्जित वृद्धि
 u. interest अनर्जित व्याज
 uneconomic cultivation अलाभ कृषि
 unemployed वृत्तिरहित, वृत्तिहीन
 unemployment कर्माभाव, वृत्तिहीनता
 u. insurance वृत्तिहीनता आगोप,
 अवृत्ति आगोप
 unexhausted अनिःशेषित
 u. paper अनिःशेषित पत्र
 unexpired अनवसित
 unfavourable प्रतिकूल, अननुकूल
 u. balance of trade प्रतिकूल निरा-
 क्राम्य अन्तर
 u. exchange प्रतिकूल विनिमय
 u. rate of exchange प्रतिकूल विनि-
 मय अर्ध
 unfettered power अवन्ध शक्ति, अश्टंखल
 शक्ति
 unfinished असमाप्त, अपूर्णकृत
 u. contract असमाप्त प्रसंविदा
 u. goods अपूर्णकृत वस्तुपं, कृतशेष
 वस्तुपं
 unforeseen अपूर्वदृष्ट
 unfunded अल्पकालीन
 u. debt अल्पकालीन ऋण
 u. floating debt अल्पकालीन चल

ऋण
 unhampered अबाधित
 unicameral एकागारिक, एकवेश्म
 unified एकीकृत
 u. stock एकीकृत स्कन्ध
 uniform एकरूप, समवेश, समांग, समांश,
 एकविध
 u. dimension एकसम परिमाण, एक-
 सम विमा
 u. increase समांश वृद्धि
 u. price एकसम मूल्य
 u. velocity एकरूप प्रवेग
 uniformity एकरूपता
 unilateral एकपार्श्विक
 u. contract एकपार्श्विक प्रसंविदा
 u. current एकपार्श्विक वाह
 union संघ, सम्मेलन, सम्मिलन, सम्मेल
 trade u. श्रमिक संघ, मज़दूर संघ
 u. list संघ-सूची
 u. of states राज्य-संघ
 unionism संघता
 unionist संघी
 unirrigated land असिक्त भूमि, अनासिँची
 भूमि
 unissued अनिर्गमित
 u. capital अनिर्गमित पुंजी
 unit 1 एकक, इकाई
 2 मात्रा
 3 (of a federation) अंग, संघानांग
 u. of appropriation नियोजन-एकक
 u. of classification वर्गीकरण-एकक
 u. of enumeration प्रगणना-एकक
 u. of interpretation निर्वचन-एकक
 u. of measurement माप-एकक
 u. of output प्रदा-एकक, उत्पत्ति-एकक
 u. of power शक्ति-एकक
 u. of value मूल्य-एकक
 u. of work कर्म-एकक
 unitary tax system एक-कर-पद्धति

United Kingdom संयुक्त राज्य
 unity एक, एकता
 universal विश्वव्यापी, वैश्व, सार्वत्रिक
 u. demand विश्वव्यापी अभियाचन
 u. economics सार्वत्रिक अर्थशास्त्र
 u. law of gravitation वैश्व अभ्या-
 कृष्टि नियम
 u. supply विश्वव्यापी प्रदाय
 universally विश्व, सर्वत्र
 u. present विश्वव्यापी
 u. true सर्वत्र सत्य
 university विश्वविद्यालय
 n. court विश्वविद्यालय सभा
 unlawful अवैध
 u. assembly अवैध जनसंग्रह
 unless context otherwise requires
 जब तक प्रसंगत: दूसरा अर्थ अपेक्षित न हो
 u. there is anything repugnant
 in the subject or context जब
 तक विषय अथवा प्रसंग में कोई बात
 प्रतिकूल न हो
 unlike विजातीय
 unlimited असीमित
 u. company असीमित प्रमण्डल
 u. liability असीमित देय, असीमित
 देयता
 u. number असंख्य
 u. partnership असीमित भागिता
 unmerchantable अविक्रेय
 unnatural अप्राकृत
 u. offence अप्राकृत मैथुन
 unpaid अदत्त
 u. calls अदत्त याचना
 u. capital अदत्त पुंजी
 u. dividends अदत्त लाभांश
 u. interest अदत्त वृद्धि अथवा व्याज
 u. share अदत्त अंश
 unparliamentary 1 (not parliamen-
 tary) असांसद

2 (designating behaviour or language contrary to good taste, accepted standards, etc.) अशिष्ट
unplanned economy अयोजनावद्ध अर्थ-
व्यवस्था

unpolished rice अप्रमार्जित चावल

unproductive अनुत्पादी

u. consumption अनुत्पादी उपभोग

u. expenses अनुत्पादी व्यय

u. labour अनुत्पादी श्रम

u. wages अनुत्पादी भृति

u. work अनुत्पादी कर्म

unqualified अयोग्य (cf. disqualified
निर्योग्य)

unrealisable अरोक-करणीय (रोक cash),
अप्राप्य

unrealised अरोक-कृत, अप्राप्त

unreasonable युक्तिहीन

unredeemed balance अशोध्य शेष

unremunerative अपरितोषद

unrest अशान्ति

unrestricted अनियन्त्रित

unsatisfactory असन्तोषप्रद, असन्तोष-
जनक

unsecured अप्रतिभूत

u. creditors अप्रतिभूत उत्तमर्ण

u. liability अप्रतिभूत देय

unskilled अदक्ष, अप्रवीण

u. labour अप्रवीण श्रम, अदक्ष श्रम,
अदक्ष श्रमिक

u. worker अदक्ष कर्मी

unsold अविक्रीत

unsound mind विकृत मस्तिष्क, विगड़ा
हुआ मस्तिष्क

unsoundness of mind मनोविक्षेप

unspent balance अर्चीत शेष, बचत
(अर्चीत is from अ + व्यय)

unstable अस्थायी

unsteadiness चंचलता

unsuitable अनुपयुक्त

untouchability अस्पृश्यता

untrained teacher अप्रशिक्षित शिक्षक

unvalued policy अनर्हित गोपलेख

unvarnished अलाक्षीयित (लाक्षी var-
nish)

unwatermarked (paper) अ-जलचिह्नित

unweighted average अभारित माध्य

uphold उंचा उठाये रखना

upkeep समारक्षण, देखरेख

upper 1 (as, service) उच्च (cf. supe-
rior service)

2 उत्तर

u. house उत्तरागार

u. school उत्तर पाठशाला

upset price अल्पिष्ठ क्रोशमूल्य

upstream प्रतिस्रोत

up-to-date आज तक

upto infinity अतन्ती पर्यन्त

upward limit ऊर्ध्व सीमा

urban नगरीय, नागर

u. economics नगर-अर्थशास्त्र

u. population नगर-वासी

u. site नगर-स्थान, नगरास्पद

urgent अविलम्ब, अविलम्बनीय

uric acid मेहिक अम्ल

urination मूत्रण, मूत्र करना

usage प्रथा, रीति

convention समाम्नाय

custom रूढि, आचार

practice अभ्यास, समभ्यास

tradition परम्परा

usance = term अवधि

u. bill = time bill सावधि विपत्र,
अवधि विपत्र

u. of a bill विपत्रावधि, विपत्र प्रचलन
अवधि

use प्रयोग, उपयोग

use force बल प्रयोग करना

useful capacity *Irrigation* उपयोगी
 धारिता
 using up उपभोग
 usufruct फलोपभोग
 usufructuary mortgage फलोपभोग
 प्राधि
 usurer कुसीदिक, सूदखोर
 usurious कौसीद

u. interest कौसीद वृद्धि (व्याज)
 usury कुसीद (from गौतम धर्मशास्त्र),
 सूदखोरी
 utilitarian उपयोगितावादी
 utility curve उपयोगिता वक्र
 utilization उपभोग
 utter destruction परिनाश

V

vacation लम्बी छुट्टी, दीर्घवकाश
 vaccination टीका, टीका लगाना
 vaccinator टीका लगाने वाला
 vaccine मसूरीलस (मसूरी 'a kind of
 small-pox' ancient word)
 vacuity 1 रिक्ति
 2 (true ullage) हीनता (difference
 between the full capacity and
 the actual contents of a cask)
 vacuum tube शून्यक नाल
 vagrant पर्यटक, आवारा
 valid मान्य, समर्थ, विध्यनुकूल, सत्य,
 साधु
 v. election मान्य निर्वाचन
 validation वैधकरण
 v. of awards and continuance of
 proceedings ordinance पंचों के
 निर्णय का वैधकरण तथा कार्यवाहियों
 को चालू रखने का अध्यादेश
 validity मान्यता, विध्यनुकूलता, सत्यता,
 साधुता, समर्थता
 valley घाटी
 valuation मूल्यन, मूल्य-निर्धारण, अर्हा-
 पण
 value 1 n. मूल्य, अर्हा
 2 vb. मूल्य आंकना, अर्हापण
 v. in use = utility उपयोगिता
 v. received प्राप्त अर्हा

valued policy निश्चित-मूल्य गोपलेख,
 अर्हित गोपलेख
 valuer मूल्यनिर्धारक, अर्हापक, अंक-
 परीक्षक
 vanish तिरोभूत होना
 variable अस्थिर, चल, विचरणशक्य,
 विचरणशील
 v. amount अस्थिर राशि
 v. market अस्थिर विपणि
 v. velocity चल प्रवेग
 variation विभेद, विभिन्नता
 variety विभिन्नता, विभेद
 various विभिन्न
 varnish 1 n. लाक्षी (लाक्षा shellac +
 -इन् possessive suffix meaning
 'containing')
 2 vb. लाक्षीयन
 varnished लाक्षीयित
 varying returns परिवर्ती प्रत्याय
 vegetative वर्धी
 velocity प्रवेग (speed वेग)
 v. of circulation *Econ.* परिचलन
 प्रवेग
 v. of sound ध्वनि-प्रवेग
 v. ratio प्रवेग-निष्पत्ति
 vendor विक्रेता
 vendor's share विक्रेता का अंश
 venereal disease मैथुन रोग, रतिज रोग,

पापरोग (ancient word)
 venom दंश-विष
 venture = adventure = enterprise =
 undertaking उपक्रम
 joint v. सह-उपक्रम
 Venus शुक्र
 verbal alteration शाब्दिक परिवर्तन
 verification सत्यापन (Lat. *verus* सत्य
 + *-ficare* to make)
 v. of accounts लेखा-सत्यापन
 verified सत्यापित
 verify सत्यापन करना
 vertex शीर्ष, शिरोविन्दु
 vertical उदग्र
 v. boiler उदग्र वाष्पित्र
 v. labour mobility उदग्र श्रम चलि-
 ष्णुता
 v. line उदग्र रेखा
 vessel यानपात्र, नौ, पोत
 vested interest निहित स्वार्थ, निहित
 हित
 vesting orders निधायी आदेश
 veterinary पशु-चिकित्सा
 v. assistant surgeon पशु-उपवैद्य
 v. college पशु-आयुर्विद्यालय, पशु-
 चिकित्सा-विद्यालय
 v. department पशु-चिकित्सा-विभाग
 v. science पशु-आयुर्वेद
 v. surgeon पशु-वैद्य
 v. training पशुचिकित्सा प्रशिक्षण
 veto अभिषेध
 vex *vb.* प्रवाधन करना
 vexatious प्रवाधी
 via 1 द्वारा
 2 (one copy of a set of bills)
 प्रतिलिपि
 first v. प्रथम प्रतिलिपि
 second v. द्वितीय प्रतिलिपि
 third v. तृतीय प्रतिलिपि

vice-chancellor उप-कुलंपति
 vice-consul उप-वाणिज्यदूत
 vice versa (conversely) विलोम-क्रमेण,
 विलोमतः
 vicinity सामीप्य
 vicious circle दुष्ट चक्र
 victor विजेता
 victorious विजयी
 victory विजय
 view दृशा
 vigorous ओजस्वी
 village ग्राम
 v. community ग्राम-समुदाय
 v. guide ग्राम-पथदर्शक
 v. headman ग्रामणी (ancient
 word), गांव का मुखिया
 v. industry ग्रामोद्योग
 v. market ग्राम विपणि
 v. survey ग्राम आपरीक्षण, ग्राम-
 भूमापन
 violation अतिक्रमण
 v. of law विधि का अतिक्रमण
 virtue सामर्थ्य
 by v. of के सामर्थ्य से
 visa 1 *n.* दृष्टांक, प्रवेशपत्र
 2 *vb.* दृष्टांकन करना
 visible दृश्य
 visit निरीक्षण
 visitor दर्शक
 visitors' gallery दर्शक-दीर्घा
 visual education दार्ष्टिक शिक्षा
 visualise मनसेक्षण
 vital जीवनावश्यक
 v. activity जीवन-क्रिया
 u. air जीवन-वायु
 v. statistics जीवन-संमंक, जीवनाद्
 vitalistic theory or vitalistic view
 of life (that life is self-determin-
 ing) आत्मधृत जीवनवाद

vitality ओज, जीवन-शक्ति
 vitamin जीवति
 v. deficiency जीवति-हीनता
 vitiate दूषित करना
 vivid विशद
 viz. (namely) अर्थात्
 vocation = profession व्यवसाय, धन्धा
 vocational व्यावसायिक
 v. school व्यावसायिक शिक्षालय
 void (of no legal force) प्रवृत्तिहीन
 volcano ज्वालामुखी
 volt द्युशक्तम्
 voltage द्युशक्तता
 volume 1 परिमा
 2 ग्रन्थ, ग्रन्थखण्ड, बन्ध
 voluntarily स्वेच्छापूर्वक, स्वेच्छ
 voluntary ऐच्छिक, स्वेच्छ
 v. liquidation ऐच्छिक अवसायन
 v. monopoly ऐच्छिक एकाधिकार
 v. winding up स्वेच्छा समापन
 volunteer स्वयंसेवक
 voracious महाशन (अश् to eat)
 votable मतदेय
 v. expenditure मतदेय व्यय
 v. item मतदेय पद

vote 1 मत, छन्द (छन्द is an ancient word; Latin *votum* means a 'vow, wish, will' the same as Sanskrit छन्द). 2 छन्ददान, मतदान
 v. by ballot गूढ मतदान
 v. by proxy प्रतिपुरुष मतदान
 v. may be taken by voices or division शब्द अथवा विभाजन से मत लिया जाए
 v. of censure प्रतिनिन्दन मत
 voted demand दत्तमत मांग, दत्तमत अभियाचन
 voted expenditure दत्तमत व्यय
 voting मतदान
 v. by ballot शलाका द्वारा मतदान
 v. by secret ballot गूढ शलाका द्वारा मतदान
 v. of demands मांगों पर मतदान
 voucher प्रमाणक
 v. number प्रमाणक क्रमांक
 vowel स्वर
 v. order स्वर-क्रम
 voyage जलयान
 v. account जलयान लेखा
 v. policy जलयान गोपलेख

W

wage भृति
 w. rate भृति अर्घ
 wages भृति, मजदूरी
 living w. निर्वाह-भृति
 minimum w. निम्न्यून भृति, न्यूनतम मजदूरी
 nominal w. रोक भृति
 piece w. कार्य-भृति
 real w. वास्तविक भृति
 time w. समय-भृति
 w. analysis book भृति-विश्लेषण पुस्त

w. book भृति पुस्त
 w. fund भृति प्रणीवि
 w. fund theory भृति-प्रणीवि सिद्धान्त
 w. sheet भृति-स्तार
 w. statistics भृति-समंक
 w. system भृति-प्रणाली
 wagon (for transporting goods) भाण्ड-यान, भाण्ड-वाहन
 waif (anything found or without an owner) अस्वामिक
 wall-plaster भित्ति-लेप

want 1 अभाव

2 अभीच्छा

w. of confidence विश्रम्भ का अभाव

ward 1 (a minor or person under guardianship) पाल्य

2 (of a hospital) विभाग

warder (of the jail) कारा-प्रहरी, पहरेदार

ware वस्तु, भाण्ड

warehouse भाण्डागार, कोष्ठागार, भण्डार, वस्तुगृह, कोठार

w. book भाण्डागार पुस्त, भण्डार-पुस्त

w. keeper भाण्डागारी, भण्डारी

w. register कोष्ठागार पंजी, कोठार पंजी

w. rent भाण्डागार-भाटक

w. warrant भाण्डागार-अधिपत्र

warmth ओष्णता (आ 'इपदर्थे' + उष्ण)

warrant अधिपत्र

1 (authorization) प्राधिकृति

2 (sanction of law or of a superior) सम्मोदन

3 (command) समादेश

4 (guaranty) प्रत्याभूति

5 (a certificate) प्रमाणपत्र

6 (a voucher) प्रमाणक

w. deposit अधिपत्र निक्षेप

washer (a ring of metal, leather or other material) चलयक

wastage क्षेप्यक

waste क्षेप्य, क्षय

w. book क्षेप्य-पुस्त

w. consumption क्षेप्य-उपभोग

w. land वन्ध्या भूमि, खिल भूमि (from अथर्ववेद), ऊसर भूमि

w. matter क्षेप्य द्रव्य

w. paper basket क्षेप्य पत्र पिटक

w. product क्षेप्य उत्पाद, क्षेप्य सृष्ट

wasting क्षयी

w. assets क्षयी सम्पत्ति

water जल

w. colours जल-रंग

w. culture जल संवर्ध

w. level जल-तल

w. logging जलानुवेधन

w. marked (paper) जल-चिह्नित

w. power जल-विद्युत्

w. power engineering जलविद्युद् अभियन्त्रणा

w. rates जल-कर

w. resources जल संसाधन

w. retaining crop जलधारी सस्य

w. supply जल-प्रदाय

w. tax जल-कर

w. tube boiler जल नाल वाष्पित्र

w. vapour जल-वाष्प

w. vessel जलवाहिनी

w. voltmeter जल-द्युशकममान

w. weed जलघास

w. works जलदाय-गृह, पानी-घर

w. works department जलदाय विभाग

watered तरलित

w. capital तरलित पुंजी

w. stock तरलित स्कन्ध

watering तरलन

w. of capital पुंजी-तरलन (cf. the Hindi idiom पानी के समान पैसा बहाना), अधिपुंजीयन

w. stock स्कन्ध-तरलन

waters समुद्र

waterways जलमार्ग

watery sap जलीय रस

way bill मार्गव्यय-पत्र

ways and means advances मार्गोपाय अग्रिम

weak दुर्बल

w. demand दुर्बल अभियाचन

w. market दुर्बल विपणि, मंदी छाट

weakening दुर्बलन
 w. of demand अभियाचन-
 दुर्बलन
 w. of supply प्रदाय-दुर्बलन
 wealth धन
 wealthy धनाढ्य
 weapon शस्त्र
 w. of defence प्रतिरक्षा-शस्त्र
 w. of offence आक्रमण-शस्त्र
 wear विघर्षण
 w. and tear टूटफूट, विघर्षण तथा
 दारण
 wearing धारण
 w. and carrying धारण और वहन
 weaving instructor वयन शिक्षक
 webbed जालयुक्त
 weed तृणक
 weeder निर्दाता
 weeding निर्दान (of. Marathi निर्दणें)
 weedy तृणकयुत
 weekly साप्ताहिक
 w. collections साप्ताहिक संग्रह
 w. market साप्ताहिक विपणि
 w. return साप्ताहिक विवरण
 weigh तोलना
 weight भार, वाट
 gross w. सकल भार
 net w. शुद्ध भार
 w. and measures भार तथा माप
 weightage तोलन-व्यय (weighing
 charges)
 weighted भारित
 w. average भारित माध्य
 w. index numbers भारित देशनांक
 weightless भारहीन
 weir Irrigation चार (Eng. word
 is from Sanskrit)
 welfare कल्याण
 w. works कल्याण-कार्य

well-balanced सुतुलित
 well-balanced appearance सुतुलित
 रूप
 well-being कल्याण
 well-developed सुविकसित
 well-established सुप्रतिष्ठापित, सुप्रति-
 ष्ठित
 well-known सुज्ञात
 well-to-do सम्पन्न
 west पश्चिम
 wet garden crop आर्द्र उद्यान सस्य
 wharf भरणतट
 when required अपेक्षानुसार
 whip (of the legislature) प्रतोद (used
 in Marathi)
 whirlpool जलावर्त
 white श्वेत
 w. metal श्वेत धातु
 w. printing quarto (paper) श्वेत
 मुद्रण चतुःपृष्ठ
 w. tissue paper श्वेत ऊति पत्र
 whole पूर्ण
 w. life policy आजीवन गोपलेख
 w. number पूर्णांक
 wholesale बहुशः, बहुशो-विक्रय, थोक
 w. dealer बहुशो-विक्रेता, थोक
 व्यापारी
 w. merchant बहुशो वाणिज्य, थोक
 व्यापारी
 w. price बहुशो मूल्य, थोक मूल्य
 w. price index numbers बहुशो
 मूल्य देशनांक
 w. trader बहुशो-व्यापारी, थोक
 व्यापारी
 wholeseller बहुशो विक्रेता, थोक विक्रेता
 whole-time पूर्ण-काल, पूर्ण-कालिक
 w. work पूर्णकाल कर्म
 w. worker पूर्णकाल कर्मी
 wholly सर्वशः, पूर्णतया

w. imaginary सर्वशः काल्पनिक
w. or partly पूर्णतया अथवा अंशतया
w. real सर्वशः वास्तविक
wide विस्तीर्ण, विस्तृत
w. demand विस्तृत अभियाचन
wild वन्य
w. animals वन्य पशु
w. birds वन्य पक्षी
w. fire दावानल
w. game वन्य मृग
wilful जानबूझकर
will 1 रिक्तपत्र
2 इच्छा
wilt diseases (of sugarcane) शैथिल्य रोग
wind वायु, वात, हवा
wind-bill वात-विपत्र, चिल्ल-विपत्र (kite bill)
wind-fall अपत्याश आय, दैव आय
wind-mill पवन पेपणी, पवन-चक्की
window वातायन, खिड़की
window-dressing 1 अभिविन्यसन
2 विप्रलम्भन (as in the preparation of B/S)
wind-power वायु-शक्ति
wind up अवसायन, समापन
compulsory winding up अनिवार्य समापन
voluntary winding up स्वेच्छा समापन
wiper प्रौद्य
wireless=radio वितन्तु, नभोवाणी
w. apparatus वितन्तु साधित्र
w. operator वितन्तु चालक
w. telegraph वितन्तु दूरलिख
w. telegraphist वितन्तु दूरसन्देशक
w. telegraphy वितन्तु दूरलिखा
w. waves वितन्तु तरंग
wireman तन्तु-पुरुष

with all convenient despatch यथा-सुविध शीघ्रता से
with compliments of समादरेण, सप्रश्रयम्, प्रश्रयपूर्वक
withdraw प्रत्याहरण करना, वापस लेना
withdrawal प्रत्याहार
w. of member सदस्य का प्रत्याहार
w. of motion प्रस्ताव का प्रत्याहार, प्रस्ताव लौटाना
withdrawer प्रत्याहर्ता
withdrawn प्रत्याहृत
withhold न देना, प्रतिधारण करना
w. consent सहमति प्रतिधारण
without रहित, विना
w. discrimination विना भेद के
w. limit सीमातीत
w. prejudice विना विपरीत प्रभाव के, अविरुद्ध, अविरोधेन
w. recourse दायित्व-रहित
w. reserve संचिति-रहित
wool ऊन, ऊर्णा
w. development officer ऊर्णा विकास अधिकारी
woollen textiles ऊनी वस्त्र
wording शब्द-रचना
w. of motion प्रस्ताव की शब्द-रचना
words of command समादेश-वचन
work कार्य, कर्म
w. day=working day कार्य-दिवस
w. house कर्मगृह
w.-in-progress क्रियमाण कर्म, चालू काम
w.-shop शिल्पिशाला
w. sarkar (one who supervises labour) श्रम-निरीक्षक
worker कर्मी, कर्मकारी
part-time w. अंशकाल कर्मी
skilled w. दक्ष कर्मी
unskilled w. अदक्ष कर्मी

whole-time w. पूर्णकाल कर्मों
 working कर्मकरण
 w. account=manufacturing acco-
 unt निर्माण-लेखा
 w. capital कर्मवाहक पुंजी, सक्रिय पुंजी
 w. cost निर्माण-परिव्यय
 w. day कर्मवाहक दिवस, कार्य-दिवस
 w. drawing कर्मकरण उद्रेख
 w. expenses निर्माण-व्यय
 w. partner सक्रिय भागी
 workman कर्मकार
 workmanship कर्म-कौशल
 workmen's compensation insu-
 rance कर्मकार हगनिपूरण आगोप
 works कर्मशाला, कर्मन्त, कर्म
 w. committee स्वामि-सेवक समिति,
 श्रमिक समिति
 w. cost (cost of production,
 factory cost, manufacturing
 cost) निर्माण-परिव्यय
 w. expenses निर्माण-व्यय
 w. manager कर्माध्यक्ष
 w. oncost=factory oncost निर्माणी
 अधिव्यय
 w. register कार्य-पंजी
 worsted (a yarn spun from pure

wool ऊर्णा) समूर्णा
 worth अर्हा, मूल्य
 wound व्रण, घाव
 wound up अवसायित
 wrapper वेष्टक
 writ लेख, आदेशलेख
 w. of certiorari उत्प्रेषण लेख
 w. of habeas corpus बन्दि-उपस्था-
 पन-लेख
 w. of mandamus परम लेख
 w. of prohibition प्रतिषेध-लेख
 w. of quo warranto अधिकार-पृच्छा-
 लेख
 write off (as an account) अपलेखन
 writing लेखन
 w. off अपलेखन
 w. pad लेखन-चय
 w. paper लेखन-पत्र
 w. under his hand स्वहस्ताक्षरित
 लेख द्वारा
 written communications लिखित पत्र
 wrongful सदोष
 w. confinement सदोष संस्तीमन,
 सदोष निरोध, सदोष निरोधन, सदोष
 वन्दीकरण
 w. restraint सदोष नियन्त्रण

X

X-ray क्ष-रश्मि
 X-ray photograph=radiograph क्ष-
 रश्मि-चित्र

X-ray room क्ष-रश्मि-कोष्ठ
 X-ray tube क्ष-रश्मि-नाल

Y

yard यष्टि, गज़
 year वर्ष
 calendar y. पत्री वर्ष (पत्री=तिथिपत्री
 calendar)

financial y. आर्थिक वर्ष
 y. book वर्ष-पुस्तक
 yearly वार्षिक
 yield n. उत्पत्ति, उद्य, प्राप्ति

gross y. सकल प्राप्ति
net y. शुद्ध प्राप्ति
yield *vb.* अनुनमन करना
admit अङ्गीकार करना
comply अनुविधान
submit अनुवर्तन

young बाल

y. and old बाल और वृद्ध
youngone (as, of an animal) शाव
young seed तरुण बीज
young stock बाल पशु

Your Excellency परम श्रेष्ठ
Your Highness महाराज
Your Holiness भगवन्
Your Majesty देव
yours faithfully=faithfully yours
भवश्रेष्ठ
yours obediently भवदाक्षाकारी
yours respectfully भवत्संमानकारी
yours sincerely =sincerely yours
भवदीय सद्भावी
yours truly भवदीय सत्यैषी

Z

zamindari abolition officer भूमि-
पतित्व-उत्सादन अधिकारी, ज़मींदारी
उन्मूलन अधिकारी
zero शून्य (cf. विन्दु point)
z. position शून्य स्थिति

zone प्रदेश
zoological प्राणिकीय, प्राणि-
z. garden प्राणि-उद्यान, चिड़िया-घर
z. survey प्राणिकीय आपरीक्षण

*

*

*

*

FOR USE IN THE VARIOUS ARYAN AND DRAVIDIAN LANGUAGES OF INDIA AND
CEYLON,

namely,

BENGALI, GUJARATI, HINDI, KANNADA, MALAYALAM, MARATHI, NEPALI, ORIYA,
PUNJABI, SINGHALESE, TAMIL, TELUGU, AND ALLIED LANGUAGES.

The Great English-Indian Dictionary

BY

Raghu Vira, M. A., Ph. D. (London), D. Litt. et Phil. (Holland)

WITH THE COOPERATION OF

Eighty eminent scientists and scholars representing various sciences and arts.

The Dictionary will contain Indian equivalents for every word of the English language, literary, technical and semi-technical, covering about six hundred special branches of knowledge. To name only a few: accounts, aeronautics, agriculture, animal husbandry, anatomy, angling, anthropology, architecture, art, astronomy, astrophysics, athletics and sports, aviation, bacteriology, banking, bio-chemistry, biology, botany, brewing, cartography, ceramics, chemistry, chess, commerce and finance, craniometry, dancing, dentistry, dramaturgy, economics, education, engineering, forestry, gambling, gems and jewelry, geography, geology, history, horology, horticulture, hunting and field sports, insurance, law, logic, machinery and tools, mathematics, medicine, metallurgy, meteorology, mining and ore-dressing, music, nautical and naval terms, newspapers, numismatics, optics, painting, paleontology, paper-making, petrography, petrology, pharmacy, philately, philology and linguistics, philosophy, photography and motion pictures, physics, physiology, politics, printing and engraving, psychology and psychiatry, radio, railways, sculpture, shipbuilding, sociology, surgery, textiles, transportation (air, land and marine), veterinary science, warfare, zoology.

The Oxford Dictionary in thirteen volumes and Webster's Dictionary in two volumes serve as the main sources for English vocabulary.

The Indian words are derived from Sanskrit roots and stems. The words are such as are usable in the diverse literary languages of India and Ceylon, whether Aryan or Dravidian—Panjabi, Hindi, Nepali, Bengali, Oriya, Gujarati, Marathi, Telugu, Tamil, Canarese, Malayalam, Singhalese and allied languages.

Since times immemorial, Sanskrit has been the fountain-head from which all languages of India have drawn their learned and technical vocabulary, from elementary grammar and arithmetic up to logic and metaphysics, embracing the entire sphere of human thought and activity, such as aesthetics, rhetorics, drama, dance, music, architecture, painting, sculpture, history, political science, administration, law, astrology, astronomy, medicine, magic, ritual, atheism, archery and warfare.

The Academy has its own printing establishment which is equipped for turning out the finest typographical work in different languages.

It is a monumental undertaking. It is the carving of a new national channel for the flow of India's genius into the vast world of modern thought and science.

The Great English-Indian Dictionary—compiled with the co-operation of an all-India board of editors drawn from all provinces of India and representing the major sciences. Each word in these volumes appears in four scripts, viz., **Devanagari, Bengali, Canarese and Tamil.**

Vol. I (Inorganic Chemistry)	Rs. 33/-
Vol. II (Organic Chemistry, A—D)	Rs. 25/-
Vol. III (Scientific Apparatus)	Rs. 8/-
Vol. IV (Chemical Dyes and Colours with an appendix on Intermediate Products)	Rs. 20/-

The Elementary English-Indian Dictionary. An abridged version. It is intended for authors, teachers and students interested in Chemistry, Physics, Mathematics, Botany, Zoology of the Matriculation and Intermediate standards. Rs. 5/-

Dictionary of Commerce Rs. 2/-

Dictionary of Statistics Rs. 2/-

Dictionary of Economics Rs. 4/-

Dictionary of Indian Avifauna—gives the names of all the birds of India. Rs. 15/-

The Great English-Indian Dictionary—contains about **one lac** of terms relating to Physics, Chemistry, Biology, Mathematics, Medicine (Bacteriology, Parasitology, Physiology, Anatomy, Pathology, etc.), Engineering, Colours and Dyes Industry, Commerce, Administration, Statistics and numerous other subjects.

SPECIMEN FORMS

used in

THE LEGISLATIVE ASSEMBLY

of

THE CENTRAL PROVINCES AND BERAR

DEMANDS FOR GRANTS

The Honourable.....
 (Minister for.....) : Sir, I move that a sum not exceeding Rs.....be granted to the Governor to meet the expenditure proposed to be made from the revenue of the Province during the year ending the 31st day of March, 19.....in respect of.....

The Honourable the SPEAKER : Motion moved—

That a sum not exceeding Rs.....be granted to the Governor to meet the expenditure proposed to be made from the revenues of the Province during the year ending the 31st day of March, 19 in respect of.....

The Honourable the SPEAKER: The question is—

That a sum not exceeding Rs.....be granted to the Governor to meet the expenditure proposed to be made from the revenues of the Province during the year ending the 31st day of March, 19 in respect of.....

मांग के बारे में प्रस्ताव.

माननीय.....
में प्रस्ताव करता हूँ कि तारीख ३१ मार्च १९ ई. को समाप्त होने वाले वर्ष में.....के लिये प्रान्त के आगमों में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त प्रान्तपति महोदय को रु.....तक की राशि दी जाये.

माननीय अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि तारीख ३१ मार्च १९ ई. को समाप्त होने वाले वर्ष में.....के लिये प्रान्त के आगमों में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त प्रान्तपति महोदय को रु.....तक की राशि दी जाये.

माननीय अध्यक्ष महोदय : प्रश्न उपस्थित है कि तारीख ३१ मार्च १९ ई. को समाप्त होने वाले वर्ष में.....के लिये प्रान्त के आगमों में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त प्रान्तपति महोदय को रु.....तक की राशि दी जाये.

NOTICE OF MOTIONS TO REDUCE OR OMIT GRANTS IN THE BUDGET ESTIMATE FOR 19 -

१९ - ई. के आयव्ययक की मांगों को घटाने अथवा लोप करने के प्रस्तावों की सूचना

(Notice should reach the Assembly office by 3 p.m. on the March 19)

(सूचना, विधान सभा कार्यालय में, मार्च १९ ई. को ३ बजे दिन के पहिले पहुंच जानी चाहिये)

Demand No. मांग सं.

Mr. श्री.....

Estimate page आगणन पृष्ठ.....

Detailed Account No. सविस्तार लेखा सं.
 Normal New Expenditure-Item No. साधारण नवीन व्यय-पद सं.
 or अथवा
 Development New Expenditure-Item No. विकास नवीन व्यय-पद सं.
 To move a reduction of Rs. रुपयों की कमी का प्रस्ताव करना

Reasons for proposed reduction (see the note below).
 प्रस्तावित कमी के हेतु (नीचे टिप्पणी देखिये).

The.....March 19 .

ता.....मार्च १९ ई. Signature of Member सदस्य के हस्ताक्षर.

NOTE—The member is requested to state clearly and briefly the subject which he wishes to raise on the motion as required by Rule 99 (2) of the Assembly Rules.

टिप्पणी—सदस्य महोदय से प्रार्थना है कि वे अपने इस कटीती प्रस्ताव पर जिस प्रश्न को उठाना चाहते हैं उसे संक्षिप्त और स्पष्ट रूप से लिखें. यह विधान सभा के नियम ९९ (२) के अनुसार आवश्यक है.

LEGISLATION

THE CENTRAL PROVINCES AND BERAR

[I

.....BILL, 19 (No.....of 19)

The Honourable.....
 (Minister for.....): Mr. Speaker, Sir,
 I rise to announce that the previous sanction/recommendation required by section.....of the Government of India Act, 1935, has been given by His Excellency the Governor to the introduction of the Central Provinces and Berar.....
 Bill, 19 (No.....of 19).

I introduce the Central Provinces and Berar.....
Bill, 19 (No.....of 19).

The Honourable the SPEAKER: The Central Provinces and Berar
Bill, 19 (No.....
 of 19) is introduced.

The Honourable.....
 (Minister for.....): Mr. Speaker,
 Sir, I move that the Central Provinces and Berar.....
Bill, 19 (No.....of 19) be taken into
 consideration at once.

(Speech of the Honourable Minister)

(If objection is taken by any member of the House to the motion for consideration, reasons to be given showing urgency, with a request to the Honourable the Speaker for suspending the operation of the

provisions of Rule 72 of the Central Provinces and Berar Legislative Assembly Rules).

The Honourable the SPEAKER: Motion moved—

“That the Central Provinces and Berar.....
Bill, 19 (No.....of 19) be taken into consideration at once.”

(Further debate on the motion)

The Honourable the SPEAKER: The question is that the Central Provinces and Berar.....Bill, 19 (No.....of 19) be taken into consideration at once.

Those who are in favour of the motion will please say “Aye”: Those who are against the motion will please say “No”: I think the “Ayes”/“Noes” have it. (After a pause) “Ayes”/“Noes” have it.

The Honourable the SPEAKER: The House will now proceed to consider the Bill, clause by clause.

The question is that clauses.....of Bill 19 (No.....of 19) (as amended by the House) do stand part of the Bill. Those who are in favour, etc.

The question is that clause...does stand part of the Bill. Those who are in favour, etc.

The question is that the long title and the preamble do stand part of the Bill. Those who are in favour, etc.

The Honourable.....
(Minister for.....),
Mr. Speaker, Sir, I now move that the Central Provinces and Berar.....
.....Bill, 19 (No.....of 19), as
considered by the House, be passed into law.

(Speech of the Honourable Minister, if any)

The Honourable the SPEAKER: Motion moved—

“That the Central Provinces and Berar.....
Bill 19 (No.....of 19), as considered by this House, be passed
into law.”

(After debate, if any)

The Honourable the SPEAKER: The question is—

That the Central Provinces and Berar.....
..... Bill, 19 (No.....of 19), as considered
by this House, be passed into law.

Those who are in favour, etc.

विधान

[क्रमांक ६]

मध्यप्रान्त और वरार.....(संशोधन) विधेयक (विल), संवत् १९ ई.
(संख्या.....संवत् १९ ई.)

माननीय पण्डित/श्रीयुत.....(.....मन्त्री).
श्रीमन् अध्यक्ष महोदय, मैं यह अभिज्ञापन (अनाउन्स) करता हूँ कि परमश्रेष्ठ प्रान्तपति
(हिज़ एक्सीलेंसी दि गवर्नर) ने मध्यप्रान्त और वरार.....(संशोधन)
विधेयक (विल), संवत् १९ ई. (संख्या.....संवत्
१९ ई.) के पुरःस्थापन (इण्ट्रोडक्शन) के लिये भारत-शासन-अधिनियम (गवर्नमेंट ऑफ
इण्डिया ऐक्ट) संवत् १९३५ ई. की धारा.....के अनुसार अपेक्षित पूर्व सम्मोदन
(सैंकशन)/अभिस्ताव (रिकमेंडेशन) प्रदान किया है.

मैं मध्यप्रान्त और वरार.....
.....(संशोधन) विधेयक (विल), संवत् १९ ई. (संख्या.....
.....संवत् १९ ई.) का पुरःस्थापन (इण्ट्रोडक्शन) करता हूँ.

माननीय अध्यक्ष महोदय : मध्यप्रान्त और वरार.....
.....(संशोधन) विधेयक (विल), संवत् १९ ई. (संख्या
.....संवत् १९ ई.) पुरःस्थापित (इण्ट्रोड्यूस्) हुआ.

माननीय पण्डित/श्रीयुत.....(.....मन्त्री) :
श्रीमन् अध्यक्ष महोदय, मैं यह प्रस्ताव करता हूँ कि मध्यप्रान्त और वरार.....(संशोधन)
विधेयक (विल), संवत् १९ ई. (संख्या.....संवत् १९ ई.) पर तुरन्त
विचार किया जाये.

(माननीय मन्त्री जी का भाषण)

(यदि सभा का कोई सदस्य उक्त प्रस्ताव पर आपत्ति करे, तो प्रस्तावक माननीय
अध्यक्ष महोदय से नियम ७२ के प्रावधानों (प्रॉविज़न्ज़) के प्रवर्तन (ऑपरेशन) का निलम्बन
(सस्पेंड) करने की प्रार्थना करें और तदर्थ आवश्यकता के कारण बतलायें.

माननीय अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ (मोशन मूव्ड) कि—

“मध्यप्रान्त और वरार.....(संशोधन)
विधेयक (विल), संवत् १९ ई. (संख्या.....संवत् १९ ई.) पर तुरन्त विचार किया जाये.”

(इस प्रस्ताव पर और वादविवाद)

माननीय अध्यक्ष महोदय: प्रदन यह है कि मध्यप्रान्त और वरार.....
.....(संशोधन) विधेयक (विल), संवत् १९ ई. (संख्या.....
.....संवत् १९ ई.) पर तुरन्त विचार किया जाये.

जो इस प्रस्ताव के पक्ष में हों, वे कृपया “हां” कहें. जो इन प्रस्ताव के विपक्ष में
हों, वे कृपया “ना” कहें. मैं समझता हूँ कि “हां”/“ना” वाले जीत गए. (विराम के
पश्चात्) “हां”/“ना” वाले जीत गए.

माननीय अध्यक्ष महोदय : अब यह सभा इस विधेयक पर खण्डशः (क्लॉज़ वाइ क्लॉज़) विचार करेगी.

प्रश्न यह है कि मध्यप्रान्त और बरार.....(संशोधन) विधेयक (बिल), संवत् १९ ई. का/के (इस सभा द्वारा संशोधित) खण्ड..... इस विधेयक (बिल) का अंग बने. जो इस प्रस्ताव के पक्ष में हों, वे कृपया “हां” कहें, इत्यादि.

प्रश्न यह है कि मध्यप्रान्त और बरार.....(संशोधन) विधेयक (बिल), संवत् १९ ई. का खण्ड... स विधेयक का अंग बने. जो इस प्रस्ताव के पक्ष में हों, वे कृपया “हां” कहें, इत्यादि.

प्रश्न यह है कि पूर्ण नाम तथा प्रस्तावना (प्रिपॉज्चल)इस विधेयक (बिल) का अंग बने. जो इस प्रस्ताव के पक्ष में हों, वे कृपया “हां” कहें, इत्यादि.

माननीय पण्डित/श्रीयुत.....(.....मन्त्री) : श्रीमन् अध्यक्ष महोदय, अब मैं प्रस्ताव करता हूँ कि सभा द्वारा विचारित (एँज़ कंसिडर्ड) मध्यप्रान्त और बरार.....(संशोधन) विधेयक (बिल), संवत् १९ ई. (संख्या..... संवत् १९ ई.) विधि बने.

(माननीय मन्त्री जी का भाषण, यदि वे दें)

माननीय अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ है कि—

“सभा द्वारा विचारित मध्यप्रान्त और बरार.....(संशोधन) विधेयक (बिल), संवत् १९ ई. विधि बने.”

(यदि कोई वादविवाद हो, तो उसके पश्चात्)

माननीय अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि—

“सभा द्वारा विचारित मध्यप्रान्त और बरार.....(संशोधन) विधेयक (बिल), संवत् १९ ई. विधि बने. जो इस प्रस्ताव के पक्ष में हों वे कृपया “हां” कहें, इत्यादि”.

[II

THE CENTRAL PROVINCES AND BERAR

.....BILL, No.....of 19

The Honourable.....
(Minister for.....):
Mr. Speaker, Sir, I rise to announce that the previous sanction/recommendation required by section.....of the Government of India Act, 1935, has been given by His Excellency the Governor to the introduction of the Central Provinces and Berar..... Bill, 19 (No.....of 19).

I introduce the Central Provinces and Berar..... Bill, 19 (No.....of 19).

The Honourable the SPEAKER: The Central Provinces and Berar.....Bill, 19 (No.....of 19), is introduced.

The Honourable.....
 (Minister for.....):
 Mr. Speaker, Sir, I move that the Central Provinces and Berar.....
Bill, 19
 (No..... of 19), be circulated for the purpose of eliciting opinion
 thereon.

(Speech of the Honourable Minister)

The Honourable the SPEAKER: Motion moved—

“That the Central Provinces and Berar.....
Bill, 19
 (No.....of 19), be circulated for the purpose of eliciting opinion
 thereon.”

(Further debate on the motion)

The Honourable the SPEAKER: The question is—

“That the Central Provinces and Berar.....
 Bill, 19
 (No.....of 19), be circulated for the purpose of eliciting opinion
 thereon.”

Those who are in favour of the motion will please say “Aye”: Those
 who are against the motion will please say “No”: I think the “Ayes”/
 “Noes” have it. (After a pause) “Ayes”/“Noes” have it.

[क्रमांक २]

मध्यप्रान्त और वरार.....(संशोधन) विधेयक (बिल), संवत् १९ ई.
 (संख्या.....संवत् १९ ई.)

माननीय पण्डित/श्रीयुत.....(.....मन्त्री):

श्रीमन् अध्यक्ष महोदय, मैं यह अभिज्ञापन (अनाउंस) करता हूँ कि परमश्रेष्ठ
 प्रान्तपति ने मध्यप्रान्त और वरार.....(संशोधन) विधेयक (बिल), संवत्
 १९ ई. (संख्या.....संवत् १९ ई.) के पुरःस्थापन (इण्ट्रोडक्शन)
 के लिये भारत-शासन-अधिनियम (गवर्नमेंट ऑफ इण्डिया ऐक्ट) संवत् १९३५ ई. की
 धारा.....के अनुसार अपेक्षित पूर्व सम्मोदन (सैंक्शन)/अभिस्ताव
 (रिकमण्डेशन) प्रदान किया है.

मैं मध्यप्रान्त और वरार..... (संशोधन)
 विधेयक (बिल), संवत् १९ ई. का पुरःस्थापन (इण्ट्रोडक्शन) करता हूँ.

माननीय अध्यक्ष महोदय : मध्यप्रान्त और वरार..... (संशोधन)
 विधेयक (बिल), संवत् १९ ई. (संख्या.....संवत् १९ ई.)
 पुरःस्थापित (इण्ट्रोड्यूस्) हुआ.

माननीय पण्डित/श्रीयुत..... (.....मन्त्री) :

श्रीमन् अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि सर्वसाधारण की मति जानने के
 लिये मध्यप्रान्त और वरार.....(संशोधन) विधेयक (बिल), संवत् १९ ई.
 (संख्या.....संवत् १९ ई.) का परियहन (सफर्यूटेशन) किया जाय.

(माननीय मन्त्री जी का भाषण)

माननीय अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ है कि—

“सर्वसाधारण की मति जानने के लिये मध्यप्रान्त और बरार
.....(संशोधन) विधेयक (विल), संवत् १९ ई. (संख्या.....
संवत् १९ ई.) का परिवहन (सर्क्यूलेशन) किया जाय.”

(इस प्रस्ताव पर और वादविवाद)

माननीय अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि—

“सर्वसाधारण की मति जानने के लिये मध्यप्रान्त और बरार.....
.....(संशोधन) विधेयक (विल), संवत् १९ ई. (संख्या.....
संवत् १९ ई.) का परिवहन (सर्क्यूलेशन) किया जाये.”

जो इस प्रस्ताव के पक्ष में हों, वे कृपया “हां” कहें. जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में हों, वे कृपया “ना” कहें. मैं समझता हूँ कि “हां”/“ना” वाले जीत गए. (विराम के पश्चात्) “हां” /“ना” वाले जीत गए.

[III

THE CENTRAL PROVINCES AND BERAR

.....BILL, 19 (No.....of 19)

The Honourable.....
(Minister for):
Mr. Speaker, Sir, I move that the Central Provinces and Berar.....
.....Bill 19 (No.....of 19),
be referred to a Select Committee consisting of the following members :

[Only eight names to be given as no Select Committee is to consist of more than eight members including the Minister-in-Charge unless leave is obtained by a motion made in the House: *vide* Rule 74 (2) of the Central Provinces and Berar Legislative Assembly Rules]

(Speech of the Honourable Minister)

(After speech)

The Honourable the SPEAKER: Motion moved—

“That the Central Provinces and Berar.....
Bill, 19 (No.....of 19), be referred to a Select Committee composed as proposed.”

(Further debate on the motion)

(After debate)

The Honourable the SPEAKER: The question is—

“That the Central Provinces and Berar.....
Bill, 19 (No.....of 19), be referred to a Select Committee composed as proposed.”

Those who are in favour of the motion will please say “Aye”:
Those who are against the motion will please say “No”: I think the
“Ayes” /“Noes” have it. (After a pause) “Ayes”/“Noes” have it.

मध्यप्रान्त और वरार.....(संशोधन) विधेयक (विल), संवत् १९ ई.
(संख्या.....संवत् १९ ई.)

माननीय पण्डित/श्रीयुत..... (.....मन्त्री):
श्रीमन् अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि मध्यप्रान्त और वरार.....
(संशोधन) विधेयक (विल), संवत् १९ ई. (संख्या..... संवत् १९ ई.)
प्रवर समिति (सिलेक्ट कमीटी) को सौंपा जाय, जिसके निम्न सदस्य होंगे—
[केवल आठ ही नाम दिए जाएं, क्यों कि किसी प्रवर समिति (सिलेक्ट कमीटी) में सभा
से प्रस्ताव द्वारा अनुमति प्राप्त किये बिना प्रभारी मन्त्री (मिनिस्टर-इन-चार्ज) सहित
आठ से अधिक सदस्य न हो सकेंगे : नियम ७४ (२) देखिये.]

(माननीय मन्त्री जी का भाषण)
(भाषण के पश्चात्)

माननीय अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ (मोशन मूव्ड) कि—

“मध्यप्रान्त और वरार.....(संशोधन)
विधेयक (विल), संवत् १९ ई. (संख्या.....संवत् १९ ई.)
प्रस्थापनानुसार निर्मित (कम्पोज्ड पेंज़ प्रोपोज्ड) प्रवर समिति (सिलेक्ट कमीटी) को सौंपा
जाये.”

(इस प्रस्ताव पर और वादविवाद)
(वादविवाद के पश्चात्)

माननीय अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है कि—

“मध्यप्रान्त और वरार.....(संशोधन)
विधेयक (विल), संवत् १९ ई. (संख्या.....संवत् १९ ई.)
प्रस्थापनानुसार निर्मित (कम्पोज्ड पेंज़ प्रोपोज्ड) प्रवर समिति (सिलेक्ट कमीटी) को सौंपा
जाये.”

जो इस प्रस्ताव के पक्ष में हों, वे कृपया “हां” कहें. जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में हों, वे
कृपया “ना” कहें. मैं समझता हूँ कि “हां”/“ना” वाले जीत गए. (विराम के पश्चात्)
“हां”/“ना” वाले जीत गए.

[IV]

THE CENTRAL PROVINCES AND BERAR

.....BILL, 19 (No.....of 19)

The Honourable.....
(Minister for.....):
Mr. Speaker, Sir, I move that the Central Provinces and Berar.....
Bill, 19 (No.of 19), be referred to a Select Committee
consisting of the following members with a direction that the Select
Committee shall present its report before.....19 :—

[Only eight names to be given as no Select Committee is to consist of
more than 8 members including the Minister-in-Charge unless leave
is obtained by a motion made in the House: vide Rule 74 (2) of

the Central Provinces and Berar Legislative Assembly Rules.]

(Speech of the Honourable Minister)

The Honourable the SPEAKER: Motion moved—

“That the Central Provinces and Berar.....
Bill, 19 (No.....of 19) be referred to a Select Committee
composed as proposed with a direction that the Select Committee shall
present its report before.....19 .”

(Further debate on the motion)

The Honourable the SPEAKER: The question is—

“That the Central Provinces and Berar.....
Bill, 19 (No.....of 19), be referred to a Select Committee
composed as proposed with a direction that the Select Committee shall
present its report before.....19 .”

Those who are in favour of the motion will please say “Aye”: Those
who are against the motion will please say “No”: I think the “Ayes”/
“Noes” have it. (After a pause) “Ayes”/“Noes” have it.

[क्रमांक ४]

मध्यप्रान्त और वरार.....(संशोधन) विधेयक (विल), संवत् १९ ई.
(संख्या.....संवत् १९ ई.)

माननीय पण्डित / श्रीयुत.....(.....मन्त्री):

श्रीमन् अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि मध्यप्रान्त और वरार.....
(संशोधन) विधेयक (विल), संवत् १९ ई. (संख्या.....१९ ई.)
प्रवर समिति (सिलेक्ट कमीटी) को सौंपा जाये, जिसके निम्न सदस्य होंगे. प्रवर समिति
को यह निर्देशन दिया जाता है कि वह अपना प्रतिवेदन (रिपोर्ट) दिनांक.....
संवत् १९ ई. से पूर्व उपस्थित करे—

[केवल आठ ही नाम दिये जायें, क्योंकि प्रवर समिति में सभा से अनुमति प्राप्त किये
बिना प्रभारी मन्त्री (मिनिस्टर-इन-चार्ज) सहित आठ से अधिक सदस्य न हो
सकेंगे : नियम ७४ (२) देखिए]

(माननीय मन्त्री जी का भाषण)

(भाषण क पश्चात्)

माननीय अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ (मोशन मूव्ड) कि—

“मध्यप्रान्त और वरार.....(संशोधन)
विधेयक (विल), संवत् १९ ई. (संख्या.....संवत् १९ ई.)
प्रस्थापनानुसार रचित (कम्पोज्ड ऐंज प्रोपोज्ड) प्रवर समिति (सिलेक्ट कमीटी) को सौंपा
जाये. प्रवर समिति (सिलेक्ट कमीटी) को यह निर्देशन दिया जाता है कि वह अपना प्रति-
वेदन (रिपोर्ट) दिनांक.....संवत् १९ ई. से पूर्व उपस्थित करे”.

(इस प्रस्ताव पर और वादविवाद)

(वादविवाद के पश्चात्)

माननीय अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि—

“मध्यप्रान्त और वरार.....(संशोधन)
विधेयक (बिल), संवत् १९ ई. (संख्या.....संवत् १९ ई.)
प्रस्थापना रचित (कम्पोज्ड एंड प्रोपोज्ड) प्रवर समिति (सिलेक्ट कमीटी) को सौंपा
जाये. प्रवर समिति (सिलेक्ट कमीटी) अपना प्रतिवेदन (रिपोर्ट) दिनांक
संवत् १९ ई. से पूर्व उपस्थित करे.”

जो इस प्रस्ताव के पक्ष में हों वे कृपया “हां” कहें. जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में हों,
वे कृपया “ना” कहें. मैं समझता हूं कि “हां”/“ना” वाले जीत गए. (विराम के पश्चात्)
“हां”/“ना” वाले जीत गए.

[V

THE CENTRAL PROVINCES AND BERAR

.....BILL, 19 (No.....of 19).

The Honourable.....
(Minister for.....):
Mr. Speaker, Sir, I rise to announce that the previous sanction/recom-
mendation required by section.....of the Government of India
Act, 1935, has been given by His Excellency the Governor to the intro-
duction of the Central Provinces and Berar.....Bill,
19 (No.....of 19).

I introduce the Central Provinces and Berar.....
.....Bill, 19 (No.....of 19).

The Honourable the SPEAKER: The Central Provinces and Berar
.....Bill, 19
(No.....of 19), is introduced.

The Honourable.....
(Minister for.....):
Mr. Speaker, Sir, I move that the Central Provinces and Berar.....
.....Bill, 19
(No.....of 19), be referred to a Select Committee consisting of
the following members:—

[Only eight names to be given as no Select Committee is to consist of
more than eight members including the Minister-in-Charge unless
leave is obtained by a motion made in the House: *vide* Rule 74 (2)
of the Central Provinces and Berar Legislative Assembly Rules.]

(Speech of the Honourable Minister)

(After speech)

(If objection is taken by any member of the House to the motion for consideration, reasons to be given showing urgency with a request to the Honourable the Speaker for suspending the operation of the provisions of rule 72 of the Central Provinces and Berar Legislative Assembly Rules.)

The Honourable the SPEAKER: Motion moved—

“That the Central Provinces and Berar.....
.....Bill, 19
(No.....of 19), be referred to a Select Committee composed as proposed.”

(Further debate on the motion)

(After debate)

The Honourable the SPEAKER: The question is—

“That the Central Provinces and Berar.....
.....Bill, 19
(No.of 19), be referred to a Select Committee composed as proposed.”

Those who are in favour of the motion will please say “Aye”: Those who are against the motion will please say “No”: I think the “Ayes”/“Noes” have it. (After a pause) “Ayes”/“Noes” have it.

[क्रमांक ५]

मध्यप्रान्त और वरार.....(संशोधन) विधेयक (बिल), संवत् १९ ई.
(संख्या.....संवत् १९ ई.)

माननीय पण्डित/श्रीयुत..... (.....मन्त्री) :

श्रीमन् अध्यक्ष महोदय, मैं यह अभिज्ञापन (अनाउंस) करता हूँ कि परमश्रेष्ठ प्रान्त-पाति ने मध्यप्रान्त और वरार.....(संशोधन) विधेयक (बिल), संवत् १९ ई.
(संख्या.....संवत् १९ ई.), के पुरःस्थापन (इण्ट्रोडक्शन) के लिये भारत-शासन-अधिनिियम (गवर्नमेंण्ट ऑफ इण्डिया ऐक्ट) संवत् १९३५ ई. की धारा.....के अनुसार अपेक्षित पूर्व सम्मोदन (सैंक्शन) /अभिस्ताव (रिकमेंण्डेशन) प्रदान किया है.

मैं मध्यप्रान्त और वरार.....(संशोधन) विधेयक (बिल), संवत् १९ ई. का पुरःस्थापन (इण्ट्रोडक्शन) करता हूँ.

माननीय अध्यक्ष महोदय: मध्यप्रान्त और वरार.....(संशोधन) विधेयक (बिल), संवत् १९ ई. (संख्या.....संवत् १९ ई.) पुरःस्थापित (इण्ट्रोड्यूस्) हुआ.

माननीय पण्डित/श्रीयुत..... (..... मन्त्री):

मैं प्रस्ताव करता हूँ कि मध्यप्रान्त और वरार.....(संशोधन)
विधेयक (विल), संवत् १९ ई., प्रवर समिति (सिलेक्ट कमीटी) को सौंपा जाये,
जिसके निम्न सदस्य होंगे:—

[केवल आठ ही नाम दिये जायें, क्योंकि किसी प्रवर समिति (सिलेक्ट कमीटी) में सभा से
अनुमति प्राप्त किये बिना प्रभारी मन्त्री (मिनिस्टर-इन-चार्ज) सहित आठ से अधिक
सदस्य न हो सकेंगे: नियम ७४ (२) देखिये.]

(माननीय मन्त्री जी का भाषण)

(भाषण के पश्चात्)

[यदि सभा का कोई सदस्य उक्त प्रस्ताव पर आपत्ति करे, तो प्रस्तावक माननीय अध्यक्ष
महोदय से नियम ७४ (२) के प्रावधानों (प्रॉविज़न्स) के प्रवर्तन (ऑपरेशन) का
निलम्बन (सस्पेंड) करने की प्रार्थना करे और तदर्थ आवश्यकता के कारण बतलायें.]
माननीय अध्यक्ष महोदय: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ (मोशन मूव्ड) कि—

“ मध्यप्रान्त और वरार.....(संशोधन)

विधेयक (विल), संवत् १९ ई. (संख्या.....संवत् १९ ई.),
प्रस्थापनानुसार निर्मित (कम्पोज़्ड पॅज़ प्रोपोज़्ड) प्रवर समिति (सिलेक्ट कमीटी) को सौंपा
जाये.”

(इस प्रस्ताव पर और वादविवाद)

(वादविवाद के पश्चात्)

माननीय अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है कि—

“मध्यप्रान्त और वरार.....(संशोधन)

विधेयक (विल), संवत् १९ ई. (संख्या.....संवत् १९ ई.)
प्रस्थापनानुसार रचित (कम्पोज़्ड पॅज़ प्रोपोज़्ड) प्रवर समिति (सिलेक्ट कमीटी) को सौंपा
जाये.”

जो इस प्रस्ताव के पक्ष में हों, वे कृपया “हां” कहें. जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में
हों, वे कृपया “ना” कहें. मैं समझता हूँ कि “हां”/“ना” वाले जीत गए. (विराम के
पश्चात्) “हां”/“ना” वाले जीत गए.

[VI

THE CENTRAL PROVINCES AND BERAR

.....BILL, 19 (No.....of 19).

The Honourable.....

(Minister for.....):

Mr. Speaker, Sir, I rise to announce that the previous sanction/recom-
mendation required by section.....of the Government of India
Act, 1935, to the amendment(s) made by the Select Committee in the
Central Provinces and Berar.....

.....Bill, 19

(No.....of 19), has been given by His Excellency the
Governor. I beg to present the report of the Select Committee on the
Central Provinces and Berar.....Bill, 19

(No.of 19).

The Honourable the SPEAKER : The report of the Select Committee on the Central Provinces and Berar..... Bill, 19 (No.....of 19), is presented.

The Honourable..... (Minister for.....): Sir, I now move that the Central Provinces and Berar..... Bill, 19 (No.....of 19), as reported by the Select Committee, be taken into consideration.

(Speech of the Honourable Minister)

(After speech)

(If objection is taken by any member of the House to the motion for consideration, reasons to be given showing urgency with a request to the Honourable the Speaker for suspending the operation of the provisions of rule 79 of the Central Provinces and Berar Legislative Assembly Rules.)

The Honourable the SPEAKER : Motion moved—

“That the Central Provinces and Berar..... Bill, 19 (No.....of 19), as reported by the Select Committee, be taken into consideration.”

(Further debate on the motion)

(After debate)

The Honourable the SPEAKER : The question is—

“The the Central Provinces and Berar..... Bill, 19 (No.....of 19), as reported by the Select Committee, be taken into consideration.”

Those who are in favour of the motion will please say “Aye”: Those who are against the motion will please say “No”: I think the “Ayes”/“Noes” have it. (After a pause) “Ayes”/“Noes” have it.

The Honourable the SPEAKER : The House will now proceed to consider the Bill clause by clause. I will take up the clause to which amendments have been moved and will then put a clause.

The question is that clauses.....(as amended by the House) do stand part of the Bill. Those who are in favour, etc.

The question is that clause...does stand part of the Bill. Those who are in favour, etc.

The question is that the long title and the preamble do stand part of the Bill. Those who are in favour, etc.

The Honourable..... (Minister for.....): Mr. Speaker, Sir, I now move that the Central Provinces and Berar..... Bill, 19 (No.of 19), as amended by the House, be passed into law.

(Speech of the Honourable Minister, if any)

The Honourable the SPEAKER: Motion moved—

“That the Central Provinces and Berar.....
Bill, 19 (No.....of 19), as considered by the House, be
passed into law.”

(After debate, if any)

The Honourable the SPEAKER: The question is—

“That the Central Provinces and Berar.....
Bill, 19 (No.....of 19), as considered by this House, be
passed into law.” Those who are in favour, etc.

[क्रमांक ६]

मध्यप्रान्त और वरार.....(संशोधन) विधेयक (बिल), संवत् १९ ई.
(संख्या.....संवत् १९ ई.)

माननीय पण्डित/श्रीयुत.....(..... मन्त्री):

श्रीमन् अध्यक्ष महोदय, मैं यह अभिज्ञापन (अनाउंस) करता हूँ कि मध्यप्रान्त और
वरार.....(संशोधन) विधेयक (बिल), संवत् १९ ई. (संख्या.....
.....संवत् १९ ई.), में प्रवर समिति (सिलेक्ट कमीटी)
द्वारा किये गये संशोधन (संशोधनों) को परमश्रेष्ठ प्रान्तपति ने भारत-शासन-अधिनियम
(गवर्नमेंट ऑफ इण्डिया ऐक्ट) संवत् १९३५ ई. की धारा.....के अनुसार
अपेक्षित पूर्व सम्मोदन (सेंक्शन) / अभिस्ताव (रिकमेंडेशन) प्रदान किया है.

मैं मध्यप्रान्त और वरार.....(संशोधन)
विधेयक (बिल) संवत् १९ ई. (संख्या.....संवत् १९ ई.), पर प्रवर
समिति (सिलेक्ट कमीटी) का प्रतिवेदन उपस्थित करता हूँ.

माननीय अध्यक्ष महोदय: मध्यप्रान्त और वरार.....(संशोधन)
विधेयक (बिल), संवत् १९ ई. (संख्या.....संवत् १९ ई.), पर प्रवर
समिति (सिलेक्ट कमीटी) का प्रतिवेदन (रिपोर्ट) उपस्थित हुआ.

माननीय पण्डित/श्रीयुत.....(..... मन्त्री):

श्रीमन्, अब मैं प्रस्ताव करता हूँ कि प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदन (ऐज़ रिपोर्ट)
मध्यप्रान्त और वरार.....(संशोधन) विधेयक (बिल), संवत् १९ ई.
(संख्या.....संवत् १९ ई.), पर विचार किया जाये.

(माननीय मन्त्री जी का भाषण)

(भाषण के पश्चात्)

[यदि रुभा का कोई सदस्य उक्त प्रस्ताव पर आपत्ति करे. तो प्रस्तावक माननीय अध्यक्ष
महोदय से नियम ७९ के प्रावधान (प्रॉविज़न्स) के प्रवर्तन (ऑपरेशन) के निलम्बन
(सस्पेंड), करने की प्रार्थना करे और तदर्थ आवश्यकता के कारण बतलाये.]

माननीय अध्यक्ष महोदय: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ (मोशन मूव्ड) कि—

“प्रवर समिति (सिलेक्ट कमीटी) द्वारा प्रतिवेदन (ऐज़ रिपोर्ट) मध्यप्रान्त और
वरार.....(संशोधन) विधेयक (बिल), संवत् १९ ई.

(संख्या..... संवत् १९ ई.) पर विचार किया जाये.”

(इस प्रस्ताव पर और वादविवाद)

(वादविवाद के पश्चात्)

माननीय अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि—

“प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित मध्यप्रान्त और वरार..... (संशोधन) विधेयक (विल), संवत् १९ ई. पर विचार किया जाये.”

जो इस प्रस्ताव के पक्ष में हों, वे कृपया “हां” कहें. जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में हों, वे कृपया “ना” कहें. मैं समझता हूँ कि “हां”/“ना” वाले जीत गए. (विराम के पश्चात्) “हां”/“ना” वाले जीत गए.

माननीय अध्यक्ष महोदय : अब यह सभा इस विधेयक पर खण्डशः (क्लॉज़ वाइ क्लॉज़) विचार करेगी. पहले मैं उन खण्डों को लूंगा जिन पर संशोधन प्रस्तुत हुए हैं.

प्रश्न यह है कि मध्यप्रान्त और वरार..... (संशोधन) विधेयक (विल), संवत् १९ ई. का/के (इस सभा द्वारा संशोधित) खण्ड..... इस विधेयक (विल) का अंग वनें. जो इस प्रस्ताव के पक्ष में हों वे कृपया “हां” कहें, इत्यादि.

प्रश्न यह है कि मध्यप्रान्त और वरार (संशोधन) विधेयक (विल), संवत् १९ ई. (संख्या.....संवत् १९ ई.) का खण्ड...इस विधेयक का अंग वने. जो इस प्रस्ताव के पक्ष में हों, वे कृपया “हां” कहें, इत्यादि.

प्रश्न यह है कि पूर्ण नाम तथा प्रस्तावना (प्रिपॉजिचन) इस विधेयक का अंग वनें. जो इस प्रस्ताव के पक्ष में हों, वे कृपया “हां” कहें, इत्यादि.

माननीय पण्डित/श्रीयुत(.....मन्त्री):

श्रीमन् अध्यक्ष महोदय, अब मैं प्रस्ताव करता हूँ कि इस सभा द्वारा संशोधित मध्यप्रान्त और वरार.....(संशोधन) विधेयक (विल), संवत् १९ ई. (संख्या.....संवत् १९ ई.) विधि वने.

(माननीय मन्त्री जी का भाषण, यदि वे दें)

माननीय अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि—

“इस सभा द्वारा विचारित मध्यप्रान्त और वरार.....(संशोधन) विधेयक (विल), संवत् १९ ई. (संख्या.....संवत् १९ ई.) विधि वने.”

(वादविवाद के पश्चात्, यदि कोई हो)

माननीय अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि—

“इस सभा द्वारा विचारित (पेंज़ कंसिडर्ड) मध्यप्रान्त और वरार..... (संशोधन) विधेयक (विल), संवत् १९ ई. (संख्या.....संवत् १९ ई.), विधि वने.”

जो इस प्रस्ताव के पक्ष में हों, वे कृपया “हां” कहें, इत्यादि.